

त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

—:०:—

अथ यूषवर्ग ॥

प्रथम कुलथीके यूषका लक्षण ॥

कुलथयूषो मधुरः कषाया भवेच्च रक्तस्य कफस्य हन्ता ॥

महाश्मरीपायुज्जमेदहन्ता सन्दीपनो मेहविशोषणश्च ॥ १ ॥

कुलथीका यूष मधुर है कसैला है रक्तसहित कफको नाशता है, और पथरी, ववासीरं, मेद, इन्हेंको नाशता है अग्निको जगाता है और प्रमेहको शोषता है ॥ १ ॥

अथ हरडके यूषका गुण ॥

भवेदाढक्या मधुरश्च यूषं विशोषणं वातनिवारणञ्च ॥

श्लेष्मापहं पित्तहरं ज्वराणां पृथक् पृथक् कृमिहृत् दारुणञ्च ॥२॥

हरडका यूष मधुर है शोषता है वातको दूर करता है और दारुणरूपी कफको और पित्तको हरता है ज्वरको शांत करता है कृमिरोगको नाशता है ॥ २ ॥

अथ मूगके यूषका गुण ॥

शीतलं मधुरं मौद्गयूषं पित्तविकारजित् ॥

तच्च वातहरं प्रोक्तं ज्वराणां शमनं परम् ॥ ३ ॥

मूगका यूष शीतल है मधुर है पित्तके विकारको जीतता है वातको हरता है और ज्वरोंको निश्चय शांत करता है ॥ ३ ॥

अथ चनाके यूषका गुण ॥

कषायं कटुकं चोष्णं वातघ्नं कफदोषकृत् ॥

रक्तपित्तं निहन्त्यांशु चणानां यूषमुच्यते ॥ ४ ॥

चनाका यूष कसैला है चर्चरा है गर्म है वातको नाशता है कफको करता है और रक्त पित्तको निश्चय नाशता है ॥ ४ ॥

अथ उडदके यूषका गुण ॥

घनं सवातं कफकृन्मापयूषञ्च पित्तकृत् ॥

अम्लं पच्युषितं तच्च तैलपाने च शस्यते ॥ ५ ॥

पथ्या वद्धविण्मूत्रा रूक्षाः श्लेष्मापकर्षिणः॥ केदारप्रभवा वृक्षा वातपि
त्तविनाशिनः ॥ १० ॥ रक्तपित्तविकारघ्ना वातलाः कफकारकाः ॥ देशे
देशे विभिन्नानि नामानि परिलक्षयेत् ॥ ११ ॥ समान्गुणैश्च सर्वास्तान्भू
मिभागोद्भवान्विदुः॥ १२ ॥ शालयश्छिन्नरोहाश्च मूत्रला वातला हिमाः १३

रक्तशालिचावल त्रिदोषको नाशता है नेत्रोंमें हित है मूत्ररोगको नाशता है महाशालि भा-
रा है धातुको पुष्ट करता है नेत्रोंमें हित है बलको बढ़ाता है ॥ ३ ॥ पट्टिका शीतला है भा-
रा है त्रिदोषको हरता है और मधुर है ॥ ४ ॥ जीरका वातको और पित्तको हरता है कल-
मा कफको और पित्तको नाशता है कर्पिजला कफको करता है मागधी कफको और वातको
करता है ॥ ५ ॥ विलवासी भारा है पित्तको नाशता है वीर्यको बढ़ाता है शूकला पित्तको
और वातको नाशता है कचोरा पित्तको नाशता है ॥ ६ ॥ गरुडा वातको नाशता है पित्तको
और मूत्ररोगको हरता है रुक्मवन्ती हलका है और रुचि, बल, पुष्टि, इन्होंको करता है ॥ ७ ॥
अन्यप्रकारका कलमा हलका है पथ्य है वातको और कफको बढ़ाता है और वित्वजा,
मागधी, पीता, ये तीनों गुण और दोषों करके समान है ॥ ८ ॥ खंजरीटा शाली रुचिको और
बलको करता है मूत्रदोषको नाशता है और परिश्रमको हरता है दग्ध्याममें और पर्वतमें
उपजे शालिचावल हलका पाकवाले हैं ॥ ९ ॥ खेतमें उपजे शालिचावल सुंदर पथ्य हैं विष्टा-
को और मूत्रको बांधते हैं रूखे हैं कफको नाशता है वातको और पित्तको नाशता हैं ॥ १० ॥
कोईक शालि रक्तपित्तके विकारको नाशते हैं वातल हैं और कफको करते हैं इन शालियों
के नाम देशदेशमें भिन्न जानने ॥ ११ ॥ पृथिवीके भागोंसे उपजे सबप्रकारके शालि गु-
णोंसे समान जानने ॥ १२ ॥ छिलकासे वर्जित शालि मूत्रको उपजाते हैं विष्टाको बांधते हैं
और कफके कालमें सुंदर पथ्य हैं मूत्रको देते हैं वातको उपजाते है और शीतल हैं ॥ १३ ॥

अथ क्षुद्रधान्यवर्ग ॥

श्यामाकः कोद्रवः कण्डूर्मर्कटी कपिकच्छुरा ॥

क्षुद्रधान्यमिदं प्रोक्तं शृणु पुत्र ! प्रवक्ष्यते ॥ १४ ॥

शामक, कोद्रू, कंडू, मर्कटी, कपिकच्छुरा, इन नामोंसे क्षुद्रधान्य कहा है अब मैं
कहताहूँ हे पुत्र ! सुन ॥ १४ ॥

अथ श्यामक और कोद्रूके गुण दोष ॥

श्यामाकः शोषणो रूक्षो वातलः कफवारणः ॥ कोद्रवो रूक्षो ग्राही स्या
द्रक्तपित्तविशोषणः ॥ १५ ॥ नाधिककफकृत् प्रोक्तो रुच्यः स्वादुः प्र
कीर्तितः ॥ १६ ॥

माध्वीक मदिरा शीतल है खटी है मधुर है कसैली है गर्म है और पित्तरोग—ववासीर, श्वासरोग, अतीसार, प्रमेह, शूल, अफारा, इन्हेंको नाशती है सब चीजको जराती है अग्नि-को जगाती है और वात—आमवात—वमन—सब प्रकारके रोग—इन्हेंको नाशती है ॥ ८ ॥

अथ मदिराका गुण ॥

कपाया मधुरा चाम्ला सुरा सन्दीपनी मता ॥

कासाशोग्रहणीस्तन्ध्यमूत्ररोगविनाशिनी ॥ ९ ॥

मदिरा कसैली है खटी है अग्निको जगाती है और खांसी—ववासीर—ग्रहणीदोष—दूधरोग—मूत्ररोग—इन्हेंको नाशती है ॥ ९ ॥

अथ पैठीमदिराका गुण ॥

पैठी सन्दीपनी रुच्या कफकृद्वातनाशिनी ॥

पित्तला पाण्डुरोगाणां कारिणी बहुधा मता ॥ १० ॥

पैठी मदिरा अग्निको जगाती है रुचिमें हित है कफको करती है वातको नाशती है पित्तको उपजाती है और विशेष करके पाण्डुरोगोंको करती है ॥ १० ॥

अथ महुआ वृक्षकी मदिराका गुण ॥

वातपित्तकरो रूक्षः कपायो विशदो गुरुः ॥

श्लेष्मलो भेदनो ग्राही मूत्रकृच्छ्रशिरोऽन्तिनुत् ॥ ११ ॥

महुआकी मदिरा वातको और पित्तको करती है रूखी है कसैली है सुंदर है भारी है कफको करती है मटको पतला करती है कन्जको करती है मूत्रकृच्छ्रको और शिरके रोगको नाशती है ॥ ११ ॥

अथ ताडकी मदिराका गुण ॥

श्लेष्मदोषकरा वृष्या वातला श्लेष्मवर्द्धनी ॥

कासहृत्तासविध्वंसकरणा ताडमण्डिका ॥ १२ ॥

ताडकी मदिरा कफको करती है वीर्यमें हित है वायुको उपजाती है कफको बढ़ाती है और खांसीको तथा थुकथुकीको नाशती है ॥ १२ ॥

अथ मदिराकी विशेषता ॥

पूर्णे कषायपित्ते च योगयुक्ता सुरा हिता ॥ बहुदोषहरा चैव श्लेष्मरोगे विशेषतः ॥ १३ ॥ श्रमज्वरातुरे शोषे शोफपाण्ड्वामये क्षये ॥ मृतेः कृ

श्रीः

२०६ - १९५०

हारीतसंहिता.

श्रीमदान्नयमहर्षिहारीतमुनिसंवादरूपा ।

(वैद्यकग्रन्थः)

वेरीनिवासिनृधशिवसहायसृनुवैद्यरविदत्तशास्त्रपु-
त्रादिनया भाषाव्याख्यया समन्विता ।

सेयं

खानदेशीयरावेरग्रामनिवासिपरशुरामभट्टतनय—

गोविन्दशास्त्रिणा सम्यक्परिशोधिता ।

संवश्यां

श्रीकृष्णदासात्मजेन

खेमराजेन

“गणपत कृष्णाजी” मुद्रणालये मुद्रयित्वा प्रकाशिता ।

शके १८१५ स्ये है. और अ. १३ अच्छी रीतिसे शुद्ध किया-

—...— ग्रंथको अवश्य संग्रहमें रखकर रोगनिवारण

अस्य ग्रन्थस्य पुनर्मुद्रणायधिक

२५ तमाकटानुसारेण प्र

श्रीकृष्णदास—“श्रीवेङ्कटेश्वर” छापखाना.

आपका.

मुंबई.

मेदके क्षय होनेमें मंदबल रहै संज्ञा नहीं रहै अंगभंगहो गमनहो कठोरता रहै और श्वास, अत्यंत खांसी, अरुचि, मंदाग्नि, शरीरमें शोषहो, ये उपद्रव होते हैं ॥ २१ ॥

अथ अस्थिक्षयका लक्षण ॥

अस्थिक्षये स्यादतिमन्दचेष्टता मन्दवीर्य्य इति मेदसः क्षये ॥ विसंज्ञता कृशता च कम्पना अङ्गभङ्गवमनं परुषता ॥ २२ ॥ शोषदोषसदनं च शोफिता विकम्पनं शोषरुषश्च जायते ॥ भिषग्वर ! त्वं परिवेद लक्षणं मज्जाक्षये कम्पनमेव वास्ति ॥ २३ ॥

अस्थिक्षयमें अतिमंद चेष्टाहो, वीर्यमंद होजावै मुटाका नाश होजावे संज्ञा नहीं रहे माडापनहो, कंपना रहै, अंगभंगहो, वमनहो, कठोरताहो ॥ २२ ॥ और शोषहो वातआदिक दोषोंकी शिथिलताहो, शोजाहो, कंपनाहो, रुक्षताहो हेवैद्योंमें श्रेष्ठ हारीत ! तू इन लक्षणोंको जान और मज्जाके क्षयमें कंपनाहो ॥ २३ ॥

अथ वीर्यक्षयका लक्षण ॥

ध्रमः क्लमः स्यादतिमन्दचेष्टः शोफो निशाजाग्रणं च तन्द्रा ॥ मन्दज्वरः शोषसर्मा मनुष्ये शुक्रक्षये चाङ्गविचेष्टितानि ॥ २४ ॥ रूक्षध्रमकम्पनशोषरोषस्त्रीद्वेषितादीनि ॥ विरूपता च वैकल्यं सन्धिषु जातशोषः ॥ २५ ॥

ध्रमहो, ग्लानिहो, मंदचेष्टाहो, शोजाहो, रात्रिमें निद्रा नहींआवे, तंद्रारहै, मंदज्वरहो, शोषहो, ये लक्षण हैं, और मनुष्यके वीर्यक्षय होनेमें अंगमें चेष्टा नहींरहै ॥ २४ ॥ रूपापनहो, ध्रमहो, कंपना, शोष, रोष, वैरभान, विरूपता, विकलताहो संधियोंमें शोषहो ॥ २५ ॥

अथ रसरक्तवृद्धिकारक औषध ॥

इदानीं संप्रवक्ष्यामि भेषजानि यथाक्रमम् ॥ स्नेहनं रूक्षणं चैव तथा विम्लापनं हितम् ॥ २६ ॥ जाङ्गलानि च मांसानि भोजनानि च सेवयेत् ॥ गुडूची शृङ्गवेरञ्च यवांनीकथितं जलम् ॥ २७ ॥ मरिचैः कथितं दुग्धं पाने रात्रौ प्रशस्यते ॥ तेन रसानां वृद्धिः स्याच्छीघ्रं तस्माद्विमुच्यते ॥ २८ ॥ रसानां वृद्धिकरणं गोधूमयवशालीनाम् ॥ कथितानि भिषक्छैष्टैर्जाङ्गलानि विशेषतः ॥ २९ ॥

अब यथाक्रमसे औषधोंको कहते हैं स्नेहन, रूक्षण, विम्लापन ये कर्म करनें हित हैं ॥ २६ ॥ और जांगलदेशके जीवोंका मांस भोजनमें हित है और गिलोय, अदरक, अजमा-

भावप्रकाश.

सबको जाहिर करनेमे आता है कि हमारे यहां भाषा
टीकासहित भावप्रकाश छपरहां है ऐसा भावप्रकाश आज
तक कहीं नहीं छपा. न मानो तो आध आनेकी टिकट
भेजकर नमूना तो देखिये.

ए ग्रंथ नवीन छपके तयार हैं.

पद्यापथ्य सटीक ... किं० १२ आने भाडा २ आने हैं.
चिकित्साचक्रवर्ती ... किं० १ रुपा भाडा ३ आने हैं.

नेका ठिकाना

पुस्तक मिते कृष्णदास

पराज छापखाना

अथ आम्नादि नस्य ॥

आम्नास्थिजम्बूद्रवशर्कराढ्यं नस्यं सिताढ्यं हितकृज्वराणाम् ॥

नासाप्रवृत्तं रुधिरं निहन्ति हिक्कासच्छर्दिश्वसनं विमर्दि ॥ ३८ ॥

और आंवकी गुठली जामनकी गुठली इन्हेंको पीस खांडमें मिला अथवा मिसरीमें मिला नस्य देनेसे ज्वरोंका नाश होता है और नासिकामें प्रवृत्तहुआ रुधिरका नाश होता है और हिचकी वमन, श्वास, इन्हेंको नाश होता है ॥ ३८ ॥

अथ पलांड्वादि नस्य ॥

पलाण्डुपत्रनिर्यासनस्यं नासाग्रजावहम् ॥

यष्टीमधूमधुयुतं पश्चान्नस्येऽस्रजं जयेत् ॥ ३९ ॥

और प्याजके पत्तोंकी नस्य देनेसे रक्तपित्तरोग दूर होता है और मुलहटी, शहद, इन्हेंको नस्य देनेसेभी शीघ्रही इसरोगका नाश होता है ॥ ३९ ॥

अथ वासादिपानक ॥

वासापत्ररसं विधाय मतिमान्योज्यानि चेमानि तु रोध्रं चोत्पलमृत्तिका
समधुकं कुष्ठं प्रियङ्ग्वन्वितम् ॥ चूर्णं पुष्परसेन पाचकमिदं पित्ताश्रया
णां हितं कासकामलपाण्डुरोगक्षतजश्वासापमर्दि भवेत् ॥ ४० ॥

और वांसाके पत्तोंके रसको निचोड विसमें लोध, कमलकी जड़की मृत्तिका, मुलहटी, माछकांगनी, इन्हेंका चूर्ण मिला और वांसाके पत्तोंका रस मिला फिर इसको खावै यह पाचक है और पित्ताशयवालोंको हित है और खांसी, कामला, पांडुरोग, चोटसे उपजाहुआ श्वासरोग, इन्हेंको नाशता है ॥ ४० ॥

अथ दाडिमादि रस ॥

रसो हितो दाडिमपुष्पकस्य तथैव किञ्जल्करसोत्पलस्य ॥

लाक्षारसो वा पयसा च नस्याद्घ्राणप्रवृत्तं रुधिरं रुणद्धि ॥ ४१ ॥

और अनारदानाका रस तथा कमलकी केशर और लाखका रस इन्हेंकी दूधके संग नस्य देनेसे नासिकामें प्रवृत्तहुआ रुधिर रुकजाता है ॥ ४१ ॥

अथ मुरवमें प्रवृत्तहुआ रुधिरकी चिकित्सा ॥

दाडिमपुष्पादिनस्य ॥

यदि वदनपथेऽसृक्प्रवृत्ते तस्य कुर्थात्प्रतिविधिर्विहितः स्याद्ब्रक्ष्यते
मानुषस्य ॥ भवति न सुखसाध्यं लोहितं मानुषेषु तदनु युवतियोन्यां
रक्तवाहस्त्वसाध्यः ॥ ४२ ॥ मधु मधुकमुशीरं कञ्जकिञ्जल्कदूर्वारसमि

और श्वास, शोष, भ्रम, तृषा-इन्हेंको शीघ्रही नाशता है ॥ ४८ ॥ और जामन आंव, इन्हेंको पत्ते हरडै इन्हेंको खांड और शहदमें मिला खानेसे मुखके रक्तरोगका निवारण होता है ॥ ४९ ॥ वड, अर्जुनवृक्ष, कदंब, जामन, आंव, खैर इन्हेंमेंसे कोइसे वृक्षकी पीपली और शहद मिला अवलेह बना चारनेसे मुखमें प्राप्तहुआ रक्तका निवारण होता है ॥ ५० ॥

अथ शतावरीघृत ॥

शतावरी मधुकं बला ससिता काकोलिका दाडिमा मेदःक्षीरविदारिका च फलिनी स्यात्तिन्तिडीकं बला ॥ सिद्धा गोपयसाज्यकं हितमिदं पाने तथा वस्तिषु योनौ मेदुगुदप्रवृत्तरुधिरं हन्यात्सकासक्षयम् ॥ ५१ ॥

शतावरी, मूलहटी, खैरहटी, मिसरी, काकोली, अनारदाना, मेदा, विदारीकंद, मालकांगनी, अमली, खैरहटी, इन औषधोंको गौके दूधमें पकावे फिर तिसमें घृत मिला तिसको सिद्ध करे यह घृत पीनेमें तथा वस्तिकर्ममें हित है और योनि, छिंग, गुदा, इन्हेंमें प्रवृत्तहुआ रक्तको नाशता है और खांसीको दूर करता है ॥ ५१ ॥

अथ मृद्धीकाआदिघृत ॥

मृद्धीका मधुकं विदारिवसुधा नीली समङ्गाफलाः काकोल्यो वृहती युगं वषमहामेदासितं चन्दनम् ॥ जातीपल्लवपटोलश्यामामृतासञ्जीवकाः साञ्जया मेदे द्वे च कुचन्दनं मधुरसाः श्यामाः समांशास्त्वमी ॥ ५२ ॥ पक्का गोपयसा विशुद्धविधिना सिद्धं चतुर्थांशकं मत्स्यण्डी मधुकं च सिद्धमिति चेत्पानं प्रशस्तं नृणाम् ॥ स्त्रीणां चापि हितं निहन्ति रुधिरं पित्ताद्भुदे वा भवे मेद्रे चापि च रोमकूपकपथे वृत्तं निहन्यात्स्रजम् ॥ ५३ ॥ एतद्वाक्षाभिधानं घृतमपि विहितं रक्तपित्ते ज्वरे वा वातास्रे योनिशूले भ्रममदंशिरसोन्मादरक्तप्रमोहे ॥ पित्ताम्लेऽतिक्रुष्टे क्षयक्षतरुधिरं राजयक्ष्मेऽथ पाण्डौ पाने वस्तौ च नस्ये हितमपि मनुजां भाषितं चात्रिणा च ॥ ५४ ॥

मुनकादाख, मूलहटी, विदारीकंद, लघुखजूरी, नील, मंजीठ, त्रिफला, काकोली, दोनों की कटेहली, वांसा, महामेदा, सफेद चंदन, जावित्री, परवल, निशोत, गिलोय, जीवक, मानुष ५० महामेदा, लालचंदन, सौंफ, पीपल, इनसबोंको समान भाग ले ॥ ५२ ॥ फिर रक्तवाहक कावे फिर चतुर्थांश वाकी रहे तब उतारि राव, मूलहटीका चूर्ण इन्हेंको मिलावे

प्रस्तावना.

पुरतः शालीयनीय विभाग

सर्व महाशय विद्वज्जनोंकूँ विदित होकि, इस अनाद्यनंत संसारमें प्रथम सुख निरोगी काया कहाती है. वह शारीरिक आरोग्यता जिस साधनसें कीजाती है, उसको वैद्यकशास्त्र कहते हैं. इसीकूँही आयुर्वेदभी कहते हैं. यह आयुर्वेद ऋग्वेदका उपवेद है. प्रमाण—“ऋग्वेदादायुर्वेदं,—यजुर्वेदाद्धनुर्वेदम् ” इत्यादिक हैं इस आयुर्वेदके ऊपर अनेक ऋषिओंनें स्वस्वअनुभवकेसाथ पृथक्पृथक् वैद्यकशास्त्रसंहिता निर्माण करी हैं.—वे वैद्यकशास्त्र की अन्य अन्य संहिता बडी विस्तारसें युक्त हैं. परंतु श्रीमान् आत्रेयमहर्षि और हारीतमुनि इन दोनों गुरु शिष्योंके संवादसें हारीतसंहितानामक संहिताके दो ग्रंथ निर्माण किये गयेहै. यह दो ग्रंथ एक बृहद्धारीतसंहिता और एक लघुहारीतसंहिता इस नामसें विख्यात है. तहां बृहद्धारीतसंहिता ग्रंथ बहोत विस्तीर्ण होनेसे अल्पप्रज्ञ आधुनिक अल्पायुपी लोगोंके उपयोगमें उतना नहीं आसक्ता है. इसवास्तै उस बृहद्धारीतसंहिता ग्रंथका साररूप यह लघुहारीतसंहिता ग्रंथ सर्व आधुनिक वैद्यलोगोंके उपयोगमें आवेगा. ऐसा समझकर हमनें इस ग्रंथको बेरीनिवासी पंडित रविदत्तशास्त्रीजीके द्वारा हिंदीभाषानुवाद बनवायकर और शास्त्रीद्वारा अत्यंत शुद्धकरवायकर छपवायके प्रसिद्ध किया है.—यह हारीतसंहिता ग्रंथ बहोतही उपकारक और स्वल्पहोकरभी सर्व वैद्योंको सब तरहके औषधज्ञान और रोगोंकी चिकित्सा करनेमें अप्रतिम साहकारी होगा; इस्में कुछ संदेह नहीं. इस ग्रंथकी भाषा ऋषिभाषित होनेसें कहां कहां अशुद्धसे शब्दप्रयोग दीखते हैं परंतु वे प्रयोग आर्ष समझकर वैसेके वैसेही रखदिये गये हैं. कारण वे प्रयोग शुद्धकरनेमें ऋषिका तात्पर्य समझता नहीं है. इसवास्तै जेसेकी वैसेही जहांकहांके प्रयोग रखदिये गये है. और अन्यत्र अच्छी रीतिसें शुद्ध किया गया है.—अस्तु—वैद्य महाशय लोग इस अपूर्व ग्रंथको अवश्य संग्रहमें रखकर रोगनिवारण द्वारा निर्मल कीर्तिको प्राप्त करेंगे.

आपका.

खेमराज श्रीकृष्णदास—“ श्रीवेङ्कटेश्वर ” छापखाना.

मुंबई.

हारीतसंहिताविषयानुक्रमणिका

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
मंगलाचरण	१	लङ्घनकी योग्यता	१३
आत्रेयहारीतसंवाद	॥	जठराग्निका कर्म... ..	॥
आयुर्वेदमाहात्म्य... ..	२	सामनिरामव्याधिका उपक्रम	॥
वैद्यशास्त्रपठनविधि	५	वैद्यकी योग्यता	॥
चिकित्सासंग्रह	६	उपचार करने योग्य मनुष्य	१४
शल्यतंत्रम्	७	उपचारसें धनलेने योग्य मनुष्य	॥
शालाक्यम्	८	यश मिलने योग्य मनुष्य... ..	॥
कायचिकित्सा	॥	चिकित्सा करनेको अयोग्य मनुष्य... ..	१५
अगदनाम	॥	वैद्यकर्तव्यका उपसंहार	॥
बालचिकित्सा	॥	अथ देशकालबलाबलम्	॥
अथ विपतन्त्रनाम	९	देशके भेद	१६
अथ भूतविद्यानाम	॥	अथ अनूपदेशलक्षण	॥
॥ वाजीकरणम्... ..	॥	अथ जाङ्गलदेशलक्षण	॥
॥ रसायनतन्त्रम्	॥	॥ साधारणदेशलक्षण	१७
॥ उपाङ्गचिकित्सा	॥	॥ कालज्ञान	॥
वैद्यशिक्षाविधानम्	१०	कालका स्वरूप	॥
उपचार करनेकी योग्यता... ..	॥	उत्पातकालका स्वरूप	१८
देशकाल आदिका ज्ञान	॥	प्रवर्तककालका स्वरूप	॥
उपचार करनेका फल	॥	संहारकालका स्वरूप	॥
वैद्यका वैद्यत्वं	११	कालका सनातनत्व	॥
दो प्रकारका उपचार उपक्रम	॥	कालका नाशक स्वरूप	॥
दो प्रकारके वैद्य... ..	॥	अथ अन्यकालोंके स्वरूप	१९
व्याधीके साध्य असाध्य विचार	॥	॥ ऋतुचर्चया	॥
उपचारका फल	१२	अयनोंका वर्णन	॥
दोषके शेष रहजानेसें हानि.....	॥	दक्षिणायनका लक्षण	॥
अपथ्यसें हानि	॥	उत्तरायणका लक्षण	२०

हारीतसंहिता.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
अथ वर्षाऋतुलक्षण	... २१	अथ सविष वायुः...	... ३४
” शरदृतुका लक्षण	... २२	अथ दोषोंके वायुकोपका उपशम	... ”
अथ हेमन्तवर्णनम्	... २३	अथ वायुका कोष	... ३५
अथ शिशिरवर्णनम्	... २४	अथ पित्तप्रकोपनिदानम्	... ३६
अथ वसंतवर्णनम्	... ”	अथ कफप्रकोपनिदानम्	... ”
अथ ग्रीष्मवर्णनम्	... २५	अथ दोषोंके कोषकी उत्पत्ति	... ३७
अथातो वयोज्ञानं वक्ष्यते	... २६	अथ सन्निपातकी उत्पत्ति...	... ”
मध्यमवयोलक्षणम्	... ”	अथ रसोंके गुणदोषका वर्णन	... ३८
प्रकृतीका ज्ञान	... २८	पह्लसगुणदोषवर्णनम्	... ”
अथ वातादिप्रकृतयः	... ”	अथ रसगुणोंके गुणकर	... ”
अथ वातप्रकृतिलक्षणम्	... ”	वातादिविरुद्धरस...	... ३९
अथ पित्तप्रकृतिलक्षणम्	... २९	दोषोंके विरोधिरसोका वर्णन	... ”
” कफप्रकृतिलक्षणम्	... ”	वातादिकोमें रसयोजना	... ”
” समप्रकृतिलक्षणम्	... ”	अथ मधुररसके वीर्यका वर्णन	... ”
पूर्वदिशाका वायु	... ३०	अथ कडुआ रसके वीर्यका वर्णन	... ४०
आग्नेयदिशाका वायु	... ”	” रसके वीर्यका वर्णन	... ”
दक्षिणदिशाका वायु	... ”	अथ खट्टा रसके वीर्यका वर्णन	... ”
नैऋत्यदिशाका वायु	... ३१	” कसैलारसके वीर्यका वर्णन	... ”
पश्चिमदिशाका वायु	... ”	खारारसके वीर्यका वर्णन	... ४१
उत्तरदिशाका वायु	... ”	अथ पानीका वर्ग	... ”
ऐशानदिशाका वायु	... ”	जलभेद...	... ”
अन्यपंचविधवायुगुणः	... ३२	अथ गंगापानीकी गुण	... ४२
वस्त्रवायुगुणः	... ”	गंगाजलके रसकी वृष्टि	... ४३
वेणुवायुगुणः	... ”	चारप्रकृतिदिनमें वर्षाहुआ पानीके गुणदोषवर्णन	... ”
कांस्यपात्रवायुगुणः	... ”	अथ रात्रिको वर्षाहुआ पानीके गुणदोषवर्णन	... ”
तालपत्रवायुगुणः	... ”	” दिनमें वर्षाहुआ पानीके गुणदोषवर्णन	... ”
व्यजनवायुगुणः	... ३३	” छिके गुण	... ४४
पह्लतुओंमें वायुदिशा	... ”	क्षणवृ श्रावणवृष्टिके गुण	... ”
दिनमें परे उपचार	... ”	अथ	... ”

विषयानुक्रमिका.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
अथ भाद्रवाके वृष्टिके गुण ...	४४	अथ रोगोदकके गुणदोष...	५३
अथ आश्विनवृष्टिके गुण ...	"	" अंशूदकके गुणदोष ...	"
अथ कार्तिकके वृष्टिके गुण ...	"	" आरोग्योदकके गुणदोष ...	५४
स्वातिजलके गुण ...	"	अथ शीतपानीके गुण ...	"
अकालवृष्टिके लक्षण और गुण ...	४५	गर्म पानीके गुण ...	"
अथ अकालमें वर्षाहुई वर्षाके पानीका लक्षण		अथ पानीविषयकविधि ...	५५
" धारसंज्ञक आदि चारप्रकारके		अथ दुग्धवर्ग वर्णन ...	५६
पानीका लक्षण ...	"	अथ दूधकी उत्पत्ति ...	५७
कारजलकी उत्पत्ति...	"	पृथक् २ रंगकी स्त्रियोंके दूध ...	५८
करजलके गुण ...	४६	पृथक् २ रंगकी गायोंका दूध ...	"
अथ तुषारपानीके गुण ...	"	अथ गायके दूधके गुण ...	५९
पृथ्वी उपरके आठ प्रकारका जल ...	४७	" चकरीके दूधके गुण ...	"
अथ नदीके पानीका गुण...	"	" भेडके दूधके गुण ...	"
" औद्भिद पानीका गुणदोष ...	"	" भैंसका दूधके गुण ...	"
" क्षिरनाके पानीका गुण ...	"	" ऊंटनीका दूधके गुण ...	"
" चौहच्य संज्ञकपानीका गुण ...	४८	स्त्रियोंके दूधका गुण ...	६०
" कुवाके पानीका गुण दोष ...	"	अथ प्रभातके दूधका गुण...	"
" तलावका पानीके गुण दोष ...	"	दिनके दूधका गुण. ...	"
" सारसपानीके गुण दोष ...	"	रात्रिके दूधका गुण. ...	"
" नदियोंकी प्रकृति ...	४९	दूध पीनेकी विधि. ...	"
" सदा वहनेवाली नदीके गुण दोष	"	अथ दहीके गुण. ...	६१
" पथरोंवाली नदीके गुण दोष...	"	चकरीका दहीके गुण. ...	"
अथ वालूरेतवाली नदीका		भैंसका दहीके गुण. ...	६२
पानीके गुण दोष...	५०	ऊंटनीके दहीके गुण. ...	"
" उत्तरसे वहनेवाली नदी-		स्त्रीके दहीके गुण. ...	"
योंके और पानीके गुण दोष	"	भेडका दहीके गुण. ...	"
" तापी आदिनदियोंके गुण दोष ...	५१	वर्षाकालके दहीका गुण. ...	"
अथ पृथिवीके भागका पानी ...	५२	शरदऋतुके दहीका गुण. ...	"
" पापोदकका गुणदोष ...	"	हेमन्तऋतुके दहीका गुण. ...	९१

हारीतसंहिता.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
शिशिरऋतुके दहीका गुण.	६३	मेंढाके मूत्रका गुण	७१
वसंतऋतुके दहीका गुण.	”	भैंसाके मूत्रका गुण	”
ग्रीष्मऋतुके दहीका गुण.	”	हाथीके मूत्रका गुण	”
अथ दहीका वर्जना.	६४	घोडाके मूत्रका गुण	”
दहीको खानेकी विधि.	”	ऊंटके मूत्रका गुण	७२
गायका छाछका गुण.	”	गधाके मूत्रका गुण	”
भैंसके तक्रका गुण.	”	नरके मूत्रका गुण	”
चकरीके तक्रका गुण.	६५	प्रसूता और अप्रसूताके मूत्रका गुण	”
तक्रवर्णन	”	मूत्रविशेष	”
साधारण तक्रका गुण	”	अथ इक्षुवर्ग	७३
बहुत पानीवालेतक्रका गुण	६६	स्वादुईखका गुण	”
विशेष वर्णन	”	सफेद ईखका गुण	”
तक्रनिषेध	”	काला ईखके गुण	”
तक्रपानविधि	”	यंत्रसे निकालेहुए रसका गुण	७४
नौनी घृतकी विधि	६७	दांतसे पीडितकिये रसका गुण	”
फेनविधि	”	बासी रसका गुण	”
गायके घृतका गुण	६८	पक्क रसका गुण	”
चकरीके घृतका गुण	”	फाणित रसका गुण	७५
भैंसके घृतका गुण	”	गुडका गुण	”
ऊंटनीके घृतका गुण	”	गुडकी खांडका गुण	”
भेडके घृतका गुण	६९	साधारण खांडका गुण	”
घोडीके घृतका गुण	”	मिश्रीका खांडका गुण	”
दूधसेही निकाले घृतका गुण	”	सुंदर खांडका गुण	७६
पुराने घृतका गुण	”	गुडविशेषता	”
नारीके घृतका गुण	”	अथ कांजिकवर्ग	”
घृतका विशेष वर्णन	”	चावलके पानीका गुण	७७
अथ मूत्रवर्णन	७०	तुपोदकका गुण	”
पट्टुओमि गुण	”	जव और गेहूँकी कांजीका गुण	”
दिनमें पकानेका गुण	७१	तेलपक कांजीका गुण	”

विषयानुक्रमणिका.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
युगंधर कांजीका गुण	७७	स्वच्छ तिवसाका तेल अच्छोडका तेल	८४
कांजीका परिहार	७८	नारियलका तेल महुवाके तेलका गुण	
कांजीकी प्रशंसा... ..	"	सालपर्णी और केशूके तेलका गुण...	"
अथ चावलके मंडका गुण	"	अथ वसावर्ग	"
लालचावलके मंडका गुण... ..	"	अथ धान्यवर्ग	८५
सफेदचावलके मंडका गुण... ..	७९	शालिचावलका वर्णन	"
जवके मंडका गुण	"	शालियोंके गुणदोष	"
गेहूके मंडका गुण	"	अथ क्षुद्रधान्यवर्ग	८६
क्षुद्रअन्नकी मंडका गुण	"	श्यामक और कोदूके गुणदोष	"
कोदू अन्नके मंडका गुण	"	विदलान्नका गुण	८७
क्षुद्रअन्नकी कांजीका गुण	"	जवके गुण	"
अथयूपवर्ग	८०	गेहूके गुण	"
कुलथीके यूपका लक्षण गुण	"	तिलके गुण	"
हरडके यूपका गुण	"	चनाका गुण	८८
मूगके यूपका गुण	"	उडदका गुण	"
चनाके यूपका गुण	"	मूंगका गुण	"
उडदके यूपका गुण	"	तुवरका गुण	"
अन्य यूपके गुण	८१	रानमूंगका गुण	"
अथतेलवसावर्ग	"	कुलथीका गुण	८९
तिलके तेलका गुण	"	चौलाका गुण	"
सरसोंके तेलका गुण	८२	मटरका गुण	"
अलसीके तेलका गुण	"	मसूरका गुण	"
अरंडके तेलका गुण	"	धान्यवर्गका उपसंहार	"
तेलविशेषता	"	अथशाकवर्ग	९०
लालअरंडके तेलका गुण	८३	जीवंतीशाकके गुण	"
कुसुंभके तेलका गुण	"	चौलाईके शाकके गुण	"
अन्यअन्यतेल	"	कासविंदाके शाकके गुण... ..	"
कुरंदाके तेलका गुण	"	जीवंती और मुकोह शाकके गुण	"
विशेषजातिका तेल	"	दधुवा और चिल्ली शाकके गुण	९१

हारीतसंहिता.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
केतकी और मेथी शाकके गुण ...	९१	विजोराकागुण ...	९७
सरसों और सोंपके शाकका गुण ...	"	नींबूका गुण ...	९८
कटेली और कुसुंभा शाकके गुण ...	"	नारंगीका गुण ...	"
चूकाशाकके गुण ...	"	आम्लीका गुण ...	"
दूसरे शाकोंके गुण ...	९२	दाखका गुण ...	९९
कफकारक और वातलशाक	"	नारियलका गुण ...	"
शाकोंके विशेषगुण	"	केलाके फलका गुण ...	"
अन्यप्रकारके शाक ...	"	कैथका गुण ...	१००
कोहलाका गुण ...	"	खजूरीआ अथवा छुहाराका गुण ...	"
कुरडूके शाकका गुण ...	९३	सुपारीका गुण ...	"
करेलाका गुण ...	"	नागरपानका गुण ...	"
लालतूरिके पुष्पका गुण ...	"	कत्थाका गुण ...	"
तोरि ककोडा करेला कडुई तोरिका गुण	"	चुन्नाका गुण ...	"
परवलका गुण ...	"	कत्था कपूरसे संयुक्त नागरपानका गुण	"
वैगनका गुण ...	९४	अथ मधुवर्ग ...	१०१
बडी कठेलिका गुण ...	"	शहदका गुण ...	"
कंदशाकका गुण ...	"	शहदकी विशेषता ...	१०२
जमीकंदका गुण ...	"	अथ मद्यवर्ग ...	"
आम्लिका कंदका गुण ...	"	सीधुमदिराका गुण ...	१०३
पिंडशाकका गुण ...	९५	गौडी मदिराका गुण ...	"
आलूका गुण ...	"	मत्स्यंडी मदिराका गुण ...	"
प्याजका गुण ...	"	माध्वीकमदिराका गुण ...	"
रातालूका गुण ...	"	साधारणमदिराका गुण ...	१०४
हस्तिकंदका गुण ...	"	पैन्थी मदिराका गुण ...	"
वाराह कंदका गुण ...	"	महुआवृक्षकी मदिराका गुण ...	"
अथ फलवर्ग ...	९६	ताडकी मदिराका गुण ...	"
आंवके फलका गुण ...	"	मदिराकी विशेषता ...	"
जामन, बेर, अनार, चिरोँजीके गुण	"	अथ चौपायोंका और दुपायोंका मांसवर्ग	१०
विशेष वर्णन ...	९७	सरीसृपवर्णन ...	"

विषयानुक्रमणिका.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
आनुपवर्णन	१०६	कुंजके मांसका गुण	११२
जांगलवर्णन	"	कोयलके मांसका गुण	"
जलचरजीववर्णन	"	विवृताक्षके मांसका गुण	"
ग्रामचारी पशुवर्ग	१०७	घरका वत्तकेके मांसका गुण	"
ग्रामचारी पक्षी	"	अथ जलचरोका मांसवर्ग	११३
हरिणोंके मांसका गुण	"	आडीआदिपक्षिओंके मांसका गुण	"
रुष्णमृगके मांसका गुण	"	मकरमच्छके मांसका गुण	"
चित्रांगके मांसका गुण	"	मच्छके मांसका गुण	"
छिन्नारके मांसका गुण	"	कच्छुवाके मांसका गुण	११४
रक्तमृगके मांसका गुण	१०८	खैकडाके मांसका गुण	"
गैंडा,रोझ,भैंस,ऊँट,घोडा इन्होंके मांसके गुण,,		मांसविशेषता	"
शूरके मांसका गुण	"	वर्जनीय मांस	"
शशाके मांसका गुण	"	अथ अन्नपानवर्ग	११५
शेहके मांसका गुण	१०९	मंडका गुण	"
शल्पकनामवाला जीवके मांसका गुण	"	भातका गुण	"
गोहके मांसका गुण	"	गुडयाणीका गुण	११६
मूषाके मांसका गुण	"	यवागूका लक्षण	"
अथ स्थलमें विचरनेवाले जीवोंका		मंडका विशेष गुण	"
मांसवर्ग	११०	खीरका गुण	"
लावापक्षीके मांसका गुण	"	खीचडीका गुण	११७
तीतरके मांसका गुण	"	दालका गुण	"
नीलाभोरके मांसका गुण	"	खलका गुण	"
साधारणभोरके मांसका गुण	१११	अनारका पन्ना	"
मुर्गीके मांसका गुण	"	पापडका गुण	"
कपोतके मांसका गुण	"	संडाकीका गुण	११८
परेवाके मांसका गुण	"	उडद आदिके वडोंका गुण	"
ककेराके मांसका गुण	"	शिखरणका गुण	"
खातीचिडाके मांसका गुण	"	सीधुका गुण	"
चकोर,तोता,भैंना, इन्होंके मांसका गुण	११२	मथका लक्षण और गुण	"

हारीतसंहिता.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
मांसका गुण	११९	अथ द्वितीयस्थानम्	१२५
मांसकी श्रेष्ठता	”	अथ कर्मविपाक	१२६
भूजेहुए मांसका गुण	”	पापदोषपतीकार	१२८
अत्युष्णमंडका गुण	”	अन्य २ रागोंका कारण	१२९
मांडाका गुण	१२०	अथ स्वमाध्यायका वर्णन	१३०
पूरी और घेवरका गुण	”	वर्ज्यस्वम	”
गूझमालपूवाका गुण	”	कालसें स्वम	१३१
सोमालिकाका गुण	”	स्वममें शुभद्रव्य	”
फेनीका गुण	”	अशुभद्रव्य	”
भिन्नवडाका गुण	”	शुभस्वमोंका वर्णन	”
अभिन्नवडाका गुण	१२१	शुभस्वम	१३२
लड्डुका गुण	”	अशुभस्वमोंका वर्णन	१३३
यवपोलिकाका गुण	”	अथ स्वास्थ्यारिष्ट	१३५
अन्नके गुणोंका उपसंहार	”	ध्रुवादिक नदेखनेका अरिष्ट	”
थकेहुये मनुष्यको भोजननिषेध ... १२२		द्वितीयाचंद्रका अदर्शनका अरिष्ट	”
भोजनके उपरांत मेहेनत और } सुरतका निषेध }	”	कर्णघोष न सुननेका अरिष्ट ... १३६	
थंडा और गरम भोजनका निषेध	”	मुखश्वासादिकका अरिष्ट	”
श्रमितआदिकोंके भोजनका निषेध	”	प्रभातमें मस्तकशूलका अरिष्ट	”
भोजनमें फलादिकोंका नियम	”	सूर्यधिवादिकके दर्शनका अरिष्ट	”
भोजनके पीछे बैठनेका नियम ... १२३		इंद्रधनुष्य देखनेका अरिष्ट	”
भोजनमें पानीका नियम	”	विपरीत देखनें सुननेका अरिष्ट ... १३७	
भोजनके ऊपर व्यायाम	”	शरीरके स्पर्शसें अरिष्टकथन	”
भोजनके उपरांत नेत्रादिकोंका मार्जन	”	प्रतिघिंच न देखनेसें अरिष्ट	”
अडकारका नियम	”	अथ व्याध्यरिष्टका लक्षण ... १३८	
व्यायामादिकोंका नियम १२४		अष्टमहात्र्याधियोंका नाम	”
दिनमें शयन करनेका निषेध	”	आठ महारोगोंके उपद्रव	”
दिनमें शयन करानें लायक मनुष्य	”	ज्वररोगीके अरिष्ट	”
॥ इति प्रथमस्थानं समाप्तम् ॥		दारुण उपद्रवका अरिष्ट १३९	
		अतीसारका अरिष्ट १४०	

विषयानुक्रमणिका.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
सृजनका अरिष्ट	१४०	असाध्य नक्षत्र	१४८
शूलका अरिष्ट	"	साध्य नक्षत्र	"
पांडुरोगीका अरिष्ट	"	कष्टसाध्य नक्षत्र	"
क्षयरोगका अरिष्ट	१४१	नक्षत्रोंके पीडाकी मर्यादा	१४९
श्वासरोगका अरिष्ट	"	नक्षत्रोंके भागानुसार रोगोंकी मर्यादा	१५०
बहोत दिनतकके रोगका अरिष्ट	"	छत्तिका नक्षत्र	"
उदररोगका अरिष्ट	"	रोहिणी नक्षत्र	"
गुल्मरोगका अरिष्ट	१४२	मृग नक्षत्र	"
रक्तपित्तका अरिष्ट	"	आर्द्रा नक्षत्र	"
ववासीररोगका अरिष्ट	"	पुनर्वसु नक्षत्र	१५१
विद्रधिरोगका अरिष्ट	"	पुष्य नक्षत्र	"
भ्रमरोगका अरिष्ट	"	आश्लेषा नक्षत्र	"
आंतवका अरिष्ट	१४३	मघा नक्षत्र	"
कामला और पांडुरोगका अरिष्ट	"	पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र	"
भगंदरका अरिष्ट	"	उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र	१५२
अश्वरी रोगका अरिष्ट	"	हस्त नक्षत्र	"
मूढगर्भका अरिष्ट	"	चित्रा नक्षत्र	"
अपस्माररोगका अरिष्ट	१४४	स्वाती नक्षत्र	"
वातव्याधिका अरिष्ट	"	विशाखा नक्षत्र	"
प्रमेहका अरिष्ट	"	अनुराधा नक्षत्र	१५३
कुष्ठरोगका अरिष्ट	"	ज्येष्ठा नक्षत्र	"
उन्मादरोगका अरिष्ट	"	मूल नक्षत्र	"
अथ पंचेन्द्रियविकारवर्णन	१४५	पूर्वा नक्षत्र	"
अथ नक्षत्रज्ञानवर्णन	१४६	उत्तरापाठा नक्षत्र	"
मृत्युयोगोंका वर्णन	"	श्रवण नक्षत्र	१५४
अमृतयोगकथन	१४७	धनिष्ठा नक्षत्र	"
क्षूरयोगवर्णन	"	पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र	"
योगविज्ञान	१४८	रेवती नक्षत्र	"
विशेष वर्णन	"	अश्विनी नक्षत्र	१५५

हारीतसंहिता.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
भरणी नक्षत्र १५५	धातुगतदोषोंका पाचनकाल ...	१६७
नक्षत्रारिष्टोंका उपसंहार...	अपक्वदोषमें औषधका निषेध
अथ होमकी विधि	लंघनका उपचार
शांतिप्रकार १५६	लंघनप्रकरण १६८
अथ दूतकी परीक्षाका लक्षण १५८	शुद्धलंघितका लक्षण
वर्ज्यदूतके लक्षण...	मध्यमलंघितका लक्षण
शुभदूतके लक्षण... १६०	अतिलंघितका लक्षण १६९
दूतलक्षणोंका उपसंहार १६१	लंघितकरनेमें अयोग्य रोगी
अथ शकुनवर्णन	लंघितकरनेमें योग्य रोगी...
शुभशकुन...	छ प्रकारके लंघन
दुष्टशकुन १६२	विरतज्वरलक्षण
मृगादिकोंका शकुन	दोषपरत्वसें लंघनकी मर्यादा ...	१७०
मृगोंके संख्याका शकुन...	वयपरत्वसें दोषोंके कोषका प्रकार...	..
मोरआदिकोंका शकुन	ज्वरवालोकें काथ देनेका समय
काकशकुन १६३	काथका प्रकार
जाहशशाआदिकोंका शकुन	सातप्रकारसें काथ देनेका समय... १७१	
गमन समयके विविधपदार्थदर्शन शकुन	औषधादिका देनेके समयकी संज्ञा
शकुनाध्यायका उपसंहार १६४	काथके सात प्रकार
इति द्वितीयस्थानं समाप्तम् ॥		सात प्रकारके काथोंका लक्षण
अथ तृतीयस्थानम्		सात प्रकारके काथोंका कार्य ... १७२	
अथ औषधपरिज्ञानविधान ... १६५		काथरक्षणका उपदेश
ज्वरसें उत्पन्न होनेवाले रोग	काथसंबंधी अनिष्ट लक्षण...
ज्वरसें उत्पन्न होनेवाले अन्य } ... १६६		हीनकाथके लक्षण १७३
प्रकारके रोग }		उत्तम काथका लक्षण
दिनमें शयन करनेसे होनेवाले रोग...	वातज्वरमें पाचनका विधि...
महाभयंकर रोग	पित्तज्वर और कफज्वरमें पाचनका विधि,,	..
सर्वव्याधियोंका हेतु	पाचनका निषेध
वातादि दोषोंका पाचनकाल	ज्वरकी मर्यादा
पाचनादिक्रियाका समय ... १६७		ज्वरमें पाचनादि देनेकी मर्यादा ... १७४	

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
क्वाथके विपत्तिका प्रकार ...	१७४	मनुष्य ज्वर सहसकाहै तिस्का कारण	१८०
पथ्यकी आवश्यकता ...	”	सर्वरोगमें ज्वरकी श्रेष्ठता ...	१८१
ज्वरितको पथ्य भोजनका उपदेश ...	”	पृथक् प्राणिभेदसे ज्वरके नामांतर ...	”
मध्यलंवितको अन्नविधि ...	१७५	ज्वरके स्वरूपका लक्षण ...	”
क्लमशांतिका विधि ...	”	ज्वरकी उत्पत्ति ...	१८२
क्वाथपीनेका विधि ...	”	ज्वरकी निदानसहित संप्राप्ति ...	”
अथज्वरचिकित्सा ...	१७६	ज्वरके हेतु ...	”
कुवैद्यनिंदा ...	”	प्रकटहुये ज्वरका लक्षण ...	१८३
वैद्यका लक्षण ...	”	ज्वरकी विशेषता ...	”
वैद्यकशास्त्रकी पठनकी आवश्यकता ...	”	वातज्वरमें पाचन ...	”
रोग नहीजाननेसे हानि ...	१७७	पित्तज्वरका पाचन ...	”
वैद्यशास्त्रज्ञताको फल ...	”	कफज्वरमें पाचन ...	”
रोगादिक जाननेकी आवश्यकता ...	”	संनिपातज्वरमें पाचन ...	१८४
देशकालआदिक जाननेकी आवश्यकता ...	”	ज्वरमें पथ्य ...	”
रोगहेतु वातादि दोष ...	”	वातज्वरका निदान और चिकित्सा ...	”
रोगपरोक्षाके प्रकार ...	”	वातज्वरका पाचन ...	”
साध्यासाध्यका लक्षण ...	१७८	अन्नहीन औषधका गुण ...	१८५
साध्यादिक होनेका कारण ...	”	और विषेधका विशेष वर्णन ...	”
उपद्रवका लक्षण ...	”	पाचनहुये औषधका लक्षण ...	”
रोग निर्मूल करनेकी आज्ञा ...	१७९	उछलनेवाले औषधका लक्षण ...	”
सूक्ष्मभी रोग शत्रुसमान है ...	”	पाचनहोनेमें शेषरहे औषधका लक्षण ...	”
रोगके फैलनेके प्रथमही प्रतीकार करना ...	”	भोजनके उपरांत देनेके औषधका गुण ...	”
व्याधियोंका लक्षण ...	”	वातज्वरमें पंचमूलका क्वाथ ...	”
तीनप्रकारके व्याधियोंका प्रकार ...	१८०	पित्तज्वरके निदान और चिकित्सा ...	”
ज्वरकी व्यापकता ...	”	रोध्रादिक्वाथ ...	”
जातिपरत्वमें ज्वरकी असाध्यता ...	”	शकाह्वादिक्वाथ ...	१८७
ज्वरकी बलिष्ठता ...	”	दुरालभादिक्वाथ ...	”
		पित्तपापडाका क्वाथ ...	”
		शुंठ्यादि क्वाथ ...	”

हारीतसंहिता.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
गुहूच्यादि क्वाथ १८७		त्रिदोषज्वरका निदान और चिकित्सा १९४	
द्राक्षादि क्वाथ १८८		त्रिदोषज्वरकी यशःप्रापक चिकित्सा ..	
दाहत्पामूच्छाके उपर विदार्यादिकोंका उपचार		सन्निपातज्वरका लक्षण और चिकित्सा १९५	
दाहज्वरका उपाय... .. १८९		सन्निपातज्वरकी चिकित्सा	
ज्वरशोषका उपाय... .. १८९		दशांग क्वाथ १९६	
कफज्वरका निदान और चिकित्सा		भूनिवादि क्वाथ १९६	
कफज्वरका पाचन पिप्पल्यादि कल्क ..		शुण्ठ्यादि क्वाथ १९७	
व्याड्यादि कल्क १९०		मुस्तादि क्वाथ १९७	
वासर्गादि क्वाथ १९०		बृहत्यादि क्वाथ १९७	
आमलक्यादि क्वाथ १९०		शठ्यादि पाचन १९७	
पिप्पल्यादि क्वाथ १९०		भूनिवादि क्वाथ १९६	
पिप्पलीका अवलेह १९१		बृहद्रास्तादि क्वाथ... .. १९८	
वातपित्तज्वरका निदान और चिकित्सा ..		लघुरास्तादि १९८	
वातापित्तज्वरका पाचन त्रिफलादि क्वाथ ..		त्रिवृतादि मलभेदन... .. १९९	
शालिपर्ण्यादि कल्क... .. १९१		संनिपातस्वेदहर १९९	
किरावादि क्वाथ १९१		नस्यविधान १९९	
पंचभद्र क्वाथ १९१		प्रथमनविधि १९९	
पित्तकफज्वरका निदान और चिकित्सा ..		अंजनविधि १९९	
पित्तकफज्वरका पाचन शुंठ्यादि क्वाथ ..		निष्ठीवनविधि २००	
द्राक्षादि क्वाथ १९२		सन्निपातमें विशेषता... .. २००	
गुहूच्यादि क्वाथ १९२		कर्णमूलका निदान और चिकित्सा... २०१	
अन्यगुहूच्यादि क्वाथ १९२		कर्णशोथ उपर लेप... .. २०१	
पटोलादि क्वाथ १९२		दूसरा लेप... .. २०२	
अन्यपटोलादि क्वाथ... .. १९२		घ्नणरोपण औषध २०२	
वातकफज्वरका निदान और चिकित्सा १९३		कर्णशोथवालेकूं पथ्य २०२	
आरग्वधपंचक १९३		अंतर्दाहका कारण २०३	
क्षुद्रादि पाचन १९३		अंतर्दाहकी चिकित्सा २०३	
पपेटादि क्वाथ १९३		अंतर्दाहका पुनःकारण और चिकित्सा ..	
दशमूल क्वाथ १९४			

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
शरीर शीतल और अर्था गर्म होय)	२०३	ब्राह्मण ज्वर	२१०
तहां कारण और चिकित्सा }		क्षत्रिय ज्वर	"
शीतलअंगमें गरम करनेकी चिकित्सा	२०४	वैश्य ज्वर	२११
गर्मीका उपचार	"	शूद्र ज्वर	"
शीतत्वका उपचार... ..	"	ब्राह्मणज्वरका लक्षण और शांति	"
ज्वरादिकोंका कारण वायुहै... ..	"	क्षत्रियज्वरका लक्षण और शांति ...	"
ज्वरमुक्तिका लक्षण	२०५	वैश्यज्वरका लक्षण और शांति ...	२१२
ज्वरउतर्नेका लक्षण	"	शूद्रज्वरका लक्षण और शांति ...	"
ज्वरनहिं उतर्नेका लक्षण... ..	"	सर्वरोगोंपर उपचार	"
ज्वरनहीं उतर्नेका और लौट आनेका लक्ष.	"	ज्वरवालेकूं पथ्य आहारादि ...	२१३
विषमज्वरका लक्षण और चिकित्सा	"	ज्वरवालेकूं अपथ्य	"
ऐकाहिक ज्वरका लक्षण	"	ज्वरमुक्तोका वर्तना	२१४
तृतीयज्वरलक्षण	२०६	अथातीसारचिकित्सा	"
चातुर्थिकज्वर लक्षण	"	अतीसारका लक्षण	२१५
बेलाज्वरादिकका लक्षण	"	ज्वरातिसार	"
भूतादिकसे उपजे रोग	२०७	अतीसारकी चिकित्सा	"
निद्रिग्धिकादि क्वाथ	"	अतीसारके ऊपर उत्पलपट्ट ...	२१६
गुडपिप्पली	"	शुंठ्यादिकाथ	"
लघुपंचमूलक्वाथ	"	पाठादिकाथ	"
जीर्णज्वरपर पटोलादि क्वाथ	"	शुंठ्यादिपाचन	"
विषमज्वरका औषध	२०८	वत्सकादिकाथ	"
चातुर्थिक ज्वरका उपाय	"	पंचमूलीक्वाथ	२१७
चातुर्थिकपर नस्य	"	उत्पलादिपाचन	"
विषमज्वरपर लशुनकल्क	"	उशीरादिकाथ	"
विषमज्वरपर अष्टांगधूप	"	जंब्वादिस्वरस	२१८
बेलाज्वरआदिकोंका उपाय ...	२०९	काकमाचिकाप्रयोग	"
ज्वरनाशक हनुमानका पूजन ...	"	जंबूत्वगादिका अवलेह	"
ज्वरनाशक मंत्र	२१०	अतिसारका पूर्वरूप	२१९
चारवर्णवाले ज्वरोंके चिन्ह ...	"	वातातिसारका लक्षण और चिकित्सा	"

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
अतिसारका पाचनकल्क २१९		ग्रहणीके प्रकार २२७	
वालकादि कल्क २१९		ग्रहणीका उपद्रव तथा गुल्मादिकों- की संप्राप्ति } " .	
शालिपर्ण्यादि पानक २२०		गुल्मसंज्ञकग्रहणीरोगका लक्षण २२०	
तिंदुकादिरसपानक २२०		वातकी संग्रहणीका लक्षण ... २२८	
कुटजपुटपाक २२१		पित्तकी संग्रहणीका लक्षण २२९	
पित्तातिसारका लक्षण और चिकित्सा .. २२१		कफकी संग्रहणीका लक्षण २३०	
शालिपर्ण्यादि पान २२१		सन्निपातकी संग्रहणीका लक्षण २३१	
दशमूलका काथ २२२		वातग्रहणीका पाचन २३२	
धान्यपंचकादि काथ २२२		पित्तग्रहणीका पाचन २३३	
शाल्मलीमूलकल्क २२२		शुंठ्याद्यमृतप्राशन २३४	
कफातिसारलक्षण २२२		अभयाद्यवलेह २३५	
कफातिसारकी चिकित्सा ... २२२		द्राक्षादिदूध २३६	
ऋषूणादिक पाचन २२३		अथ गुल्मचिकित्सा २३७	
कार्लिंगादि कल्क २२३		गुल्मके भेद २३८	
वत्सकादि काथ २२३		गुल्मके निदान २३९	
रक्तातिसारका लक्षण २२३		गुल्मका लक्षण २४०	
धान्यादि काथ २२४		शुंठ्यादिचूर्ण २४१	
दाडिमादि काथ २२४		क्षाराद्यमृत २४२	
गुडविल्वादियोग २२४		यक्षुल्मपथ्य २४३	
वत्सकावलेह २२४		निंवादिक्वाथ २४४	
कुटजादि चूर्ण २२४		सौराष्ट्रिकादिक्वाथ २४५	
सन्निपातके अतिसारका लक्षण और चिकित्सा		धवादिक्वाथ २४६	
कुटजाष्टक २२५		कदलीजलपानक २४७	
अमृतवटक २२५		विजोरा आदिक पान २४८	
विल्वादि चूर्ण २२५		खारका सेवन २४९	
गुदाके निकसनेको बंध करनेकी चिकित्सा } २२६		आमाजीर्णका उपाय २५०	
अतिसारविशेषता २२६		दिवास्वापविधान २५१	
अतिसारका भेद संग्रहणीरोगका निदान और चिकित्सा } २२६		हरीतक्यादि अंजन २५२	

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
रासादिभक्षण २३६	शूलोंकी साध्यासाध्यपरीक्षा २४८
स्वेदका उपयोग २३७	शूलोंकी संख्या और पृथक्करण २४९
गंधकादिभक्षण	वातशूलका लक्षण
अथ कृमिरोगके प्रकार और तिन्होंके भेद,	..	पित्तशूलका लक्षण
जूमकी उत्पत्ति	कफशूलका लक्षण
कृमि उत्पन्न होनेका कारण २३८	द्वंद्वजशूलका कारण २५०
छःप्रकारके अंतर्गतकृमि	सब प्रकारके शूलोंकी चिकित्सा
कृमिरोगका लक्षण २३९	शूल तथा गुल्मपर हिंम्वादि काथ
सूचीमुखकृमिका लक्षण	वातशूलपर हिंम्वादि काथ २५१
धान्यांकुरकृमिका लक्षण	सैंधवादि चूर्ण
हारीतका प्रश्न	हिंम्वादि चूर्ण
आत्रेयजीका उत्तर २४०	तुंबुरु आदि चूर्ण
कृमिपातनका औषध २४१	एरंडादि काथ
अथ मंदाग्नि आदि अग्नियोंके निदान } २४२		वृहद्दिगु चूर्ण २५२
और चिकित्सा		पित्तशूलचिकित्सा
चार प्रकारके अग्निका लक्षण	दाडिमादिचूर्ण २५३
चार प्रकारके अग्निका परिणामविशेष	जीवंत्पादि घृत
जठराग्निकी चिकित्सा २४३	पित्तशूलका दुसरा उपचार
विषमाग्निकी चिकित्सा	पित्तशूलमें भोजन
तीक्ष्णाग्निकी चिकित्सा २४४	कफशूलचिकित्सा
हरीतक्यादि वटी २४५	विल्वादि काथ २५४
यषानी खांडवचूर्ण	मातुलुंगादि रस
अरोचकचिकित्सा २४६	तुवरादि चूर्ण
अथ शूलनिदान	एरंडादि काथ
वातशूलकी उत्पत्ति २४७	वातपित्तशूलचिकित्सा
पित्तशूलनिदान	दुरालभादि कल्क २५५
कफशूलकी उत्पत्ति	वातकफशूलचिकित्सा
द्विदोषजशूलकी उत्पत्ति २४८	दाग्यादि काथ
दशप्रकारके शूल	त्रिदोषशूलचिकित्सा

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
सर्वशूलपर उपाय २५६	पित्तक्षयके हेतु २६६
शंखक्षार ”	पित्तक्षयकी चिकित्सा ”
चित्रकादि मोदक ”	कफक्षयका लक्षण ”
यवान्यादिचूर्ण ”	कफक्षयकी चिकित्सा ”
हिंम्वादिगुटी २५७	त्रिदोषजक्षयकी चिकित्सा २६७
शूलरोगके उपद्रव ”	धातु, रस, आदिसात ७ प्रकारके } क्षयरोगके लक्षण }	”
शूलमें पथ्यापथ्य ”	रसक्षयका लक्षण ”
अथ पांडुरोगचिकित्सा २५८	मांसक्षयका लक्षण ”
पांडुरोगका निदान ”	मेदःक्षयका लक्षण ”
पांडुरोगका पूर्वरूप २५९	अस्थिक्षयका लक्षण २६८
धातपांडुका लक्षण ”	वीर्यक्षयका लक्षण ”
पित्तपांडुका लक्षण ”	रसरक्तवृद्धिकारक औषध ”
कफपांडुका लक्षण ”	रसवृद्धिकारक औषध २६९
त्रिदोषजपांडुका लक्षण ”	मेदोवृद्धिकारक औषध ”
मटीखानेसे हुआ पांडुका लक्षण २६०	अस्थिवृद्धिकारक औषध ”
लोहचूर्णवटी ”	शुक्रवृद्धिकारक औषध ”
शुंठ्यादिमिश्रित लोहचूर्ण २६१	बलादि चूर्ण २७०
मंडुकवटि ”	च्यवनप्राशननामक अवलेह २७१
वज्रमंडुकवटक ”	अगस्ति हरीतकी पाक २७२
दूसरा वज्रमंडुकवटक २६२	बला क्वाथ २७३
अमृतवटक ”	पिप्पलीवर्धमान २७४
पांडुरोगका पथ्यापथ्य २६३	शिलाजतुचूर्ण ”
अथ क्षयरोगकी चिकित्सा २६४	जीवंत्यादि घृत २७५
क्षयरोगमें पापरूपी कारण ”	पिप्पली आदि घृत २७६
क्षयरोगके हेतु २६५	पंचकोल आदि घृत ”
क्षयरोगके प्रकार ”	पाराशरघृत ”
धातक्षयका निदान ”	बला आदि घृत २७७
धातक्षयका लक्षण ”	चंदनादि तेल २७८
धातक्षयमें तेव्यपदार्थ २६६		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
राजयक्ष्मारोगका निदान२७८	अन्य कूष्मांडावलेह२९२
राजयक्ष्माके लक्षण२७९	खंडकाघरसायन ”
राजयक्ष्माका इलाज ”	रक्तातिसारचिकित्सा२९४
राजयक्ष्मावालेकी आयुष्यमर्यादा२८०	योनिप्रवाहचिकित्सा ”
अमृतप्राशन घृत ”	अथ अर्शचिकित्सा२९५
तालकाम्रातक२८१	अर्शकेप्रकार ”
गुडूच्यादि चूर्ण२८२	वातार्शके हेतु और संप्राप्ति२९६
क्षयरोगपर पथ्यापथ्य ”	पित्तार्शका हेतु ”
अथ रक्तपित्तका निदान और चिकित्सा,,	... ”	कफार्शका हेतु ”
रक्तपित्तके उपद्रव२८४	वातार्शका लक्षण ”
रक्तपित्तका लक्षण ”	पित्तार्शका लक्षण२९७
रक्तपित्तकी चिकित्सा२८५	कफार्शका लक्षण ”
ऊर्ध्वरक्तका उपाय ”	त्रिदोषार्शका लक्षण ”
वासादि क्वाथ ”	गुदरोगलक्षण ”
निंबक्वाथ अथवा अडूसाका क्वाथ ”	अर्शके स्थान२९८
वासाकी प्रशंसा२८६	गुदामें अर्शका स्थान ”
तालीस चूर्ण ”	अर्शकी चिकित्साका प्रकार२९९
अडूसाका क्वाथ और कल्क ”	अर्शरोगके उपद्रव ”
नासाप्रवृत्तरुधिरचिकित्सा२८७	असाध्यअर्श ”
हरितालकादि नस्य ”	पाचनक्वाथ ”
आम्रादि नस्य ”	कल्कयोग३००
पलांडूादि नस्य२८८	पत्रकादिक्वाथ ”
वासादि पानक ”	पिप्पल्यादि योग ”
दाडिमादि रस ”	वार्ताकयोग३०१
मुखमें प्रवृत्त हुवा रुधिरकी चिकित्सा ”	भस्मातकचतुष्टय ”
दाडिमपुष्पादि नस्य ”	कल्याणनामलवण ”
शतावरीघृत२९०	भस्मातक वटक३०२
शुद्धीका आदि घृत ”	माणदेनेवाला मोदक ”
कूष्मांडावलेह२९१	कांकायन गुटिका३०३

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
लवणोत्तमादि३०३	वातकी खांसीकी चिकित्सा	...३१६
एलादिगुटिका३०४	कट्फल आदि औषध „
अर्शनाशक चतुःसम मोदक	... „	द्राक्षादि औषध३१७
त्रिकटुकाद्य मोदक „	वाल्कादिकल्क „
मरिचाद्यमोदक „	मुस्तादिचूर्ण „
सूरणर्षिद३०५	पित्तकी खांसीकी चिकित्सा	...३१८
भीमवटक „	लघुतालिस आदि औषध... „
चव्याद्यघृत३०६	बृहत्तालिसाद्य औषध३१९
पिप्पल्याद्यतैल „	छर्दिलक्षण „
भीमसेननामकवटक „	वातछर्दिकी चिकित्सा३२०
भल्लातकगुड३०७	पित्तकी छर्दिकी चिकित्सा	...३२१
अन्यभल्लातकगुड...३०८	कफकी छर्दिकी चिकित्सा	... „
भल्लातकावलेह „	एलादिचूर्ण३२२
रक्तकी ववासीरकी चिकित्सा	...३०९	छर्दिकी शमनक्रिया „
वर्तियोग३१०	छर्दिरोगमें पथ्यापथ्य „
देवदाल्यादिलेप „	अथ तृषा और तालुशोषकी संप्राप्ति	३२३
अर्शरोगपर शस्त्रादिकर्म३११	वात आदि दोषोंसे उपजी तृषाके	} ३२४
अर्शरोगमें पथ्य३१२	क्रमसे लक्षण	
अथ खांसीकी चिकित्सा३१३	त्रिदोषकी तृषाका लक्षण „
कासरोगके हेतु „	अन्मृतपाओंके लक्षण „
कासरोगकी संप्राप्ति „	असाध्यतृष्णाका लक्षण३२५
कासरोगके प्रकार „	वातकी तृषाकी चिकित्सा... „
वातसे उपजीखांसीका लक्षण	...३१४	पित्तकी तृषाकी चिकित्सा... „
पित्तसे उपजीखांसीके लक्षण	... „	कफकी तृषाकी चिकित्सा...३२६
कफकी खांसीके लक्षण „	त्रिदोषकी तृषाकी चिकित्सा	... „
त्रिदोषकी खांसीके लक्षण... „	तालुशोषकी चिकित्सा३२७
क्षतजखांसीके लक्षण३१५	दाडिमकोल „
रक्तकी खांसीके लक्षण „	तृष्णाआदिकोंकी साधारणचिकित्सा	..
सत्रप्रकारकी खांसियोंके लक्षण	...३१६	अथ मूच्छाकी संप्राप्ति३२८

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
मूच्छाका लक्षण	३२८	चंदनादि चूर्ण	३४०
वातज आदि मूच्छालक्षण	”	द्राक्षावलेह	३४१
पित्तज मूच्छा	३२९	अन्य उपाय	३४२
कफजमूच्छा	”	अथ उन्मादनिदान	”
सन्निपातजमूच्छा	३३०	अथ वातव्याधिचिकित्सा तहां सोलह	} ३४३
रक्तगंधजमूच्छा	”	प्रकारकी शिरोगत प्राणवायुका प्रकोप	
मद्यादिजन्यमूच्छा	”	सोलह प्रकारके उदान वायुके कोप	३४४
मूच्छा, भ्रम, निद्रा और तन्द्रा इन्हों	} ”	व्यान वायुके कोपके लक्षण ...	३४५
काहेतु		समान वायुका प्रकोप	”
मूच्छाकी चिकित्सा	३३१	आक्षेपक वायुका लक्षण अपतन्त्रक	} ”
रक्तमूच्छा आदिकोंका उपाय	”	वायुके लक्षण	
नष्टसंज्ञामूर्च्छितकी चिकित्सा	”	अपतानक वायुका प्रकोप	३४६
मूच्छामदभ्रम इन्होंकी चिकित्सा ...	३३२	एकांग वायु	३४७
मूच्छादिकोंके साधारण उपाय	”	एकांग पक्षवात वायु	”
अथ निद्राचिकित्सा	३३३	तूनी तथा प्रतूनी वायु	”
अथ मदात्ययचिकित्सा	३३४	व्यान वायुके कोपका लक्षण	”
वातादि दोषजन्य मदात्यय	”	सोलह प्रकारके उदान वायुके कोप	”
मदात्ययकी चिकित्सा	३३५	सोलह प्रकारके अपान वायुके लक्षण	३४८
कोद् आदिसे उपजे मदात्ययकी चिकित्सा,,	”	अर्दित अर्थात् लकुआके लक्षण	”
अथ दाहकी संप्राप्ति आदिक ...	३३६	द्वंद्वज अर्दितका लक्षण	”
दाहकी चिकित्सा	”	असाध्य अर्दित	३४९
अथ मृगी रोगकी संप्राप्ति आदिक ...	३३७	अपान आदिकवातोंकी चिकित्सा	”
मृगी रोगकी चिकित्सा	३३८	स्नेहन नामक घृत	३५०
कूष्मांडलेह	”	निरूहण बस्ति	”
कुष्मांड घृत	३३९	पाचन तथा शमनका कथन	”
दीप घृत	”	सर्वांगवायुकी चिकित्सा	३५१
ब्राह्मी घृत	”	रसोनकयोग	} ”
अन्य उपाय	”	वातके लक्षण	
त्र्यूपणादि गुटिका	३४०	वातके लक्षण	३५२
		अथ नेत्ररोगकी चिकित्सा	३५३

विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ.
बलाआदितैल	३५४	वातगुल्मपाचन	३७२
भृंगराजतैल	३५५	मित्तगुल्म तथा कफके गुल्मका पाचन	३७३
आमपाककी चिकित्सा	३५६	वातके गुल्ममें जुलाब	”
नारायणनामकतैल	”	पित्तके गुल्ममें जुलाब	”
आमवातचिकित्सा	३५८	कफगुल्मपर विरेचन	३७४
विष्टंभी आमके लक्षण	”	क्षारपान... ..	”
गुल्मीआमका लक्षण	”	अजमोदादिऔषध	”
सोही आमके लक्षण	३५९	हिंग्वादिचूर्णित	३७५
आमके लक्षण	”	पित्तगुल्मोदर चिकित्सा	”
पक्काम और सर्वांगआमके लक्षण	”	कफके गुल्मकी चिकित्सा... ..	३७६
पाचनविधि	३६०	वातकी गुल्मकी चिकित्सा... ..	”
आमवातरोगको शमनरकनेवाली } औषध}	३६२	सन्निपातके गुल्मकी चिकित्सा	”
आमवातमें वर्ज्य... ..	३६३	शोथचिकित्सा	३७७
अथ गृध्रसीवातनिदान और लक्षण ..	”	शोथरोगमें वर्ज्य	”
गृध्रसीवातकी चिकित्सा	३६४	रक्तगुल्ममें पाचन	३७८
अथ वातरक्तका निदान और लक्षण	३६५	रक्तगुल्ममें पथ्य	३७९
वातरक्तकी चिकित्सा	”	अथ जलोदरका निदान तथा लक्षण	”
अथ अम्लपित्तका निदान	३६६	जलोदररोगकी चिकित्सा	”
अम्लपित्तकी चिकित्सा	”	अथ प्रमेहचिकित्सा	३८०
अथ शोफचिकित्सा	३६७	प्रमेहचिकित्सा	३८१
पुनर्नवादिक्वाथ	३६९	प्रमेहपिटिकाकी चिकित्सा	३८४
अन्यउपाय	”	प्रमेहमें पथ्यापथ्य	”
गुल्मनिदान और लक्षण	३७०	पीतप्रमेहपर हरिद्रादिक्वाथ	३८५
गुल्मचिकित्सा	”	पित्तप्रमेहपर कमलादि क्वाथ	”
शुंठ्यादिक्वाथ	३७१	आमलक्यादिचूर्ण	”
सोहनविधि	”	खादिरादि चूर्ण	”
शुंठ्यादिपानक	”	कोष्ठादि चूर्ण	३८६
विरुक्षण ... लक्षण ..	३७६	अथ मूत्ररुच्छ चिकित्सा	”
		अथ मूत्ररोधचिकित्सा	३८७

विषयानुक्रमिका.

३९

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
मूत्रकृच्छ्रका कारण	३८८	मज्जास्थ तथा शुक्रस्थकुष्ठ	४०९
मूत्रकृच्छ्रपर उपाय... ..	"	कुष्ठचिकित्सा	"
अथ अश्वरी अर्थात् पथरीरोगकी चिकित्सा } ३९०		शुंठ्यादिकाथ	४१०
अश्वरी रोगपर चिकित्सा	"	गुडूच्यादिकाथ	"
एलादि काथ	३९२	कुष्ठरोगमें लेपविधि	४११
गोक्षुरकादि चूर्ण	"	खदिरादिकाथ	"
अन्य उपाय	"	आरगधादि काथ	४१२
अथ वृषणचिकित्सा	३९३	खदिरादिघृतपानक	"
अथ विसर्प रोगकी चिकित्सा	३९४	भल्लातकतैल	"
अथोपसर्गचिकित्सा	३९५	तिलतैल... ..	४१३
मसूरिकामेंचिकित्सा	३९६	हरिद्रातैल	"
अथ व्रणचिकित्सा	३९८	मिर्चादिघृत	"
जात्यादि घृत	४०१	पांडुरकुष्ठकी चिकित्सा	"
अथ श्लेष्मिलरोगकी निदान तथा लक्षण ..	"	अथ शालाक्यतंत्र	४१५
अथ अर्बुद रोगकी चिकित्सा	४०२	अथ शिरोरोगचिकित्सा	"
अथ लूत तथा गंडमाला रोगका निदान और लक्षण } ४०३		पट्टविदुनामकतैल... ..	४१८
लूतागंडमालाचिकित्सा	४०४	विंदुत्रयतैल	"
अथ कुष्ठचिकित्सा	४०६	कुष्ठादिघृत	४१९
कुष्ठोंके सामान्यभेद और लक्षण	"	लाक्षातैल	"
कुष्ठोंके नाम	४०७	कुंकुमादिघृत	"
उदुंबरकुष्ठलक्षण	"	अथ भूदोपलक्षण	"
मंडलकुष्ठ तथा गजचर्मकुष्ठका लक्षण ..	"	भूदोपकी चिकित्सा	४२०
गोजिह्वककुष्ठलक्षण	"	अथ नासारोगलक्षण	४२१
विपादिकाकुष्ठलक्षण	४०८	नासारोग चिकित्सा	"
वातादिजन्यकुष्ठकालक्षण	"	अथ इंद्रलुप्तारोगका लक्षण... ..	४२२
रक्तस्थकुष्ठ	"	इंद्रलुप्तारोगकी चिकित्सा	"
मांसस्थ मेदस्थ तथा अस्थिस्थकुष्ठ ४०९		अथ कर्णरोगलक्षण	४२३
		कर्णरोगकी चिकित्सा	४२४
		अथ नेत्ररोगकी चिकित्सा	४२५

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ
नेत्ररोगकी चिकित्सा ४२६	गर्भोपद्रवमें उपचारकी शिक्षा ४४४
नेत्रके फूलेकी चिकित्सा ४२७	अथ मूढगर्भचिकित्सा ”
नेत्रपटलका लक्षण ४२८	मृतगर्भका लक्षण ४४५
नेत्रपटलचिकित्सा ”	वातिकमूढगर्भचिकित्सा ”
नेत्ररोगमें वर्ज्य ४२९	पैत्तिकमूढगर्भचिकित्सा ”
अथ मुखरोगको चिकित्सा ”	कफजमूढगर्भचिकित्सा ४४६
ओष्ठरोगकी चिकित्सा ”	रक्तपित्तजमूढगर्भचिकित्सा ”
दंतरोगलक्षण ”	मूढगर्भमें शस्त्रचिकित्सा ”
दंतरोगचिकित्सा ४३०	उत्पत्तिके उपायके वास्ते मंत्र और औषध	
जिह्वारोगलक्षण ४३१	सुखसे बालक होनेके यत्न ”
जिह्वारोगचिकित्सा ”	मन्त्रः ”
गलगंडूरोगके लक्षण ४३२	यंत्र ४४८
गलगंडूरोगकी चिकित्सा ”	मंत्रः ”
गलशुंडिकारोगके लक्षण ४३३	अथ सूतिकारोगकी चिकित्सा ”
गलशुंडिकारोगकी चिकित्सा ”	स्त्रीके दूध बढ़ानेके उपाय ४४९
अथ वृद्धक्षीणानां वाजीकरण	... ४३४	अथ बालरोगनिदान और चिकित्सा	... ४५०
शुक्रवृद्धिके उपाय ४३५	उत्फुल्लरोगकी चिकित्सा ४५१
विदार्यादि औषध ४३६	बालरोगचिकित्साके अन्य उपाय ”
शुक्रवृद्धिमें औषध ”	बालकोंकी वृद्धिको बढ़ानेवाले औषध	... ४५२
अथ बंध्यारोगके लक्षण ”	बालकोंकी वाणीको करनेवाले औषध	... ”
बंध्यारोगको दूरकरनेवाले औषध	... ४३७	बालकोंके अपस्माररोगकी चिकित्सा	... ४५३
त्रिदोषरजकी चिकित्सा ४३८	बालकोंके पूतनाका दोष ”
पित्तदूषितरजकी चिकित्सा ”	अथ भूतविद्या ४५६
कफदुष्टरजकी चिकित्सा ४३९	भूतेश्वरमंत्र ४५९
स्त्रियोंके गर्भार्थ पथ्य ”	आवेश मंत्र ”
अथ गर्भोपचारविधि ४४०	अथ विपत्तंत्र ४६०
अथ चलितगर्भचिकित्सा ४४१	मुखसिंचन मंत्र ”
गर्भोपद्रवचिकित्सा ४४२	कानमें जपनेके वास्ते मंत्र ४६१
मृत्युकादि कल्क ४४३	विपशमन औषध ”

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
जंगमविषकी चिकित्सा ४६२	अथ स्वेदनविधि... ४७५
विषबंधनमंत्रः ४६३	अथ रक्तावसेचन फस्तखुलानेकी विधि "	
लेप "	रक्तलक्षण ४७६
राजिमतीलेपः "	अथ जलौकाविचारविधि ४७७
मंत्रः ४६४	इंद्रायुधाके लक्षण "
अथ भिन्न अर्थात् शस्त्रआदिसे टुटाहु } आकी चिकित्सा }	.. "	रोहिणीके लक्षण... "
भिन्नअस्थिकी चिकित्सा "	कालिकाजोखके लक्षण "
शल्योद्धारचिकित्सा "	धूम्राजोखके लक्षण "
अस्थिभ्रंशकी चिकित्सा ४६७	जोखलगवानेका क्रम ४७८
घृष्टहाडकी चिकित्सा ४६८	अथ हरीतकीका कल्क ४७९
आस्फालितहाडकी चिकित्सा "	अथ त्रिफलाकाथ ४८१
अभिघात अर्थात् चोटलगी हुईकी } चिकित्सा }	.. "	अथ हरडैके कल्क और वर्णोकाभेद	४८३
अथअग्निदग्ध चिकित्सा ४६९	अथ रसोनकल्क... ४८६
धूमपानचिकित्सा... ४७०	लस्सनके गुण ४८७
अथ तुलामानविधि ४७१	पेयरसोनविधिः ४८८
अन्यमत "	अथ गुग्गुलकल्कः ४८९
अथ तैलपाकविधि ४७२	अथ शरीराध्यायः ४९३
अथ निरूहवस्तिकर्मविधि ४७४	नपुंसक तथा अपत्ययुग्मका विचार... ४९७	
		नपुंसकका विचार "
		अथ परिशिष्टाध्यायः ५०१

East-Asiatic College,
Jaipur.

॥ श्रीः ॥

अथ हारीतसंहिता ।

भाषाटीकासमेता ।

प्रथमोऽध्यायः १

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीमद्देवीपदद्वंद्वं प्रत्यूहचूहनाशनम् ॥
तन्नमामि नतिर्घ्नस्य वितरत्पुत्तमां मतिम् ॥ १ ॥ शिवसहायपुत्रेण
रविदत्तेन धीमता ॥ हारीतसंहिताभाषा-टीका नूनं विरच्यते ॥ २ ॥

ग्रंथकारमंगलाचरण.

नत्वा शिवं परमतत्त्वकलाधिरूढं ज्ञानामृतैकचटुलं परमात्मरूपम् ॥
रागादिरोगशमनं दमनं स्मरस्य शश्वत्क्षपाधिपधरं त्रिगुणात्मरूपम् ॥ १ ॥

परमतत्व कलापै आरूढहुये और ज्ञानरूपी अमृतसे सुंदर और परमात्मरूपको धारण
कियेहुये और रागआदि रोगोंको शांत करनेवाले और कामदेवको दग्ध करनेवाले और
निरंतर चंद्रमाको मस्तकमें धारण करनेवाले और त्रिगुणात्मरूपवाले ऐसे महादेवजीको
मणाम करके यह हारीतसंहितानामक ग्रंथ करताहूं ॥ १ ॥

आत्रेयहारीतसंवाद

हिमवदुत्तरे कूले सिद्धगन्धर्वसेविते ॥ शान्तमृगगणाकीर्णं नानापादप
शोभिते ॥ २ ॥ तत्रस्थं तपसा युक्तं तरुणादित्यतेजसम् ॥ शुद्धस्फटि
कवच्छुभ्रं भूतिभूषितविग्रहम् ॥ ३ ॥ जटाजूटाटवीमूले उषितं शुभ्रकु
ण्डलम् ॥ आत्रेयं बहुशिष्यैस्तु राजितं तपसान्वितम् ॥ ४ ॥ पप्रच्छ
शिष्यो हारीतः सर्वज्ञानमिदं महत् ॥ ५ ॥

सिद्ध और गंधर्वोंसे सेवित किया और शान्तस्वरूप मृगोंके समूहसे व्याप्त हुआ और
अनेक प्रकारके वृक्षोंसे शोभितहुआ ऐसे हिमालयपर्वतके उत्तरकूलमें ॥ २ ॥ तरुण

सूर्यका तेजके समान तेजवाले और तपको करतेहुये और शुद्धहुये गिलोरी पत्थरके समान श्वेतरूपवाले और भूतिसे भूपितहुआ शरीरवाले और पूर्वोक्त जगहमें स्थित ॥ ३ ॥ और जटाजूटरूपी वनके मूलमें वसतेहुये और श्वेतकुंडलोंको धारणकिये और बहुतसे शिष्योंसे प्रकाशितहुये और तपस्वी ऐसे आत्रेयजी महाराजको ॥ ४ ॥ हारीत नामवाला शिष्य इस संपूर्ण महाज्ञानको पूछताभया ॥ ५ ॥

हारीत उवाच ॥ भवन् ! गुणगणाधार ! आयुर्वेदविदां वर ! ॥ विन यादविनीतोऽहं पृच्छामि मुनिपुङ्गव ! ॥ ६ ॥ कथं रोगसमुत्पत्तिरुत्पन्नो ज्ञायते कथम् ॥ उपचारः प्रचारश्च कथं वा सिद्धिमिच्छति ॥ ७ ॥ एतत्सम्यक् परिज्ञानं कथयस्व महामुने ! ॥ एवं पृष्टो महाचार्य्यो हारीतेन महात्मना ॥ प्रत्युवाच ऋषिः पुत्रं प्रहस्योत्फुल्ललोचनः ॥ ८ ॥

हारीत कहने लगा—हे भगवन् ! हे गुणोंके समूहके आधार ! हे आयुर्वेदके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ हे मुनियोंमें उत्तम ! अविनीत मैं विनयसे पूछताहूँ ॥ ६ ॥ कैसे रोगकी उत्पत्ति होतीहै ? और उत्पन्न हुआ रोग कैसे जाना जाता है ? और रोगकी चिकित्सा और पथ्य कैसे होताहै ? और वही रोग कैसे सिद्धिको प्राप्त होताहै ? ॥ ७ ॥ हे महामुने ! इस परिज्ञानको अच्छीतरह कहो ऐसे महात्मा हारीतसे पूछेहुये महाचार्य आत्रेयजी हैंसकै और खिलेहुये नेत्रोंवाले होकै मुनि हारीतसे कहनेलगे ॥ ८ ॥

आत्रेय उवाच ॥ शृणु पुत्र ! महाप्राज्ञ ! सर्वशास्त्रविशारद ! ॥ चिकित्साशास्त्रकुशल ! वैद्यविद्याविचक्षण ॥ ९ ॥ आयुर्वेदमपारन्तु लोकानां लक्षसंख्यया ॥ कथं तस्य परिज्ञानं कालेनाल्पेन पुत्रक ! ॥ १० ॥

आत्रेयजी कहतेहै—हे पुत्र हे महाप्राज्ञ हे सर्वशास्त्रोंमें कुशल हे चिकित्साशास्त्रमें कुशल हे वैद्योंकी विद्याके जाननेवाले ॥ ९ ॥ हे पुत्र ! आयुर्वेद अपार है और तिसके लक्षश्लोक है तिसका जानना मनुष्योंको थोडेकालकरकै कैसे होसकतहै अर्थात् मुशकिलहै ॥ १० ॥

अल्पायुषोऽल्पवक्त्रारः स्वल्पशास्त्रविशारदाः ॥ अल्पावधारणे शक्ताः कलौ जाता इमे नराः ॥ ११ ॥ अल्पः कलियुगश्चायं नरोपद्रवकारणम् ॥ कथं पुत्र ! प्रवक्ष्यामि विस्तरेण तवागमम् ॥ १२ ॥

अल्प आयुवाले और अल्प बोलनेवाले और स्वल्प अर्थात् थोडे शास्त्रको जाननेवाले और अल्प निक्षयवाले ऐसे ये मनुष्य कलियुगमें उपजेहैं ॥ ११ ॥ यह कलियुगभी अल्प-

रूप है परंतु मनुष्योंको उपद्रवोंका कारण है इसवास्ते हे पुत्र तेरेप्रति विस्तारसे वैद्यक शास्त्रको कैसे कहूं ॥ १२ ॥

यस्य श्रवणकालो यो याति चान्तश्च पुत्रक ! ॥ तस्माच्चाल्पतरेणाऽपि
वक्ष्यामि शृणु साम्प्रतम् ॥ १३ ॥ चतुर्विंशसहस्रैस्तु मयोक्ता चाद्यसं
हिता ॥ तथा द्वादशसाहस्री द्वितीया संहिता मता ॥ १४ ॥ तृतीया ष
ट्सहस्रैस्तु चतुर्थी त्रिजिरेव च ॥ १५ ॥ पञ्चमी दिक्पञ्चशतैः प्रोक्ताः
पञ्चात्र संहिताः ॥ तस्माच्चाल्पतरेणापि वक्ष्यामि शृणु पुत्रक ! ॥ १६ ॥

हे पुत्र ! जिसको जो सुननेका समय है वह अंतको प्राप्त हो जाता है तिसकारणसे अति
गोड़े करके तेरेको अब कहता हूं सुन ॥ १३ ॥ मैंने चौबीसहजार श्लोकोंसे युक्त प्रथम
संहिता कही है और तैसेही बारहहजार श्लोकोंसे संयुक्त दूसरी संहिता कही है ॥ १४ ॥
और तैसेही छःहजार श्लोकोंसे युक्त तीसरी संहिता कही है और तीनहजार श्लोकोंसे संयुक्त
चौथी संहिता कही है ॥ १५ ॥ और डेढहजार अर्थात् पंदहरसौ श्लोकोंसे संयुक्त पांचमी
संहिता कही है- ऐसे पांच संहिता मैंने कही हैं तिसकारणसे हे पुत्र ! मैं संक्षेपसे
कहूंगा तू सुन ॥ १६ ॥

येन विज्ञानभात्रेण गद्वेदविदो भवेत् ॥ किमत्र बहुनोक्तेन चाल्पसारे
विशारद ! ॥ १७ ॥ येन धर्मार्थसौख्यं च तद्धि कर्म समाचरेत् ॥
येन संजायते श्रेयो येन कीर्तिर्भूत्सुखम् ॥ १८ ॥ तत्कर्म नितरां सा
ध्यं जनानन्दविधायकम् ॥ १९ ॥

जिसके जानने भावसे आयुर्वेदको जाननेवाला मनुष्य हो जाता है, हे विशारद ! अल्पसा-
रमें बहुत कहनेसे यहां क्या है ॥ १७ ॥ जिस कर्मसे धर्म-अर्थ-सुख-इन्होंकी प्राप्ति
होवै तिसकर्मका आचरण करना और जिस कर्मसे कल्याण-कीर्ति-अतिसुख-ये होवें
॥ १८ ॥ तिस कर्मको निरंतर करै यही कर्म मनुष्योंको आनंदका देनेवाला है ॥ १९ ॥

एकं शास्त्रं वैद्यमध्यात्मकं वा सौख्यं चैकं यत्सुखं वा तपो वा ॥ वन्द्यश्रेयो
भूपतिर्वा यतिर्वा एकं कर्म श्रेयसं वा यशो वा ॥ २० ॥ बहुतरमुपचारात्
सारमाधारलोके जननमतिमुखानां वर्द्धनं श्रेयसां वा ॥ विगतकलुषभावा
चोज्ज्वला कीर्तिमूर्तिर्न खलु कुटिलतास्याः श्रूयते लोकदृष्टैः ॥ २१ ॥

एकही शास्त्र ठीक है, वैद्यक अथवा वेदांत—और सुखभी एकही ठीक है, भोग अथवा तप—वंदनाके योग्यभी एकही ठीक है, राजा अथवा संन्यासी—कर्मभी एकही ठीक है, कल्याण अथवा यश ॥ २० ॥ इस संसारमें चिकित्सा करनेसे बहुतसा सार प्राप्त होता है, वही सार अतिखुशियोंको उपजाता है और कल्याणको बढ़ाता है, और तिसीसे कलुष भावसे वर्जित और प्रकाशित ऐसी कीर्ति उत्पन्न होती है और इस कर्मकरनेवालेकी कीर्तिकी कुटिलता मनुष्योंके समूहोंमें कहींभी नहीं सुनीये है ॥ २१ ॥

आयुर्वेदमिदं सम्यग् न देयं यस्य कस्यचित् ॥ २२ ॥ नाभक्तायाप्यशान्ता
य न मूर्खाय न चाधमे ॥ शान्ते देयं न देयं स्यात् सर्वथा नाऽधमेऽधने ॥ २३ ॥

अच्छी तरहसे यह आयुर्वेद ऐसे तैसे मनुष्यको नहीं देना ॥ २२ ॥ और जो भक्त नहींहो और जो क्रोधीहो और जो मूर्खहो और जो नीचहो तिसकेलिये कभीभी नहीं देना शांतिवाले पुरुषको देना नीच और धनसे रहितको आयुर्वेद नहीं देना ॥ २३ ॥

धर्मिष्ठो कुहनीविवर्जितमनाः शान्तः शुचिः शुद्धधीर्धीरोऽभीरुविवेकसा
रहृदयो विद्याविलासोज्ज्वलः ॥ प्राज्ञो रोगगणप्रचारनिपुणोऽलुब्धः सदा
तोषधृगित्थं सर्वगुणाकरो नृपजनैः पूज्यः सदा रोगचित् ॥ २४ ॥

अत्यंत धर्मको माननेवालाहो और कपटसे वर्जित मनवालाहो और शांतहो पवित्रहो शुद्ध बुद्धिवालाहो धीरहो डरनेवाला नहींहो और विवेकके सारसे संयुक्त हृदयवालाहो और विद्याके आनंदसे प्रकाशितहो पंडितहो रोगोंके समूहके प्रचारमें निपुणहो लोभी नहींहो और सबकालमें संतोषको धारनेवालाहो ऐसे सबगुणोंका स्वजानारूपी वैद्यको राजालोगोंमें सब कालमें पूजना चाहिये ॥ २४ ॥

दृष्ट्वा यथा मृगपतिं गजयूथनाथः संशुष्कमानमद्विन्दुकपोलधारः ॥
त्यक्त्वा वनं ब्रजति चाकुलमानसेन दृष्ट्वा तथा गदगजो भिषजं प्रयाति
॥ २५ ॥ यद्वत्तमोवृत्तमिदं भुवनं मयूरैः प्राकाश्यमाशु कुरुते सकलं रविस्तु ॥
तद्वत्सुवैद्य उपलभ्य रुज्जोतिनाशं शीघ्रं करोति गदिनं गदमुक्तभारम् ॥ २६ ॥

जैसे सिंहको देखकै हस्तियोंके समूहके स्वामीकी मद्विन्दुओंकी धारा गंडस्थलमेंही सूख जातीहै और वह हाथी उस वनको त्याग व्याकुल मन करकै भागताहै तैसे वैद्यको देखकर रोगराज गमन करताहै ॥ २५ ॥ जैसे आंधिरेसे संयुक्तहुआ स्थानमें सूर्य किरनोंसे शीघ्र प्रकाशको करताहै तैसेही कुशलवैद्य रोगके नाशको प्राप्तहो रोगीके रोगरूपी भारसे अल्प निन्देताहै ॥ २६ ॥

लुब्धः क्रूरः शठजठरको मद्यपश्चालसश्वाधीरो भीरुर्विकलहृदयो ही
नकर्मार्थमन्दः ॥ शास्त्रज्ञातोऽप्यविदितगदज्ञानपाखण्डखण्डो वज्र्यो वै
द्यः प्रबलमतिभिर्भूमिपैर्वा सुदूरात् ॥ २७ ॥

लोभीहो क्रोधीहो शठहो क्रोधीहो मदिराको पीनेवालाहो आलस्यवालाहो धीरनहींहो डरने-
वालाहो विकलहुये हृदयवालाहो हीनकर्मवालाहो प्रयोजनमें मंदहो रोगको नहीं पिछानने-
वालाहो ऐसा वैद्य जो शास्त्रको जाननेवालाभी हो तबभी अच्छी बुद्धिवाले राजानें दूरसे
वर्जना चाहिये ॥ २७ ॥

वैद्यशास्त्रपठनविधि.

अद्भुतं चाप्यशङ्कञ्च नात्युच्चं नीचमेव च ॥ यः पठेच्छास्त्रमित्थञ्च तस्य
शास्त्रानिर्दृश्यते ॥ २८ ॥ चर्वणं गिलनं चापि कस्पितं श्वसितं तथा ॥
नीचोच्चं चैव गम्भीरं वर्जयेत्पाठकेन तु ॥ २९ ॥

अद्भुत प्रकार-अशुद्ध-अतिकंचा प्रकार-नीचा प्रकार-इन्हेंसे रहित साधारण प्रकारसे
जो शास्त्रको पढे तिसको शास्त्रकी प्राप्ति होती है ॥ २८ ॥ चावना, निगिलना, कांपना, अ-
तिश्वास लेना, नीचापना, ऊंचापना, गंभीरपना, इन सबोंको पठनकरनेवाला वर्ज्यै ॥ २९ ॥

अनध्याये न शास्त्रस्य नोत्सवे यज्ञकर्मसु ॥ जातके सूतके चाथ पठनं
न विधीयते ॥ ३० ॥ चतुर्दश्यष्टमीदर्शप्रतिपत्पूर्णिमास्तथा ॥ वज्र्याः
पञ्च इमाः पाठे मुनिभिः परिकीर्त्तिताः ॥ ३१ ॥ अकाले दुर्दिने गर्जे दि
ग्दाहे भूमिकम्पने ॥ शास्त्रपाठस्तथा वज्र्या ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ ३२ ॥
द्वादशैते अनध्यायाः प्रोक्ताः शृणुष्व पुत्रक ! ॥ गुरुपीडासमुत्पन्ने नृपे सं
पीडितेऽथवा ॥ ३३ ॥ आहवे जीवसम्पाते प्रदोषे वाऽथवा पुनः ॥ राष्ट्रपीडा
समुत्पन्ने न कुर्याच्छास्त्रपाठनम् ॥ ३४ ॥ एतैस्तु पठितं शास्त्रं न स्वार्थं सि
द्धिसाधकम् ॥ न श्रेयसे न माङ्गल्ये नोपकारे सुरवावहम् ॥ ३५ ॥

अनध्याय, उत्सव, यज्ञकर्म, जन्मको सूतक, मृतसूतक, इन्हेंमें शास्त्रको नहीं पठना ॥ ३० ॥
चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, प्रतिपदा, पूर्णिमा ये पाचोतिथि मुनिजनों पढनेमें वर्ज्यै हैं
॥ ३१ ॥ अकाल, दुर्दिन, गर्जना, दिग्दाह, भूमिकंप अर्थात् भूचाल, चंद्रमाका ग्रहण, सूर्य-
का ग्रहण, इन्हेंमें शास्त्रका पठना वर्जित है ॥ ३२ ॥ हे पुत्र ! बारह अनध्याय कहे हैं तू सु-
न गुरुको पीडा उपजे, राजाको पीडा उपजे, ॥ ३३ ॥ युद्ध, जीवोंका मरना, प्रदोष, देशको पीडा
उपजे ऐसे छः ये और छः अकाल आदि कहचुके इन बारहोंमें शास्त्रका पाठ करै नहीं

॥ ३४ ॥ इन अनध्यायोंमें पठित किया शास्त्र आपने प्रयोजनमें सिद्धिको नहीं देता और कल्याणको नहीं करता और मंगलको नहीं देता और उपकारमें सुखको नहीं देता ॥ ३५ ॥

एवं ज्ञात्वा पठति निपुणो वैद्यविद्यानिधानं श्रेयस्तस्य प्रतिदिनमसौ वा
ञ्छितार्थं प्रपद्येत् ॥ कीर्तिः सौख्यं भवति नितरां तस्य लोकप्रशंसा पू-
ज्यो राज्ञां सनतमपि वै जायते स्वार्थसिद्धिः ॥ ३६ ॥ इति आत्रेयभाषिते
हारीतोत्तरे वैद्यगुणदोषशास्त्रपठनविधिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

ऐसे जानकै जो कुशल वैद्य शास्त्रको पठित करता है तिसको कल्याण मिलता है, और नित्यप्रति मनोवांछित प्रयोजन प्राप्त होता है और तिस वैद्यको नित्यप्रति सुखहोता है सं-
सारमें कीर्ति और प्रशंसा प्राप्त होती है और अपने प्रयोजनकी सिद्धि होती है और ऐसे पठन करनेवाला पंडित राजा लोगों करकै निरंतर-पूजनेके योग्य है ॥ ३६ ॥ इति वेरीनिवासि
बुधशिवसहायतनयवैद्यरविदत्तशास्त्रि-अनुवादित-हारीतसंहिताभाषायां प्रथमोऽध्यायः-
पशास्त्रपाठनविधिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

द्वितीयोऽध्यायः । २

—:०:—

चिकित्सासंग्रह.

आत्रेय उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि शास्त्रस्यास्य समुच्चयम् ॥ आ-
युर्वेदसमुत्पत्तिं सर्वशास्त्रार्थसंग्रहम् ॥ १ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—इस पहले अध्यायको कहकै अब दूसरे अध्यायमें इस शास्त्रके
समुच्चयको कहताहूं और आयुर्वेदकी समुत्पत्तिकी और सब शास्त्रोंके अर्थका संग्रह क-
रताहूं ॥ १ ॥

अष्टौ चात्र चिकित्साश्च तिष्ठन्ति भिषजां वर ! ॥ ता वक्ष्यामि समासेन
चिकित्साश्च पृथक् पृथक् ॥ २ ॥

हे वैद्योंमें श्रेष्ठ इसग्रंथमें आठ प्रकारकी चिकित्सा स्थित हैं तिन्हींको और पृथक् पृथ-
क् चिकित्साको कहूंगा ॥ २ ॥

संग्रहस्य प्रवक्ष्यामि प्रथमं चान्नपानकम् ॥ अरिष्टं च द्वितीयं स्यात्तृती-
यं च चि त्सतम् ॥ ३ ॥ कल्पं चतुर्थकं श्रोक्तं सूत्रस्थानन्तु पञ्चमम् ॥

षष्ठं चात्र शरीरं स्यादित्यायुर्वेदकारकाः ॥४॥ शल्यशालाक्यकायाश्च
तथा बालचिकित्सितम् ॥ अगदं विपतन्त्रञ्च भूतविद्या रसायनम् ॥ वा
जीकरणमेवेति चिकित्सा चाष्टधा स्मृता ॥ ५॥ वैद्यागमेषु सर्वेषु प्रोक्तं
श्रेष्ठमिदं महत् ॥ तथा चाष्टौ चिकित्सायां वदन्ति वेदविज्जनाः ॥ ६ ॥

और संग्रहके अन्नपाननामक प्रथमस्थानको कहूंगा और अरिष्ट नामवाला दूसरा स्थान है और चिकित्सित नामवाला तीसरा स्थान है ॥ ३ ॥ कल्प नामवाला चौथा स्थान है सूत्रस्थान पचिमा है शारीरस्थान छठा है ऐसा आयुर्वेदको करनेवाले कहते हैं ॥ ४ ॥ शल्य-शालाक्य-कायचिकित्सा-बालचिकित्सित-अगद-विपतन्त्र-भूतविद्या-रसायन-वाजीकरण-ऐसे चिकित्सा आठ प्रकारसे कही है ॥ ५ ॥ वैद्योंके सब ग्रंथोंमें यह उत्तम और बड़ा ग्रंथ माना है ऐसे वेदको जाननेवाले जन चिकित्साओंमें आठ प्रकारको कहते हैं ॥ ६ ॥

यन्त्रशास्त्राग्निक्षाराणामौषधं पथ्य एव च ॥

स्वेदनं मर्दनं चैव कथितान्युपकारिणाम् ॥७॥

यंत्रकर्म, शस्त्रकर्म, अग्निर्कर्म, औषध, पथ्य, स्वेदन, मर्दन, ये सब उपकारियोंकेलिये कहे हैं ॥ ७ ॥

एतैर्वैद्यकशास्त्रस्य सारो भवति सर्वतः ॥ ८ ॥

इन्होंने वैद्यकशास्त्रका सार सब जगहसे यंत्रकर्म-शस्त्रकर्म-बंधकर्म-इन्होंनेके द्वारा होता है जिस करके वैद्य उद्धार करता है ॥ ८ ॥

अथ शल्यतन्त्रम्

यन्त्रशास्त्रार्थबन्धैस्तु येन चोद्ध्यते शिषक् ॥ तच्च शल्योद्धरणकं
प्रोच्यते वैद्यकागमे ॥ नाराचवालवल्लीभिर्जलैः कुन्तैश्च तोमरैः ॥९॥ शिं
लाग्निभिन्नगात्रस्य तत्र साध्यादिशल्यकम् ॥ १० ॥ तत्प्रतीकारकरणं
तच्च शाल्यचिकित्सितम् ॥ तथा बाणसमुद्दिष्टतृणपांशुकुमीकचम् ॥
रक्तवस्तु तथा पेशी पूयं शेषान्तरेऽपि यत् ॥ ११ ॥ तच्छल्यमिति जानी
याल्लोष्टकाष्टविभिन्नकम् ॥ १२ ॥

अथ शल्यतंत्रका लक्षण-यह वैद्यकशास्त्रमें शल्योद्धरण अर्थात् शल्यको निकासना कहते हैं जो बाण केश वल्लि-भाला-कुंतशास्त्र-तोमरशास्त्र-इन्होंने करके ॥९॥ पत्थर और अग्निसे भिन्नहुआ शरीरवाले मनुष्यके प्राप्तहुआ जो शल्य जिसको निकासनेका उपाय

करना यह शाल्यचिकित्सित कहाता है ॥ १० ॥ और व्रण अर्थात् घावके प्रकरणमें कहाहुआ तृण—फांस—आदि—लालचीज—मांसकी पेशी—राद—और शेष अंतरमें जो कछु हो ॥११॥ और लोहा लकड़ी आदि जो है इन सबोंको शल्य जानना॥१२॥यह शल्यतंत्र है—

अथ शालाक्यम्

शिरोरोगा नेत्ररोगाः कर्णरोगा विशेषतः ॥ भ्रूकण्ठशङ्खमन्यासु ये रोगाः स
म्भवन्ति हि ॥ १३ ॥ तेषां प्रतीकारकर्म नासावर्त्यञ्जनानि च ॥ अभ्यङ्गं
मुखगण्डूषक्रिया शालाक्यनामिका ॥ १४ ॥ इति शालाक्यं नाम ॥

अथ शालाक्यतंत्रका लक्षण—शिरके रोग, नेत्रोंके रोग, कानके रोग, और विशेष करके भ्रुकुटी—कनपटी—कंधा—इन्हेंमें जो रोग उपजै ॥ १३ ॥ तिन्हेंको दूर करनेके लिये जो नस्यकर्म—अंजन—अभ्यंग अर्थात् मालिस—गंडूष अर्थात् कुछे करना आदि क्रिया—ये सब शालाक्य कहाते है ॥ १४ ॥

अथ कायचिकित्सा

काषायचूर्णगुटिका पञ्चानां शोधनानि च ॥ क्रोष्ठामयानां शमनी क्रिया
कायचिकित्सितम् ॥ १५ ॥

अथ कायचिकित्साका लक्षण—काढा चूरन गोली स्वेदन स्नेहन वमन, विरेचन वस्ति कर्म—ये सब और कोष्ठके रोगोंको शांत करनेवाली क्रिया कायचिकित्सित कहाती है ॥१५॥

अथ अगदं नाम

गुदामयं वस्तिरुजं शमनं वस्तिरूहकम् ॥ आस्थापनानुवासंतु अगदं नाम
एव च ॥ १६ ॥

अथ अगदतंत्र लक्षण—गुदाके और मूत्राशयके रोगको शांत करना निरूहवस्ति—आस्थापन वस्ति—अनुवासनवस्ति ये सब अगदतंत्रनामसे विख्यात है ॥१६॥

अथ बालचिकित्सा

गर्भोपक्रमविज्ञानं सूतिकोपक्रमस्तथा ॥ बालानां रोगशमनं क्रिया वा
लचिकित्सितम् ॥ १७ ॥

अथ बालचिकित्सितकालक्षण—गर्भकी और सूतिकाकी चिकित्साका ज्ञान और बालकोंके रोगोंको शांत करनेवाली क्रिया बालचिकित्सित कहाती है ॥ १७ ॥

अथ विषतन्त्रं नाम ॥

सर्पदृश्विकलूतानां विषोपशमनी तु या ॥

सा क्रिया विषतन्त्रश्च नाम प्रोक्ता मनीषिभिः ॥ १८ ॥

सांप, -बीछू, मकड़ी, इन्हेंके विषको शांत करनेवाली क्रिया विषतंत्र कहाती है ऐसे बुद्धिमानोंने कहा है ॥ १८ ॥

अथ भूतविद्या नाम ॥

ग्रहभूतपिशाचाश्च शाकिनीडाकिनीग्रहाः ॥

एतेषां नियहः सम्यग्भूतविद्या निगद्यते ॥ १९ ॥

अथ भूतविद्याका लक्षण-ग्रह-भूत-पिशाच-डाकिनी-शाकिनी-ग्रह-इन्हेंको अच्छी तरह नियह करना भूतविद्या कहाती है ॥ १९ ॥

अथ वाजीकरणम् ॥

क्षीणानां चाल्पवीर्याणां बृंहणं बलवर्द्धनम् ॥

तर्पणं समधातूनां वाजीकरणमुच्यते ॥ २० ॥

अथ वाजीकरणका लक्षण-क्षीणहुये और अल्प वीर्यवाले मनुष्योको पुष्ट करना और बलको बढ़ाना और समान धातुवालोंको तृप्त करना-यह वाजीकरण कहाता है ॥ २० ॥

अथ रसायनतन्त्रम् ॥

देहस्येन्द्रियदन्तानां दृढीकरणमेव च ॥ वलीपलितरवालित्यवर्जनैऽपि

च या क्रिया ॥ २१ ॥ पूर्ववैद्यप्राणीतं हि तद्रसायनमुच्यते ॥ २२ ॥

अथ रसायनका लक्षण-शरीर, इंद्रिय, दंत, इन्हेंको दृढ करना और शरीरकी बली, वालोंकी सफेदाई, वालोंका उडजाना, इन्हेंक वर्जनकी जो क्रिया हो ॥ २१ ॥ और पहले धन्वंतरी आदि वैद्योंकी रची हुई हो तिसको रसायन कहते हैं ॥ २२ ॥

अथ उपाङ्गचिकित्सा ॥

छिन्नं भिन्नं तथा भग्नं क्षतं पिच्छितमेव च ॥

तेषां दग्धप्रतीकारः प्रोक्तश्चोपाङ्गसंज्ञकः ॥ २३ ॥

अथ उपाङ्गचिकित्साका लक्षण-छिन्न अर्थात् छेदितहुआ-भिन्न अर्थात् विदारितहुआ-भग्न अर्थात् टूटा हुआ-क्षत अर्थात् घाव आदि-पिच्छित अर्थात् पिचलित हुआ-दग्ध अर्थात् जलाहुआ-इन्हेंकी चिकित्साको उपाङ्गसंज्ञक कहते हैं ॥ २३ ॥

इति वैद्यकसर्वस्वं चिकित्सागमभूषणम् ॥

पठित्वा तु सुधीः सम्यक् प्राप्स्यते सिद्धिसङ्गमम् ॥२४॥

इति वैद्यकसर्वस्वे चिकित्सासंग्रहो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

चिकित्सारूपी शास्त्रसे भूषितहुआ वैद्यकसर्वस्व समाप्त हुआ इसको वैद्य अच्छी तरह पढ़के सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्त शास्त्रिअनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने चिकित्सासंग्रहो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

वैद्यशिक्षाविधानम् ॥

अथ वक्ष्यामि रोगाणामुपचारक्रमं तथा ॥

जानाति यो बुधः सम्यक् पूज्यते नृपसत्तमैः ॥ १ ॥

अथ रोगोंके चिकित्साक्रमके लक्षण—इसके अनंतर रोगोंकी चिकित्साके क्रमको कहूंगा जो पंडित इसको अच्छी तरह जानता है वह राजालोगोंसे पूजित होता है ॥ १ ॥

उपचार करनेकी योग्यता

ज्ञात्वा रोगसमुत्पत्तिं रोगाणामप्युपक्रमम् ॥

ज्ञात्वा प्रतिक्रियां वैद्यः प्रतिकुर्व्याद्यथोचितम् ॥ २ ॥

कुशलवैद्य रोगकी उत्पत्तिको और रोगोंके पथ्य आदिको और चिकित्साको जानके पश्चात् यथोचितको करै ॥ २ ॥

देशकालआदिका ज्ञान

देशं कालं वयो वाह्निं सात्म्यप्रकृतिभेषजम् ॥

देहं सत्वं बलं व्याधेर्दृष्ट्वा कर्म समाचरेत् ॥ ३ ॥

देश, समय, अवस्था, जठराग्नि प्रकृतिके योग्य औषध, देह, सत्व, रोगका बल इन्होंको देखके पीछे चिकित्साका आरंभ करै ॥ ३ ॥

उपचार करनेका फल

धर्मार्थकामलाभः स्यात् सम्यगातुरसेवनात् ॥

यदा नाचरतस्तस्य विनाशश्चात्मनस्तदा ॥ ४ ॥

रोगीकी अच्छी तरह चिकित्सा करनेसे धर्म, अर्थ, काम, इन्होंकी प्राप्ति होती है जो वैद्य रोगीकी चिकित्सा नहीं करता तिस वैद्यके शरीरका नाश होजाताहै ॥ ४ ॥

वैद्यका वैद्यत्व

व्याधेस्तत्त्वपरिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः ॥

एतद्वैद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्यः प्रभुरायुषः ॥ ५ ॥

रोगके तत्त्वको जानना—पीड़ाका नाश करना—वैद्यका यही वैद्यपना हे और आयुका मालिक वैद्य नहीं है—अथवा इतनाही नहीं है, किंतु आयुका मालिक वैद्यही है ॥ ५ ॥

दो प्रकारका उपचारउपक्रम

द्विविधोपक्रमश्चैव शमनः कोपनो रुजाम् ॥

तथैव ज्ञात्वा विबुधः क्रियां कुर्व्याद्विचक्षणः ॥ ६ ॥

चिकित्सा २ प्रकारकी है एक शमन दूसरी कोपन सो रोगको जानकै कुशलवैद्य क्रियाको करै ॥ ६ ॥

दो प्रकारके वैद्य ॥

वैद्योऽपि द्विविधो ज्ञेयो विकारेऽङ्गिरोगयोः ॥ उपचारापचारज्ञो द्विवि

धः प्रोच्यते त्रिषक् ॥ ७ ॥ उपचारेण शमनमपचारेण कोपनम् ॥ एवं

विज्ञाय सदैद्यः कुर्व्यात् संशमनक्रियाम् ॥ ८ ॥

वैद्यभी २ प्रकारका है रोगके उपचार अर्थात् चिकित्साको जाननेवाला और रोगके अपचार अर्थात् दुष्परिणामको नहीं जाननेवाला ऐसे २ प्रकारका वैद्य कहा है ॥ ७ ॥ उपचारसे रोगकी शांति होती है अपचारसे रोगका कोप होता है ऐसे कुशलवैद्य जानकै संशमन अर्थात् रोगको शांत करनेवाली क्रियाको करै ॥ ८ ॥

व्याधीके साध्यअसाध्यविचार ॥

साध्योऽसाध्यश्च याप्यश्च कृच्छ्रसाध्यस्तथैव च ॥ व्याधिश्चतुर्विधः

प्रोक्तः सदैद्यैः शास्त्रकोविदैः ॥ ९ ॥ उपचारेण साध्या ये रोगा गच्छ

न्ति याप्यताम् ॥ याप्यास्त्वसाध्यतां यान्ति साध्यकष्टेन पुत्रक ! ॥ १० ॥

सम्भवन्ति महारोगाः कष्टसाध्या म्रियन्ति वै ॥ एवं चतुर्विधो व्याधि

र्ज्ञात्वा कर्म समाचरेत् ॥ ११ ॥

साध्य—असाध्य—याप्य—कष्टसाध्य इन भेदोंसे रोगभी ४ प्रकारका कुशल वैद्योंने कहा है ॥ ९ ॥ हे पुत्र ! चिकित्साके नहीं करनेसे साध्यरोग कष्टसाध्यपनेको प्राप्त होते हैं और कष्टसाध्य रोग असाध्यपनेको प्राप्त होते हैं साध्यके कष्ट करकै ॥ १० ॥ महारोग उपजते हैं

और कष्टसाध्य रोगवाले मरजाते हैं ऐसे व्याधि चारप्रकारकी है और तिसको जानकै कर्म-
का आचरण करै ॥ ११ ॥

उपचारका फल ॥

उपचारकृता दोषाः कृच्छ्रास्ते यान्ति याप्यताम् ॥ याप्याः साध्यत्व
मायान्ति कष्टसाध्यं भवेद्ध्रुवम् ॥ १२ ॥ सुखसाध्यः सुखी शीघ्रं स्यात्
सुधीभिरुपक्रमैः ॥ साध्यासाध्यपरिज्ञानं ज्ञात्वोपक्रमणं तथा ॥ १३ ॥

चिकित्साके करनेसे कष्टसाध्यरोग याप्यपनेको प्राप्तहोते हैं और याप्यरोग साध्यपनेको
प्राप्त होते हैं ऐसे कष्टसाध्यकी व्यवस्था है ॥ १२ ॥ वैद्यकी चिकित्सासे रोगी शीघ्र
सुखसाध्य होजाता है ऐसे साध्य और असाध्यके परिज्ञानको जानकै पीछे चिकि-
त्साको करै ॥ १३ ॥

दोषके शेष रहजानेसें हानि ॥

साध्यंगते यदा रोगे दोषशेषं न धारयेत् ॥ दोषशेषेऽपि कष्टं स्यात्त
स्माद्यत्नान्निवृत्तयेत् ॥ १४ ॥ यथा हि कालदुष्टः स्यात् यथा सूक्ष्मोऽ
ग्निः क्रणः ॥ स्वल्पस्तद्वत् क्रियाप्राप्तो गदो घोरतरो भवेत् ॥ १५ ॥
तथा दोषस्य शेषे तु शमनं याति चाल्पशः ॥ दैवाद्यदुष्टतां याति यथा
ग्निः कुपितो भृशम् ॥ १६ ॥

जब साध्य रोग होवै तब वातआदि दोषके शेषको नहीं धारण करना क्योंकि दोषको
वाकीरहनेमें कष्टहो जाता है तिसवास्ते दोषको नाशितकरै ॥ १४ ॥ जैसे काल दुष्ट
होजाता है जैसे अग्निका सूक्ष्म किनका बढजाताहै तैसे क्रियाको नहीं प्राप्तहुआ स्वल्पभी
रोग अतिघोर होजाता है ॥ १५ ॥ दोषके शेषमें अतिअल्परोग शांत होजाता है
परंतु दैवसे फिर दूषित होजाता है जैसे अतिकुपितहुआ अग्नि ॥ १६ ॥

अपथ्यसें हानि ॥

यथा काष्ठचयादूरं प्राप्य घोरतरोऽग्निकः ॥ तथा पथ्यस्य संयोगाद् भवेद्
घोरतरो गदः ॥ १७ ॥ कषायैश्च फलैश्चूर्णैः पिण्डलेहानुवासनैः ॥ सर्वाः
क्रिया भृशं व्यर्था न शमं याति चामयः ॥ १८ ॥

जैसे काष्ठका समूहसे दूर प्राप्तहुआभी अग्नि अतिघोररूप होजाताहै तैसे अपथ्यके
संयोगसे रोगभी अतिघोररूप होजाता है ॥ १७ ॥ काढा-फल-चूर्न-गोली-चटणी-

अनुवासन वस्तिकर्म—इन्हों करकै सब क्रियां व्यर्थ होजावैं और रोग शांत नहीं होवै ॥ १८ ॥

एवं ज्ञात्वा सदा वैद्यै रोगशान्तिककारणम् ॥

कर्त्तव्यमतियोगेन येन रोगः प्रशाम्यति ॥ १९ ॥

ऐसे जानकै सब कालमें वैद्योंनै रोगकी शांतिको करनेवाली क्रिया अतियोगसे अर्थात् पूर्वोक्तक्रिया विशेष करकै करनी चाहिये जिस्से रोग शांत होजावै ॥ १९ ॥

लङ्घनकी योग्यता ॥

ज्ञात्वा दोषबलं धीमान् लङ्घनानि समाचरेत् ॥

दोषे सति न दोषाय लङ्घनानि बहून्यपि ॥ २० ॥

वैद्य दोषके बलको जान लंघनोंका आचरण करावै क्योंकि दोषके होनेसे बहुतसेभी है लंघन दोषको करनेवाले नहीं होतेहै ॥ २० ॥

जठराग्निका कर्म ॥

पचेत् प्रथममाहारं दोषानाहारसंक्षये ॥

दोषक्षयेऽनलो धातून् प्राणान् धातुक्षये सति ॥ २१ ॥

जठराग्नि प्रथम भोजनको पकाता है और भोजनके नाश होनेमें वातआदि दोषोंको पकाता है और दोषोंके क्षय होनेमें धातुओंको पकाता है और धातुओंके क्षय होनेमें प्राणोंको पकाता है ॥ २१ ॥

सामनिराम व्याधिका उपक्रम ॥

ज्ञात्वा बलाबलं व्याधेः सामनिराममेव च ॥

तदा सामं पाचनं स्थान्निरामे पथ्यसंक्रमः ॥ २२ ॥

रोगके बल और अबलको जानकै और साम तथा निरामरूप रोगको जानकै पीछे साम अर्थात् आमसे संयुक्तहुये रोगमें लंघनकरावै और निराम अर्थात् आमसे रहितहुये रोगमें पथ्यको दिवावै ॥ २२ ॥

वैद्यकी योग्यता ॥

सामं निरामं सुखसाध्यमेव सम्यग् रुजश्च परिलक्ष्य रुजो विनाशम् ॥

एतद्भवेत् सकलवैद्यकशास्त्रसारं नैवायुषश्च बलदानकरो हि वैद्यः ॥ २३ ॥

साम—निराम—सुखसाध्य—इसप्रकारसे रोगको अच्छी तरह देख और रोगके नाशको देख विचारै सकल वैद्यकशास्त्रका सार यह है और आयुके बलको देनेवाला वैद्य नहीं होता ॥ २३ ॥

नो वैद्यो मनुजस्य सौख्यमथवा दुःखश्च दातुं क्षमो जन्तोः कर्मविपाक
एव भुवने सौख्याय दुःखाय च ॥ तस्मान्मानवदुःखकारणरुजां नाश
स्य चात्र क्षमो वैद्यो बुद्धिनिधानधाम चतुरो नाम्नेव वैद्योऽपरः ॥२४॥
सम्यग् रुजां परिज्ञानं ज्ञात्वा दोषविनिग्रहम् ॥ प्रत्याख्येयश्च यः साध्यं
जानाति स भवेद् भिषक् ॥ २५ ॥

मनुष्यको सुख अथवा दुःख देनेको वैद्य समर्थ नहीं है किं तु संसारमें सुख और दुःखको देनेवाला कर्मोंका विपाक है तिस कारणसे मनुष्यको दुःख करनेवाले रोगोंको नाशनेके लिये वैद्य समर्थ है और वैद्य बुद्धिभांडारका घरहै. चतुरहै और इससे विपरीत जो दूसरा वैद्यहो वह नामसेही वैद्यहै॥२४॥जो रोगोंको अच्छी तरह जानके और दोषोंके निग्रहको जान साध्य और असाध्य रोगीको जानता है तिसको वैद्य कहते है ॥ २५ ॥

उपचार करनेयोग्य मनुष्य ॥

तपस्वी च ब्राह्मणश्च स्त्रियो वा बालकस्तथा ॥ दीनो वा दुर्बलो वापि प्रा
ज्ञो वा पण्डितस्तथा ॥ २६ ॥ महात्मा श्रोत्रियः साधुरनाथो बन्धुवर्जि
तः ॥ एतान् व्याधिविनिग्रस्तान् प्रतिकुर्याद्विशेषतः ॥ २७ ॥

तपस्वी—ब्राह्मण—स्त्री—बालक—दीन—दुर्बल—बुद्धिमान्—पंडित—॥ २६ ॥ महात्मा—
वेदपाठी—साधु—अनाथ—बंधुओंसे रहित—ऐसे रोगी हो जावै तो विशेष करके वैद्य शीघ्र
चिकित्सा करै ॥ २७ ॥

उपचारसे धनलेनेयोग्य मनुष्य ॥

राजा च सुधनी चैव मण्डलीको बलाधिपः ॥

उपचार्योऽर्थसिद्धिः स्याद्वित्तं ग्राह्यं भयं न च ॥ २८ ॥

राजा—धनवाला साहुकार—छोटा राजा ठाकुर—सेनाका स्वामी—इन्होंनेकी चिकित्सा करनेमें
वैद्यको द्रव्य लेना चाहिये और वैद्य भयंको नहींकरै ॥२८ ॥

यश मिलनेयोग्य मनुष्य ॥

मध्यमा वणिजां पत्तिः पुरोध्या ब्राह्मणादयः॥ भट्टो वा गणिकाचण्यश्चि-
क्रित्त्यास्तु विशेषतः ॥ रोगग्रस्तेषु चैतेषु चिकित्सा कीर्तिकारिणी॥२९॥

व्यवहार करनेवाले—ब्राह्मण आदि पुरोहित—कवीश्वर—कथक अथवा ज्योतिषी—इन्होंनेकी
चिकित्सा वै शेष करके करै क्योंकि इन्होंनेकी करीहुई चिकित्सा कीर्तिको करती है॥२९॥

चिकित्सा करनेको अयोग्य मनुष्य ॥

व्याधश्चौरस्तथा म्लेच्छो वह्निदो मत्स्यबन्धकः ॥ ३० ॥ बहुद्वेषो या
मकूटो बन्धको मांसविक्रयी ॥ एतेषां व्याधिग्रस्तानां नैव कुर्ध्यात् प्र
तिक्रियाम् ॥ ३१ ॥ एतेभ्यः स्वार्थसिद्धिर्नोपकारो हितमङ्गलम् ॥ तेषां
जीवाप्तसंजातो वैद्यो भवति दोषभाक् ॥ ३२ ॥

और कसाई-चोर-म्लेच्छ-अश्लिलगानेवाला-मछलियोंको वीधनेवाला ॥ ३० ॥ बहुतोंका
वैरी-गाममें चुगली करनेवाला मांसको बेचनेवाला-इन्हेंके जो रोग उपजै तो वैद्य चिकित्सा
नहींकरै ॥ ३१ ॥ क्योंकि इन्हेंसे स्वार्थकी सिद्धि नहीं है न उपकार है और कल्याणभी
नहीं है और मंगलभी नहीं है तिन्हेंको जीवदान देनेसे वैद्य दोषका भागी होजाता है ॥ ३२ ॥

एवं ज्ञात्वा तु सद्द्वैद्यः कुर्ध्यादथ प्रतिक्रियाम् ॥

धर्मार्थकामसम्पत्तिःकीर्तिर्लोके प्रवर्त्तते ॥ ३३ ॥

ऐसे जानकै पीछे कुशल वैद्य चिकित्साको करै चिकित्सासे धर्म-अर्थ-काम-इन्हों-
की प्राप्ति और लोकमें कीर्ति प्रवृत्त होती है ॥ ३३ ॥

वैद्यकर्तव्यका उपसंहार ॥

इति बहुविधियुक्तो वैद्यविद्याविचारः क्षणमपि हृदये यो धारणं सं
करोति ॥ स भवति गदसंघस्याथ विध्वंसशक्तो विमलविदितकीर्तिः
पूज्यमानो नरेन्द्रैः ॥ ३४ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे वैद्यशिक्षा
विधानो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

ऐसे बहुतसी विधिसे युक्त और वैद्यक विद्याको विचारनेवाला ऐसा वैद्य एक क्षणभर-
भी अपने हृदयमें धारणाको करै वह वैद्य रोगके समूहको नाशनेमें समर्थ है और स्वच्छ
तथा विख्यात कीर्तिवाला आर राजा लोगोंसे पूज्यमान हुआ वैद्य प्रसिद्ध होता है ॥ ३४ ॥
इति वैरीनिवासिवुधशिवसहायस्त्रुवैद्यरविदत्तशास्त्रिअनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथम-
स्थाने वैद्यशिक्षाविधानो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४

अथदेशकालबलाबलम् ॥

इदानीं संप्रवक्ष्यामि देशकालबलाबलम् ॥ सख्यां क
सात्स्यं प्रकृतिदेहञ्च तथाग्नीनां विशेषणम् ॥ १५ वशमें है और

अथ देश—काल-बल-अवल-सात्म्य-प्रकृति-देह-अग्नि-विशेषता-इन्हेंको कहताहूँ ॥१॥

देशके भेद

देशस्तु त्रिविधो ज्ञेयो स्यनूपो जाङ्गलस्तथा ॥

साधारणो विशेषेण ज्ञातव्यास्ते मनीषिभिः ॥ २ ॥

अनूप—जांगल—साधारण—इन नामोंसे देश तीन प्रकारका है और बुद्धिमानोंने—वे देश विशेष करके जानने चाहिये ॥ २ ॥

अथ अनूपदेशलक्षण ॥

बहुतरशुभनद्यश्चारूपानीयपुट्टाः सरससरउपेता शाद्वलासारभूमिः ॥
हरितकुशजलानां शालिकेदाररम्यादिनकरकरदीप्तिं वाञ्छते यत्र लो
कः ॥ ३ ॥ गुरुमधुररसाढ्या भाति चेक्षुः सदाद्रा विविधजनितवर्णाः
शालिगोधूमयूषाः ॥ मधुररसविभुक्त्या मानवानां प्रकोपी भवति कफ
समीरः स्यात्तदानूपदेशः ॥ ४ ॥

अथ अनूपदेशलक्षण—सुंदर पानीसे पुष्टहुई बहुतसी सुंदर नदी जहां होवै और रस-
वाले वृक्षोंसे व्याप्त और हरी दूब घास आदिसे व्याप्तहुई पृथिवी जहां होवै और हरीकुशा
तथा पानीसे व्याप्तहुये जो चावलोंके खेत तिन्हों करके रमणीक हुई है पृथिवी जहां और
जहां सूर्यकी किरनोंको संसार वांछित करता है ॥ ३ ॥ और जहां भारे और मधुर
रससे संयुक्त और सबकालमें गीली ऐसी ईख होती है और जहां अनेक वर्णोंवाले चावल
और गेहूं आदि उपजतेहैं—और जहां मधुररसको खानेसे मनुष्योंके दांत और कफका
कोप होता है तिसको अनूपदेश कहते हैं ॥ ४ ॥

अथ जाङ्गलदेशलक्षण ॥

स्वरपरुषविशालाः पर्वताः कण्टकीर्णा दिशि दिशि मृगतृष्णा भूरुहाः शी
र्णपर्णाः ॥ अतिस्वररविरश्मीपांशुसम्पूर्णभूमिः सरसि रसविहीनः कूपका
म्भःप्रकर्षः ॥ ५ ॥ तदनु विरससस्याहारिणो गोमहिष्यःप्रभवति रसमांसे रू
क्षभावश्च सम्यक् ॥ पुनरपि हिमवाहं शालिशस्यं न चेक्षुर्भवति रुधि
रपित्तं कोपमाशु स्युपैति ॥ ६ ॥

अथ जांगलदेशलक्षण—तीक्ष्ण और कठोर पर्वत जहां स्थित है और जहां कांटोंसे
व्याप्तहैरदिशामें मृगतृष्णा अर्थात् विनाहुआ जल मृगोंको प्रतीत होता है और जहां
ऋक्षता वैद्य-ईपले वृक्ष स्थित हैं और जहां अति तेज सूर्यके किरनोंसे गर्महुये रेतसे संपूर्ण

पृथिवी व्याप्त होरही है और जहां रससे हीन होताहुआ कुवाका पानी घटता जाता है ॥५॥
और जहां विनारसके धान्यखानेसें हस्ती, गाय, भैंस, ये बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं और जहां
रसमें जहां और मांसमें रूपापन उपजता है और शीतलवायु—चावलकी खेती—ईख ये नहीं
उपजते हैं और जहां रक्त और पित्त शीघ्र कोपको प्राप्त होता है तिसको जांगलदेश
कहते हैं ॥ ६ ॥

अथ साधारणदेशलक्षण ॥

उभयगुणशतं वा नातिरूक्षं न स्निग्धं न च खरबहुलं चेच्चाभितःकण्ठ
काढ्यम् ॥ भवति च जलकीर्णं नातिशीतं न चोष्णं समप्रकृतिसमेतं
विद्धि साधारणं च ॥ ७ ॥

अथ साधारणदेशलक्षण—जहां अनूपदेशके और जांगलदेशके बहुतसे लक्षण अर्थात्
गुणहों और जहां न अति रूपापनहो और न चिकनापन है और जहां तेजकी बहुलता
नहींहो और जो सब तर्फसे कांटोंसे व्याप्त होरहाहो और जहां साधारण पाणीहों और न
अतिशीत अर्थात् जाडाहो और न अति गर्मीहो और समानप्रकृतिसे संयुक्तहो तिसको
साधारण देश कहते हैं ॥ ७ ॥

अथ कालज्ञान ॥

कालस्तु त्रिविधो ज्ञेयोऽतीतोऽनागत एव च ॥

वर्तमानस्तृतीयस्तु वक्ष्यामि शृणु लक्षणम् ॥ ८ ॥

अथ कालज्ञान—काल तीन प्रकारका है अतीत अर्थात् वीताहुआ—अनागत अर्थात्
आनेवाला—वर्तमान अर्थात् वर्तताहुआ इन्होंके लक्षण कहताहूं तू सुन ॥८॥

कालका स्वरूप ॥

कालःकालयते लोकं कालः कालयते जगत् ॥ कालः कालयते विश्वं
तेन कालो विधीयते ॥९॥ कालस्य वशगाः सर्वे देवर्षिसिद्धकिन्नराः॥
कालो हि भगवान् देवः स साक्षात्परमेश्वरः ॥ १० ॥ सर्गपालनसं
हर्ता स कालः सर्वतः समः ॥ कालेन कालयते विश्वं तेन कालो
विधीयते ॥ ११ ॥

काल लोककी संख्या करता है काल जगत्की संख्या करता है काल विश्वकी संख्या करता
है विस्से काल कहाता है ॥ ९ ॥ सब देव, ऋषि, सिद्ध, किन्नर, ये सब कालके वशमें है और

भगवान् देव साक्षात् परमेश्वर ऐसा कालही है ॥ १० ॥ सृष्टि, स्थिति, संहार, इन्हींको करनेवाला और सब जगहसे समान ऐसा कालही है कालसे विश्व संख्याको प्राप्त होता है तिससे काल कहाता है ॥ ११ ॥

उत्पाक कालका स्वरूप ॥

येनोत्पत्तिश्च जायेत येन वै कल्पते कला ॥

सत्त्ववांस्तु भवेत्कालो जगदुत्पत्तिकारकः ॥ १२ ॥

जिस्से उत्पत्ति होती है और जिस्से कलाओंकी गिनती होती है इसवास्ते सत्ववाला काल जगत्की उत्पत्तिको करता है ॥ १२ ॥

प्रवर्तक कालका स्वरूप ॥

यः कर्माणि प्रपश्येत प्रकर्षं वर्त्तमानके ॥

सोऽपि प्रवर्त्तको ज्ञेयः कालः स्यात्प्रतिकालकः ॥ १३ ॥

वर्तमानमें जो कर्मोंको देखता है वह प्रवर्तक जानना और कालही प्रतिपालक होता है १३

संहारक कालका स्वरूप ॥

येन मृत्युवशां याति कृतं येन लयं व्रजेत् ॥

संहर्त्ता सोऽपि विज्ञेयः कालः स्यात्कलनापरः ॥ १४ ॥

जिसकाल करके जीव मृत्युके वशको प्राप्त होता है और जिस करके कृत अर्थात् किया हुआ लयको प्राप्त होता है वही काल संहार करनेवाला जानना यही काल संख्याको करनेवाला है ॥ १४ ॥

कालका सनातनत्व ॥

कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः ॥

कालः स्वपिति जागर्त्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ १५ ॥

कालही जीवोंको रचता है कालही प्रजाको हरता है कालही शयन करता है कालही जागता है काल दुरतिक्रम है अर्थात् उल्टवन नहीं कियाजाता ॥ १५ ॥

कालका नाशकस्वरूप ॥

काले देवा विनश्यन्ति काले चासुरपन्नगाः ॥

नरेन्द्राः सर्वजीवाश्च काले सर्वे विनश्यति ॥ १६ ॥

काल अर्थात् समयमें देवता नष्ट होजातेहैं और कालमें ही दैत्य और सर्प नष्ट होते हैं राजे और सब जीव कालमेंही नष्ट होते हैं कालमेंही संपूर्ण नष्टहोता है ॥ १६ ॥

अथ अन्यकालोंके स्वरूप ॥

त्रिकालात् परतो ज्ञेय आगन्तुर्गतचेष्टकः ॥ सूक्ष्मोऽपि सर्वगः सर्वैर्व्यक्तान्यक्ततरः शुभः ॥ १७ ॥ तथा वर्षाहिमोष्णाख्यास्त्रयः काला इमे मताः ॥ तथा त्रयोऽन्येऽपि ज्ञेया उदयमध्यास्तमेव च ॥ १८ ॥

आगंतु और चेष्टासे रहित और सूक्ष्म और सर्वोत्तरके सर्वगत और अतिव्यक्त और अति अव्यक्तसे पर और शुभ ऐसा ऐसा काल त्रिकालसे परै जानना चाहिये ॥ १७ ॥ वर्षा, शीत, गर्मी, ये तीन काल माने गये हैं और उदय, मध्य, अस्त, ऐसे तीन अन्यभी काल जानने ॥ १८ ॥

अथ ऋतुचर्या ॥

वर्षा शरच्च हेमन्तः शिशिरश्च वसन्तकः ॥ ग्रीष्मोऽतिक्रमतो ज्ञेय एवं षड् ऋतवः स्मृताः ॥ १९ ॥ पृथक् पृथक् प्रवक्ष्यामि रवेर्गतिविशेषणैः ॥ प्रकोपं शमनं ज्ञात्वा अयने द्वे स्मृते बुधैः ॥ २० ॥ दक्षिणायनमेकं स्यात् द्वितीयं चोत्तरायणम् ॥

अथ ऋतुचर्या—वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म ये क्रमसे छः ऋतु कहे ॥ १९ ॥ इन ऋतुओंको पृथक् २ कहुंगा सूर्यकी गतिके विशेषसे प्रकोप और शमनको जान पंडितोंने दो अयन कहे हैं ॥ २० ॥ एक दक्षिणायन होता है दूसरा उत्तरायण होता है

अयनोंका वर्णन ॥

वर्षा शरच्च हेमन्तो दक्षिणायनमध्यगाः ॥ २१ ॥

शिशिरश्च वसन्तश्च ग्रीष्मः स्यादुत्तरायणे ॥

वर्षा-शरद-हेमन्त-ये तीन ऋतु दक्षिणायनमें होते हैं ॥ २१ ॥ शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म-ये तीन ऋतु उत्तरायणमें होते हैं

दक्षिणायनकालक्षण ॥

याम्ये गतिर्यदा जानोस्तदा चान्द्रगुणा मही ॥ २२ ॥ वारि शीतलसम्भूतं शीतं तत्र प्रजायते ॥ बलिनो मधुरास्तिकताः कषायास्तु विशेषतः ॥ २३ ॥ जीवानां सात्म्यमतुलमोषधीनां च वीर्यता ॥ आर्द्रत्वं भूधराणाञ्च दिशश्चाप्यतिशीतलाः ॥ २४ ॥ सक्लेदा पृथिवी सर्वा तस्मादार्द्रा सफे

निला ॥ कथं चिकित्सयेत् पित्तं कोपं याति विलीयते ॥ २५ ॥ तस्माद्गुण-
त्रिपर्यासाद्गुणचारेण शाम्यति ॥

जब दक्षिणायणमें सूर्यकी गति होती है तब चंद्रमाके गुणोंवाली पृथिवी होजाती है ॥ २२ ॥ और शीतल पानी होजाता है और शीत पड़ने लगता है और मधुर तिक्त कसेला ये रस विशेष करके बलवाले हो जाते हैं ॥ २३ ॥ और ओषधी अर्थात् अन्न आदिकोंकी तथा जीवोंकी प्रकृति बहोतही अच्छी रहती है और पर्वतभी गीले होजाते हैं और दि-
शाभी अति शीतल हो जाती हैं ॥ २४ ॥ और क्लेशभाव सहित संपूर्ण पृथिवी हो जाती है और तिसी कारणसे गीली और झागोंवाली पृथिवी होजाती है जहां पित्त कोपको प्राप्त हो जाता है या लीन होजाता है तहां चिकित्सा कैसे होसकी है ? ॥ २५ ॥ तिस कारणसे विपर्यास करके चिकित्सासे पित्त शांत होता है

उत्तरायणका लक्षण ॥

यदोदीच्यां गतिर्भानोस्तदा सूर्यो जलाधिपः ॥ २६ ॥ तस्माद्गुणगुणा
स्तीव्राः सम्भवन्ति विदाहिनः ॥ खरसूर्यांशुजालैस्तु शुष्यते वनकानन
म् ॥ २७ ॥ संशुष्का मेदिनी सर्वा दिशः पानादिनीरसा ॥ वलिनोऽम्ल
कटुक्षाराः सम्भवन्ति विदाहिनः ॥ २८ ॥ तस्मात् संकुप्यते पित्तं रक्तेन
सह मूर्च्छितम् ॥ ओषधिरसः संशुष्को गोजातीनां पयांसि च ॥ २९ ॥ अल्पं
बलं च जन्तूनां कथञ्चिक्फसम्भवः ॥ दृश्यते च वसन्ते च स्वयमेव शमं
व्रजेत् ॥ ३० ॥ एवं ज्ञात्वा सुधीः सम्यक्कुर्यात्सर्वप्रतिक्रियाम् ॥ ३१ ॥

जब उत्तर दिशामें सूर्यकी गति होती है तब सूर्य जलोंका स्वामी हो जाता है ॥ २६ ॥ तिससे दारुण रूप और विशेष करके दाहको करनेवाले ऐसे गुण उपजते हैं और सूर्यके तेज किरणोंके समूहसे वन वगीचे सूख जाते हैं ॥ २७ ॥ और संपूर्ण पृथिवी सूख जाती है और जलआदिसे रहित सब दिशा होजाती हैं और खटा, चर्चरा, खारा ये रस बलवाले और विशेष करके दाहको करनेवाले होते हैं ॥ २८ ॥ तिससे रक्तके साथ मूर्च्छितहुआ पित्त कुपित होता है और ओषधियोंका रस और गायआदिका दूध सूख जाता है ॥ २९ ॥ और जीवोंमें अल्प बल उपजता है और कदाचित् कफकीभी उत्पत्ति होजाती है और वहां कफकी उत्पत्ति वसंत ऋतु अर्थात् चैत्र वैशाखमें दीखती है और आपही शांत हो जाती है ॥ ३० ॥ ऐसे अच्छी तरह वैद्य जानके सब रोगोंकी चिकित्साको करे ॥ ३१ ॥

अथ वर्षाऋतुका लक्षण ॥

सघनवारिदवारिसमाकुला अखिलवत्प्रवरोदकपूरिताः ॥ समदवात
करा विदिशो दिशः प्रमुदितक्रिमिकीटभृता मही ॥ ३२ ॥ नील्
सस्यहरितोज्ज्वला मही कुल्यका सलिलसंस्पृता नता ॥ इन्द्रगोपक
राजिविराजिता पङ्कभूषणविभूषिता धरा ॥ ३३ ॥ उद्भिन्नचूताङ्कुरो भूध
रः स्याद्रेजे वनं वा मधुरं व्यकूजन् ॥ भृङ्गा मयूरा जलदस्य घोषं
सर्वेऽपि जीवा बलमामुवन्ति ॥ ३४ ॥ केकी कूजति कानने च सरसी
म्लानाम्बुपूर्णा तथा हंसा मानसमाव्रजन्ति कमलान्युन्म्लानतां घान्ति
च ॥ गर्जन्मेघमहेन्द्रकन्दरदरी सस्यावृता श्यामला भात्येवं पवनस्य को
पनकरी वर्षाऋतुः श्रेयसी ॥ ३५ ॥ किञ्चिद्भूर्भोज्वानि स्युः सस्यानां दृ
ढतां गमः ॥ बहुसस्या जवेद्धात्री वारिपूर्णा शरन्मुहुः ॥ ३६ ॥ नद्यः पूर्णाम्भ
सोत्स्वातशीर्णपातास्तटद्गुमाः ॥ कुल्याप्रस्रवणानान्तु स्रवत्यम्भो दिशो
दिशः ॥ ३७ ॥ बहुदकधरा मेघा बहुदक्षा घनस्वनाः ॥ एवंगुणसमायु
क्ता वर्षा स्यादृतुकोविदैः ॥ ३८ ॥ तस्माद्वातकफः कोपी जायते च
नृणां भृशम् ॥ इति ज्ञात्वा जिषकच्छ्रेष्ठः कुर्यात्तस्यां प्रतिक्रियाम् ॥ ३९ ॥
स्वेदनं मर्दनं पथ्यं निर्वातसेवनं तथा ॥ गौरारामारतं शस्तं व्यायामक्रम
विक्रमः ॥ ४० ॥ कट्मलक्षारसुरसाः सेव्या वातकफापहाः ॥ निरूह
वस्तिकर्मात्र कफवातरुजापहम् ॥ ४१ ॥

अथ ऋतुलक्षण—प्रथम वर्षाऋतुका लक्षण और उपचार—मोटे वादल और पा-
नीसे अच्छी तरह आकुल हो और संपूर्ण तरहसे सुंदर पानी करके पूरित और मदसहित
वायुको करनेवाली सब विदिशा और दिशा होवें और आनंदित हुये कीडोंको धारण करने
वाली पृथिवी होवै ॥ ३२ ॥ और नीली खेती और दूब घाससे प्रकाशित पृथिवी होवै पानीसे
मग्न हुये और नयेहुये नदीके किनारे होवै और इन्द्रगोप अर्थात् तीज नामवाले कीडोंकी
पंक्तियोंसे शोभित और पंक अर्थात् कीचडरूपी गहनोंसे विभूषित ऐसी पृथिवी होजावै ॥ ३३ ॥
और ऊपरको कर निकल आयेहुये आमके अंकुरोंवाले पर्वत हो जावै और वन प्रकाशित
होजावै और भैंरे तथा मोर मधुर शब्दको करै और वादलोंका शब्द होवै और सब जीव
बलको प्राप्त होजावै ॥ ३४ ॥ वनमें मोर बोलै और सरोवर पक्षियों करिकै रहित तथा पानीसे पूरि-
तहोजावै और हंस मानससरोवरमें आकै प्राप्त होजावै और कमल म्लानपनेको प्राप्त होजावै

और गर्जताहुआ मेघ और महेन्द्र करकै फटीहुई कंदरां वाली और खेतीसे आवृत और श्याम-
रूपवाली ऐसी पृथिवी प्रकाशित होजावै ऐसी वर्षाऋतु श्रेष्ठ होतीहै यह वायुको कोपित
करतीहै॥३५॥ और खेतियोंके कछुक गाभा तथा दृढपना उपजै और बहुतसी खेतीसे संयुक्त
और पानीसे पूर्ण ऐसी पृथिवी होवै और वारंवार शरदऋतुकेभी कछुक लक्षण मिलै ॥३६॥
और नदीमें नहीं पूरितहुये पानीसे उखाड़े हुये और गिरेहुये पत्तोंवाले ऐसे तटके वृक्ष होवै
और नाली झिरनोंके द्वारा दिशा दिशामें पानीको झिरावै ॥ ३७ ॥ और बहुत पानीको
धारनेवाले और बहुतसे शब्दको करनेवाले ऐसे मेघ होजावै और बहुतसे वृक्ष उपजै ऐसे
गुणोंसे संयुक्त वर्षाऋतु होतीहै ऐसा ऋतुओंको जाननेवालोंमें कहा है ॥ ३८ ॥ इस ऋतुमें
मनुष्योंके अतिशयसे वात कफका कोप होता है ऐसे कुशलवैद्य जानकै तिसकोपकी चिकि-
त्सा करै ॥ ३९ ॥ स्वेदन अर्थात् पसीनाका लाना—मर्दन अर्थात् शरीरको दावना—और
वातको नहीं सेवना—गौर वर्णकी स्त्रीसे रति करना—कसरत करना ये सब वात कफके कोप-
में श्रेष्ठ पथ्य है॥४०॥ चर्चरा—खटा—खारा ये रस सेवने वात कफको नाशते हैं निरूह और
वस्तिकर्म कफ और वातकी पीडाको नाशते हैं ॥ ४१ ॥

अथ शरदऋतुका लक्षण ॥

मेघाः सूर्यशिलासमानरुचयो अल्पस्रवालपस्वना हंसालीजलजालिम
ण्डितजलं पद्माकरं शोभनम्॥तीव्रस्निग्धमयूरवचन्द्रविमला सानन्दिनी
कौमुदी चित्रा घर्मविपक्वतोयसुरसा स्यान्निर्मलं पुष्करम् ॥ ४२ ॥ तत्र
शीतलगतं वयोगतं जातपित्तरुधिरस्य योग्यताम् ॥ पथ्यमत्र च नरस्य
शीतलं दृश्यते कथमपि त्रयोद्वयम् ॥ ४३ ॥ शृतं क्षीरं सिता पथ्यं च-
न्द्रिकासेवनं निशि ॥ श्यामारामारतं शस्तं प्रजाते निर्मलं दधि ॥ ४४ ॥
कामिन्यालिङ्गनानन्दश्रान्तः शीतसिरोरुहैः ॥ चंदनादीनि सेवेत दृष्टं
शरदि कोपनम् ॥ एवं प्रशमनं दृष्टं शरत्पित्तप्रकोपने ॥ ४५ ॥

अथ शरदऋतुका लक्षण और उपचार—सूर्य और शिलाके समान रुचिवाले और
अल्प झिरनेवाले और अल्प शब्दको करनेवाले ऐसे मेघ होजावै और हंसोंकी पंक्ति तथा
कमलोंकी पंक्ति तिसकरकै मंडित जलवाला और शोभित कमलोंका स्थान होजावै और
तीव्र तथा स्निग्धरूपी किरनोंवाले चंद्रमासे स्वच्छ और आनंदवाली और चित्ररूपवाली और
वपमसे पक्कहुये पानीसे सुरसरूप ऐसी चांदनी होवै और मलसे रहित पानी होवै ॥ ४२ ॥
जाती शरदऋतुमें आकाशका पानी और पित्तरक्तके योग्य पदार्थ और शीतल पदार्थ सेवसे

पथ्य है इसऋतुमें सन्निपातका कोप कदाचित् होता है ॥ ४३ ॥ घृत-दूध-मिश्री-रात्रीमें
पाँदकी चाँदनीको सेवना-श्यामरंगकी वाला स्त्रीसे भोग-प्रभातमें निर्मलदही ये सब शरदऋ-
तुमें पथ्य है ॥ ४४ ॥ स्त्रीके आलिंगनसे प्राप्तहुये आनंदसे श्रांतहुये पुरुष कमलोंकरकै अपने
प्रम दूर करै, और शरदऋतुमें पित्तका प्रकोप होनेसे चंदनादिकोंका लेप करै यह कमल-
पारण और चंदनानुलेपन शरदऋतुमें पित्तके प्रकोपका शमन कारीहै ऐसा देखा है ॥ ४५ ॥

अथ हेमन्तवर्णनम्

वद्भुशीतः समीरोऽल्पश्चाल्पवासरता ऋतौ ॥ अल्पतेजा दिवानाथो धूमा
क्रांताच्च दिग्भवेत् ॥ ४६ ॥ विस्तीर्णशालिकेदारा नीलधान्योज्ज्वला मही ॥
एवंगुणसमायुक्ता हेमन्ती स्म भवेद्भुतः ॥ ४७ ॥ तत्र वातकफा दोषा
दृश्यन्ते कुपिता भृशम् ॥ अग्निसंसेवनं पथ्यं कटुक्षाराम्लसेवनम् ॥ ४८ ॥
गौरारामारतं शस्तं व्माद्यामश्च प्रशस्यते ॥ एवं संशाम्घंति दोषाः कफवा
तसमुद्भवाः ॥ ४९ ॥ वलिनः शीतसंरोधा हेमन्ते प्रबलोऽनिलः ॥
भवत्यल्पेन्धनो धातून् स पचेद्वायुनेरितः ॥ ५० ॥ अतो हिमेऽ
स्मिन् सेवेत स्वाद्मल्लवणात्रसान् ॥ दीर्घानिशानामेताहिं प्रातरेव बु
भुक्षितः ॥ ५१ ॥ भवन्त्यकार्द्यं संभाव्य यथोक्तं शीलयेदनु
॥ ५२ ॥ अर्कन्धप्रोधरखदिरकरञ्जककुभादिकम् ॥ प्रातर्भुक्त्वा च मधुर
कपायकटुतिक्तकम् ॥ ५३ ॥

अथ हेमन्तऋतुका लक्षण और उपचार—बहुत शीतलवायु चलै अथवा वायु
अल्पचलै और दिनका समय थोडा होजायै और अल्प तेजवाला सूर्यरहै और धूमसे आकुलित
हुई दिशा होवै ॥ ४६ ॥ और विस्तारको प्राप्तहुये चावलके खेत होवै और नील तथा अन्न-
से प्रकाशित पृथिवी होवै ऐसे गुणोंसे संयुक्त हेमन्तऋतु होता है ॥ ४७ ॥ इस ऋतुमें
अतिशयसे कुपितहुये वात और कफ दीखते हैं इसमें अग्नि सेवना और चर्चरा-खारा-
खटा-इन्होंको सेवना पथ्य है ॥ ४८ ॥ गौरवर्णवाली स्त्रीसे भोग करना और
कसरत करना श्रेष्ठ है ऐसे कफवातसे उपजा दोष शांत होता है ॥ ४९ ॥ कितने-
क वैद्योंका मत—बलवाले मनुष्यके शीतको रोकनेसे हेमन्त ऋतु हो
जाताहै पीछे वायुसे प्रेरित किया यही वायु अल्प आह धा-
तुओंको पकाता है ॥ ५० ॥ इसवास्ते शीतकालमें स्वाद्, खटा, कटु, तिक्त, मीठोंको
सैव और हेमन्तऋतुमें बड़ी रात्रियोंके होनेसे प्रभातमेंही भोजन करनेकी मनु-

प्य हो जाता है ॥ ५१ ॥ इसवास्ते अकार्यकी संभावना करके यथोक्त द्रव्यका अभ्यास करे ॥ ५२ ॥ आक, वड, खैर, करंजुआ, अर्जुनवृक्ष इन आदिको प्रभातमें खाके पीछे मधुर, कसैला, चर्चरा, कडुआ इन रसोंको सेवे ॥ ५३ ॥

अथ शिशिरवर्णनम् ॥

बहुलशिशिरवातः किञ्चिदुद्धृतसस्या भवति त्रसुमतीयं पक्कशस्यैस्तु प
ता ॥ कथमपि तु हिमं स्याद्विद्वैशेषिकं वा पवनकफविकारो जाय
शैशिरे च ॥ ५४ ॥ गौरारामारतमतिशयेनारुणान्यम्बराणि सेव्यं तिक्तं
कटुकलवणं प्रायशो ह्यम्लमेव ॥ स्वेदोन्मर्दं प्रतिदिनमिदं कारयेद्यत्र स
म्यग् नाशं यातोऽनिलकफयदौ कास्ति तेषां प्रकोपः ॥ ५५ ॥

अथ शिशिरऋतुका लक्षण और उपचार—बहुत शीतल वायु चलै और पृथ्वीपर कछुक धान्य उत्पन्न हो और पकी हुई खेतीसे पीली पृथिवी होवै और जाडा पड़े और चिन्हकी विशेषता हो तिसको शिशिर ऋतु कहते हैं इसमें वात और कफके विकार उपजते हैं ॥ ५४ ॥ और इस ऋतुमें गौरवर्णवाली स्त्रीसे भोग करना और अतिशय करके छाल रंगके वस्त्रोंको पहनना और कडुआ, चर्चरा, सलोना ये रस सेवने चाहिये और वि-शेष करके खट्टा रस सेवना चाहिये और इस ऋतुमें पसीनाका लाना और मर्दन करना नित्यप्रती अच्छी तरह करना चाहिये ऐसे करनेसे वात और कफके रोग नाशको प्राप्त हो जाते हैं और तिनोंके प्रकोपकी कौन कथा है ॥ ५५ ॥

अथ वसंतर्तुवर्णनम् ॥

मुदितकोकिलकूजितकाननं मदनसूचितकिंशुकशोभितम् ॥ कुसुमसौरभं
रञ्जितभूधरं कणितमत्तमधुव्रतलालसम् ॥ ५६ ॥ मकरकेतनवाणसमा
कुलं मुदितमेव समस्तमिदं जगत् ॥ मलयमारुत उष्णगुणान्वितः क
फकरो हि वसन्तऋतुर्भवेत् ॥ ५७ ॥ कफजक्रोपविनारानलालनं वमन
नावनरूक्षनिषेवणम् ॥ ५८ ॥ विविधः सुरतानन्दः सम्भ्रमः कफवार
णः ॥ व्यायामश्रमसंरोधखिन्नविश्रान्तमानसः ॥ ५९ ॥ कटुक्षाराम्लाः
सेव्याश्च शोषणं कफसम्भवम् ॥ एवंक्रियासमापन्नो नरः शीघ्रं सुखी
भवेत् ॥ ६० ॥

अथ वसंतऋतुका लक्षण और उपचार—जहां आनंदित हुये कोयल पक्षी वनमें वोले और कामदेवको सूचित करते हुये केशके फूलोंसे शोभा हो और फूलोंके गंधसे रंजित पर्वत होवैं और जहां खेलते हुये और मदवाले भोरोंकी शोभाहो ॥ ५६ ॥ और कामदेवके बाणसे समाकुल और आनंदित जगत् होवै तिसको वसंतऋतु कहते हैं यह सुंदर वायुसे और उष्ण गुणसे अन्वितहुआ वसंतऋतु होता है यह कफको उपजाता है ॥ ५७ ॥ इस ऋतुमें वमन—नस्य—रूपापदार्थ—इन्होंको सेवना कफके कोपको नाशता है ॥ ५८ ॥ अनेक प्रकारसे कामदेवका आनंद और अच्छीतरह चलना फिरना कफको दूर करता है और इसऋतुमें कसरतका परिश्रमके रोकनेसे स्वेदित और श्रांतमनवाला मनुष्य सुखी रहता है ॥ ५९ ॥ और चर्चरा, खारा, खट्टा, ये रस सेवने चाहिये ये कफको शोषते हैं ऐसी क्रियाको प्राप्तहुआ मनुष्य शीघ्र सुखी होजाताहै ॥ ६० ॥

अथ ग्रीष्मवर्णन ॥

दीर्घवासरसंतीक्ष्णं ज्वालामालाकुलं जगत् ॥ दिशि दिशि मृगतृष्णा चो
प्यं भृशं भवेद्रजः ॥ ६१ ॥ नैऋतो मारुतो रूक्षः शीर्णपर्णा महीरुहः ॥
दग्धतृष्णाकुलारण्यं दावाग्निसङ्कुला दिशः ॥ ६२ ॥ एवं तु लक्ष्म ग्रीष्मस्य
पित्तरक्तमुदीर्यते ॥ तस्मात् क्रियाप्रतीकारं कुर्यात् संशमनं जिषक्
॥ ६३ ॥ जलक्रीडादिवानिद्रासेवनं सुखसाधनम् ॥ श्यामारामारतं शस्तं
किञ्चलकं कुञ्जशीतलम् ॥ ६४ ॥ नीलनालदलोपेतः श्रमघ्नो व्यजनानि
लः ॥ केतक्यामोदकुसुमं चन्दनोशीरशीतलैः ॥ ६५ ॥ लेपनं शीतलं
सम्यग्धाराराशयः पुनः ॥ एवंक्रियासमापन्नो ग्रीष्मे च सुखसङ्गमः
॥ ६६ ॥ इति आत्रेयभाषिते ऋतुचर्यानाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अथ ग्रीष्मऋतुका लक्षण और उपचार—बड़े दिन होवै और तीक्ष्ण होवै और गरमीके समूहसे जगत् व्याकुल होजावै और दिशा दिशमें मृगतृष्णा अर्थात् विनाहुआ जलसा प्रतीत होवै और अति गरमी और धूली उड़ै ॥ ६१ ॥ नैऋतदिशाका रूपा वायु चलै—और वृक्षोंके पत्ते उडजावै और दग्धहुये तृणोंके समूहसे व्याप्तवन होवै और दावाग्निसे संकुलित दिशा होजावै ॥ ६२ ॥ तिसको ग्रीष्मऋतु कहते हैं इसमें पित्त और रक्त बढ़ता है तिसवास्ते वैद्य रक्तपित्तको शमन करनेवाली क्रियाको करै ॥ ६३ ॥ इस ऋतुमें जलक्रीडा दिनमें शयन करना श्यामवर्णवाली स्त्रीसे भोग करना और कछुक शीतल वस्तुको सेवना ये पथ्य है ॥ ६४ ॥ नीले कमलके पत्तोंसे संयुक्तहुये पंखेकी पवन ग्रीष्मके परिश्रमको

हरता है और केतकीके तिलेहुये फूल, सफेद चंदन, खस, शीतलचीज, इन्हों करके ॥६५॥ अच्छीतरह लेप करना और फुहाराके स्थानमें वसना ऐसे क्रियाको प्राप्तहुआ मनुष्य ग्रीष्म-ऋतुमें सुखी रहता है ॥ ६६ ॥ इति वेरीनिवासिविषयशिवसहायस्तुवैद्यरविदत्तशास्त्रिअनुवा-दितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने ऋतुचर्यानाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ॥

अथातो वयोज्ञानं वक्ष्यते ॥

वयश्चतुर्विधं प्रोक्तमुत्तमाधममध्यमम् ॥ हीनं चातुर्थिकं प्रोक्तं तानि वक्ष्यामि साम्प्रतम् ॥ १ ॥ बालं युवानं वृद्धं च मध्यमं च तथैव च ॥ चतुर्विधं वयः सम्यक् तत्समासेन वक्ष्यते ॥ २ ॥

इसके अनंतर वय अर्थात् अवस्थाके ज्ञानको कहेंगे—अवस्था चार प्रकारसे कही है उत्तम, अधम, मध्यम, हीन, ऐसे तिन्होंको अब कहताहूँ ॥ १ ॥ बालक, जुवान, वृद्ध, मध्यम, ऐसे चार प्रकारकी अवस्था हैं तिसको विस्तारसे कहताहूँ ॥ २ ॥

मध्यमवयोलक्षणम्

पथि श्रान्तं श्रमक्षीणं बालस्त्री सुकुमारकम् ॥

एतेषां मध्यमा संज्ञा प्रोच्यते वैद्यकागमे ॥ ३ ॥

रस्तामें श्रांतहुआ और श्रमसे क्षीणहुआ, बालक, स्त्री, सुकुमार अर्थात् कोमल मनुष्य, इन्होंकी वैद्यकशास्त्रमें मध्यम संज्ञा कही है ॥ ३ ॥

आषोडशाद्भवेद्बालः पञ्चविंशो युवा नरः ॥ मध्यमं सप्ततिथ्यावत्परतो वृद्ध उच्यते ॥ ४ ॥ तथा च सुकुमारश्चेत्येते मध्यमसंज्ञकाः ॥ वयसः षोडशाधिक्यं समयश्च भवेत्तु यः ॥ ५ ॥ आविंशति समाः प्राप्नो यथा च कशदेहवान् ॥ पूर्णं वयः स्त्रियः प्राप्ता मध्यमे चाधमं वयः ॥ ६ ॥

सोलहवर्षतक बालक अवस्था होती है पच्चीस वर्षतक जुवान अवस्था होती है सत्तर-वर्षतक मध्य अवस्था होती है इस्से पर वृद्ध अवस्था है ॥४॥ये तीन और सुकुमार ये सब, मध्यमसंज्ञक हैं तिसको सोलहवर्षसे अधिक जो समय प्राप्त होवै ॥५॥ और बीशवर्षतक और

जैसे लश देहवाला होता है वैसेही रहै और जो सुकुमार स्त्री पूर्णअवस्थातक ऐसीही रहै यह मध्यम अवस्थामें अधम अवस्था कहाती है ॥ ६ ॥

पञ्चविंशत्समादूर्द्धमापञ्चाशद्गतः पुमान् ॥ कर्मकठोरा वनिता दृश्यते चोत्तमं वयः ॥ ७ ॥ सप्तविंशत्समादूर्द्धमपञ्चाशत्संयुताः समाः ॥ बालवृद्धिस्तथा यस्य इत्येतदुत्तमं वयः ॥ ८ ॥

पच्चीसवर्षसे उपरंत और पचाशवर्षतक और क्रियामें कठोर पुरुष और स्त्री रहते है यह उत्तम अवस्था दीखती है ॥ ७ ॥ सत्ताईस वर्षसे उपरंत और पचाशवर्षतक जिस मनुष्यके वालोंकी वृद्धिहोवे यहभी उत्तम अवस्था है ॥ ८ ॥

स्थूलोऽतिदीर्घकठिनस्तथा स्त्री बृहदौदरा ॥

इत्युत्तमो ऽवयववाञ्छातव्यश्चोत्तमोत्तमः ॥ ९ ॥

स्थूल-अतिलंबा-कठोर-ऐसा पुरुष होवै और बडे पेटवाली स्त्री होवै ऐसे उत्तम अवयवों-वाला मनुष्य होता है यह उत्तमोत्तम मनुष्य जानना ॥ ९ ॥

षष्ठ्यूर्द्धमशीतिसमाः प्राप्तं हीनबलं वयः ॥

तदूर्द्धं हीनहीनश्च विज्ञेयो वयसः क्रमः ॥ १० ॥

साठवर्षसे उपरंत अस्सावर्षतक हीनबल अवस्था होती है और अस्सीवर्षसे उपरंत हीनसेभी हीन अवस्था होती है ऐसे अवस्थाका क्रम जानना चाहिये ॥ १० ॥

क्षीणाध्वश्रान्तसंखिन्नस्तथा रोगानुपीडितः ॥

रूक्षश्चातिक्रशो ज्ञेयो बालसात्म्यमुदाहृतम् ॥ ११ ॥

क्षीण-मार्गमें श्रान्तहुआ खेदको प्राप्तहुआ-रोगसे पीडित हुआ-रूपा-अति लश-ये मनुष्य बालककी प्रकृतिके समान प्रकृतिवाले होते हैं ॥ ११ ॥

सुकुमारोऽतिभीरुश्च मध्यकायस्त्रियोपि वा ॥

मध्यसात्म्योऽपि विज्ञेयो मध्यमो वयसात्म्यकः ॥ १२ ॥

कोमल शरीरवाला-अति डरनेवाला-मध्य शरीरवाला-स्त्री-मध्य प्रकृतिवाला-ऐसा मनुष्य मध्य अवस्थावाला जानना ॥ १२ ॥

पञ्चवर्षा स्मृता बाला मुग्धा च षट्समावधिम् ॥ द्वादशाब्दं स्मृता बाला मुग्धा स्यात्सप्तमावधिम् ॥ १३ ॥ प्रौढा च नववर्षाणि प्रगल्भा च त्रयोदश ॥ चतुर्विंशद्वर्षादूर्द्धं सप्तत्रिंशतिमध्यगाः ॥ पूर्णं वयःस्त्रियः प्राप्ता इत्येतदुत्तमं वयः ॥ १४ ॥

पांच वर्षकी स्त्री बालक कहाती है और पीचसे आगे छः वर्षतक स्त्री मुग्धा कहाती है अथवा बारह वर्षकी स्त्री बाला कहाती है और बारहवर्षके आगे सात वर्षसे लगायत स्त्री-मुग्धा कहाती है ॥ १३ ॥ तिसके पीछे नव वर्षतक स्त्री प्रौढा कहाती है और तिसके पीछे तेरह वर्षतककी स्त्री प्रगल्भा कहाती है, और इतनेवयके बीचमेंही और चौबीसवर्षसे उपरंत सैंतीस-वर्षतक मध्य अवस्थाकी स्त्री पूर्ण अवस्थाको प्राप्त होती है यह उन्हींकी उत्तम अवस्था है

अथ प्रकृतीका ज्ञान ॥

मध्यसात्म्यश्च स्थूलः स्याद्वलवान् सत्त्ववान्तरः ॥

सचाऽप्युत्तमसात्म्यः स्याद्वलवत्समुपाचरेत् ॥ १५ ॥

मध्य प्रकृतिवालाहो और स्थूलहो बलवालाहो सत्ववालाहो ऐसाभी मनुष्य उत्तम प्रकृतिवाला होता है पीछे यह मनुष्य अच्छे २ उपचार करे ॥ १५ ॥

अथ वातादिप्रकृतयः ॥

अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रकृतिज्ञानमुत्तमम् ॥

वातिकं पैत्तिकं चैव श्लैष्मिकं सान्निपातिकम् ॥ १६ ॥

इसके अनंतर उत्तमरूपी प्रकृतिज्ञानको कहताहूं वातिक अर्थात् वातकी प्रकृति पैत्तिक अर्थात् पित्तकी प्रकृति श्लैष्मिक अर्थात् कफकी प्रकृति सान्निपातिक अर्थात् सन्निपातकी प्रकृति ऐसे है ॥ १६ ॥

अथ वातप्रकृतिलक्षणम् ॥

यः कृष्णवर्णश्चपलोऽतिसूक्ष्मः केशाल्परूक्षो बलवान् क्षमः स्यात् ॥
सूक्ष्मातिदन्तो नखवृद्धिमेति दीर्घस्वनश्चङ्क्रमणक्षमोऽसौ ॥ १७ ॥ दीर्घा
क्रमो लोलुपहीनसत्त्वस्तथैव चाम्लीरसभोजनेच्छुः ॥ संस्वेदनेनातिविमर्द
नेन सौख्यं समागच्छति वातलो नरः ॥ १८ ॥

अथ वातकी प्रकृतिका लक्षण—जो कृष्णवर्णवालाहो चपलहो अतिरूक्ष शरीरवाला हो अल्पवालोंवालाहो रूपाहो बलवालाहो समर्थहो अतिसूक्ष्म दंतोंवालाहो और नखोंकी वृद्धिको प्राप्त होवे बड़ा और लंबा बोलनेवालाहो चलनेफिरनेमें समर्थ हो ॥ १७ ॥ और बहुत कूदनेवालाहो लोभीहो सत्वसे वर्जितहो और खटे रसको खानेकी इच्छावालाहो और अच्छीतरह पसीना देनेसे तथा मर्दन करनेसे सुखको प्राप्त होवे ऐसा मनुष्य वात-

ला ॥ १८ ॥

अथ पित्तप्रकृतिलक्षणम् ॥

गौरातिपिङ्गः सुकुमारमूर्त्तिः प्रीतः सुशीतो मधुपिङ्गनेत्रः ॥ तीक्ष्णोऽपि
कोऽपि क्षणभङ्गुरश्च त्रासी मृदुर्गात्रमलोमकं स्यात् ॥ १९ ॥ गौल्य
प्रियस्तिक्तरसानुभोजी द्वेषी च तीक्ष्णे च नवोष्णसेवी ॥ स्तुतिप्रियो द
न्तविशुद्धवर्णो जातः सपित्तप्रकृतिर्मनुष्यः ॥ २० ॥

अथ पित्तकी प्रकृतिका लक्षण—गौरवर्णवालाहो अति पिंगवर्णसे संयुक्तहो और सुकु-
मार मूर्तिवालाहो प्रीतिवालाहो शीतल पदार्थको चाहनेवालाहो मधुसरीखे तथा पिंगवर्णके
नेत्रोंवालाहो तेज स्वभाववालाहो और कोईक क्षणभंगुरभीहो उद्वेगसे संयुक्तहो कोमलहो
शरीरमें केश बहोतनहीं हो ॥ १९ ॥ और चंचलपनेमें प्रियता करनेवाला हो कडुआ रसको
खानेवालाहो वैर करनेवालाहो तेजसे संयुक्तहो नवीन और गर्म वस्तुको सेवनेवालाहो अप-
नी स्तुतिको चाहनेवालाहो दंतोंसे विशेष करके शुद्धवर्णवालाहो ऐसा मनुष्य पित्तकी प्रकृ-
तिवाला होता है ॥ २० ॥

अथ कफप्रकृतिलक्षणम् ॥

सुस्निग्धवर्णः सितनेत्रनृत्तः श्यामः सुकेशो नखदीर्घरोमा ॥ गम्भीरशब्दः
श्रुतशास्त्रनिद्रातन्द्राप्रियश्चित्तकटूष्णभोजी ॥ २१ ॥ स मांसलः स्नि
ग्धरसप्रियश्च सगीतवाद्योऽतिसहिष्णुशीतः ॥ व्यायामशीलो रतलाल
सोऽसौ भवेत् कफस्य प्रकृतिर्मनुष्यः ॥ २२ ॥

अथ कफकी प्रकृतिका लक्षण—सुंदर स्निग्ध वर्णवालाहो और सपेद नेत्रोंसे तृप्तहो
श्यामवर्णवालाहो सुंदर वालोंवालाहो लंबे नख और रोमोंसे संयुक्तहो गंभीर बोलनेवालाहो
और वेद, शास्त्र, नींद, तंद्रा, इन्होंमें प्यार करमेवालाहो कडुआ और चर्चराको भोजन
करनेवालाहो ॥ २१ ॥ और मोटाहो स्निग्धरसको चाहनेवालाहो गीत और वाजेको पसंद
करनेवालाहो अतिसहनेमें शीलस्वभाववालाहो कसरतको करनेवालाहो विषयभोगमें
इच्छावालाहो ऐसा मनुष्य कफकी प्रकृतिवाला होता है ॥ २२ ॥

अथ समप्रकृतिलक्षणम् ॥

संमिश्रवर्णोऽतिसुदीप्तगात्रो गम्भीरधीरोऽतिविदीर्णरोमा ॥

रामाप्रियो आरसहोऽतिमिश्रो भोगेन युक्तः समता प्रकृत्याः ॥ २३ ॥

कई प्रकारसे मिलेहुये वर्णवाला और अतिसुंदर प्रकाशित आंगोंवाला और गंभीरप-

नेमें धीर और अति विदारितहुये रोमोंवाला और स्त्रीसे प्यार करनेवाला और भार अर्थात् बोझाको सहनेवाला और सब लक्षणोंसे अति मिलाहुआ और भोगको भोगनेवाला ऐसा मनुष्य समप्रकृतिवाला होता है ॥ २३ ॥

अथ दिशाभेदेन वातगुणदोषाः ॥

पूर्वदिशाका वायु ॥

अथान्तरं वच्मि मरुत्प्रवाहं पूर्वं तथा पश्चिमदक्षिणोत्तरम् ॥ तेषां गुणा न् दोषविकोपनं च पृथक्पृथक्के . गदतः शृणु त्वम् ॥ २४ ॥ शीतोऽति माधुर्यगुणः प्रयुक्तो वातप्रकोपी बलकृद्विशेषात् ॥ वाताधिकानां व्रण शोफिनाश्च प्राचीप्रवृत्तः पवनो न शस्तः ॥ २५ ॥

अथ आठ दिशाओंमें प्रवृत्तहुआ वायुके गुणदोषवर्णन—इसके अनंतर वायुके प्रवाहको कहताहूं पूर्व—पश्चिम—दक्षिण—उत्तर—इनदिशाओंके वायुके गुण—दोष—कोप—इन्हेंको कहतेहुये मेरेसे पृथक् २ सुन ॥ २४ ॥ शीतल स्वभाववाला और अतिमधुरपनाके गुणोंसे युक्त और वातको कोपनेवाला और विशेष करके बलको करनेवाला ऐसा पूर्वदिशाका वायु है यह वातकी अधिकतावालोंको और घावपै शोजावालोंको श्रेष्ठ नहीं है २५

आग्नेयदिशाका वायु ॥

किञ्चित्सत्तिको मधुरान्वितः स्यात् कफः समीरोद्भवरोगकारी ॥

सुशीतलः शोफवतां व्रणानां शस्तो न चाग्नेयसमीरणश्च ॥ २६ ॥

कछुक कडुआहो मधुररससे अन्वित है कफ और वातसे उपजे रोगोंका करताहै मुंदर शीतल है शोजावाले घावोंको अच्छा नहीं है ऐसा अग्निदिशाका वायु है ॥ २६ ॥

दक्षिणदिशाका वायु ॥

तिक्तः कषायो मधुरातिमन्दः सुगन्धसंशीतगुणैः प्रकृष्टः ॥ वदन्ति संज्ञां

मलयानिलेति प्रकृष्टरामाजनचित्तहारी ॥ २७ ॥ मनोभवस्य प्रकारो

मरुत्स्यात्कफोद्भवः सम्भवति प्रचारः ॥ न चातिशीतो न तथोष्णको

वा शुभश्च याम्यां प्रभवः समीरः ॥ २८ ॥

कडुआ हो कसैलाहो मधुररससे अतिमंद है और सुगंध तथा शीतल गुणोंकरके संयुक्तहो और मलयानिलसंज्ञावालाहो यह स्त्रियोंके चित्तको हरता है ॥२७॥ और कामदेवको जगानाहो कफके रोगोंको करताहो और अतिशीतल नहीं हो और अतिगर्म नहीं हो और शुभ हो ऐसा दक्षिणदिशाका वायु है ॥ २८ ॥

नैऋत्यदिशाका वायु ॥

रूक्षोष्णवातः प्रथमः समीरः कटुम्लपित्तासृजि दोषकारी ॥

प्रशोषणो देहबलस्य वायुः कफान्वितो नैऋतिकः समीरः ॥ २९ ॥

रूषाहो और गर्मवायुसे संयुक्तहो और वायुको शांत करताहो और कटु, अम्ल, पित्त, रक्त, इन्होंने दोषको करताहो और देहके बलको शोषनेवालाहो और कफसे अन्वितहो ऐसा नैऋतदिशाका वायु होता है ॥ २९ ॥

पश्चिमदिशाका वायु ॥

अथातिसूक्ष्मो मरुतः प्रशस्तो नूनं प्रतीच्यास्तु दिशः प्रवृत्तः ॥

वायुस्तथोदीरति रक्तपित्तं शस्तो ब्रणानां कफशोफिनां वा ॥ ३० ॥

पश्चिमदिशाका अतिसूक्ष्म वायु श्रेष्ठ है और दक्षिणदिशाका वायु रक्तपित्तको बढ़ाता है यह वायु घाववालोंको और कफसे उपजे शोषेवालोंको श्रेष्ठ है ॥ ३० ॥

वायव्यदिशाका वायु ॥

वायव्यजातो मरुतः प्रशस्तः कषायसंशुष्कगुणप्रसन्नः ॥

करोति वातस्य वशं नराणां शस्तो न निन्द्यो ब्रणशोफिनाश्च ॥ ३१ ॥

वायव्यदिशाका वायु श्रेष्ठ है कसैला और अति सूखा गुणसे संपन्न है और मनुष्योंको हवाके वशमें करता है और घावपै शोषावालोंको श्रेष्ठ है और निन्दित नहीं है ॥ ३१ ॥

उत्तरदिशाका वायु ॥

स्वादुः कषायश्च कफप्रकोपी वायुः कुबेरस्य दिशः प्रवृत्तः ॥

करोति मेघागमनं जलस्य शीतो न चोष्णो न च निन्द्य एषः ॥ ३२ ॥

उत्तर दिशाका वायु सजल मेघको लाता है शीतल है गर्म नहीं है कसैला है स्वादु है कफको कोपता है यह निन्दके योग्य नहीं है ॥ ३२ ॥

ऐशानदिशाका वायु ॥

शीतोतिगौल्यः कफवातकोपं करोति चैशानदिशः प्रवृत्तः ॥

शस्तश्च नासौ ब्रणशोफकासिनां क्षमस्तथा श्वासविकारिणाश्च ॥ ३३ ॥

ईशान दिशाका वायु शीतलहै चंचल है कफ और वातके कोपको करता है और घाव-शोषा-सांसी-क्षय-श्वास रोग-इनविकारवालोंको अच्छा नहीं है ॥ ३३ ॥

अन्यपंचविधवायुगुणः ॥

वस्त्रं नानाविधं चर्म वैणवं तालव्यजनम् ॥

उशीरं शिखिपिच्छन्तु प्रत्येकेन गुणोत्तमाः ॥ ३४ ॥

अथ वस्त्रादिके वायुका गुणदोषकथन—अनेक प्रकारका वस्त्र, चाम, वांसका पंखा, ताडका पंखा, खसकी दटी अथवा पंखा, मोरके पंखोंका पंखा, ये सब हवाके करनेमें एक एक करके गुणोंमें उत्तम है ॥ ३४ ॥

वस्त्रवायुगुणः ॥

वस्त्रप्रवृत्तो मरुतो न शस्तो व्रणशोफिनाम् ॥ रक्तवासःसमुत्पन्नं विशेषेण तु वर्जयेत् ॥ ३५ ॥ करोति कफरक्तस्य कोपनं बहुरोगकृत् ॥ श्रमग्लानिपि पासासु तन्द्रानिद्राकरो भृशम् ॥ ३६ ॥

वस्त्रकी हवा घावपै शोभावालेको अच्छी नहीं है और लाल वस्त्रसे उपजी हुई हवाको विशेष करके त्यागो ॥ ३५ ॥ क्योंकि लाल वस्त्रकी हवा कफ रक्तको कुपित करती है और बहुतसे रोगोंको उपजाती है और परिश्रम ग्लानि-पिपासा-तंद्रा-नींद-इन्होंको अति करती है ॥ ३६ ॥

वेणुवायुगुणः ॥

वैणवं व्यजनं तन्द्रानिद्राकरणमेव च ॥ रूक्षोऽतिकषायरसो न च वात प्रकोपनः ॥ ३७ ॥

वांसका पंखा तंद्रा और नींदको करता है रूखा है अतिकसैला रसवाला है और वातको कोपित नहीं करता है ॥ ३७ ॥

कांस्यपात्रवायुगुणः ॥

कांस्यपात्रमरुद्रूक्षः सोष्णो वातस्य शान्तिकृत् ॥ दाहश्रमघ्नः स्वेदघ्नो निद्रासौख्यकरो नृणाम् ॥ ३८ ॥

कांस्यपात्रकी हवा रूखी है गर्म है वातको शांत करती है दाह और श्रमको हरती है और मनुष्योंके नींद और सुखको करती है ॥ ३८ ॥

तालपत्रवायुगुणः ॥

तालपत्रकरम्भाया दलस्य व्यजनो हिमः ॥ मधुरोऽतिश्रमघ्नः स्यादाद्र्-त्वात्कफकोपनः ॥ ३९ ॥ निद्राकरः प्रीतिकरः शोकरोगविक्रारहा ॥ दाहपित्तश्रमग्लानिनाशनो भ्रमशान्तिकृत् ॥ ४० ॥

ताडका पत्ता और केलाका पत्ताका पंखाकी हवा शीतल है मधुर है । भ्रमको हरती है और गीलेपनेसे कफको कोपती है ॥ ३९ ॥ और नींदको करती है प्रीतिको करती है शोक, रोग, विकार इन्होंको नाशती है और दाह, पित्त, परिश्रम, ग्लानि, इन्होंको नाशती है और भ्रमकी शांतिको करती है ॥ ४० ॥

व्यजनवायुगुणः ॥

उशीरमूलरचितं व्यजनं शिखिपिच्छकैः ॥ व्यजनेन सुगन्धः स्थान्म
न्दशीतगुणात्मकः ॥ ४१ ॥ ग्लानिमूर्च्छाभ्रमशोषविसर्पविषद्वर्षा ॥ इति
पञ्चविधो वायुरुपायेन कृतो नृणाम् ॥ ४२ ॥

खसकी जडसे और मोरके पंखोंसे रचाहुआ पंखाकी हवा सुगंधको देती हैं कछुक शीत गुणवाली है ॥ ४१ ॥ और ग्लानि-मूर्च्छा-भ्रम-शोष-विसर्प-विष-इन्होंको नाशती है ऐसे मनुष्योंके लिये उपायसे कियाहुआ वायु पांचप्रकारका है ॥ ४२ ॥

षड्दतुओंमें वायुदिशा ॥

शिशिरे पूर्वकृद्वायुराग्नेयो हेमन्ते मरुत् ॥ वसन्ते दक्षिणो वायुर्ग्रीष्मे नै
र्ऋत्यकस्तथा ॥ ४३ ॥ वर्षासु पश्चिमो वायुर्वायव्यः शरदि स्मृतः ॥
शिशिरे च हेमन्ते च कथितश्चोत्तरोऽनिलः ॥ ४४ ॥

शिशिर अर्थात् माघ फाल्गुनमें पूर्वका वायु अच्छा है हेमन्त अर्थात् मृगशिर पौषमें अ-
ग्निदिशाका वायु अच्छा है वसन्त अर्थात् चैत्र वैशाखमें दक्षिणका वायु अच्छा है ग्रीष्म
अर्थात् ज्येष्ठ आषाढमें नैर्ऋतका वायु अच्छा है ॥ ४३ ॥ वर्षा अर्थात् श्रावण भाद्रपदमें
पश्चिमका वायु अच्छा है शरद अर्थात् आश्विन कार्तिकमें वायव्यदिशाका वायु अच्छा है
शिशिर और वसन्तऋतुमें उत्तरका वायुभी अच्छा है ॥ ४४ ॥

दिनमें षड्दतुओंके उपचार ॥

अपराह्णे वर्षा वदन्ति निपुणास्तस्मिन्निशीथे शरत् प्रोक्तः शैशिरिकस्त
तो हिमऋतुः सूर्योदयादग्रतः ॥ मध्याह्ने च तथा वदन्ति निपुणा ग्रीष्मो
ऋतुः स्यात्ततो वासन्तः कथितो ऋतुस्तु मुनिभिः पूर्वापराह्णे सदा ॥ ४५ ॥

दिनके तीसरे पहरमें वर्षाऋतु होता है अर्द्ध रात्रिमें शरदऋतु होता है और आधी-
रातके पीछे शिशिर ऋतु होता है सूर्यके उदयके समय हेमन्तऋतु होता है दुपहरके स-
ग्रीष्मऋतु होता है दिनके पूर्वभागमें वसन्तऋतु होता है ॥ ४५ ॥

अथ सविषवायुः ॥

कार्तिके मार्गशीर्षे वा माघे चाषाढसंज्ञके ॥

ऋतुसन्धौ च हेमन्ते सविषः स्यात्तु मारुतः ॥ ४६ ॥

कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, आषाढ, इन्हेंमें, और छःऋतुओंके संधिमें तथा हेमंतऋतुमें वायु सविष होता है ॥ ४६ ॥

स यस्मिन्नगरे देशे ग्रामे वा नगरेऽपि वा ॥ संस्पृशेद्भुत्वणो वायुर्गोमनु
ष्येभवाजिनाम् ॥ ४७ ॥ तिलकं गोषु जानीयाद्यक्षमाणं मानुषेषु च ॥
गजेषु पावकं विद्याद्भयानां वेद्य उच्यते ॥ ४८ ॥

जिस नगरमें जिस देशमें अथवा जिस गाममें दारुणरूप विगडाहुआ वायु जब गाय-
मनुष्य-हस्ती-घोडा-इन्हेंको छुहता है ॥ ४७ ॥ तब गायोंमें तिलक उपजता है और
मनुष्योंमें राजरोग उपजता है और हस्तियोंमें पावक अर्थात् अग्नि उपजता है और घोड़ोंमें
पीडा उपजती है ॥ ४८ ॥

रक्षणीयं गजे पित्तं श्लेष्मा वाजिषु सर्वदा ॥

पवनोऽयं मनुष्याणां प्रायो रक्षेत सर्वदा ॥ ४९ ॥

कुशल वैद्यनै हस्तीमें पित्तकी रक्षा करनी और घोड़ोंमें सबकाल कफकी रक्षा करनी
और सबकालमें विशेष करके मनुष्योंमें वायुकी रक्षा करनी ॥ ४९ ॥

अथ दोषोंके वायुकोपका उपशम ॥

वर्षावायुः कुप्यतेऽन्तःशरत्सु लीनो वायुः कुप्यते पित्तरोगे ॥ लीयेत्पि
त्तं शैशिरे श्लेष्मकुञ्जे हेमन्ते वा चीयमानस्तथापि ॥ ५० ॥ कोपं या
ति श्लेष्मरोगो वसन्ते तस्माच्छान्तिः श्लेष्मरोगस्य चोष्णे ॥ पित्तं याया
त्कोपितां ग्रीष्मकाले दृष्टा शान्तिः पैत्तिकी वार्षिके च ॥ ५१ ॥

वर्षाऋतुमें वायु कोपता है और शरदऋतुमें पित्तरोगमें भीतर कुपितहुआ कुपित होताहै
शिशिरऋतुमें कफके समूहमें पित्त लीन हो जाता है अथवा हेमंतऋतुमें संचितहुआ पित्त शि-
शिरऋतुमें लीन हो जाता है ॥ ५० ॥ वसंतऋतुमें कफका रोग कोपको प्राप्त होता है
त्वोत्क्षेपे गर्मसमयमें कफके रोगकी शांति होती है और ग्रीष्मऋतुमें पित्त कोपको प्राप्त
और वर्षाऋतुमें पित्तकी शांति देती है ॥ ५१ ॥

अथ वायुका कोप ॥

अधोवातमूत्रपुरीषस्य रोधात् कषायातिशीतान्निशाजागरेषु ॥ व्यव्यायेऽ
थवाहःश्रमाद्वातिभुक्त्याध्वनि प्रायशो भाषणेनातिभीत्या ॥ ५२ ॥ विरू
क्षैरतिक्षारतिकैः कटूभिस्तथा यानदोलाश्वकोष्टे रथे वा ॥ खरे कुञ्जरे म
न्दिरारोहणेनोपवासे भवेन्मारुतस्य प्रकोपः ॥ ५३ ॥ शीते दिने दुर्दिने
स्नानपीतेऽपराह्णे निशाजागरे वासरे वा ॥ वर्षासु वै केवलं याति कोपं
मरुत्सेवितो याति भुक्तस्य जीर्णम् ॥ ५४ ॥ मसूराः कलायाश्च निष्पा
वकाश्च महाभाषशुभ्रा यवाश्चामलाः स्युः ॥ महाचावलाः कृष्णाकान्या
प्रदिष्टा हिमाः कङ्कुनीवाररक्ताश्च शाल्यः ॥ ५५ ॥ तथा कोरदूषकः श्यामा
क एतैः कृतं चौदनं वा यवागूशृतं वा ॥ कलिङ्गानि वास्तूकचिह्लीकपूती
पलाण्डुस्तथा गृजनं कन्दशाकम् ॥ ५६ ॥ इमान् सेवितात्यर्थमेति प्र
कोपं समीरस्य चोक्तः सुरासम्भवस्तु ॥ ततो यत्नतो रक्षणीयं मनुष्यैः
शुभं चेहसे त्वं सदा रोगशान्तिम् ॥ ५७ ॥

अधोवात—मूत्र—विष्ठा—थूकआदिके रोकनेसे कसैला और शीतल पदार्थको सेवनेसे
और रात्रिमें जागनेसे मैथुनके करनेसे नित्यप्रति श्रम करनेसे अति भोजनको खानेसे और
मार्गमें अति चलनेसे ज्यादै बोलनेसे अति भयसे ॥ ५२ ॥ और रूपै पदार्थसे और
अत्यंतसर—कहुआ—चर्चरा—इन्होंने और डोला अर्थात् पिन्स—घोडा, ऊँठ, रथ, गधा,
हस्ती इन्होंने चढनेसे अथवा स्थानमेंही रहनेसे वायुका प्रकोप होता है ॥ ५३ ॥ और
शीतल दिनमें और मेघआदिसे आच्छादितहुये दुर्दिनमें और दुपहरके पीछे स्नान करनेसे
तथा प्रथम पान करनेसे और रात्रिके जागनेमें और वर्षाऋतुमें दिनमें वायु कोपको
प्राप्त होता है और सेवित किया वायु कियेहुये भोजनको जराता है ॥ ५४ ॥
मसूर, मठर, मोठ, चौला, जुवार, जव, मोठेचावल, कृष्णअन्न, लालअन्न, कांगनी, नीवार
धान्य, लालअन्न, तूरीअन्न, ॥ ५५ ॥ कोदूअन्न, शामक, किर्त ॥ चावल अर्थात् सैई—
गुडयाणीमें बनाये चावल—इंद्रजव—थुवा,—चाकवत अर्थात् वथु वैर विशेष, प्याज, गाजर,
कंदशाक ॥ ५६ ॥ इन्होंनेको ज्यादै सेवनेसे वायुका प्रकोप होता है इसवास्ते मनुष्यों
जतनसे वायुकी रक्षा करनी और हे पुत्र! जो तू सब कालमें शुभ और रोगकी र
चाहता है वायुकी रक्षा करता रह ॥ ५७ ॥

अथ पित्तप्रकोपनिदानम् ॥

अत्युष्णकटुम्लरूक्षैर्विदाहे ससीन्धूसुरासेवनेनोपवासैः॥घर्मेण क्रोधेन वा स्वेदनेन व्यव्रायेन वा याति कोपञ्च पित्तम्॥५८॥कुलित्थाढकीयूपमूला कशियुशठीसर्षपाराजिकाशाकमेव ॥ निशाजागरेणापि युद्धे श्रमे वा घनान्ते शरत्सु प्रकोपः प्रदिष्टः ॥५९॥ अम्लेन वापि चोष्णकाले शरत्सु भृशं वासरे मध्यमे वा निशीथे ॥ जीर्णे रसे भुक्तमात्रे प्रकोपः प्रदिष्टो विद्वैः कोविदैः पैत्तिकः स्यात् ॥ ६० ॥

अतिगर्म, चर्चरा, खट्टा, रूपा, इन्होंको सेवनेसे और दाहमें सेंधानमकसहित मदिराको सेवनेसे गर्मीमें और क्रोधमें पसीने और भोग करनेसे पित्त कोपको प्राप्त होता है ॥ ५८ ॥ कुलथी, और अरहरका यूप और मूली, सहैजना, कचूर, सरसों, राई, इन्होंका शाक अथवा इन्होंसे संयुक्त शाकको खाना और वर्षाऋतुमें रात्रिका जागना युद्ध करना—परिश्रम करना—इन्होंसे शरदऋतुमें पित्त कोपको प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ खट्टे पदार्थसे और गर्मसमयमें और अतिशय करके दिनके मध्यभागमें और अर्ध रात्रिमें और जीर्णरसको खानेसे शरदऋतुमें पित्तका प्रकोप होता है ॥ ६० ॥

अथ कफप्रकोपनिदानम्॥

निशाजागरे वासरे वातिनिद्रा सुशीतोदसंसेवने शीतले वा ॥ पथःपान पीयूषमिक्षुस्तिलैस्तु तथा गृञ्जनैः कन्दशाकैरथापि ॥ ६१ ॥ सदा से वितैर्वास्तुकैश्चाणुमत्स्यैर्दधिपिच्छिलैर्माषमद्यैर्गुरुभिः ॥ अतिस्निग्धसं सेवनैर्भोजनेषु प्रदिष्टः कफस्य प्रकोपो वसन्ते ॥ ६२ ॥ दिनान्ते प्रभां ते निशान्ते नरस्य प्रकोपः प्रदिष्टोपि भुङ्क्ते न जीर्णे ॥ प्रदिष्टो बुधैः को विद्वैरेव रोगः कण्ठोत्पत्तिं जानीहि कष्टप्रयुक्ताम् ॥ ६३ ॥ सशीतेऽथवा शीतकाले निशागरे नरस्य प्रकोपः प्रदिष्टोऽपि भुङ्क्तेः ॥ न जीर्णे प्रदिष्टो बुधै रोगवेगो निप्रता कफस्येति चोक्तं सुधीभिः ॥६४॥

रात्रिमें जागनेसे अर्धदिनमें अति शयन करनेसे और सुंदर शीतल पानीको तथा तिल देशको सेवनेसे और दूध—नवीन व्याई गायका दूध—ईख—तिल, गाजर, कंदशाक त्वांशु सेवनेसे ॥ ६१ ॥ और बकराके अंडे तथा मछलीको सदा सेवनेसे और दही—हृषिकेश—अर्थ—उडद—मदिरा—भारे पदार्थ—अतिचिकना पदार्थ—इन्होंको सेवनेसे वसंतमें

दुष्टहुये कफका कोप होता है ॥ ६२ ॥ दिनके अंतमें—प्रभातमें—रात्रीके अंतमें—भोजनकिये
अन्नको नहीं जीर्ण होनेमें कफका कोप होता है ऐसे कफकी उत्पत्तिको कष्टसाध्य जानो
॥ ६३ ॥ शीतल देशमें—शीतल समयमें—रात्रिके अंतमें—भोजनको नहीं जीर्ण होनेमें—
मनुष्यके कफका प्रकोप बुद्धिमानोंने कहा है ॥ ६४ ॥

अथ दोदोषोंके कोपकी उत्पत्ति ॥

यदा विपर्ययासागते ऋतौ च प्रकोपनं यस्य यथा प्रदिष्टम् ॥ तत्सेवमा
नस्य नरस्य रोगः स्याद्द्वन्द्वजो नाम विकारकारी ॥ ६५ ॥ यस्मिन्ऋतौ
वातविकोप उक्तस्तस्मिन् यदि श्लेष्मविकोपनानि ॥ संसेवते वा मनुज
स्तदास्य भवेत्प्रकोपः कफपित्तयोश्च ॥ ६६ ॥ यस्मिन्मरुत्कुप्यति
सेवते यः पित्तस्य कोपप्रकराणि यानि ॥ विपर्ययो वा ऋतुधान्ययो
श्च स पित्तवातप्रभवस्तदा स्यात् ॥ ६७ ॥

जब विपरीतपनेको ऋतु प्राप्त हो जावै तब जिसका कोप जैसे कहा है तिसको सेवनेवाले
मनुष्यके द्वंद्वज अर्थात् दोदोषोंसे उपजा रोग उत्पन्न होता है ॥ ६५ ॥ जिस ऋतुमें
वायुका कोप कहा है तिसहीऋतुमें जो कफको कुपितकरनेवाले पदार्थोंको मनुष्य सेवै तब
तिस मनुष्यके कफका और पित्तका कोप होता है ॥ ६६ ॥ जिस ऋतुमें वायु कोपता है तिस
ऋतुमें पित्तको कुपित करनेवाले पदार्थोंको सेवै अथवा ऋतुका और ऋतुके योग्य अन्नका
विपरीतपना होवै तब पित्त वातसे उपजा रोग होता है ॥ ६७ ॥

अथ सन्निपातकी उत्पत्ति ॥

विपर्ययासागते काले रसे विपरिसेविते ॥ तदा स्यात्सन्निपातो हि रोगो
पद्मकारकः ॥ ६८ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे दोषप्रकोपो नाम
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

जब काल विपरीतपनेसे वरै और रसभी विपरीतपनेसे सेवित कियाजावै तब सन्नि-
पात उपजता है यह रोगमें उपद्रव करता है ॥ ६८ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहाय
सूनुवैद्यविद्वत्शास्त्रिअनुवादित्तहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने दोषप्रकोपो नाम पंचमो
ऽध्यायः ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः ॥६॥

अथ रसोके गुणदोषका वर्णन ॥

अथातः संप्रवक्ष्यामि रसानाञ्च गुणागुणान् ॥

येन विज्ञानमात्रेण रसानां गुणविद्भवेत् ॥ १ ॥

इसके अनंतर रसोके गुण और दोषको कहताहूँ जिसको जाननेसे रसोके गुणको जाननेवाला होवै ॥ १ ॥

छःरस ॥

मधुरः कषायस्तिक्तोम्लकश्च क्षारः कटुः षड्रसनामधेयम् ॥

द्वयं द्वयं वातकफप्रकोपनं द्वयं तथा पित्तकरं वदन्ति ॥ २ ॥

मधुर, कसैला, कडुआ, खट्टा, खारा, चर्चरा, ऐसे छः प्रकारके रस हैं इन्होमें दो दो रस वात और कफको कोपते हैं और दो रस पित्तको करते हैं ॥ २ ॥

षड्रसगुणदोषवर्णनम् ॥

क्षारः कषायः पवनः प्रकोपी मधुरोऽथ तिक्तः कफकोपनश्च ॥ कटुम्ल

कौ पित्तविकारकारिणौ कटुम्लकौ वातशमौ प्रदिष्टौ ॥ ३ ॥ पित्तस्य

नाशी मधुरः सतिक्तः कटुकषायौ शमनौ कफस्य ॥ अन्योन्यमेतच्छ

मनं वदन्ति परस्परं दोषविवृद्धिमन्तः ॥ ४ ॥

खारा और कसैला रस वायुको कोपता हैं मधुर और कडुआ रस कफको कोपता है चर्चरा और खट्टा रस पित्तके विकारको करता है और वातको शांत करता है ॥ ३ ॥ मधुर और कडुआ रस पित्तको नाशता है चर्चरा और कसैला रस कफको शांत करता है आपसमें दोषकी विवृद्धिवाले आपसमें मिश्रितहुये शमनको कहते हैं ॥ ४ ॥

अथ रसगुणोके गुणकर ॥

मधुरकटुकावन्योन्यस्य प्रकर्षविधायिनौ लवणवियुतोऽम्लीकः प्रोक्तो

विशेषरसानुगः ॥ अविक्तस्तथा तिक्तैर्युक्तः कषायरसो लघुर्भवति सुत

रां स्वादुःश्रेष्ठो गुणं प्रकरोति वै ॥ ५ ॥

मधुर और चर्चरा रस आपसके प्रकर्षको करते हैं नमकसे विशेष करके युक्तहुआ खट्टा रस विशेष रसके पश्चात् गमन करता है नहीं विकारको प्राप्तहुआ और कडुआ रससे युक्तहुआ ऐसा कसैला रस हलका होता है और अच्छीतरह स्वादु रस सेवितकिया जावै तो गुणको करता है ॥ ५ ॥

वातादिविरुद्धरस ॥

कटुतिक्तकषायाश्च कोपयन्ति समीरणम् ॥

कट्वम्ललवणाः पित्तं स्वाद्वम्ललवणाः कफम् ॥ ६ ॥

चर्चरा, कडुआ, कसैला, ये रस वायुको कोपते हैं चर्चरा, खट्टा, सलोना, ये रस पित्त-
को कोपते हैं मधुर, खट्टा, सलोना, ये रस कफको कोपते हैं ॥ ६ ॥

दोषोंके विरोधी रसोंका वर्णन ॥

समीरणे तु नो देयाः कटुतिक्तकषायकाः ॥

पित्ते कट्वम्ललवणाः स्वाद्वम्ललवणाः कफे ॥ ७ ॥

चर्चरा, कडुआ, कसैला ये रस वायुमें नहीं देने चाहिये चर्चरा, खट्टा, सलोना, ये रस
पित्तमें नहीं देने चाहिये मधुर, खट्टा, सलोना, ये रस कफमें नहीं देने चाहिये ॥ ७ ॥

वातादिकोमें रसयोजना ॥

स्वाद्वम्ललवणान्वीते तिक्तस्वादुकषायकान् ॥

पित्तकफे तिक्तकटुकषायान् योजयेद्भसान् ॥ ८ ॥

मधुराम्लौ क्षारकटुकौ तिक्तकषायकौ चेत्येतावन्योन्यरसविरोधिनौ भवेताम् ॥

वायुमें मधुर, खट्टा, सलोना, ये रस युक्त करने पित्तमें चर्चरा, कडुआ, कसैला, ये रस
युक्त करने कफमें मधुर, खट्टा, सलोना, ये रसयुक्त करने ॥ ८ ॥ मधुर रस और खट्टा रस
विरोधी है खारा और चर्चरा रस विरोधी है कडुआ और चर्चरा रस विरोधी है ॥

अथ मधुर रसके वीर्यका वर्णन ॥

यः स्वादुः श्रमशोषहारिबलकृद्दीर्यप्रदः पुष्टिदः प्रह्लादं रसने करोति तद-
नु श्लेष्मप्रवृद्धिं ततः ॥ पित्तानां दमनः श्रमोपशमनो वृष्यो नराणां हि-
तः क्षीणानां क्षतपाण्डुनेत्ररुजसंहर्त्ता भवेन्वाधुरः ॥ ९ ॥

जो स्वादुहो भ्रम और शोषको हरताहो बलको करताहो वीर्यको देनेवालाहो पुष्टिको
देताहो आनंदको देताहो जीभमें कफकी वृद्धिको करताहो पित्तको हरताहो परिश्रमको
शांत करताहो मनुष्योंको पुष्ट करताहो क्षीणमनुष्योंके कल्याण करनेवालाहो और घाव-
पांडुरोग—नेत्ररोग—इन्हेंको हरताहो तिसको मधुर रस कहतेहैं ॥ ९ ॥

अथ कडुआरसके वीर्यका वर्णन ॥

यस्तिक्तः कफवायुसंहतिकरः कुष्ठादिदोषापहः शीतः सर्वरुजापहो भ्रमहरो
रुच्यो न संक्लेदनः ॥ जिह्वास्फोटकनाशनोऽथ भवति क्षीणक्षतानां हितो
वक्रोल्लासकरः प्रकृष्टकथितो निम्बादिकास्वादकृत् ॥ १० ॥

कडुआ रस कफवायुका संहार करता है कुष्ठआदि दोषको नाशता है शांतस्वरूप है
सवरोगोंको हरता है भ्रमको हरता है रुचिमें हित है क्लेदको अच्छी तरह करता है
और जीभकी फुन्सियोंको नाशता है क्षीण और घाववालोंको हित है मुखमें आनंदको
करता है और नींबूआदिके स्वादको करता है ॥ १० ॥

अथ रसके वीर्यका वर्णन ॥

नेत्रं स्रावयते मुखं विदहते कर्णस्य तापं वहन्वीभत्सं तनुते मुखं विकुरु
ते पिन्नासृजः कोपनम् ॥ अग्नीनध्युपते क्षतं विदहते जीर्णो न शस्तो भ
वेत् वातान्नाशयते कफञ्च दहते कटुको महारौद्रकः ॥ ११ ॥

चर्चरा रस नेत्रको झिराता है मुखको विशेष करके दग्ध करता है कानोंमें जालको
प्राप्त करता है भयानकरूप मुखको करता है पित्तको और रक्तको कुपित करता है जठराग्नी-
को जगाता है क्षणमात्र दाहको करता है और पुराना चर्चरारस श्रेष्ठ नहीं होता है वायुको
नाशता है और कफको दग्ध करता है और अति दारुण रूप है ॥ ११ ॥

अथ खट्वारसके वीर्यका वर्णन ॥

जिह्वाक्लेदं जनयति तथा नेत्रनिर्मूलनं च वीभत्सं वा जनयति सदा वा
तरोगापहारी ॥ कण्डूकुष्ठक्षतरुजकरो भो हितः शोफिनः स्यादम्लः प्रो
क्तो मरुतशमनोऽसूक्ष्मकोपं तनोति ॥ १२ ॥

खट्वारस जीभमें क्लेदको करता है नेत्रोंको मीचता है सब कालमें भयानकपनेको उपजा-
ता है वातके रोगको हरता है और खाज, कुष्ठ, वाव, इन्हेंको उपजाता है शोजावालेको हित
नहीं है वायुको शांत करता है रक्तके कोपको विस्तृत करता है ॥ १२ ॥

अथ कसैलारसके वीर्यका वर्णन ॥

जिह्वां कण्ठं यसति नितरां ग्राहकश्चापि सारे श्लेष्मव्याधेरुपशमकरः
श्वासकासापहर्त्ता ॥ हिक्काशूलं हरति नितरां शोधनः स्याद्द्रवणानां प्रो
क्तश्चा समधिकगुणः श्रेष्ठकाषायनामा ॥ १३ ॥

कसैलारस जीभको और कंठको ग्रसता है अतीसारको बंद करता है कफकी व्याधिको शांत करता है श्वासरोगको और खांसीको नाशता है हिचकीको और शूलको हरता है और घावोंको निरंतर शोधता है यह रस अधिक गुणोंवाला कहा है ॥ १३ ॥

अथ खारारसके वीर्यका वर्णन ॥

क्षारः क्लेदं जनयति मुरवेऽस्वादुरुष्णो विदाही शूलश्लेष्मारुचिहरतृषा
मूत्रकृच्छोषणश्च ॥ आमाहारं जनयति पुनर्वह्निसन्धुक्षणः स्याच्छ्रेष्ठः
प्रोक्तःस हि रसमहान्सर्वतो योग्यभूतः ॥ १४ ॥ इति षड्रस वर्णनं नाम
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

खारारस मुखमें ग्लानीकों उपजाता है स्वादु नहीं है गर्म है विशेष करके दाहको करता है और शूल, कफ, अरुचि, तृषा, मूत्र इन्होंको करता है शोषनेवाला है वारंवार अफाराको उपजाता है जठराग्नीको जगाता है सब जगह योग्य नहीं है कहींक अच्छाभी है ॥ १४ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसुनुवैद्यरविदत्तशास्त्रनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने षड्रस वर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अथ पानीका वर्ग ॥

—:०:—

अथातः संप्रवक्ष्यामि पानीयानि पृथक्पृथक् ॥

शृणुध्वं च समासेन गुणान्गुणविपर्ययम् ॥ १ ॥

अब पानियोंको अलग २ कहताहूँ पानियोंके गुण और दोषोंको सुनो ॥ १ ॥

जलभेद.

द्विविधं चोदकं प्रोक्तमान्तरिक्षं तथौद्भिदम् ॥ आन्तरिक्षं तु द्विविधं गाङ्गं
सामुद्रिकं पयः ॥ २ ॥ तद्वच्चतुर्विधं प्रोक्तमन्तरिक्षसमुद्भवम् ॥ भूमौ नि
पतितं तच्च जातं चाष्टविधं जलम् ॥ ३ ॥ गाङ्गसामुद्रविज्ञानं कथयि
ष्यामि सांप्रतम् ॥ धारितं येन पात्रेण लक्ष्यते तेन तद्विधम् ॥ ४ ॥

पानी दो २ प्रकारका कहा है आंतरिक्ष अर्थात् आकाशका—दूसरा औद्भिद अर्थात्
थिवीका और आंतरिक्ष पानीभी २ प्रकारका है एक गांग—दूसरा—सामुद्रिक— ॥ २ ॥ तै

सेही आकाशसे उपजा पानी च्यारप्रकारका कहा है और पृथिवीमें पतितहुआ वही पानी आठ प्रकारका है ॥ ३ ॥ गांग और सामुद्रपानीके विज्ञानको अब कहताहूँ जिस पात्र करके धारणकियाजावै तहां तिसीप्रकारसे दीखता है ॥ ४ ॥

अथ गांगपानीकी परीक्षा ॥

धौतं शुद्धं सितं वस्त्रं चतुर्हस्तप्रमाणकम् ॥ दण्डास्त्रिहस्ताच्चत्वारश्वतु
ष्कोणेषु बन्धयेत् ॥ ५ ॥ तस्मात्परीक्ष्यं तत्तोयं शुद्धे रौप्यमध्येऽथवा ॥
कांस्यपात्रे समुद्धृत्य परीक्षेत भिषग्वरः ॥ ६ ॥ शुद्धकार्पासतूलं वा श्वेतशा
ल्योदनस्य वा ॥ पिण्डिका तत्समा क्षिप्त्वा श्वेततां याति सा पुनः ॥ ७ ॥
श्वेता तु निर्मला पिण्डी शुद्धञ्च निर्मलं पयः ॥ तद्वाङ्गं सर्वदोषघ्नं गृही
ताङ्गं सुभाजने ॥ ८ ॥

धोयाहुआ शुद्ध सपेद ऐसे वस्त्रको च्यारहाथप्रमाणसे ले पीछे तीनतीन हाथके दंडों च्यारकोणोंमें बंधवावै ॥ ५ ॥ तिससे शुद्धहुये रूपके पात्रमें तिस पानीकी परीक्षा करै अथ-
वा कांसीके पात्रमें घाल परीक्षा करै ॥ ६ ॥ अथवा सपेद कपासकी जड़को अथवा सपेद-
शालिचावलकी जड़को पीस पींडी बना तिस पानीमें गेरू जो फिर सपेदपनेको प्राप्त होवै ॥ ७ ॥
और सपेदहोकै वह पींडी निर्मल होजावै और वह पानीभी निर्मल होजावै तिसको गांग
पानी कहतेहैं वह गांगपानी सबदोषोंको हरता है परंतु इस पानीको सुंदर पात्रमें ॥ ८ ॥

गंगाजलके गुण.

तद्धारयेच्च मतिमान्बल्यं मेध्यं रसायनम् ॥ श्रमक्लमपिपासाघ्नं कण्डू
दोषनिवारणम् ॥ १९ ॥ लघु मूर्च्छात्तृषाच्छर्दिमूत्रस्तम्भविनाशनम् ॥
गङ्गोदकस्य वृष्टिः स्याद्विषसे वा प्रदृश्यते ॥ १० ॥

बुद्धिमान् मनुष्य धारणकरै यह बलमें हितहै पवित्र है रसायन है और ग्लानि, परिश्रम,
प्यास, इन्होंको हरता है खाजके दोषको दूर करता है ॥ ९ ॥ हलका है और मूर्च्छा, तृषा,
छर्दि, मूत्रस्तम्भ—इन्होंको नाशता है अथवा सूर्यके दीखतेहुये जो वर्षता है वह गां-
गपानी है ॥ १० ॥

अथ सामुद्र पानीका लक्षण गुण दोष वर्णन ॥

नीलं घनं पीतमथापि च ॥ सक्षारं पिच्छिलं चैव सासृद्रं

तन्निगद्यते ॥ ११ ॥ सघनं कफरुचैव कण्डूश्लीपदकारकम् ॥ सवात
लं च विज्ञेयं रक्तदोषार्त्तिकारणम् ॥ १२ ॥

कालिसको लियेहो मलसे सहितहो नीलाहो मोठाहो पीलाहो खारसे संयुक्तहो आगोंसे
युक्तहो तिसको सामुद्रपानी कहते है ॥ ११ ॥ यह कफको करता है खाज और श्लीपद
रोगको उपजाता है वातल है रक्तके रोगोंको करता है ॥ १२ ॥

चारप्रकारकी दृष्टि ॥

द्विविधमुदकं प्रोक्तं तथा वक्ष्ये चतुर्विधम् ॥

रात्रिवृष्टिर्दिवावृष्टिर्दुर्दिनावीक्षणोद्भवा ॥ १३ ॥

पानी २ प्रकारका कहा है तथा ४ प्रकारकाभी कहेंगे रात्रिमें जो वर्षता है दिनमें जो
वर्षताहै दुर्दिनमें जो वर्षताहै ॥ १३ ॥

अथ दुर्दिनमे वर्षाद्भुआ पानीके गुण दोष वर्णन ॥

निशाजलं कफकरं घनशीतगुणात्मकम् ॥

सामुद्रतोयस्य समं विज्ञेयं वातकोपनम् ॥ १४ ॥

रात्रिमें वर्षा पानी कफको करता है भारा है शीतलगुणोंवाला है सामुद्रसंज्ञक पानीके
समान है और वातको कोपता है ॥ १४ ॥

अथ रात्रिको वर्षाद्भुआ पानीके गुण दोष वर्णन ॥

दिवा सूर्यांशुतप्ताश्च मेघा वर्षन्ति यत्पयः ॥

तत्कफघ्नं पिपासाघ्नं लघुवातप्रकोपनम् ॥ १५ ॥

दिनमें सूर्यके किरनोंसे तप्तहुये जो मेघ पानीको वर्षाते है वह कफको नाशता है प्या-
सको हरता है हलका है वातको कोपता है ॥ १५ ॥

अथ दिनमें वर्षाद्भुआ पानीके गुण दोष वर्णन ॥

दुर्दिने वृष्टिसन्तापं वातभूतं सवातलम् ॥

कफरुच्छोपहननं तर्पणं दोषकोपनम् ॥ १६ ॥

दुर्दिनमें वर्षाद्भुआ पानी वातल है कफको करता है शोषको हरता है तृषाको करता है
दोषोंको कोपता है ॥ १६ ॥

क्षणवृष्टिके गुण ॥

तथा वा क्षणवृष्टिश्च दोषरोगकरी नृणाम् ॥

कण्डूत्रिदोषजननं पानीयं न प्रशस्यते ॥ १७ ॥

श्रावण महीनेमें जो क्षण २ में वृष्टि होती है वह वर्षा मनुष्योंके दोषको और रोगको करती है और इसका पानी खाजको और त्रिदोषको उपजाता है और अच्छा नहीं है ॥१७॥

श्रावणवृष्टिके गुण ॥

मेघा वमन्ति यत्तोयं सशैलवनकानने ॥

श्रावणे निन्द्यते भूमौ कराम्बु वर्षते रविः ॥ १८ ॥

श्रावणमें जो पानी वर्षता है वह पृथिवीमें निन्दित है जो पर्वत वन बड़ा वन इन्होंने में मेघ पानीको वर्षाते है ॥ १८ ॥

अथ भाद्रुवाके वृष्टिके गुण ॥

सघनं नाभसं नीरं श्लेष्मकृद्घातकोपनम् ॥

शमनं पित्तरोगाणां मधुरं रक्तदोषकृत् ॥ १९ ॥

भाद्रुवाकी वर्षाका पानी मोठा है कफको करता है वातको कोपता है पित्तके रोगोंको शांत करता है मधुर है और रक्तदोषको करता है ॥ १९ ॥

अथ आश्विनके वृष्टिके गुण ॥

रूक्षं पित्तकरं चाम्लं गुल्मरक्तविकारकृत् ॥

चित्रानक्षत्रसम्भूतं खरं शस्यविदोषकृत् ॥ २० ॥

आश्विनमें हुई वर्षाका पानी लूखा है पित्तको करता है खटा है गुल्मको और रक्तके विकारको करता है चित्रानक्षत्रमें वर्षाहुआ पानी तेज है और खेतीके दोषको करता है ॥२०॥

अथ कार्तिकके वृष्टिके गुण ॥

कार्तिकीवृष्टिसम्भूतं स्वातिसन्तापशीतलम् ॥ नाशनं च त्रिदोषाणां स
र्वशस्यप्रवर्द्धनम् ॥ २१ ॥ शीतलं वलकदृष्यं त्रिदाहज्वरनाशनम् ॥

कार्तिकमें वर्षा हुई वर्षाका पानी संतापको शीतल करता है त्रिदोषको नाशता है सब प्रकारकी खेतीको बढ़ाता है ॥ २१ ॥

स्वातीजलके गुण ॥

क्वचित् पुण्यतरे देशे शरद्वर्षति माधवम् ॥ २२ ॥ पित्तज्वरविनाशाय श

स्थं सदा पथ्यममृतं स्वातिसम्भवम् ॥ २३ ॥

गगनाम्बु त्रिदोषघ्नं गृहीतं यच्च भाजने ॥ बल्यं रसायनं मेध्यं यन्त्रापे
क्ष्यं ततः परम् ॥ २४ ॥

शीतल है बलको करता है पुष्टिमें हित है दाहको और ज्वरको नाशता है ॥ २२ ॥
कहींक अति पवित्रदेशमें शरदऋतु उत्तम पानीको वर्षाता है यह पित्तज्वरको हरता है और
खेतीकी सिद्धिका कारण है ॥ २३ ॥ आकाशका पानी सदा पथ्य है स्वातीनक्षत्रपै सूक्ष्म
हो तब वर्षा हुआ पानी अमृतरूप है सुंदरपात्रमें गृहीत किया आकाशका पानी त्रिदोषको
नाशता है बलमें हित है रसायन है पवित्र है और तिस्से परै यन्त्रापेक्ष्यसंज्ञक पानी
जानना ॥ २४ ॥

अकालवृष्टिके लक्षण और गुण ॥

अनार्त्तवं विमुञ्चन्ति जलं जलधरास्तु यत् ॥

पतितं तत् त्रिदोषाय सर्वेषां देहिनामपि ॥ २५ ॥

जो वादल समयके बिना पानीको वर्षाते है वह पानी सब मनुष्योंके त्रिदोषको
करता है ॥ २५ ॥

अथ अकालमें वर्षाहुई वर्षाके पानीका लक्षण ॥

अकाले वृष्टिसन्तापसम्भूतं तद्विकारकृत् ॥

विशेषाच्छेष्मरोगाणां कारणान्न प्रशस्यते ॥ २६ ॥

अकालमें वर्षा पानी संतापरूपी विकारको करता है और विशेषकरकै कफके रोगोंके
कारणसे यह पानी उत्तम नहीं है ॥ २६ ॥

अथ धारसंज्ञकआदि चारप्रकारके पानीका लक्षण ॥

तथा धारं च कारं च तौषारं हैममेव च ॥

चतुर्विधं समुद्दिष्टं तेषां वच्मि गुणागुणान् ॥ २७ ॥

धार, कार, तौषार, हैम, इन भेदोंसे पानी चार प्रकारके है तिनहोंके गुण और दोषको
कहताहूँ ॥ २७ ॥

कारजलकी उत्पत्ति ॥

धारं चतुर्विधं प्रोक्तं वक्ष्ये कारं महामते ! ॥ श्रीमतां महाप्राज्ञानां हिताय
रुजशान्तये ॥ २८ ॥ स्वर्णद्याः शीतवातेन मेघविस्फूर्जसङ्कुलम् ॥ शीताम्बु क
ठिनं भूत्वा शिलं जातं हिमेन तु ॥ २९ ॥ पश्चात् सुसूर्यात् सन्तापात् कि
ञ्चिद्द्वै द्रवते जलम् ॥ वमन्ति मेघाः सलिलशकलं शीतलं मतम् ॥ ३० ॥

धारसंज्ञक पानीको गांगआदि चारप्रकारसे में कहचुकाहूं अब हे महामते ! कारसंज्ञक पानीको श्रीमान् और बडे पंडितोंके कल्याणके लिये और रोगकी शांतिके लिये में कहताहूं ॥ २८ ॥ गंगाआदि नदियोंका शीतलपानी मेघके शब्दसे संकुलित हुआ कठिन होके पीछे जाडा करके शिलारूपी अर्थात् बर्फ हो जाता है ॥ २९ ॥ पीछे सूर्यके संतापसे कछुक झिरता है तब मेघ पानीके किनके अर्थात् ओलोंको वर्षाते हैं तिन्होंका पानी शीतल माना है ॥ ३० ॥

कारजलके गुण.

कारं शीतगुणैः श्रमोपशमनं शोषार्त्तिनिर्णाशनं मूर्च्छामोहशिरोत्तिनाश
नकरं हिक्कावमेवार्णम् ॥ शोफानां व्रणिनान्तु दोषशमनं पित्तात्मिका
नां हितं शंसन्ति प्रवरं गुणैः प्रतिदिनं तस्मान्न दूरे कृतम् ॥ ३१ ॥

यह कारसंज्ञकपानी शीतके गुणोंसे परिश्रमको शांत करता है और शोषरूपी पीड़ाको नाशता है और मूर्च्छा, मोह, शिरकी पीडा, इन्होंको नाशता है हिचकीको और छर्दिकी दूर करता है शोजावालोंके और घाववालोंके दोषको हरता है और पित्तकी प्रकृतिवालोंको हित है और उसकी बहोत प्रशंसा करते है और नित्यप्रति गुणोंसे संयुक्त होता है इसवास्ते यह पानी वर्जना नहीं ॥ ३१ ॥

अथ तुषारपानीके गुण ॥

तौषारं लघु शीतलं श्रमहरं पित्तात्तिशान्तिप्रदं दोषाणां शमनं जला
त्तिहननं सर्वामयघ्नं परम् ॥ कुष्ठश्लीपदचर्चिकाविषहरं पामाविसर्पापहं
क्षीणानां क्षतशोषिणां हितकरं ससेव्यते मानवैः ॥ ३२ ॥ हैमं घनञ्च म
धुरञ्च कफात्मकञ्च मूर्च्छाश्रमार्त्तिशमनं भ्रमनाशनञ्च ॥ पित्तासृजः प्रश
मनं रुधिरक्षमञ्च शान्तिं करोति हिमसम्भववारि सद्यः ॥ ३३ ॥ धारं पृ-
थिव्यां पतितं पयस्तु तत्रैव जातं गुणभेदभिन्नम् ॥ नानाविधैर्भेदगुणैश्च
सम्यग् जातं जलं चाष्टविधं वदन्ति ॥ ३४ ॥

तौषारसंज्ञक पानी हलका है शीतल है श्रमको हरता है पित्तके रोगको शांत करता है दोषोंको शांत करता है जलके रोगको हरता है सब रोगोंको नाशता है और कुष्ठ—श्लीपद रोग—मकडीका विष इन्होंको नाशता है पामाको और विसर्परोगको हरता है क्षीणपुरुषोंको और क्षतशोषियोंको हितकारी है इसवास्ते मनुष्योंने सेवना चाहिये ॥ ३२ ॥ हैमसंज्ञकपानी मोटा है मधुर है कफकारी है मूर्च्छाको श्रमको और भ्रमको हरता है रक्तपित्तको शांत

करता है रक्तको बंद करता है और शांतिको शीघ्र करनेवाला है ॥ ३३ ॥ धारसंज्ञकपा-
नी पृथिवीमें पतितहुआ तहांही गुणोंके भेदोंसे भिन्न होजाता है पीछे अनेकप्रकारके भेद
गुणोंसे अच्छीतरह संयुक्तहुआ वही पानी आठ प्रकारसे कहा है ॥ ३४ ॥

पृथ्वीउपरके आठप्रकारका जल.

नद्यौद्भिदं प्रास्रवणं च चौड्यं कौपं ताडागं सरसोद्भवञ्च ॥

वाप्युद्भवं तत्प्रवदन्ति धीरा नीरं समासेन वदन्ति चात्र ॥ ३५ ॥

नादेय-औद्भिद पर्वतके द्वारा झिरनेसे उपजा-चौड्यसंज्ञक-कूवाका-तलावका-सारस-
का-नावडीका-ऐसे धीरवैद्य यहां विस्तारसे कहते हैं ॥ ३५ ॥

अथ नदीके पानीका गुण ॥

यत् श्रीमताञ्चैव महीपतीनां सेव्यं तथा योग्यतमं प्रदिष्टम् ॥ नादेयम
म्बु मधुरं तथा लघु रूक्षं तथोष्णं शमनञ्च वायोः ॥ ३६ ॥ सन्दीपनं श
स्यविनाशनञ्च हिमागमे वा शिशिरे निषेव्यम् ॥ बलप्रदं पथ्यकरं नरा
णां प्रदिष्टमेतत्तु सदा त्रिषग्भिः ॥ ३७ ॥

नदीका पानी लक्ष्मीवालोंको और राजालोगोंको अतियोग्य कहा है और मधुर है हल-
का है रूपा है गर्म है वायुको शांत करता है ॥ ३६ ॥ जठराशिको जगाता है खेतीको
नाशता है शीतके आगमनमें-अथवा शिशिरऋतुमें सेवना योग्य है और बलको देता है
मनुष्योंको पथ्यरूप है ऐसे पंडितोंने सबकालमें कहा है ॥ ३७ ॥

अथ औद्भिद पानीका गुण दोष ॥

औद्भिद्यमुष्णं लघु वातहारि सपैत्तिकं तृड्ज्वरनाशनञ्च ॥

कुष्ठव्रणानां श्रमशोषिणाञ्च शस्तं न च क्षारगुणोपपन्नम् ॥ ३८ ॥

पृथिवीको विदारितकरबडी धारासे निकसनेवाला पानी औद्भिद कहाता है यह पानी गर्म
है हलका है वातको हरता है पित्तसे संयुक्त है तृपाको और ज्वरको नाशता है कुष्ठ और
घाववालोंको श्रम और शोषवालोंको खारागुणसे उपपन्न हुआ श्रेष्ठ नहीं है ॥ ३८ ॥

अथ झिरनाके पानीका गुण ॥

उष्णं कषायं स्रवणोद्भवञ्च श्लेष्मापहं गुल्महृदामयघ्नम् ॥

कण्डूविसर्पक्षयरोगकारि नानाविधं दोषचयं करोति ॥ ३९ ॥

पर्वतके द्वारा झरनासे उपजा पानी गर्म है कसैला है कफको हरता है गुल्मरोगको और

हृद्रोगको नाशता है और खाज विसर्परोग—क्षयरोग—इन्हेंको करता है और अनेक प्रकारके दोषोंको संचित करता है ॥ ३९ ॥

अथ चौड्यसंज्ञक पानीका गुण ॥

वदन्ति चौड्यं लवणं तथा गुरु कफात्मकं वारि विकारकर्तृ ॥

हिक्कांज्वरं शूलमरोचनञ्च करोति नूनं त्वच्चि दोषरोगम् ॥ ४० ॥

आपही शिलासे आकीर्ण हुआ छिद्रमें नीला अंजनके समान पानी हों और लता वेल आदिसे आच्छादितहो तिसको चौड्यसंज्ञकपानी कहते हैं यह पानी सलेना है भारी है कफको करता है विकारको उपजाता है और हिचकी—शूल—अरोचक—इन्हेंको उपजाता है और त्वचा अर्थात् खालमें दोषको और रोगको उपजाता है ॥ ४० ॥

अथ कूवाके पानीका गुण दोष ॥

रूक्षं कफघ्नं लवणात्मकञ्च सन्दीपनं पित्तकरं लघूष्णम् ॥

कोपं जलं वातहरं प्रदिष्टं हितं न शस्तं शरदि वदन्ति ॥ ४१ ॥

कूवाका पानी रूखा है नमकसे कलुक संयुक्त है अग्निको जगाता है पित्तको करता है हलका है गर्म है वातको हरता है और शरदऋतुमें हित नहीं है ॥ ४१ ॥

अथ तलावका पानीके गुण दोष ॥

घनं कषायञ्च तडागजं स्यात्स्वादु विपाके मधुरं तथैव ॥

शस्तं शरत्सु कफरुतु सवातं शीष्मे हितं तत्प्रवदन्ति धीराः ॥ ४२ ॥

सुंदर पृथिवीके भागमें जहां बहुत वर्षोंका पानी इकट्ठाहो तिसको तलावका पानी कहते हैं यह मोटा है कसैला है स्वादु है पाकमें मधुर है शरदऋतुमें अर्थात् आश्विन कार्तिकमें श्रेष्ठ है कफको करता है वायुसे सहित है शीष्मऋतु अर्थात् ज्येष्ठ आषाढमें हित नहीं है ॥ ४२ ॥

अथ सारसपानीके गुण दोष ॥

क्षारं घनं वातकफानुकारि त्वग्दोषकारि कटु दीपनञ्च ॥

प्रोक्तं विपाके भ्रमशोषकारि स्यात् सारसं नो सुखकारि वारि ॥ ४३ ॥

पर्वतकी शिला आदिसे रुकीहुई नदीका पानी जहां क्षिरके इकट्ठा होवै तिसको सारसपानी कहते हैं यह पानी खारा है भारी है वातको और कफको करता है और खालमें दोषको उपजाता है कडुआ है अग्नीको जगाता है पाककालमें भ्रमको और शोषको करता है और सु-

॥ ४३ ॥

अथ नदियोंकी प्रकृति ॥

क्षारं कवोष्णं कफवातरोगविनाशनं पित्तकरं कटुं स्यात् ॥

शस्तं सदा पित्तविकारिणाञ्च शस्तं न शस्तं शरदि वदन्ति ॥ ४४ ॥

वावडीका पानी खारा, कुछ थोडा गरम, कफ वात रोगोंको नाशकरनेवाला पित्तकारक तीखा और पित्तविकारी मनुष्योंको सदा हितकारी है. परंतु शरदऋतुमें हितकारी नहीं है ॥ ४४ ॥

अथ नदियोंकी प्रकृति ॥

इति चाष्टविधं प्रोक्तं जलं त्रिषजसत्तमैः ॥

नादेयं संप्रवक्ष्यामि समुद्रगामिस्रोतसाम् ॥ ४५ ॥

ऐसे उत्तमवैद्योंने पानी आठप्रकारसे कहा है और समुद्रमें गमन करनेवाली नदियोंको कहताहूँ ॥ ४५ ॥

तथा प्राच्यांगमाश्रान्याः पश्चिमानुगमास्तथा ॥ तासां गुणागुणान् व
क्ष्ये समासेन गुणोत्तम ! ॥ ४६ ॥ ससैकता सपाषाणा द्विविधा चाम्बु
वाहिनी ॥ एवं चतुर्विधा नद्यो ज्ञातपित्तकफात्मिकाः ॥ ४७ ॥

पूर्वमें गमन करनेवाली और पश्चिममें गमन करनेवाली जो नदी है तिन्हेंके गुणोंको हे गु-
णोत्तम विस्तार करके कहूंगा ॥ ४६ ॥ वालूरेतवाली और पत्थरोंवाली ऐसे नदी २ प्रकार-
से है और पूर्वाक्त दोनोंके मिलनेसे च्यार प्रकारकी नदी है ये वात पित्त कफसे संयुक्त है ॥ ४७ ॥

अथ सदावहनेवाली नदीके गुण दोष ॥

सदावहा वा घनवारिकोष्णा मरुत्कफानां शमनञ्च तस्याः ॥

नीरं वसन्ते हितरुद्धिशेषात् नदीभवं नैव हिमागमे च ॥ ४८ ॥

सबकालमें वहनेवाली नदी मोठापानीवाली होती है कछुकर्म होती है वायुको और क-
फको शांत करती है तिन्हेंका पानी चैत्र और वैशाखमासमें विशेष करके हितको करता है
और जाडाके आगमनमें अच्छा नहीं है ॥ ४८ ॥

अथ पत्थरोंवाली नदीके गुण दोष ॥

घनविमलशिलानां स्फालनाज्जातफेनं बहलसजलवीचीच्छन्नसंक्षोभद
म् ॥ ननु लघुं सुखशीतं नाति चोष्णं घनञ्च हरति पवनपित्तं श्लेष्म
कद्धारि सम्यक् ॥ ४९ ॥

मोटे और विशेषकरके मलोंवाले ऐसे पत्थरोंके संयोगसे झागोंवाला और बहुतसे तरंगोंके क्षोभसे गर्मको प्राप्तहुआ और सुंदर शीतल और अतिगर्म नहीं और भारा ऐसा पानी वातको और पित्तको अच्छीतरह हरता है ॥ ४९ ॥

अथ वालूरेतवाली नदीका पानीके गुण दोष ॥

न घनविमलतोयं सैकतायाः प्रवाहो न च भवति लघुत्वं श्लेष्मकृद्गन्ति
पित्तम् ॥ भवति मधुरमेवं किञ्चिदुष्णं कषायं भवति पवनकारि शोषमू
च्छीं निहन्ति ॥ ५० ॥

वालूरेतके प्रवाहमें यह पानी मोटा नहीं है विशेष करके मलसे रहित नहीं है हलकाभी नहीं है कफको करता है पित्तको हरता है मधुर है कछुक गर्म है कसैला है पवनको करता है शोषको और मूच्छाको नाशता है ॥ ५० ॥

अथ उत्तरसे वहनेवाली नदियोंके और पानीके गुण दोष ॥

हिमवत्प्रभवा नद्यः पुण्या देवर्षिसेविताः ॥ घनपाषाणसिकतावाहिन्यो वि
मलोदकाः ॥ ५१ ॥ हन्ति वातकफं तोयं श्रमशोषविनाशनम् ॥ किञ्चि
त् करोति वा पित्तं त्रिदोषशमनं जलम् ॥ ५२ ॥ मलयप्रभवा
नद्यः शीततोयानृतोपमाः ॥ झन्ति वातञ्च पित्तञ्च शोषभ्रमश्रमापहाः
॥ ५३ ॥ गङ्गा सरस्वती शोणो यमुना सरयू शची ॥ वेणा शरावती नीला
उत्तरापूर्ववाहिनी ॥ ५४ ॥ हिमवत्प्रभवा श्वेता हिमसम्भवशीतलाः ॥ समाः
सर्वगुणैर्नद्यो वातश्लेष्महरा नृणाम् ॥ ५५ ॥ आसां नवशतैर्युक्ता गङ्गा
प्रोक्ता मनीषिभिः ॥ तथा चर्मण्वती वेन्नवती पारावती तथा ॥ ५६ ॥
क्षिप्रा महापदी पीता मुत्सकान्या मनस्विनी ॥ शेवती शैवलिन्यश्च सि
न्धुयुक्ताः समुद्रगाः ॥ ५७ ॥ वातपित्तहरं नीरं त्रिदोषघ्नं मतं परम् ॥ श्र
मग्लानिहरं वृष्यमुत्तराशानुगामि च ॥ ५८ ॥

हिमालय पर्वतसे उत्पन्न हुई नदी पवित्र है देवते और मुनियोंसे सेवित है मोटे पत्थर और वालूरेतको वहनेवाली है मलसे रहित पानीवाली है ॥ ५१ ॥ इन्होंका पानी वातको और कफको नाशता है श्रमको और शोषको दूर करता है अथवा कछुक पित्तको करता है और त्रिदोषको शांत करता है ॥ ५२ ॥ मलय पर्वतसे उपजी नदी शीतलपानीवाली है अ-
न पानीको वहती है और वात, पित्त, शोष, भ्रम, श्रम, इन्होंको नाशती है ॥ ५३ ॥

गंगाजी, सरस्वती, शोण, यमुना, सरयू, शची, वेणा, शरावती, नीला, ये नदी उत्तरको और पूर्वको बहाती है ॥ ५४ ॥ हिमालय पर्वतसे उत्पन्न हुई और बर्फके संभवसे शीतल हुई ऐसी ये नदी सबगुणोंसे समान है और मनुष्योंके वातको और कफको हरती है ॥ ५५ ॥ इन्होंने से नौसौ ९०० नदियोंसे युक्त हुई गंगाजी पंडितोंने कही हैं तैसेही चर्मण्वती, वेववती, पारावती, ॥ ५६ ॥ क्षिमा, महापदी, पीता, मुत्सका, मनस्विनी, शेवती, शैवलिनी, सिंधु, ये सब नदी समुद्रमें गमन करती है ॥ ५७ ॥ इन्होंका पानी वातको और पित्तको हरता है और त्रिदोषको हरनेवाला माना है परिश्रमको और ग्लानिको हरता है वीर्यमें हित है और उत्तरदिशासे आता है ॥ ५८ ॥

अथ तापीआदिनदियोंके गुण दोष ॥

तापी तापा च गोलोमी गोमती सलिला मही ॥ सरस्वतीयुता नद्यो न
र्मदा पश्चिमानुगाः ॥ ५९ ॥ आसां जल घनं पीतं पित्तघ्नं कफकृत्त
था ॥ वातदोषहरं हृद्यं कण्डूकुष्ठविनाशनम् ॥ ६० ॥

तापी, तापा, गोलोमी, गोमती, सलिला, मही, सरस्वती, नर्मदा, ये पश्चिमसे बहती हैं ॥ ५९ ॥ इन्होंका पानी मोठा है पीला है पित्तको नाशता है कफको करता है वातदोषको हरता है सुंदर है स्वाजको और कुष्ठको नाशता है ॥ ६० ॥

पश्चिमाद्रिसमुद्भूता गौतमी पुण्यभावना ॥ आसां शीतं जलं वापि क
फवातविकारकृत् ॥ पित्तघ्नं शमनं बल्यं मूत्रदोषविकारकृत् ॥ ६१ ॥
पूर्णा पयस्विनी वेत्रा प्रणीता च वरानना ॥ द्रोणा गोवर्द्धनी यान्या गौत
म्यानुगता इमाः ॥ ६२ ॥ आसां जलं घनं नातिवातश्लेष्मविकारकृत् ॥
पूर्वसामुद्रगाश्चैव नद्यो नवशतैर्युताः ॥ ६३ ॥ कावेरी वीरकान्ता च भीमा
चैव पयस्विनी ॥ विभावरी विशाला च गोविन्दी मदनस्वसा ॥ पार्वती
चापराकपो दक्षिणादिग्गमा इमाः ॥ ६४ ॥ प्रत्येकशो न सेवेत युक्ताया
श्च पृथक् ॥ सर्वासां परिसंख्या च शतानां चैकविंशतिः ॥ ६५ ॥

पश्चिमके पर्वतसे उपजी गौतमी पवित्र है इसका पानी शीतल है कफको और वातके विकारको करता है पित्तकारक है, दोषशामक है, बलकारक है, मूत्रदोषके विकारको करता है ॥ ६१ ॥ पूर्णा, पयस्विनी, वेत्रा, प्रणीता, वरानना, द्रोणा, गोवर्द्धनी इनआदि नदी गौतमी नदीके अनुगमन करती है ॥ ६२ ॥ इन्होंका पानी अति मोटा नहीं है वातके और कफके विकारको करता है और पूर्वके समुद्रमें गमन करनेवाली नौसौ ९०० नदी हैं ॥ ६३ ॥

कावेरी, वीरकांता, गोविंदी, मदनस्वसा, पार्वती, इनआदि नदी दक्षिणदिशाको गमन करती हैं ॥६४॥ एक एक नदीको नहीं सेवै और पृथक् २ युक्तहुईं सब नदियोंकी २१०० इकी-सत्तौ संख्या अर्थात् गिनती है ॥ ६५ ॥

क्रोशे क्रोशे भवेत् कुल्या योजने योजने नदी ॥

द्वियोजना च विज्ञेया महानीरा वुधैर्नदी ॥ ६६ ॥

कोश कोशमें विस्तारवाली कुल्या कहाती है और चार चार कोशमें विस्तारवाली नदी कहाती है और आठ आठ कोशमें विस्तारवाली महानदी कहाती है ॥ ६६ ॥

अथ पृथिवीके भागका पानी ॥

भूमिः पञ्चविधा ज्ञेया कृष्णा रक्ता तथा सिता ॥ पीता नीला भवेच्चान्या गुणास्तासां प्रकीर्त्तिताः ॥ ६७ ॥ कृष्णा च मधुरा रूक्षा कषाया पीत वर्णिनी ॥ रक्ता सा च भवेत्तिक्ता मधुराम्ला सिता स्मृता ॥ ६८ ॥ नीला सकटुका ज्ञेया भूमिभागजलं विदुः ॥ सघनं मधुरं नीरं कृष्णं भूमि परिश्रितम् ॥ ६९ ॥ पीताश्रितं कषायञ्च रक्तायाः क्षारमाधुरम् ॥ सिता यामम्लमधुरं भूमिभागेन लक्षयेत् ॥ ७० ॥ तथा चतुर्विधं तोयं वक्ष्यामि शृणु कोविद ! ॥ पापोदकं रोगोदकमंशूदकारोग्योदकौ ॥ ७१ ॥

काली—लाल सपेद—पीली नीली—इन भेदोंसे पृथिवी पांचप्रकारकी है तिनहोंके गुण कहते हैं ॥ ६७ ॥ कालीपृथिवी मधुर है कडुई है रूषी है पीली पृथिवी कसैली है लाल पृथिवी कडुवी है सपेद पृथिवी मधुर और खट्टी है ॥ ६८ ॥ नीली पृथिवी चर्चरी जाननी ऐसेही पृथिवीके भागका पानी कहा है ॥ ६९ ॥ पीली पृथिवीका कसैला पानी है लाल पृथिवीका पानी खारा और मधुर है सपेद पृथिवीका पानी खट्टा है मधुर है ऐसे पृथिवीके भागसे पानीको लक्षितकरै ॥ ७० ॥ अब पापोदक—रोगोदक—अंशूदक—आरोग्योदक—इन भेदोंसे पानीको चारप्रकारसे कहताहूं हे कोविद ! सुन ॥ ७१ ॥

अथ पापोदकका गुण दोष ॥

पापं पापोदकं चैव करोत्येवमरोचकम् ॥ विषायुक्तं याद्विषयकं ^{नदी ५} .मिकी टसमाकुलम् ॥ ७२ ॥ समलं नीलशैवालं पापन्तु नर्दितञ्च यत् ॥ स्नाने पाने न तत् शस्तं नराणां वा ह्येषु च ॥ ७३ ॥ स्नानेन त्वग्भवाच्चोगान् कण्डूकुष्ठविसर्पकृत् ॥ पानेन कफगुल्मानां कृमीणां वरसम्भवात् ॥ करोति विविधान् रोगांस्तस्मात्तत् परिवर्जयेत् ॥ ७४ ॥

पापोदकसंज्ञक पानी पापरूप है और रुचिको विगाडता है विषसे संयुक्तहुआ पानी कबज-को करता है और कीडे आदिसे संयुक्त ॥ ७२ ॥ और मलसे सहित और नीले शिवालसे संयुक्त ऐसा पानीभी पापोदक कहाता है यह मनुष्योंको और घोडोंको स्नानमें और पानमें अच्छा नहीं है ॥७३॥ यह पानी स्नानके करनेसे खालके रोग—खाज—कुष्ठ—विसर्प—इन्हों-को करता है और पीनेसे कफके गुल्मरोगको और कृमिरोगको उपजाता है ॥ ७४ ॥

अथ रोगोदकके गुणदोष ॥

बहुवृक्षलताकुञ्जे छायाकूपोऽथवा सरः ॥ अव्ययश्चेदधोऽप्येवं कृमि
शैवालसंयुतम् ॥ ७५ ॥ क्लिन्नं सपिच्छलं कृष्णं वृक्षमूलाश्रितं भवेत् ॥
बहुवृक्षपर्णयुक्तं दुर्गन्धं मूत्रगन्धवत् ॥ ७६ ॥ रोगोदकं विजानीयात् क
रोति विषमान् गदान् ॥ शूलं कुष्ठञ्च कण्डूञ्च सेवितेन करोति हि ॥ ७७ ॥
विष्मूत्रतृणनीलिकाविषयुतं तप्तं घनं फेनिलं दन्तग्राह्यमनार्त्तवं हि सज
लं दुर्गन्धि शैवालजम् ॥ नानाजीवविमिश्रितं गुरुतरं पर्णौघपङ्काविलं च
न्द्रार्कांशुसुगोपितं न च पिबेन्नीरं सदा दोषलम् ॥ ७८ ॥ गुल्मप्लीहाशः
पाण्डुञ्च जलं वापि जलोदरात् ॥ ७९ ॥

बहुतसे वृक्ष और वेलोंके समूहमें जो छाया विषै कूवाहो अथवा तलावहो और तिसमें पानी सदा बनारहताहो कीडे और शिवालसे वह पानी संयुक्तहो ॥ ७५ ॥ और क्लेदपनेको प्राप्तहो और झागोंसे संयुक्तहो कालाहो और वृक्षोंकी जडमें आश्रितहो और बहुतसे वृक्षोंके पत्तोंसे व्याप्तहो दुर्गन्धितहो और मूत्रके गंधके समानगंधवालाहो ॥ ७६ ॥ तिसको रोगोदक जानना यह विषमरोगोंको करता है और सेवनेसे शूल-कुष्ठ-खाज-इन्होंको करता है ॥ ७७ ॥ अथवा विष्ठा—मूत्र—तृण—नीला शिवाल—विष—इन्होंसे संयुक्तहो और गर्महो मोठाहो झा-गोंसे संयुक्तहो दंतोंको ग्रहण करताहो अकालमें वर्षाहो दुर्गंधसे युक्तहो शिवालसे संयुक्तहो अनेकप्रकारके जीवोंसे मिश्रितहो अत्यंत भाराहो पत्तोंके समूह और कीचड़से मैलाहो चंद्र-मा और सूर्यकी किरनोंसे रक्षितहो ऐसा पानीभी रोगोदक कहाता है इसकोभी नहीं पीना यह सबकालमें दोषोंको उपजाता है ॥ ७८ ॥ और सेवनेसे गुल्मरोग—तिल्लीरोग, ववासीर, पांडु, जलोदर, इन्होंको उपजाता है ॥ ७९ ॥

अथ अंशूदकके गुणदोष ॥

दिवा सूर्यशुशुसन्तप्तं रात्रौ चन्द्रांशुशीतलम् ॥ अंशूदकमिति ख्यातं स
र्वरोगनिवारकम् ॥ ८० ॥ कफमेदोनिलघ्नं च दीपनं वृषि शोधनम् ॥
श्वासकासहरं नीरं चक्षुष्यं नेत्ररोगहृत् ॥ ८१ ॥

दिनेमें सूर्यके किरनोंसे तप्तहुआ और रात्रिमें चंद्रमाके किरनोंसे शीतलहुआ ऐसा पानी अंशुदक कहा है यह सब रोगोंको दूर करता है ॥ ८० ॥ कफ, मेद, वात—इन्हेंको नाशता है जठराग्नीको जगाता है वस्तिको शोधता है श्वासको और खांसीको हरता है नेत्रोंमें हित है और नेत्रके रोगोंको हरता है ॥ ८१ ॥

अथ आरोग्योदकके गुणदोष ॥

पादशेषन्तु कथितं तच्चारोग्यजलं विदुः ॥ कासश्वासहरं पथ्यं मारुतं
चापकर्षति ॥ ८२ ॥ सद्यो ज्वरं हरत्याशु समेदःकफनाशनम् ॥ प्रतिश्या
यं प्राचयति शूलगुल्मार्शनाशनम् ॥ ८३ ॥ दीपनञ्च हुताशस्य पाण्डु
शोफोदरापहम् ॥ अजीर्णञ्च जरत्याशु पीतमुष्णोदकं निशि ॥ ८४ ॥

अग्निके द्वारा पकानेसे जो चौथाईभाग शेष रहै वह आरोग्योदक कहाता है यह खांसीको और श्वासको हरता है पथ्य है वायुको नाशताहै ॥ ८२ ॥ नये ज्वरको शीघ्र हरता है मेदको और कफको नाशता है पीनस अर्थात् खेहरको पकाता है और शूल—गुल्मरोग—ववांसीर—इन्हेंको नाशता है ॥ ८३ ॥ अग्निको जगाता है और पांडुरोग—शोजा—उदररोग इन्हेंको हरताहै और रात्रिमें पीयाहुआ गर्मपानी अजीर्णको जराता है ॥ ८४ ॥

अथ शीतपानीके गुण ॥

मद्यपानसमुद्भूते रोगे पित्ताग्निते पुनः ॥

सन्निपातसमुत्थे च तत्र शीतोदकं हितम् ॥ ८५ ॥

मदिराके पीनेसे उपजे रोगमें और पित्तसे अन्वितहुये रोगमें और सन्निपातसे उपजे रोगमें शीतल पानीको पीना हित है ॥ ८५ ॥

गर्मपानीके गुण ॥

शारदे च तथा ग्रीष्मे काथेत् पादावशेषितम् ॥ शिशिरे च वसन्ते च कु
र्याद्दिद्धावशेषितम् ॥ ८६ ॥ विपरीतमृतौ घृष्ट्वा प्राट्षि वाङ्गभागिकम्
॥ ८७ ॥ काथ्यमानं च निर्वेगं निष्फेनं निर्मलञ्च यत् ॥ अर्द्धावशिष्टं
भवति तदुष्णोदकमुच्यते ॥ ८८ ॥ तत्पादहीनं वातघ्नं चाङ्गं पित्तविका
रजित् ॥ कफघ्नं पादशेषन्तु पानीयं लघु पाचनम् ॥ ८९ ॥ धारापाते
॥ शतशीतं त्रिदोषघ्नं कफान्तश्चासि शी

तलम् ॥ ९० ॥ दिवसे कथितं तोयं रात्रौ तद्गुरुवर्जयेत् ॥ रात्रौशृतं तु
दिवसे गुरुत्वमधिगच्छति ॥ ९१ ॥

शरदऋतुमें और ग्रीष्मऋतुमें पकानेमें चौथाई भाग शेषरहा पानी हित है शिशिरमें और
वसंतऋतुमें पकानेमें आधा शेषरहा पानी हित है ॥ ८६ ॥ हेमन्तऋतुमें पकानेसे तीनहिस्से
शेषरहा पानी हित है और वर्षाऋतुमें पकानेमें आधा भाग शेषरहा पानी हित है ॥ ८७ ॥
अग्निपै पकानेमें वेगसे रहितहो झगोंसे वर्जितहो मलसे रहितहो पकानेमें आधा भागशेषहो
तिसको उष्णोदक कहते हैं ॥ ८८ ॥ पकानेमें चौथाई भाग जलाहुआ पानी वातको हरता
है आधा भाग जला हुआ पानी पित्तको हरता है तीन भाग जलाहुआ पानी कफको हरता
है ऐसा पानी हलका है पाचन है ॥ ८९ ॥ धाराके पातसे लिया पानी विटंभको करता है
मुशकिलसे जरता है वायुको हरता है अग्निपै पकाकै शीतल किया पानी विदोषको नाशता
है कफको हरता है शीतल है ॥ ९० ॥ दिनमें पकाये हुये पानीको रात्रिमें नहीं पीवै यह
भारी हो जाता है और रात्रिमें पकाये हुये पानीको दिनमें नहीं पीवै यहभी भारी होजा-
ता है ॥ ९१ ॥

अथ पानीविषयकविधि.

मदात्यये सदाहे च रक्तपित्ते तथोर्ध्वगे ॥ रक्तमेहे विशेषेण नोष्णं तोयं
प्रशस्यते ॥ ९२ ॥ पार्श्वशूले प्रतिश्याये वातरोगे गलग्रहे ॥ आध्माने
स्तिमिते कोष्ठे सद्यःशुद्धौ नवज्वरे ॥ ९३ ॥ अजीर्णे च तथा कासे न
शीतमुदकं हितम् ॥ प्रतिश्याये प्रसेके च ज्वरे कुष्ठे व्रणेषु च ॥ ९४ ॥
शोफे नेत्रामये चैव मन्दाग्रौ च तथा क्षये ॥ सूतिजातासुतानारीरक्तस्त्रा
वेऽप्यरोचके ॥ ९५ ॥ एतेषां सिद्धिमिच्छद्भिः पानीयं मन्दमाचरेत् ॥
जीर्णे च क्षुत्प्रपन्ने च पीतं हन्युदरानलम् ॥ ९६ ॥

मदात्यय रोग, दाह, शरीरके ऊपरले अंगोंमें प्राप्त हुआ रक्तपित्त, रक्तप्रमेह, इन्होंमें वि-
शेष करके गर्मपानी श्रेष्ठ नहीं है ॥ ९२ ॥ पसलीशूल, पीनसरोग, वातरोग, गलग्रह,
अफारा, स्तिमित श्वासरोग, कोष्ठरोग, तत्कालके जुलाव, वधनआदि, नवीनज्वर ॥ ९३ ॥
और अजीर्ण, खांसी, इन्होंमें शीतल पानी अच्छा नहीं है और पीनस रोग, प्रसेक, ज्वर,
कुष्ठ, घाव, ॥ ९४ ॥ शोजा, नेत्रके रोग, मंदाग्नि, क्षयरोग, सूतिका नारी, रक्तलाव, अरोच-
क ॥ ९५ ॥ इन्होंकी सिद्धिको चाहनेवाला मनुष्य अल्पपानीको पीवै भोजनको जीर्ण
होनेमें और छीकोंके आनेमें पिया हुआ पानी पेटके अग्निको नाशता है ॥ ९६ ॥

करोति गुल्मं शूलं वा तथा श्रान्ते बहूदकम् ॥ तस्माज्जीर्णोऽनलं हन्ति अ
जीर्णे वारिभेषजम् ॥ ९७ ॥ भुक्तान्तः परतः शस्तं पीतं वारि गुणात्मकम् ॥
अध्वश्रान्ते क्षुधाक्लान्ते शोपक्रोधातुरेषु च ॥ ९८ ॥ विषमासनोपविष्टे च
पीतं वारि रुजाकरम् ॥ तस्मात् प्रसन्ने मनसि पानीयं मन्दमाचरेत् ॥ ९९ ॥
आदौ पीत्वा दहृत्यग्निर्मध्ये पीत्वा रसायनम् ॥ तदन्ते च जलं पीत्वा त
ज्जलं दुर्जरं भवेत् ॥ १०० ॥ भोजनादौ जलं पीत्वा चाग्निसादः कृशा
ङ्गता ॥ अन्ते करोति स्थूलत्वमूर्ध्वमामाशयात् कफम् ॥ १०१ ॥ इति
तोयपानविधिः ॥ इति जलवर्गो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

परिश्रमसे थकाहुआ मनुष्य बहुत पानीको पीवै तो गुल्म और शूलरोगकी उत्पत्ति होती
है और भोजनको जीर्ण होनेमें पियाहुआ पानी जठराग्निको हरता है और अजीर्णमें
पानी ओषधरूप है ॥ ९७ ॥ भोजन करनेके मध्यमें और पीछेसे पियाहुआ पानी गुणों-
को करता है और मार्गके चलनेसे श्रांतहुआ और भूखसे पीडितहुआ और शोक, क्रोध,
रोग, इन्होंनेसे पीडितहुआ ॥ ९८ ॥ और विषम आसनपै स्थितहुआ ऐसा मनुष्य पानी-
को पीवै तो शीघ्र रोगकी उत्पत्ति होती है तिसकारणसे प्रसन्न हुये मनमेंभी अल्प पानीको
पीवै ॥ ९९ ॥ भोजनकी आदिमें पिया पानी अग्निको नाशता है भोजनके मध्यमें पिया
पानी रसायन अर्थात् अमृतके समान है भोजनके अंतमें पिया पानी दुःखसे जरता है
॥ १०० ॥ भोजनकी आदिमें पानीको पीनेसे मंदाग्नि और अंगोंका क्लेशपना होजाता है
और भोजनके अंतमें पियाहुआ पानी मुठापेको करता है और आमाशयसे ऊपर कफको
करता है ॥ १०१ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसूनुवैधरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारी-
तसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने जलवर्गो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अथ दुग्धवर्गवर्णन.

अथातः संप्रवक्ष्यामि क्षीरवर्गन्तु वत्सक ! ॥

दधिसर्पिर्वसातक्रं तेषां सर्वगुणागुणम् ॥ १ ॥

हे पुत्र ! अब क्षीरवर्गको कहताहूँ और दही घत, वसा, तक्र—इन्होंनेके सब गुण और
दोषको कहूँगा ॥ १ ॥

अथ दूधकी उत्पत्ति.

यद्यदाहारजातन्तु रसं क्षीरशिरानुगम् ॥ सरोजलं च भुक्तं च तथा पि
त्तेन संयुतम् ॥ २ ॥ पाचितं जाठरे वल्लौ पित्तेन सह मूर्च्छितम् ॥ प
च्यमानं शिराप्राप्तं क्षीरतोयेन पुत्रक! ॥ ३ ॥ तेन क्षीरमिति ख्यातमग्नि
सामात्मकं पयः ॥ अमृतं सर्वभूतानां जीवनं बलकृन्मतम् ॥ ४ ॥

जो जो भोजनसे रस उपजता है वही दूधकी नाडीके अनुगत होता है रस पदार्थ
और पानी जो भोजन किया है वह पित्तसे संयुक्त होके ॥ २ ॥ जठराग्निके द्वारा पच्यमान
हुआ वह अन्नजलरस शिरामें दुग्धजलके साथ प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ तिस्से दूध ऐसा कहा-
ता है यह दूध जठराग्निके समान स्वभाववाला होता है और यही दूध अमृत है सब जीवों-
का जीवन है और बलको करनेवाला माना है ॥ ४ ॥

हारीतः संशयापन्नः पप्रच्छ पितरं पुनः ॥ कथं रसस्य सम्पत्तिः कथं सं
चीयते विभो! ॥ ५ ॥ कथं रक्तस्य संस्थाने क्षीरं पाण्डु समीरितम् ॥
कथं तत्र कुमारीणां वन्ध्यानां न कथं भवेत् ॥ ६ ॥

संशयको प्राप्तहुआ हारीत फिर पिताको पूछताभया हे विभो! रसकी सिद्धि कैसे है?
और कैसे रस संचित होता है? ॥ ५ ॥ और कैसे रक्तके स्थानमें सफेद रंगसे प्रेरितहुआ
दूध हो जाता है? कुमारीकन्याके और वन्ध्यास्त्रियोंके कैसे नहीं होता? ॥ ६ ॥

एवं पृष्ठो महावीर्य्यः प्रोवाच मुनिपुङ्गवः ॥ शृणु पुत्र महाप्राज्ञ! यदुक्तं
पूर्वसूरिभिः ॥ ७ ॥ क्षीरं स्निग्धं तथा रक्तं पित्तेन पाकतां गतम् ॥ रक्तं
श्वेतत्वमायाति तथा क्षीरं सितं भवेत् ॥ ८ ॥

ऐसे पूछे हुये महावीर्य्यवाले आश्रयजी कहनेलगे हे पुत्र! हे महाप्राज्ञ! जो पहले पंडितों-
नें कहा है वह सुन ॥ ७ ॥ जैसे स्निग्धरूपी दूध और रक्त पित्तसे पाकभावको प्राप्त होता
है, और रक्त सफेदपनेको प्राप्त होता है तैसे दूधभी सफेद होजाता है ॥ ८ ॥

क्षीरनाडी कुमारीणां वन्ध्यानां च कथं भवेत् ॥ अल्पधातुबलं यस्मा
त्तस्मात् क्षीरं न जायते ॥ ९ ॥ वन्ध्यानां क्षीरनाड्यस्तु वातेन परिपूरि
ताः ॥ क्षीरं च न भवेत्तस्मादार्त्तवै चाधिकं यतः ॥ १० ॥

कुमारीकन्याओंके और वन्ध्याओंके दूधकी नाडी कैसी होती है जिस्से अल्पधातु और
अल्पबल होता है तिस्से कुमारीके और वन्ध्याके दूध नहीं होता है ॥ ९ ॥ वन्ध्यास्त्रियोंके

दूधकी नाडी वायुसे पूरित होती है तिससे दूध नहीं उपजता है किंतु आर्तव अधिक होता है ॥ १० ॥

प्रसूतासु च नारीषु बलेन सह सूयते ॥ तेन स्रोतोविशुद्धिः स्यात् क्षीर
माशु प्रवर्त्तते ॥ ११ ॥ तस्मात् सद्यःप्रसूतायां जायते श्लैष्मिकं पयः ॥
तेन कठिनतां याति तस्मात्तत् परिवर्जयेत् ॥ १२ ॥

और बालकको जन्मानेवाली नारियोंमें बल करके बालक जन्मता है तिससे विशेष करके शुद्धि होती है तब दूध शीघ्र प्रवृत्त होता है ॥ ११ ॥ तिसवास्तै तत्काल प्रसूतहुई नारियोंमें कफकी प्रकृतिवाला दूध उपजता है तिसकरके वह दूध कठिनपनेको प्राप्त होता है तिससे वह वर्जदेना ॥ १२ ॥

स्रोतोविशुद्धिकरणं बलकृद्दोषनाशनम् ॥

पयस्त्रिदोषशमनं वृष्यञ्चाग्निप्रवर्द्धनम् ॥ १३ ॥

स्रोतोंके विशेष करके शुद्धिको करनेवाला और बलको करनेवाला और दोषको नाशनेवाला ऐसा दूध त्रिदोषको शांत करता है और पुष्टिको करता है और जठराशिको बढ़ाता है १३

पृथक् २ रंगकीस्त्रियोंके दूध

कृष्णा वृष्या च वातघ्नी पयस्तस्या विशेष्यते ॥ श्वेतापयः श्लेष्मकञ्च
वातलं रक्तिकापयः ॥ १४ ॥ पित्तसंशमना पीता तस्याः क्षीरं विशेष्यते ॥

काली स्त्री पुष्टिको करती है वातको नाशती है तिसका दूध अच्छा होता है सफेदरंगकी स्त्रीका दूध कफको करता है लालरंगकी स्त्रीका दूध वातको करता है ॥ १४ ॥ पीलीस्त्रीका दूध पित्तको शांत करता है और यह अच्छा है ॥

पृथक् २ रंगकीगार्योंका दूध

कृष्णासृक्पित्तसंयुक्ता श्वेता श्लेष्मगुणान्विता ॥ १५ ॥ कफवाताश्रिता
पीता रक्तवातगुणान्विता ॥ यद्यद्वर्ग्यगुणास्ते तु ज्ञातव्याः सुमहात्मना ॥ १६ ॥

कालीगाय रक्त और पित्तसे संयुक्त होती है सफेद रंगवाली कफके गुणोंसे संयुक्त होती है ॥ १५ ॥ पीली कफ और वातसे संयुक्त होती है लालरंगवाली वातके गुणसे संयुक्त होती है ऐसे जोजो उत्तमगुण है वे—सब महात्मा वैद्यकों जानने चाहिये ॥ १६ ॥

धारोष्णं शस्यते गर्भ्यं धाराशीतन्तु माहिषम् ॥

शतोष्णमाविकं पथ्यं शतशीतमजापयः ॥ १७ ॥

गायका दूध धारोंसे गर्महुआही हित है भैसका दूध धारोंसे पीछे शीतलहुआ हित है भेडके दूधको गर्म करके पीछे गर्मरूपही पथ्य है बकरीके दूधको गर्मकर पीछे शीतलकरा पथ्य है १७

अथ गायके दूधके गुण ॥

गन्धं पवित्रं च रसायनं च पथ्यं च हृद्यं बलपुष्टिदं स्यात् ॥

आयुष्प्रदं रक्तविकारपित्तत्रिदोषहृद्रोगविषापहं स्यात् ॥ १८ ॥

गायका दूध पवित्र है रसायन है पथ्य है मनोहर है बलको और पुष्टिको देता है आयुको देता है और रक्तविकार, पित्तरोग, त्रिदोष, हृद्रोग, विष, इन्होंको नाशता है ॥ १८ ॥

अथ बकरीके दूधके गुण ॥

छागं कषायं मधुरञ्च शीतं ग्राहि लघु पित्तक्षयापहारि ॥

कासज्वराणां रुधिरातिसारे हितं पथ्यश्छागलजं त्रिदोषजित् ॥ १९ ॥

बकरीका दूध कसैला है मधुर है शीतल है कषयको करता है हलका है पित्तको और क्षयको नाशता है खांसीसहित ज्वर, रक्तका अतीसार इन्होंमें हित है और त्रिदोषको जीतता है ॥ १९ ॥

अथ भेडके दूधके गुण ॥

औरभ्रं मधुरं रूक्षमुष्णवातकफापहम् ॥

न शास्तं रक्तपित्तानां वातिकानां हितं भवेत् ॥ २० ॥

भेडका दूध मधुर है रूखा है उष्णवातको और कफको नाशता है रक्तपित्तवालोंको अच्छा नहीं है और वातवालोंको अच्छा है ॥ २० ॥

अथ भैसका दूधके गुण ॥

स्निग्धं मरुच्छीतकरं च तन्द्रानिद्राकरं वृष्यतमं श्रमघ्नम् ॥

बलप्रदं पुष्टिकरं कफस्य सञ्जीवनं माहिषमुच्यते पथ्यः ॥ २१ ॥

भैसका दूध चिकना है वायुको और शीतको उपजाता है तन्द्राको और नींदको करता है अतिपुष्ट है परिश्रमको नाशता है बलको देता है कफको करता है और संजीवनरूप है ॥ २१ ॥

अथ ऊंटीका दूधके गुण ॥

रूक्षं तथोष्णं लवणं कफस्य निवारणं वातविकारहारि ॥

लघु प्रशास्तं कटुकं कृमीणां शोफार्शसाभौष्ट्रपयोऽनुकूलम् ॥ २२ ॥

ऊंटनीका दूध गर्म है सलौना है रूखा है कफको दूर करता है वातके विकारको नाशता है हलका है अच्छा है चर्चरा है कीडोंको निकासता है शोजाको और ववासीरको शांत करता है ॥ २२ ॥

स्त्रियोंके दूधका गुण ॥

सञ्जीवनं बृंहणमेव सात्म्यं सन्तर्पणं नेत्ररुजापहं च ॥

पित्तस्य रक्तस्य च नाशनं च नारीपयः स्नेहनमेव शस्तम् ॥ २३ ॥

स्त्रियोंका दूध संजीवन है, पुष्टिकारक है, स्वभावसे रहता है, वृमि करता है, नेत्रोंकी पीडा दूर करता है, दुष्टपित्तका और रक्तका नाश करता है, चिकनाई देता है, ऐसा स्त्रियोंका दूध अच्छा है ॥ २३ ॥

अथ प्रभातका दूधके गुण ॥

निशाशीतांशुसंशीतं निद्रालस्यश्रमानुगम् ॥

सघनं शीतकफकृत्क्षीरं प्राभातिकं भवेत् ॥ २४ ॥

रात्रिके चंद्रमाकी किरनोंसे शीतलहुआ नींद, आलस्य, परिश्रम, इन्हेंको शांत करनेवाला और भारा शीतको और कफको करनेवाला ऐसा प्रभातका दूध होता है ॥ २४ ॥

अथ दिनका दूधके गुण ॥

वासरे सूर्यसन्तापात्सद्योष्णं कफवातजित् ॥

दिनमें सूर्यके संतापसे तत्काल गर्महुआ कफको और वातको जीतनेवाला पित्तको शांत करनेवाला ऐसा दिनका दूध है ॥

अथ रात्रिके दूधका गुण ॥

हितं तत्पित्तशमनं सुशीतं भोजने निशि ॥ २५ ॥

रात्रिमें भोजनके समय अच्छा शीतल किया दूध हित है और पित्तको शांत करता है ॥ २५ ॥

अथ दूधको पीनेकी विधि ॥

अल्पाम्बुपानव्यायामात् कटुतिक्ताशने लघु ॥ पिण्याकाम्लाशिनीनां तु गुर्वभिष्यन्दि शीतलम् ॥ २६ ॥ क्षीणानां दुर्बलानाञ्च तथा जीर्णञ्च

रादिंते ॥ दीप्ताग्नीनामतन्द्राणां श्रमशोषविकारिणाम् ॥ २७ ॥ व्यवाधि
नामल्परेतसां श्वासिनां विषमाग्नीनाम् ॥ तथा च राजयक्ष्मणां क्षीरपानं
विधीयते ॥ २८ ॥ न शस्तं लवणैर्युक्तं क्षीरं चाम्लेन वा पुनः ॥ करो
ति कुष्ठं त्वग्दोषं तस्मान्नैव हितं मतम् ॥ २९ ॥

अल्प पानीको पीना और कसरत और चर्चरा तथा कहुआ भोजन इन्होंको सेवनेवा-
लोंको दूध हलका है तिलोंकी पीठी और खट्टे पदार्थोंको सेवनेवालोंको दूध भारा है कफको
करता है और शीतल है ॥ २६ ॥ क्षीण, दुर्बल, जीर्णज्वरसे पीडित, दीप्तअग्निवाला, तंद्रासे
वर्जित श्रम और शोषको विकारवाले ॥ २७ ॥ मैथुन करनेवाले अल्पवीर्यवाले, श्वासवाले,
विषम अग्निवाले, राजरोगवाले, इनसवोंको दूधका पान कराना ॥ २८ ॥ नमकसे संयुक्त
अथवा खट्टे पदार्थसे संयुक्तकिया दूध अच्छा नहीं है यह कुष्ठको और खालमें रोगको कर-
ता है इसवास्तै यह हित नहीं है ॥ २९ ॥

अथ गायका दहीके गुण॥

अम्लं स्वादुरसं ग्राहि गुरूष्णं वातरोगजित् ॥ मेदःशुक्रबलश्लेष्मरक्त
पित्ताग्निशोफकृत् ॥ ३० ॥ स्निग्धं विपाके मधुरं दीपनं बलवर्द्धनम् ॥
वातापहं पवित्रं च दधि गव्यं रुजाकरम् ॥ ३१ ॥

गायका दही खट्टा है स्वादुरसवाला है कबजको करता है भारा है गर्म है वातरोगको
जीतता है और मेद, बल, वीर्य, रक्त, पित्त, शोजा, इन्होंको करता है ॥ ३० ॥ और वि-
शेष करके पाककालमें मधुर है अग्निको जगाता है बलको बढ़ाता है वायुको नाशता है पवित्र
है और रोगको करता है ॥ ३१ ॥

अथ बकरीका दहीके गुण ॥

आजं दधि भवेच्चोष्णं क्षयवातविनाशनम् ॥ दुर्नामश्वासकासेषु हितम्
ग्निप्रदीपनम् ॥ ३२ ॥ विपाके मधुरं वृष्यं रक्तपित्तप्रसादनम् ॥ शस्तं
प्राजातिकं प्रोक्तं वातपित्तनिवर्हणम् ॥ ३३ ॥

बकरीका दही गर्म है क्षयको और वातको नाशता है और ववासीर, श्वास, खांसी,
इन्होंमें हित है अग्निको जगाता है ॥ ३२ ॥ और पाककालमें मधुर है वीर्यमें हित है रक्त-
पित्तको साफकरताहै तिसमेंभी प्रभातका दही अच्छा है वात और पित्तको दूरकरता है ॥ ३३ ॥

अथ भैंसका दहीके गुण ॥

घनं माहिषमुद्दिष्टं मधुरं रक्तदोषकृत् ॥

कफशोफहरं स्वस्थं पित्तकृद्वातकोपनम् ॥ ३४ ॥

भैंसका दही करडा है मधुर है रक्तदोषको करता है कफको और शोफको हरता है स्वस्थ है पित्तको करता है वातको कोपता है ॥ ३४ ॥

अथ ऊंटनीके दहीके गुण ॥

विपाके कटुसक्षारं गुरुभेद्यौष्टिकं दधि ॥

वातमर्शांसि कुष्ठानि क्रिमीन्हंत्युदरं परम् ॥ ३५ ॥

ऊंटनीका दही विपाकमें तीखा, खारा, भारा, मलका भेदनेवाला, वायु, अर्श, कोढ़, रुमि, और उदररोगोंका नाश करता है ॥ ३५ ॥

अथ स्त्रीके दहीके गुण ॥

स्निग्धं विपाके मधुरं बल्यं संतर्पणं हितम् ॥

चक्षुष्यं ग्राहि दोषघ्नं दधि नार्यां गुणोत्तमम् ॥ ३६ ॥

स्त्रियोंका दही चिकना, विपाकमें मधुर, बलदेनेवाला, धातुओंकें दृढ करनेवाला, टंडा, नेत्रोंकें हितकर, वातादिदोषोंकें नाशनेवाला और बढागुणकारी है ॥ ३६ ॥

अथ भेडका दहीके गुण ॥

कोपनं कफवातानां दुर्नाम्नां चाविकं दधि ॥ दीपनीयं तु चक्षुष्यं पांडुलम्
च्चापि वातुलम् ॥ ३७ ॥ रूक्षमुष्णं कषायं स्यादत्यभिष्यंदि दोषलम् ॥
रसे पाके च मधुरं कषायं कुष्ठवर्द्धनम् ॥ ३८ ॥

भेडका दही कफ और वात तथा अर्शरोग इन्होंको कोपनेवाला, जठराग्निको प्रदीप्त करनेवाला, नेत्रको हितकर, पांडुरोगकें उपजानेवाला, वायु उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ ३७ ॥ पित्तको करता है वातको शांत करता है और रूखा, गरम, कसैला, श्लेष्माको पैदा करनेवाला, दोषोंको उपजानेवाला, रसमें और पाकमें मधुर और कसैला, कुष्ठरोगकें बढानेवाला होता है ॥ ३८ ॥

अथ वर्षाकालके दहीका गुण ॥

वार्षिकं पित्तकृद्वातशमनं कफकोपनम् ॥

गुल्मार्शःकुष्ठरोगे च रक्तपित्ते न शस्यते ॥ ३९ ॥

वर्षाकालका दही कफको कोषता है और गुल्मरोग ववासीर, कुष्ठ, रक्तपित्त, इन्होंमें अच्छा नहीं है ॥३९॥

अथ शरदऋतुके दहीका गुण ॥

शारदं दधि गुर्वम्लं रक्तपित्तविवर्द्धनम् ॥

शोफतृष्णाज्वरात्तानां करोति विषमज्वरम् ॥ ४० ॥

शरदऋतुका दही भारा है खटा है रक्तपित्तको बढ़ाता है और शोभा, तृषा, ज्वर, इन्होंसे पीडितोंके विषमज्वरको करता है ॥ ४० ॥

अथ हेमन्तऋतुके दहीका गुण ॥

गुरु स्निग्धं सुमधुरं कफकृद्बलवर्द्धनम् ॥

दृष्यं मेध्यं च हेमन्तं पुष्टिदं तुष्टिद्विद्धिदम् ॥ ४१ ॥

हेमन्त और शिशिरऋतुका दही भारा है मधुर है कफको करता है बलको बढ़ाता है वीर्यमें हित है पवित्र है पुष्टिको देता है और तुष्टिको बढ़ाता है ॥ ४१ ॥

अथ शिशिरऋतुके दहीका गुण ॥

दृष्यं बलकरं पैत्तं श्रमस्यापहरं परम् ॥

शैशिरं सघनं चाम्लं पिच्छलं गुरु चैव च ॥ ४२ ॥

शिशिरऋतुका दही करडा है खटा है कफकारी है भारा है वीर्यमें हित है बलको करता है पित्तमें अच्छा है श्रमको हरता है ॥ ४२ ॥

अथ वसन्तऋतुके दहीका गुण ॥

वातलं मधुरं स्निग्धं किञ्चिदम्लं कफात्मकम् ॥

बलकृद्दीर्घकृत्प्रोक्तं वसन्ते न प्रशस्यते ॥ ४३ ॥

वसन्तऋतुका दही वातल है चिकना है कछुक खटा है कफकी प्रकृतिवाला है बलको और वीर्यको करता है इसवास्ते वसन्तऋतुमें दही अच्छा नहीं है ॥ ४३ ॥

अथ ग्रीष्मऋतुके दहीका गुण ॥

लघु चाम्लं भवेद्ग्रीष्मे चात्युष्णं रक्तपित्तकृत् ॥

शोषभ्रमपिपासाकृद् दधि प्रोक्तं न ग्रीष्मिके ॥ ४४ ॥

ग्रीष्मऋतुका दही हलका है खटा है अतिगर्म है रक्तपित्तको करता है और शोष, भ्रम, पिपासा, इन्हेंको नाशता है इसऋतुमेंभी दही अच्छा नहीं है ॥ ४४ ॥

अथ दहीका वर्जना ॥

शरद्रीष्मवसन्तेषु दोषकृन्ध हितं भवेत् ॥ न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाऽप्यघृतशर्करम् ॥ ४५ ॥ लवणं दधि भुञ्जीत भुञ्जीताऽप्युदकेन च ॥ तल्लवणाम्बुसंयुक्तं दधि शस्तं निशि ध्रुवम् ॥ ४६ ॥ ज्वरासृक्पित्तविसर्पकुष्ठिनां पाण्डुरोगिणाम् ॥ संप्राप्तकामलानाञ्च शोफिनाञ्च विशेषतः ॥ ४७ ॥ तथा च राजयक्ष्मणामपस्मारे च पीनसे ॥ प्रतिश्यायार्दितानाञ्च भोजने न हितं दधि ॥ ४८ ॥

शरद, ग्रीष्म, वसंत, इन ऋतुओंमें दही दोषको नहीं करता है हित है रात्रिमें दहीको नहीं खाना घृत और खांडसे रहित दहीको नहीं खाना ॥ ४५ ॥ नमकसे मिलाहुआ और पानीसे मिलाहुआ ऐसे दहीको खाना और रात्रिमें दहीको खावे तो नमक और पानीसे संयुक्तकर खाना ॥ ४६ ॥ ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पांडुरोग, कामला, शोजा, ॥ ४७ ॥ राजरोग, घृगीरोग, पीनस, खेहर, इनरोगवालोंको भोजनमें दही हित नहीं है ॥ ४८ ॥

अथ दहीको खानेकी विधि ॥

हिक्काश्वासार्शःप्लीहानामतीसारे भगन्दरे ॥

शस्तं प्रोक्तं दधि चैषां लवणेन विमूर्च्छितम् ॥ ४९ ॥

हिचकी, श्वास, ववासीर, तिळीरोग, अतीसार, भगंदर इन्हेंमें नमकसे संयुक्तकिया दही खाना अच्छा है ॥ ४९ ॥

अथ गायका तक्र अर्थात् छाछके गुण ॥

गव्यं त्रिदोषशमनं पथ्ये श्रेष्ठं तदुच्यते ॥

दीपनं रुचिकृन्मेध्यमशौद्रविकारजित् ॥ ५० ॥

गायका तक्र त्रिदोषको शांत करता है पथ्यमें श्रेष्ठ है अग्निको जगाता है रुचिको करता है पवित्र है ववासीरको और अतीसारको नाशता है ॥ ५० ॥

अथ भैंसका तक्रके गुण ॥

माहिषं कफकृत्किञ्चिद्धनं शोफकरं नृणाम् ॥

शस्तं प्लीहाशौंग्रहणीदोषेऽतीसारिणामपि ॥ ५१ ॥

भैंसका तक्र कफको करता है कछुक करडा है मनुष्योंके शोजाको करता है और तिळीरोग, संग्रहणी, अतीसार, इनरोगवालोंको श्रेष्ठ है ॥ ५१ ॥

अथ बकरीका तक्रके गुण ॥

छागलं लघु संदिग्धं त्रिदोषशमनं परम् ॥

गुल्माशोत्रहणीशूलपाण्ड्वामयविनाशनम् ॥ ५२ ॥

बकरीका तक्र विकना है त्रिदोषको नाशनेमें उत्तम है और गुल्म, ववासीर, संग्रहणी-रोग, शूल, पांडुरोग, इन्होंको नाशता है ॥ ५२ ॥

अथ तक्रवर्णन ॥

तथा च त्रिविधं तक्रं कथ्यते शृणु पुत्रक!॥ यथा योगेन तत् सम्यक् श
स्यते येषु रोगिषु ॥ ५३ ॥ समुद्धृतघृतं तक्रमर्द्धोद्धृतघृतञ्च यत् ॥ अनु
द्धृतघृतञ्चान्यदित्येतत्रिविधं मतम् ॥ ५४ ॥ सर्वं लघु च पथ्यञ्च त्रिदो
षशमनं परम् ॥ ततः परं वृष्यतरं क्रमेण समुदीरितम् ॥ ५५ ॥ अनुद्धृतघृ
तं सान्द्रं गुरु विद्यात् कफात्मकम् ॥ बलप्रदन्तु क्षीणानामामशोफातिसा
रकत् ॥ ५६ ॥

तक्र ३ प्रकारका है सोमें कहताहूँ हेपुत्र! सुन अच्छीतरह यथायोग करके वह तक्र जिन-रोगोंमें अच्छा है सो दिखताहूँ ॥ ५३ ॥ जो घृतसे वर्जित तक्र है और घृतसे सहित तक्र है और अनुद्धृततक्र है ऐसे ३ प्रकारसे तक्र कहा है ॥ ५४ ॥ घृतसे वर्जिततक्र हलका है पथ्य है त्रिदोषको शांत करता है घृतसहित तक्र वीर्यमें हित कहा है ॥ ५५ ॥ अनुद्धृतघृतसंज्ञक तक्र कठिन है भारा है कफकी प्रकृतिवाला है क्षीणमनुष्योंको बल देता है और आमदोष, शोजा, अतीसार—इन्होंको करता है ॥ ५६ ॥

अथ साधारणतक्रके गुण ॥

गरोदराशोत्रहणीपाण्डुरोगे ज्वरातुरे ॥ वर्चोमूत्रग्रहे वापि घृह्व्यापदमे
हिषु ॥ ५७ ॥ हितं संप्रीणनं बल्यं पित्तरक्तविरोधकत् ॥ मधुरं पित्तरक्त
घ्नमत्युष्णं रक्तपित्तकत् ॥ ५८ ॥

कृमिबिष, उदररोग, ववासीर, ग्रहणीदोष, पांडुरोग, ज्वर, विषाका बंधा, मूत्रका बंधा, तिळीरोग, प्रमेह—इनरोगवालोंको ॥ ५७ ॥ साधारणतक्र हित है प्रीतिको करता है बलमें

हित है पित्तरक्तका विरोधी है मधुर है पित्तरक्तको नाशता है अतिगर्म है और रक्तपित्तको करता है ॥ ५८ ॥

अथ बहुतपानीवाले तक्रका गुण ॥

बहूदकं दीपनीयं रक्तपित्तप्रकोपनम् ॥

पीनसे श्वासकासे च न शस्तमिह कथ्यते ॥ ५९ ॥

बहुतपानीवाला तक्र अग्निको जगाता है रक्तपित्तको कुपित करता है और पीनस, खांसी, श्वास, इनरोगोंमें अच्छा नहीं है ॥ ५९ ॥

अथ विशेषवर्णन ॥

अद्भौदिकमुदश्वित्स्थान्तक्रं पादजलान्वितम् ॥

वातं कफं हरेद्द्वोरमुदश्वित् श्लेष्मलं भवेत् ॥ ६० ॥

आधेपानीसे संयुक्त उदश्वित् कहते हैं और चौथाईपानीसे संयुक्तको तक्र कहते हैं ६०

अथ हाथसे मर्दितकिया तक्रका गुण ॥

करेण मर्दितं जन्तुतर्पणं बलकृन्मतम् ॥

श्रमापहरणं स्निग्धं ग्रहण्यशोऽतिसारनुत् ॥ ६१ ॥

हाथसे मर्दितकिया तक्र जीवोंको तप्त करता है बलको करनेवाला है परिश्रमको हरता है और ग्रहणीदोष, ववासीर, अतीसार इन्होंको नाशता है ॥ ६१ ॥

अथ तक्रनिषेध ॥

ऋते शोफे च क्षीणानां नोष्णकाले शरत्सु च ॥ न मूर्च्छाभ्रमतृष्णासु त
था रक्ते सपैत्तिके ॥ न शस्तं तक्रपानञ्च करोति विविधान् गदान् ॥ ६२ ॥

शोजाके विना क्षीणोंको और गर्मकालमें, शरदऋतुमें और मूर्च्छा, भ्रम, तृषा, इन्होंमें, और रक्तपित्तमें तक्रको पीना अच्छा नहीं है किंतु अनेकप्रकारके रोगोंको करता है ॥ ६२ ॥

अथ तक्रपानविधि ॥

शीतकालेऽग्निमान्द्ये च कफोच्छ्रायामयेषु च ॥ मार्गाविरोधे दुष्टेऽग्नौ गु
ल्मार्शसि तथामये ॥ ६३ ॥ शस्तं प्रोक्तञ्च तक्रं स्यादमीषां सर्वदा हित
म् ॥ सर्वकालेषु तच्छस्तमजाजिलवणान्वितम् ॥ ६४ ॥

शीतकालमें, मंदाग्निमें, कफकी अधिकतासे उपजे रोगोंमें, स्रोतोंके रुकजानेमें, दुष्टहुआ अग्निमें, गुल्मरोगमें, ववासीरमें ॥ ६३ ॥ मनुष्योंको तक्र हित कहा है जीरा और नमकसे संयुक्तकिया तक्र सबकालमें उत्तम है ॥ ६४ ॥

अथ नौनीघृतकी विधि ॥

नवनीतं नवग्राहि हृद्यं चोल्बणदीपकम् ॥ क्षयारुच्यर्दितप्लीहग्रहण्यशो
विकारनुत् ॥ ६५ ॥ चक्षुष्यं शिशिरं स्निग्धं वृष्यं जीवनवृंहणम् ॥ क्षीणे
द्रवं हिषं ग्राहि रक्तपित्ताक्षिरोगनुत् ॥ ६६ ॥ स्मृतिवाय्वग्निशुक्रौजःक
फमेदोविवर्द्धनः ॥ वातपित्तकफोन्मादशोफालक्ष्मीज्वरापहम् ॥ सर्वदोषा
पहं शीतं मधुरं रसपाकयोः ॥ ६७ ॥

नौनीघृत नवीन अवस्थाको हरता है सुंदर है अग्निको जगाता है और क्षय, अरुचि, लकुवावात, तिलीरोग, ग्रहणीदोष, ववासीर—इन्हेंको नाशता है ॥ ६५ ॥ और नेत्रोंमें हित है सुंदर शीतल है चिकना है वीर्यको करता है जीवोंको जिवानेवाला है धातुओंको पुष्ट करता है क्षीणमनुष्यको हित है द्रवरूप है शीतलस्वभाववाला है कचजको करता है रक्तपित्तको और नेत्ररोगको नाशता है ॥ ६६ ॥ और स्मृति, वायु, अग्नि, वीर्य, पराक्रम, कफ, मेद—इन्हेंको बढाता है और वात, पित्त, कफ, उन्माद, शोजा, अलक्ष्मी, ज्वर, इन्हेंको नाशता है सर्वदोषोंको हरता है रसमें और पाकमें मधुर है ॥ ६७ ॥

अथ फेनविधि ॥

कृष्णगोऽश्वपयःफेनमजानां वेति शस्यते ॥ मन्दाग्नीनां कृशानाञ्च वि
शेषादतिसारिणाम् ॥ ६८ ॥ उत्साहदीपनं बल्यं मधुरं वातनाशनम् ॥
सद्योबलकरञ्चैव तस्य क्षीरविलोडितम् ॥ ६९ ॥ क्षीणज्वरातिसारे च
सामे च विषमज्वरे ॥ मन्दाग्नौ कफमाश्रित्य पयःफेनं प्रशस्यते ॥ ७० ॥
क्षीरं गवां क्षीरफेनं तक्रं वा हितमेव च ॥ पक्कामजक्षणाद्वापि ग्रहणी
तस्य नश्यति ॥ ७१ ॥ ताम्बूलं नैव सेवेत क्षीरं पीत्वा तु मानवः ॥ या
वत्तच्च द्रवेत् क्षीरं शुक्तान्ताद्वापि शस्यते ॥ ७२ ॥

कालीगाय और घोडीका दूधके झाग अथवा बकरीका दूधके झाग मंदाग्निवालेंको और कृशमनुष्योंको और विशेष करके अतीसारवालेंको अच्छे होते हैं ॥ ६८ ॥ दूधको विलोनेसे उपजे झाग उत्साहको करते हैं बलमें हित है मधुर है वातको नाशते हैं शीघ्रबलमें

करते हैं ॥ ६९ ॥ क्षीणज्वर, अतीसार, आमज्वर, विषमज्वर, मंदाग्नि, कफको आश्रितहोके दूधके झागोंका पान श्रेष्ठ है ॥ ७० ॥ गायका दूध अथवा गायका दूधके झाग अथवा गायके दूधका तक्र हित होता है और गायके तक्रको पीनेवालाके पकेहुये आंवको खावै तो ग्रहणीदोषका नाश होता है ॥ ७१ ॥ दूधका पान करके नागरपानको सेवै नहीं जबतक वह दूध द्रवभावको नहीं प्राप्तहोवै और अन्यभोजनके अंतमें नागरपान अच्छा है अथवा भोजनके अंतमें दूधका पीना अच्छा है ॥ ७२ ॥

अथ गायके घृतका गुण ॥

त्रिपाके मधुरं वृष्यं वातपित्तकफापहम् ॥

चक्षुष्यं बलकृन्मेध्यं गव्यं सपिर्गुणोत्तमम् ॥ ७३ ॥

गायका घृत पाककालमें मधुर है वीर्यमें हित है और वात, पित्त, कफ, इन्हेंको नाशता है नेत्रोंमें हित है बलको करता है पवित्र है गुणोंमें उत्तम है ॥ ७३ ॥

अथ बकरीके घृतका गुण ॥

आज्यं सन्दीपनीयञ्च चक्षुष्यं बलवर्द्धनम् ॥

कासश्वासक्षयाणाञ्च हितं पाके कफापहम् ॥ ७४ ॥

बकरीका घृत जठराग्निको जगाता है नेत्रोंमें हित है बलको बढ़ाता है और खांसी, श्वास, क्षय, इनरोगवालोंको हित है और पाककालमें कफको नाशता है ॥ ७४ ॥

अथ भैंसके घृतका गुण ॥

सवातपित्तशमनं सुशीतं माहिषं घृतम् ॥

मधुरं गुरु विष्टम्भि बल्यं श्रेष्ठगुणात्मकम् ॥ ७५ ॥

भैंसका घृत वातको और पित्तको शांत करता है सुंदर शीतल है मधुर है भारा है विष्टंभी है बलमें हित है और श्रेष्ठगुणोंवाला है ॥ ७५ ॥

अथ ऊंटनीका घृतके गुण ॥

औष्टं कटु घृतं पाके शोषकमिषापहम् ॥

दीपनं कफवातघ्नं कुष्ठगुल्मोदरापहम् ॥ ७६ ॥

ऊंटनीका घृत पाककालमें चर्चरा है और शोष, कृमि, विष, इन्हेंको नाशता है अग्निको जगाता है कफ और वातको नाशता है और कुष्ठ, गुल्म, उदररोग, इन्हेंको हरता है ॥ ७६ ॥

अथ भेडके घृतका गुण ॥

पाके लघ्वाविकं सर्पिः सर्वरोगविषापहम् ॥

वृद्धिं करोति चास्थ्यां वै वाङ्मरीशर्करापहम् ॥ ७७ ॥

भेडका घृत पाककालमें हलका है सबतरहके रोगोंको और विषको हरता है हड्डियोंको बढ़ाता है पथरीको और शर्कराको नाशता है ॥ ७७ ॥

अथ घोडीके घृतका गुण ॥

वृद्धिं करोति देहाग्नेः पय आश्वं विषापहम् ॥

चक्षुष्यमूषणश्चाग्नेर्वातदोषनिवारणम् ॥ ७८ ॥

घोडीका घृत जठराग्निको बढ़ाता है पाककालमें हलका है विषको हरता है नेत्रोंमें हित है जठराग्निको जगाता है और वातदोषको दूर करता है ॥ ७८ ॥

अथ दूधसेही निकाले घृतका गुण ॥

वृद्धिं करोति चास्थ्यां वै नत् प्रोक्तश्च विषापहम् ॥

तर्पणं नेत्ररोगघ्नं दाहनुत् पयसो घृतम् ॥ ७९ ॥

दूधसे निकासी घृत दहीको करता है नेत्ररोगको नाशता है हड्डियोंको बढ़ाता है, विषोंको दूर करता है और दाहको हरता है ॥ ७९ ॥

अथ पुराने घृतका गुण ॥

सर्पिर्जीर्णं तच्च सन्धुक्षणे च मूर्च्छाकुष्ठोन्मादकर्णाक्षिशूले ॥

शोफार्शसोर्योनिदोषे व्रणेषु शस्तं सर्पिर्जीर्णमेवं नृणां स्यात् ॥ ८० ॥

पुरानाघृत जठराग्निको जगाता है और मनुष्योंके मूर्च्छा, कुष्ठ, उन्माद, कर्णाशूल, नेत्र-शूल, शोजा, बवासीर, योनिदोष, घाव, इन्होंमें हित है ॥ ८० ॥

अथ नारीके घृतका गुण ॥

कफेऽनिले योनिदोषे रोगेष्वन्येषु तद्धितम् ॥

चक्षुष्यमार्त्तं स्त्रीणाश्च सर्पिः स्यादमृतोपम् ॥ ८१ ॥

कफ, वात, योनिदोष, अन्यभी रोग, इन्होंमें उत्तम है नेत्रोंमें हित है और अमृतके समान है ऐसा नारीका घृत कहा है ॥ ८१ ॥

अथ घृतका विशेष वर्णन ॥

बलक्षये तर्पणभोजनेषु श्रमे च पित्तासृजि रेणुयुक्ते ॥ नेत्रामये काम्ल.

पाण्डुरोगे क्षये नवं सर्पिर्वदन्ति धीराः ॥ ८२ ॥ ज्वरे विबन्धेषु विषूचि
कायामरोचके वा शमिते तथाम्नौ ॥ पानात्यये वापि मदात्यये वा शस्तं
न सर्पिर्वद्भु मन्यते सुधीः ॥ ८३ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे क्षी
रवर्गो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

बलक्षयमें, तर्पणमें, भोजनमें, परिक्षममें, पित्तरक्तमें, नेत्रके रोगमें, कामलमें, पांडुरोगमें, क्ष-
यमें, वैद्य घृतको उत्तम कहते हैं ॥ ८२ ॥ ज्वरमें, विबन्धमें, विषूचीसंज्ञक हैजामें, अरोचक-
में, मंदाग्निमें, पानात्ययमें, मदात्ययमें, वैद्य घृतको अच्छा नहीं मानतेहैं ॥ ८३ ॥ इति
वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्त्रुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषाटीकायां प्रथमस्थाने
क्षीरवर्गो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

अथ मूत्रवर्ग ॥

मूत्रं गोऽजाविमाहिष्यं गजाश्वोष्ट्रखरोद्भवम् ॥

मूत्रं मानुषजञ्चान्यत्समासेन गुणाऽच्छृणु ॥ १ ॥

गाय,बकरी,भेड,भैंस,हस्ती,घोडा,ऊँट,गधा,मनुष्य,इन्होंके मूत्रोंके गुणविस्तारसे सुन ॥१॥

अथ गोमूत्रके गुण ॥

तीक्ष्णञ्चोष्णं क्षारमेवं कषायं बल्यं मेध्यं श्लेष्मवातान्निहन्ति ॥ भेदि र
क्तपित्तशमं करोति गुल्मानाहृदपदोषापहञ्च ॥ २ ॥ भ्रूशङ्कुहनुकण्ठकमु
खानाञ्च रोगान् गुल्मातिसारगुंद्मारुतनेत्रगदान् ॥ कासं सकुष्ठं जठरक
मिकोशजालं गोमूत्रमेकमपि पीतमहानि हन्ति ॥ ३ ॥

गायका मूत्र तीक्ष्ण है गर्म है खारा है कसैला है बलमें हित है पवित्र है कफको और वा-
तको नाशता है भेदित करनेवाला है रक्तपित्तको शांत करता है और गुल्म, अफारा, उन्माद
दोष, इन्होंको हरता है ॥ २ ॥ और भ्रुकुटी, कनपटी, ठोडी, कंठ, मुख, इन्होंके रोगोंको
और गुल्म, अतीसार, ववासीर, वातरोग, नेत्ररोग, खांसी, कुष्ठ, पेटमें कीड़ोंका समूह—इन्हों-
न पीनेसे नाशता है ॥ ३ ॥

अथ बकरीके मूत्रका गुण ॥

आजं मूत्रं तीक्ष्णमुष्णं कषायं योज्यं पाने शूलगुल्मार्त्तिनाशम् ॥ का
सश्वासकामलापाण्डुरोगार्शसाञ्चैव श्रेष्ठमेतद्वदन्ति ॥ ४ ॥

बकरीका मूत्र तीक्ष्ण है गर्भ है कसैला है गुल्मको और शूलको नाशता है और खांसी,
श्वास, कामला, पांडुरोग, ववासीर— इन्होंमें श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥

अथ मेंढाके मूत्रका गुण ॥

सक्षारं कटुकं तीक्ष्णं मूत्रं वातघ्नमाविकम् ॥

दुर्नामोदरशूलघ्नं कुष्ठमेहविशोधनम् ॥ ५ ॥

मेंढाका मूत्र सर है कडुआ है तीक्ष्ण है वातको नाशता है और कुष्ठ, ववासीर, उदररोग,
शूल, प्रमेह, इन्होंको नाशता है ॥ ५ ॥

अथ भैंसाके मूत्रका गुण ॥

सारं सतिक्तं कटुकं कषायं प्रभेदि वातस्य शमं करोति ॥

पित्तप्रकोपं कुरुते सदा च कुष्ठार्शपाण्डूरशूलनाशम् ॥ ६ ॥

भैंसाका मूत्र सर है कडुआहै चर्चरा है कसैला है भेदन करता है वातको शांत करता है
सर्वकालमें पित्तको कुपित करता है और पांडु, ववासीर, कुष्ठ, उदररोग, शूल, इन्होंको
नाशता है ॥ ६ ॥

अथ हस्तीके मूत्रका गुण ॥

सुतिक्तं लवणं भेदि वातघ्नं कफकोपनम् ॥

क्षारमण्डलकुष्ठानां नाशनं गजमूत्रकम् ॥ ७ ॥

हस्तीका मूत्र सुंदर कडुआ है सलोना है भेदन करता है वातको नाशता है कफको को-
पता है और क्षारसे उपजे मंडल और कुष्ठोंको नाशता है ॥ ७ ॥

अथ घोडाके मूत्रका गुण ॥

कासकफहरं छर्दिक्त्रिमिकुष्ठविनाशनम् ॥

दीपनं कटु तीक्ष्णोष्णं वातश्लेष्मविकारनुत् ॥ ८ ॥

घोडाका मूत्र खांसीको और कफको हरता है और छर्दि, कृमि, कुष्ठ, इन्होंको नाशता

है अग्निको जगाताहै चर्चरा है तीक्ष्ण है गर्म है वात और कफके विकार नाशता है ॥ ८ ॥

अथ ऊंटके मूत्रका गुण ॥

औष्ट्रं कफहरं रूक्षं क्रिमिद्वूविनाशनम् ॥

श्रेष्ठं कुष्ठोदरोन्मादशोषार्शःक्रिमिवातनुत् ॥ ९ ॥

ऊंटका मूत्र कफको करता है रूखा है छमिरोगको और द्रूको नाशता है श्रेष्ठ है और कुष्ठ, उदररोग, उन्माद, शोष, ववासीर, छमि, वात, इन्होंको नाशता है ॥ ९ ॥

अथ गधाके मूत्रका गुण ॥

गार्दभं नामनं मूत्रं तैलं योज्यं कचिद्भवेत् ॥

सक्षारं तिक्तकटुकमुन्मादकुष्ठरोगनुत् ॥ १० ॥

गधाका मूत्र निवाय देता है और कहींके तेलमें युक्त करनेके योग्य है खारा है और कहुआ है चर्चरा है उन्मादको और कुष्ठको नाशता है ॥ १० ॥

अथ नरके मूत्रका गुण ॥

मानुषं क्षारकटुकं मधुरं लघु चोच्यते ॥

चक्षुरोगहरं बल्यं दीपनं कफनाशनम् ॥ ११ ॥

मनुष्यका मूत्र खारा है चर्चरा है मधुर है हल्का है नेत्रोंके रोगको हरता है बलमें हित है अग्निको जगाता है और कफको नाशता है ॥ ११ ॥

अथ प्रसूता और अप्रसूताके मूत्रका गुण ॥

अप्रसूताया घनं मूत्रं प्रसूताया द्रवं लघु ॥

न किंगुणविशेषः स्यात्समता पाकवीर्ययोः ॥ १२ ॥

नहीं प्रसूत अर्थात् व्याईहुईका मूत्र कठिन होता है व्याईहुईका मूत्र पतला होता है हल्का होता है और कछुगुणमें विशेषता नहीं है पाककालमें और वीर्यमेंभी समता है ॥ १२ ॥

अथ मूत्रविशेष ॥

सौरभेयकमूत्रन्तु घनं सान्द्रं प्रशस्यते ॥ तच्च दृषणहीनानां किञ्चिद्लघुत

रं मतम् ॥ १३ ॥ दृषमूत्रञ्च शोफघ्नं क्रिमिदोषविनाशनम् ॥ कामलाप

नाशनञ्चाग्निदीपनम् ॥ १४ ॥ अजागविगतं मूत्रं पाने शस्तं

भिवग्वर! ॥ आविकं माहिषं चाश्वं तैलपाके विधीयते ॥ १५ ॥ गजमूत्रप्रलेपश्च कण्डूदद्रूविसर्पनुत् ॥ कारभं खरमूत्रं वा तैले नस्ये विधायकम् ॥ १६ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे मूत्रवर्गो नाम नवमोऽध्यायः ॥ १९ ॥

सुरभीगायका मूत्र कठिन और मोटा श्रेष्ठ होता है वधिया किये बैलका मूत्र कछुक हलका है ॥ १३ ॥ बैलका मूत्र शोजाको हरता है लमिदोपको नाशता है और कामला, ग्रहणी, पांडुरोग, इन्होंको नाशता है और अशिको जगाता है ॥ १४ ॥ बकरीका और गायका मूत्र पीनेमें श्रेष्ठ है हे वैद्यवर ! मेंढाका मूत्र, भैंसाका मूत्र, घोडाका मूत्र, ये तीनों तेल पाकेमें हित है ॥ १५ ॥ हस्तीके मूत्रका लेप खाज, दद्रू, विसर्प, इन्होंको नाशता है ऊंटका मूत्र और गधाका मूत्र तेलमें और नस्यमें उत्तम है ॥ १६ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसु-नुवैद्यरविदत्तशास्त्रपुत्रादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने मूत्रवर्गो नाम नवमोऽध्यायः ॥ १९ ॥

दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

अथ इक्षुवर्ग ॥

अथातः संप्रवक्ष्यामि इक्षुवर्गं गुणाधिकम् ॥

रसायनोत्तमं बल्यं रोगवारणमुत्तमम् ॥ १ ॥

अथ गुणोंसे अधिक संयुक्तहुये ईखके वर्गको कहताहूँ यह ईखवर्ग उत्तम रसायन है रोगोंको दूर करता है ॥ १ ॥

स्वादुईखका गुण ॥

स्निग्धश्च तर्पणं वापि वृंहणश्च सजीवनम् ॥ २ ॥

स्वादु ईख चिकना है तृप्तीको करता है धातुओंको पुष्ट करता है और जीवनरूप है ॥ २ ॥

अथ सफेदईखका गुण ॥

तद्वातपित्तशामनश्चतथैव वृष्य अन्तर्विदाही कफकृत्सितेक्षुः ॥ ३ ॥

सफेदईख वातको और पित्तको शांत करता है वीर्यको बढ़ाता है और शरीरके भीतर दाहको करता है ॥ ३ ॥

अथ कालाईखके गुण ॥

तद्वत् सुकृणो भवते गुणानां वृष्यो भवेत् तर्पणदाहहन्ता ॥

क्षारः स किञ्चिन्मधुरो रसेन शोषापहर्त्ता व्रणशोफकारी ॥ ४ ॥

कालईख सफेदईखके गुणोंसे संयुक्त होता है वीर्यको बढ़ाता है वृषिको और दाहको नाशता है खारा है और रसकरकै कछुक मधुर है शोषको हरता है घावको और शोजाको करता है ॥ ४ ॥

अथ यंत्रसे निकासेहुये रसका गुण ॥

यन्त्रेण पीडितरसः कथितो गुरुश्च वृष्यः कफञ्च कुरुतेऽथ सुशीतल
श्च ॥ पाके विदाहबलकञ्च सुशोभनश्च संसेवितो रुधिरपित्तरुजं निह
न्ति ॥ ५ ॥

यंत्रसे निकासेहुये ईखका रस भारा है वीर्यको करता है कफको करता है सुंदर शीतल है पाककालमें दाहको करता है बलको उपजाता है सुंदर शोभित है और सेवितकिया रक्तका और पित्तका रोगको नाशता है ॥ ५ ॥

अथ दांतोंसे पीडितकिये रसका गुण ॥

दन्तैर्निष्पीडितरसो रुचिकृद्गुरुश्च सन्तर्पणो बलकरः कफच्छच्छ्रमघ्नः ॥
विष्टम्भकारी रुधिरस्य तथैव पित्तदोषं निहन्ति सकलं वमनञ्च शोषम् ॥ ६ ॥

दांतोंसे पीडितकर निकासेहुआ ईखका रस रुचिको करता है भारा है वृषिको करता है बलको उपजाता है कफको करता है परिश्रमको नाशता है विष्टम्भको करता है रक्तको और पित्तको नाशता है वमनको और शोषको हरता है ॥ ६ ॥

अथ वासी रसका गुण ॥

रसपथ्युषितेनेटस्तापहैकमते गुरुः ॥

कफपित्तकरः शोषी भेदनो वाऽथ मूत्रलः ॥ ७ ॥

वासीईखका रस अच्छा नहीं है और किसीकके मतमें तापको हरता है भारा है कफको और पित्तको करता है शोषको करता है भेदन करता है और वातको उपजाता है ॥ ७ ॥

अथ पकरसका गुण ॥

पक्रो गुरुरतः स्निग्धः सतीक्ष्णः कफवातहा ॥

पित्तघ्नोऽपि विशेषेण गुल्मातीसारकासहा ॥ ८ ॥

पकायाहुआ ईखका रस भारा है चिकना है तीक्ष्ण है कफको और वातको नाशता है रकै पित्तको शांत करता है और गुल्म, अतीसार, खांसी-इन्होंको नाशता है ॥ ८ ॥

अथ फाणितरसका गुण ॥

फाणितं गुर्वभिष्यन्दि बृंहणं शुक्रलञ्च तत् ॥

पित्तघ्नञ्च श्रमहरं रक्तदोषनिषूदनम् ॥ ९ ॥

फाणितरस भारा है कफको करता है धातुओंको पुष्ट करता है वीर्यको बढ़ाता है पित्तको नाशता है परिश्रमको हरता है और रक्तदोषको दूर करता है ॥ ९ ॥

अथ गुडका गुण ॥

बल्यो दृष्यो गुरुः स्निग्धो वातघ्नो मूत्रशोधनः ॥ स पुराणोऽधिकगुणो

गुल्माशोऽरोचकापहः ॥ १० ॥ क्षये कासे क्षतक्षीणे पाण्डुरोगेऽसृजः

क्षये ॥ हितो योग्ये न संसुक्तो गुडः पथ्यतमो मतः ॥ ११ ॥

गुड बलमें हित है वीर्यको करता है भारा है चिकना है वातको नाशता है मूत्रको शोधता है और पुराना गुड अधिक गुणोंवाला है और गुल्म, ववासीर, अरोचक—इन्हेंको नाशता है ॥ १० ॥ और क्षय, खांसी, छातीके फटनेसे क्षीण, पांडुरोग, रक्तक्षय, इनरोगोंमें हितपदार्थसे संयुक्तकिया गुड अतिपथ्य माना है ॥ ११ ॥

अथ गुडकी खांडका गुण ॥

गुडखण्डश्च मधुरः सितश्च वातपित्तहा ॥

किञ्चिच्छीतगुणोपेतो बल्यो दृष्यो रुचिप्रदः ॥ १२ ॥

गुडकी खांड मधुर है सफेद है वातको और पित्तको नाशती है कल्लुक शीतगुणसे संयुक्त है बलमें हित है वीर्यको देता है और रुचिकोभी देता है ॥ १२ ॥

अथ साधारण खांडका गुण ॥

वातपित्तहरं शीतं स्निग्धं बल्यं मुखप्रियम् ॥

चक्षुष्यं श्लेष्मकृच्चोक्तं खण्डं दृष्यतमं मतम् ॥ १३ ॥

खांड साधारण वातको और पित्तको हरती है शीतल है चिकनी है बलमें हित है मुखमें प्रिय है नेत्रोंमें हित है कफको करती है और वीर्यको अति बढ़ाती है ॥ १३ ॥

अथ मिश्रीका गुण ॥

सिता सुमधुरा प्रोक्ता दृष्या शुक्रविवर्द्धनी ॥

पित्तघ्नी मधुरा बल्या शर्करा पायिनी नृणाम् ॥ १४ ॥

मिश्री सुंदर मधुर है वीर्यको बढ़ाती है धातुओंको पुष्ट करती है पित्तको नाशती है मधुर है बलमें हित है मनुष्योंकी रक्षा करती है ॥ १४ ॥

अथ सुंदरवांडका गुण ॥

शर्करान्या सुशीता च कासशूलसमुद्भवा ॥

हिता पित्तासृजि शोषे मूर्च्छाभ्रममदापहा ॥ १५ ॥

सफेद खांड सुंदर शीतल है खांसीको और शूलको उपजाती है पित्तरक्तमें हित है शोषमें हित है और मूर्च्छा, मद, भ्रम, इन्होंको नाशती है ॥ १५ ॥

अथ गुडविशेषता ॥

गुदामये कामलशोषमेहे गुल्मामये पाण्डुहलीमके च ॥ वाते सपित्तासृ

जि राजरोगे रुचिप्रदो रोगहरो गुरुः स्यात् ॥ १६ ॥ कासे शोषे गुडो

नेष्ट अन्वत्रापि हितो मतः ॥ योगयुक्तोऽहि सर्वत्रहितो गुणगणालयः

॥ १७ ॥ क्षामक्षामक्षतरुजाशवासमूर्च्छानुरोगिणाम् ॥ अध्वश्रान्तिश्च

ममदविषमूत्रकृच्छ्राश्मरीणाम् ॥ १८ ॥ जीर्णक्षामज्वरविषमगे रक्तपि

त्तप्रकोपे ॥ तृष्णादाहक्षयरुधिरगे सर्वरोगान् निहन्ति ॥ १९ ॥ इति

आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे प्रथमस्थाने इक्षुवर्गो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

गुदरोगमें, कामलमें, शोषमें, प्रमेहमें, गुल्ममें, पांडु और हलीमकमें, वातमें, रक्तपित्तमें,

राजरोगमें, गुड रुचिको देता है और रोगको हरता है ॥ १६ ॥ परंतु खांसीमें और शोषमें

अकेला गुड अच्छा नहीं है और अन्य जगह हित है और योगोंमें युक्तकिया गुड, सब

रोगोंमें हित है और गुणोंके समूहका स्थान है ॥ १७ ॥ कृश, क्षयरोग, श्वास, मूर्च्छा,

इनरोगोंको और मार्गके चलनेसे थूकना, परिश्रम, मद, विष, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, इनरोगों-

को ॥ १८ ॥ बुढापा, विषमज्वर, रक्तपित्तका प्रकोप, तृषा, दाह, क्षय, रक्तरोग, इन्होंको

गुड हरता है ॥ १९ ॥ इति वेरीनिकासिबुधशिवसहायसूनूवैद्यरविदत्तशास्त्रपुन्यादितहारीतसं

हिताभाषायां प्रथमस्थाने इक्षुवर्गो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

अथ कांजिकवर्ग ॥

सन्धानं शीतलं स्वादु महातीसारनाशनम् ॥

कांजी शीतल है स्वादु है महातीसारको नाशती है ॥

अथ चावलोंके पानीका गुण ॥

सुस्वादु शीतलञ्चैव वृंहणं तण्डुलोदकम् ॥ १ ॥

चावलोंका पानी सुंदर स्वादु है शीतल है और धातुओंको पुष्ट करता है ॥ १ ॥

अथ तुषोदकका गुण ॥

तुषोदकं वातपित्तहरन्तु रक्तपित्तहरं प्रभेदकञ्च ॥

विपाचनं स्याज्जरणं क्रिमिघ्नमजीर्णहन्तृ कटुकं विपाके ॥ २ ॥

तुषोदक वातपित्तको हरता है रक्तपित्तको हरता है भेदन करता है विशेषकरकै पाचन है जराता है कीड़ोंको हरता है अजीर्णको हरता है और पाककालमें चर्चरा है ॥ २ ॥

अथ जव और गेहूंकी कांजीका गुण ॥

जातं यवाम्लं कटुकं विपाके वातापहं श्लेष्महरं सरक्तम् ॥ पित्तप्रको
पं कुरुते सभेदि विदूषणं पित्तगदासृजश्च ॥ ३ ॥ सन्दीपनं शूलहरं रु
चिप्रदं गोधूमजातं कथितं कषायम् ॥ सन्दीपनं स्याज्जरणं कफघ्नं स
मीरदोषं हरते ततोऽपि ॥ ४ ॥

जवोंकी कांजी पाककालमें चर्चरी है वातको और कफको हरती है रक्तको और पित्तको कोपती है भेदन करती है और रक्तपित्तको दूषित करती है ॥ ३ ॥ गेहूंकी कांजी कसैली है अग्निको जगाती है भोजनको जराती है कफको नाशती और वायुके दोषको हरती है ॥ ४ ॥

अथ तेलयुक्तकांजीका गुण ॥

पीतं जरयते वामं बाह्यदाह्यश्रमापहम् ॥

स्याच्च तत्कुष्ठकण्डूघ्नं तैलयुक्तं समीरहत् ॥ ५ ॥

तेलसे युक्तहुई कांजी भोजनको जराती है शरीरके बाहिरके दाहको और परिश्रमके हरती है कुष्ठको और खाजको तथा वायुको नाशती है ॥ ५ ॥

अथ युगंधरकांजीका गुण ॥

युगन्धराम्लं कफवातहन्तृ शूलामयानां जरणप्रकर्तृ ॥

तीक्ष्णं तथाम्लं श्रमदोषहन्तृ मेहार्शासो रक्तहितं मतञ्च ॥ ६ ॥

ये पूर्वोक्त दोनों कांजी निर्मलीहुई कफको और वातको हरती हैं शूलको दूर करती हैं खटी हैं श्रमदोषको हरती हैं प्रमेहमें और ववासीरमें हित है ॥ ६ ॥

अथ कांजीका परिहार ॥

शोषे मूर्च्छाज्वरार्त्तानां भ्रमके दुर्बिपादिते ॥ कुष्ठानां रक्तपित्तानां का
ज्जिकं न प्रशस्यते ॥ ७ ॥ पाण्डुरोगे राजयक्ष्मे तथा शोफातुरेषु च ॥
क्षतक्षीणे पथिश्रान्ते मन्दज्वरनिपीडिते ॥ नरे नैव हितं प्रोक्तं काज्जिकं दो
षकारकम् ॥ ८ ॥

शोषमें मूर्च्छा और ज्वरसे पीड़ितको कुष्ठ और रक्तपित्तमें कांजी अच्छी नहीं है ॥ ७ ॥
पांडुरोगमें राजरोगमें और शोजासे पीड़ितरोगीको और क्षतसे क्षीणहुयेको और मार्गमें थं-
केहुये और मन्दज्वरसे पीड़ितको कांजी अच्छी नहीं है किंतु दोषोंको करती है ॥ ८ ॥

अथ कांजीकी प्रशंसा ॥

शूलवातार्दितानान्तु तथा जीर्णविवन्धिनाम् ॥ श्रेष्ठं प्रोक्तं तथा म्लश्च गु
णाधिक्यं नरेषु च ॥ ९ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे काज्जिकवर्गो
नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

शूल और वातसे पीड़ितको अजीर्ण और वंधावालेको कांजी श्रेष्ठ है और मनुष्योंमें गु-
णोंकी अधिकता करती है ॥ ९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनु-
वादितहारीतसंहिताभाषायां काज्जिकवर्गो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

अथ चावल्लोके मंडका गुण ॥

धान्यमण्डं पित्तहरं श्रमघ्नश्चाश्मरीहरम् ॥

वातलं रक्तशमनं ग्राहि सन्दीपनं वरम् ॥ १ ॥

चावल्लोका मांड पित्तको हरता है परिश्रमको हरता है पथरीको हरता है वायुको उपजा-
ता है रक्तको शांत करता है कवजको करता है और अग्निको अच्छीतरह जगता है ॥ १ ॥

अथ लालचावलके मांडका गुण ॥

रक्तशाल्युद्भवं मण्डं मधुरं ग्राहि शीतलम् ॥

प्रमेहानश्मरीं हन्ति वातलं पित्तहृद्दरम् ॥ २ ॥

लालचावलोंका मांड मधुर है कवजको करता है प्रमेहोंको और पथरीको हरताहै वात ल है पित्तको हरता है सुंदर है ॥ २ ॥

अथ सफेदचावलोंके मांडका गुण ॥

मधुरं शीतलं किञ्चित् श्लेष्मलं शोषनाशनम् ॥

अश्मरीमेहसंच्छर्दिवातलं श्वेततण्डुलम् ॥ ३ ॥

सफेद चावलोंका मांड मधुर है शीतल है कछुक कफको करता है शोषको नाशता है और पथरी, प्रमेह, छर्दि, वात, इन्होंको करता है ॥ ३ ॥

अथ जवोंके मांडका गुण ॥

यवमण्डं कषायं स्यात् ग्राहि चोष्णे विपाकि च ॥

जवोंका मांड कसैला है कवजको करता है गर्मपाकवाला है.

अथ गेहूँके मांडका गुण ॥

तद्वद्रोधूमसम्भूतं मधुरं पित्तवारणम् ॥ ४ ॥

गेहूँओंका मांड जवोंके मांडके समान गुण देता है परंतु मधुर है और पित्तको दूर करता है ॥४॥

अथ क्षुद्रअन्नके मांडका गुण ॥

अन्धेषां क्षुद्रधान्यानां मण्डं वातहरं स्मृतम् ॥

क्षुद्रसंज्ञक अन्नोंका मांड वातको हरनेवाला कहा है.

अथ कोदूं अन्नके मांडका गुण ॥

ग्लानिमूर्च्छाकरं सद्यः कौद्रवं न हितं मतम् ॥ ५ ॥

कोदूं अन्नका मांड ग्लानिको और मूर्च्छाको शीघ्र करता है और हित नहीं माना है ॥ ५ ॥

अथ क्षुद्र अन्नकी कांजीका गुण ॥

तद्वच्च क्षुद्रध्यान्ध्याम्लं वातलं पित्तकारकम् ॥ करोति श्लीपदं गुल्मं प्र तिश्याद्यादिकोपनम् ॥ ६ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे मण्डवर्गो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

क्षुद्रअन्नकी कांजी ग्लानिको और मूर्च्छाको शीघ्र हरती है वातल है पित्तकोभी क- रती है श्लीपदको और गुल्मको करती है और खेहर आदिको कोपती है॥६॥ इति वेरीनि- वासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशरूपनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने मंडवर्गोनाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

उड़दका यूप कठिन है वातको और कफको करता है खटा है और वासीहुआ यह यूप तेलपाकमें श्रेष्ठ है ॥ ५ ॥

अथ अन्न्ययूपोंके गुण ॥

अन्न्यानि च प्रशस्तानि कुलत्थान्युषितानि च ॥ मसूरास्त्रिपुटा बल्याः
कलायाद्याश्च वर्जिताः ॥ ६ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे यूपवर्गो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

और वासीहुये कुलथी आदिकेभी यूप अच्छे है और मसूरके यूप बलमें हित है और मठर आदिके यूप वर्जित है ॥ ६ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां यूपवर्गो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

अथ तेलवसावर्ग ॥

अथातः संप्रवक्ष्यामि तैलानाञ्च गुणानुगुणान् ॥

तच्च ज्ञेयं समासेन यथायोग्यं यथाविधि ॥ १ ॥

अब तेलोंके गुणदोषको कहताहूं वह तेल विस्तारसे यथायोग्य जानना ॥ १ ॥

अथ तिलोंके तेलका गुण ॥

कषायानुरसं स्वादु सूक्ष्ममुष्णं व्यवाधि च ॥ पित्तकृद्वातशमनं श्लेष्म
रोगादिवर्द्धनम् ॥ २ ॥ अल्पं रुचिकरं मेध्यं कण्डूकुष्ठविकारनुत् ॥ वृ
ष्यं श्रमापहं ज्ञेयं तिलतैलं विदुर्बुधाः ॥ ३ ॥ लिम्बे भिन्ने च्युते घृष्टे
भग्नाग्निदाहकेऽपि च॥वाताभिष्यन्दिस्फुटने चाभ्यङ्गे तिलतैलकम् ॥ ४ ॥
विषे व्यालशुनः सर्पभेकाभ्यङ्गावगाहने ॥ पाने बस्तौ बलाशे च तिलतै
लं विधीयते ॥ ५ ॥ तिलतैलं विधेयं स्यात् सर्वरोगनिवारणे ॥ ६ ॥

तिलोंका तेल कसैला है स्वादु है सूक्ष्म है गर्म है फैलनेवाला है पित्तको करता है वातको शांत करता है और कफरोगआदिको बढ़ाता है ॥ २ ॥ अल्परूपी यह तेल रुचिको करता है पचित्र है खाजको और कुष्ठको नाशता है धातुको पुष्ट करता है परिश्रमको नाशता है ऐसे तिलोंके तेलको बुद्धिमान् कहतेभये ॥ ३ ॥ और लिम्ब अर्थात् तलवार आदिसे

कटाहुआमें—भिन्न अर्थात् वरछी आदिसे कटाहुआमें—विसनेमें—परथरआदिकी रगडसैं छिलनेमें—हाड आदिके टूटनेमें—अग्निसे जलनेमें—वाताभिष्यंदमें—फूटनेमें—मालिस करनेमें—तिलोंका तेल उत्तम है ॥ ४ ॥ भेडिया और कुत्ताके विषमें सर्पआदिके विषमें—मालिस—स्नान—पान—वस्तिकर्म—इन्होंके द्वारा चिकित्सामें और कफके रोगमें तिलोंका तेल हित है ॥ ५ ॥ और सब रोगोंको दूर करनेके लिये तिलोंके तेलका विधान है ॥ ६ ॥

अथ सरसोंके तेलका गुण ॥

कटु तिक्तं तथा ग्राहि उष्णं स्यात् कफवातनुत् ॥ कृमिकण्डूशोधनं स्यात् पित्तकृत् सार्षपं स्नुतम् ॥ ७ ॥ कर्णरोगे कृमिरोगे तथा वातामयेषु च ॥ कण्डूकुष्ठामये चैव कफमेदोगुणेषु च ॥ ८ ॥ प्रशस्यं सार्षपञ्चैत्र रोगाणाञ्च विभावयेत् ॥ वस्तिकर्मणि नो शस्तं पित्तदाहकरं महत् ॥ ९ ॥

सरसोंका तेल चर्चरा है कहुआ है कब्जको करता है गर्म है कफको और वातको नाशता है कीड़ोंको और खाजको शोधता है और पित्तको करता है ॥ ७ ॥ और कानरोग, कृमिरोग, वातके रोग, खाज, कुष्ठ, कफका रोग, मेद ॥ ८ ॥ इन्होंमे उत्तम वस्तिकर्ममें अच्छा नहीं है पित्त और दाहको करता है ॥ ९ ॥

अथ अलसीके तेलका गुण ॥

अलसीप्रभवं तैलं घनं मधुरपिच्छलम् ॥

विपाके चोष्णवीर्यञ्च वातश्लेष्मनिवारणम् ॥ १० ॥

अलसीका तेल कठिन है मधुर है कफको करता है और पाककालमें गर्मवीर्यवाला है वातको और कफको दूर करता है ॥ १० ॥

अथ अरंडके तेलका गुण ॥

एरण्डजं घनञ्चापि शीतमेव सृष्टु स्मृतम् ॥

हृद्दस्तिजङ्घाकट्यूरुशूलानाहविवन्धनुत् ॥ ११ ॥

अरंडका तेल कठिन है शीतल है कोमल है और हृदय वस्तिस्थान, जांघ, कटि, ऊरु, इन्होंमें उपजे शूलको और अफाराको और बंधाको नाशता है ॥ ११ ॥

अथ तेलविशेषता ॥

आनाहाष्ठीलवातासृक्प्लीहोदावर्त्तशूलिनाम् ॥ हन्ति वातविकाराणां वि

दध्याञ्च प्रशान्तये ॥ १२ ॥ यावन्तः स्थावराः स्नेहाः समासेन प्रकीर्त्ति-
ताः ॥ सर्वे तैलगुणा ज्ञेयाः सर्वे चानिलनाशनाः ॥ १३ ॥ सर्वेभ्यस्त्विह
तैलेभ्यस्ति तैलं प्रशस्यते ॥ १४ ॥

अफारा, अठीला, वातरक्त, तिळीरोग, उदावर्त, शूल, वातरोग, इन्होंकी शांतिके लिये
तेल है ॥ १२ ॥ जो स्थावरसंज्ञक स्नेह विस्तारसे कहे हैं वे सब तेलके समान गुणोंको
करनेवाले हैं और घातको नाशते हैं ॥ १३ ॥ सब प्रकारके तैलोंसे तिलोंका तेल श्रेष्ठ है ॥ १४ ॥

अथ लाल अरंडके तेलका गुण ॥

तैलमेरण्डजं बल्यं गुरूष्णं मधुरं तथा ॥

तीक्ष्णोष्णं पिच्छलं विस्रं रक्तमेरण्डसम्भवम् ॥ १५ ॥

लाल अरंडका तेल बलको करता है भारा है गर्म है मधुर है तीक्ष्ण है गर्म है कफको
करता है कच्चे गंधवाला है ॥ १५ ॥

अथ कुसुंभके तेलका गुण ॥

कुसुम्भतैलमुष्णन्तु विपाके कटुकं गुरु ॥

विदाहकं विशेषेण सर्वदोषप्रकोपनम् ॥ १६ ॥

कुसुंभका तेल गर्म है पाककालमें चर्चरा है भारा है विशेषकरके दाहको करता है और
सबदोषोंको कोपता है ॥ १६ ॥

कफोद्धातानि तैलानि यान्युक्तानि च कानिचित् ॥

गुणं कर्म च विज्ञाय कफवातानि निर्दिशेत् ॥ १७ ॥

कफको नाशनेवाले जो तेल कहे हैं तिन्होंका गुण और कर्मको जान कफ और वात
रोगमें प्रयुक्त करने ॥ १७ ॥

अथ कुरंटाके तेलका गुण ॥

सहकारंतैलमीषत्तिकमतिगुग्धि वातकफहरं सूक्ष्मम् ॥

मधुरं कषायमेवं नातिरक्ते पित्तकरञ्च ॥ १८ ॥

कुरंटाका तेल कलुक कडुआ है अतिगुग्धित है वातको और कफको हरता है सूक्ष्म
है मधुर है कसैला है रक्तको अति नहीं उपजाता है और पित्तको करता है ॥ १८ ॥

अथ तेलकी विशेषता ॥

सौवर्चलेद्गुडीपीलुशिशपासारसम्भवम् ॥ सरलागुरुदेवादिपादपसम्भवन्तु

यत् ॥ १९ ॥ तुम्बुलतथं करञ्जोत्थं ज्योतिष्मत्युद्भवं तथा ॥ अर्शःकुष्ठ
कृमिश्लेष्मशुक्रमेदोऽनिलापहम् ॥ २० ॥ करञ्जारिष्टके तिक्ते नात्युष्णे
न विनिर्दिशेत् ॥ २१ ॥

कालानमक, हींगण, पीलू, सीसमका सार इन्होंके तेल और सरलवृक्ष, अगर, देवदार-
इन्होंके तेल ॥ १९ ॥ धनियांका तेल, करंजुवाका तेल, मालकांगनीका तेल ये ववासीर
कुष्ठ, कृमिरोग, कफ, वीर्य, मेद, वात, इन्होंको नाशते है ॥ २० ॥ करंजुवाका तेल और
नींबिका तेल अतिगर्म नहीं कहा है ॥ २१ ॥

अथ स्वच्छ तिवसका तेल आच्छोडका तेल नारियलका तेल

तथा महुवाके तेलका गुण ॥

कषायं मधुरं तिक्तं सारणं व्रणशोधनम् ॥

अच्छातिमुक्तकच्छोडनालिकेरमधूकजम् ॥ २२ ॥

तिवसका तेल आच्छोडका तेल नारियलका और महुवाका तेल कसैला है मधुर है
कडुआ है सर है घावको शोधता है ॥ २२ ॥

अथ काकडी खीरा कोहला ल्हेसवा पीलू इन्होंके तेलका गुण ॥

त्रपुप्युर्वारुकूपमाण्डश्लेष्मातकपीलूद्भवम् ॥

वातपित्तहृदशोभं श्लेष्मलं गुरु शीतलम् ॥ २३ ॥

काकडी, खीरा, कोहला, ल्हेसवा, पीलू—इन्होंके तेल वात, पित्त, ववासीर इन्होंको
शते है कफको करते है भारे है शीतल है ॥ २३ ॥

अथ सालपर्णी और केशूके तेलका गुण ॥

पित्तश्लेष्मप्रशमनं श्रीपर्णीकिंशुकोद्भवम् ॥ २४ ॥

सालपर्णी और केशूका तेल पित्तको और शोभेको नाशता है ॥ २४ ॥

अथ वसावर्ग ॥

वसा मज्जा च वातघ्नी बलपित्तकफप्रदा ॥ सौकरी माहिषी वसा वात
ला श्लेष्मवर्द्धनी ॥ २५ ॥ सर्पनकुलगौधेया लेपने व्रणकुष्ठहा ॥ म
त्स्यशिशुमारमकरग्राहादीनां वसाप्येवम् ॥ सा विसर्पहरा च ह्या कुष्ठ
रोगविनाशिनी च ॥ २६ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे प्रथमस्थाने
तैलवसावर्गो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

वसा अर्थात् हृदियोंका स्नेह वातको नाशता है और बल, पित्त, कफ, इन्हेंको देता है स्करकी और भ्रंसकी वसा वातको करती है और कफको बढ़ाती है ॥२५॥ सर्प, नोला, गोह—इन्हेंको वसा लेप करनेसे घावको और कुष्ठको नाशती है और मच्छ, शिशुमार, मकर-मच्छ, ग्राह, इनआदिकीभी वसा लेप करनेसे घावको और कुष्ठको नाशती है परंतु यह वसा विसर्पारोगको हरती है सुंदर है और कुष्ठको विशेषकरके हरती है ॥ २६ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायस्त्रुवैधरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने तैलवसावर्गो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥

अथ धान्यवर्ग

प्रथम शालिचावलका वर्णन ॥

रक्तशालिर्भहाशालिः कलमा षष्टिकापरा ॥ खञ्जरीटापसाही च जीरकान्या कपिञ्जला ॥ १ ॥ सौगन्धी शूकला चान्या विलवासी कचोरका ॥ गरुडा रुक्मवन्ती च कलमान्या तथापरा ॥ विल्वजा मागधी पीता ता अष्टादश शालयः ॥ २ ॥

रक्तशालि, महाशालि, कलमा, षष्टिका, खंजरीटा, अपसाही, जीरका, कपिञ्जला ॥ १ ॥ सौगंधी, शूकला, विलवासी, कचोरका, गरुडा, रुक्मवन्ती, कलमा, विल्वजा, मागधी, पीता, ऐसे अठारह प्रकारके शालिचावल कहे हैं ॥ २ ॥

अथ शालियोंके गुण दोष ॥

रक्तशालिस्त्रिदोषघ्नी चक्षुष्या मूत्ररोगहा ॥ महाशालिर्गुरुवृष्या चक्षुष्या बलवर्द्धिनी ॥ ३ ॥ शीता गुरुस्त्रिदोषघ्नी मधुरापरषष्टिका ॥ ४ ॥ जीरका वातपित्तघ्नी कलमा श्लेष्मपित्तहा ॥ कपिञ्जला श्लेष्मला स्यान्मागधी कफवातला ॥ ५ ॥ विलवासी गुरुश्चापि पित्तघ्नी शुक्रवर्द्धिनी ॥ शूकला पित्तवातघ्नी कचोरा पित्तनाशिनी ॥ ६ ॥ गरुडान्या च वातघ्नी पित्तमूत्रगदापहा ॥ रुक्मवन्ती लघू रुचिवलपुष्टिकरा मता ॥ ७ ॥ कलमान्या लघुः पथ्या वातश्लेष्मविबर्द्धिनी ॥ विल्वजा मागधी पीता सामान्यास्तागुणागुणैः ॥ ८ ॥ रुचिरुद्वलरुक्मूत्रदोषघ्नी च श्रमापहा ॥ दग्धग्रामाचले जाताः शालयो लघुपाकिनः ॥ ९ ॥ सु

शामक शोपनेवाला है रूखा है वातल है कफको दूर करता है कोडू रूखा है कबजको करता है और रक्तपित्तको शोषता है ॥ १५ ॥ और कफकी अधिकताको नहीं करता है रुचिमें हित है और स्वादु है ॥ १६ ॥

अथ विदलान्नका गुण ॥

विदलान्नानि वक्ष्यामि शृणु पुत्र ! यथाक्रमम् ॥ यवगोधूमचणका माषो मुद्गाढकी तथा ॥ १७ ॥ मकुष्टकः कुलत्थश्च मसूरस्त्रिपुटस्तथा ॥ निष्पावकः कलायश्च विदलान्नं प्रकीर्तितम् ॥ १८ ॥

हेपुत्र ! विदलसंज्ञक अन्नोको कहताहूं सुन जव, गेहूं, चना, उडद, मूंग, तूरीअन्न— ॥ १७ ॥ मोठ, कुलथी, मसूर, चौला, रानमूंग, मठर, इन्होंको विदलअन्न कहते हैं ॥ १८ ॥

अथ जवोंका गुण ॥

रूक्षः शीतो गुरुः स्वादुः कषायो मधुरो यवः ॥

वृष्यो ग्राही कफघ्नश्च स्यात् पित्तश्वासकासनुत् ॥ १९ ॥

जव रूखा है शीतल है भारा है स्वादु है कसैला है मधुर है वीर्यमें हित है कबजको करता है कफको नाशता है पित्तके श्वास और खांसीको हरता है ॥ १९ ॥

अथ गेहूंका गुण ॥

मधुरो गुरुविष्टम्भी वृष्यो बल्योऽथ बृंहणः ॥

ईषत्कषायो मधुरो गोधूमः स्यान्निदोषहा ॥ २० ॥

गेहूं मधुर है भारा है विष्टम्भी है वीर्यमें हित है बलको करता है धातुओंको बढ़ाता है कछुक कसैला है मधुर है और निदोषको नाशता है ॥ २० ॥

अथ तिलोंका गुण ॥

तिलो विपाके मधुरो बलिष्ठः स्निग्धो व्रणालेपनपथ्य उक्तः ॥ बल्यो

ऽग्निमेधाजननो वरेण्यो मूत्रस्य दोषहरणो गुरुश्च ॥ २१ ॥ तिलेषु सर्वेष्व

सितः प्रधानो मध्यः सितो हीनतरास्तथान्ये ॥ २२ ॥

तिल पाककालमें मधुर है अतिबलवाला है चिकना है घावपै लेप करनेमें पथ्य है बलमें हित है अग्निको और बुद्धिको देता है सुंदर है मूत्रके दोषको हरता है और भारा है ॥ २१ ॥ सब प्रकारके तिलोंमें काला तिल प्रधान है और सपेद तिल मध्यम है और अन्य प्रकारके तिल हीनगुणवाले हैं ॥ २२ ॥

अथ चनाका गुण ॥

रक्ते कफे पीनसके तु कण्ठे गलामये वातरुजे सपित्ते ॥ शीतः प्रतिश्या
यकमीनिहन्ति शुष्कस्तथार्द्रश्वणकः प्रशस्तः ॥ २३ ॥

रक्त, कफ, पीनस, कंठरोग, गलरोग, वातरोग, पित्त इन्होंने चना हित है शीतल है
खेहरको और कीड़ोंको नाशता है सूखा और गीला चनाके गुण ऐसे कहे हैं ॥ २३ ॥

अथ उडदका गुण ॥

स्निग्धोऽथ वृष्यो मधुरश्च बल्यो मरुत्कफानां परिवृंहणश्च ॥
पाकेऽम्लकोष्णो विदितो हिमश्च माषोऽथ ह्यः कथितो नरैश्च ॥ २४ ॥

उडद चिकना है वीर्यमें हित है मधुर है बलमें हित है वायुको और कफको बढ़ाता है
पाककालमें खटा है कछुक गर्म है शीतल है और सुंदर है ॥ २४ ॥

अथ मूंगका गुण ॥

शीतः कषायो मधुरो लघुः स्यात् पैत्तास्रजदोषहरः सरश्च ॥
विपाकनोऽसौ कटुकप्रधानो मुद्गस्तथान्यः कथितोऽग्निरभ्यः ॥ २५ ॥

मूंग शीतल है मधुर है हलका है पित्त और रक्तके दोषको हरता है सर है पाककालमें
चर्चरा है और रमणीक है ॥ २५ ॥

अथ तुवरका गुण ॥

मृदुः कषाया च सरक्तपित्तं वातं कफं हन्ति मुखव्रणश्च ॥
गुल्मज्वरारोचकक्रासच्छर्दिहृद्रोगदुर्नामहराढकी स्यात् ॥ २६ ॥

तुवर कसैला है और रक्तपित्त, वात, कफ, मुखमें घाव, गुल्म, ज्वर, अरोचक, खांसी, छ-
र्दि, हृद्रोग, ववासीर इन्होंने हरता है ॥ २६ ॥

अथ रानमूंगका गुण ॥

सरक्तपित्तकफवातहन्ता चोष्णः कषायो मधुरः प्रदिष्टः ॥
याही सुशीतो गुदकीलगुल्मं मकुटकः सर्वगदान् निहन्ति ॥ २७ ॥

रानमूंग रक्तपित्त, कफ, वात-इन्होंने नाशता है गर्म है कसैला है मधुर है कवजको

अथ कुलथीका गुण ॥

उष्णो जयेन्मारुतपीनसन्तु कासप्रतिश्यायविवन्धगुल्मान् ॥

हिक्रां सरक्तस्तु बलाशपित्तं निहन्ति मेदश्च कुलथकोऽयम् ॥ २८ ॥

कुलथी गर्भ है वातको, पीनस, खांसी, खेहर, बंधा, गुल्म, हिचकी, इन्हेंको नाशती है और लालकुलथी कफ, पित्त, मेद, इन्हेंको हरती है ॥ २८ ॥

अथ चौलाका गुण ॥

रूक्षो विशोषी मधुरः प्रदिष्टः स्नायुं करोत्यस्थिगतं बलिष्ठम् ॥

शूलविवन्धभ्रमशोफकर्त्ता दाहार्शहृद्दोगचिकारकारी ॥ २९ ॥

चौला रूखा है विशेषकरके शोषता है मधुर है हड्डीके नसको बलवाला बनाता है और शूल, बंधा, भ्रम, शोजा-इन्हेंको करता है और दाह, हृद्दोग, ववासीर, इन्हेंको करता है ॥ २९ ॥

अथ मटरका गुण ॥

किञ्चित्कषाया मधुराः प्रदिष्टा रक्तप्रशान्तिं जनयन्ति बल्याः ॥ किञ्चि

त्सवातं विनिघ्नन्ति पित्तं कलायका मुद्गसमानरूपाः ॥ ३० ॥

मटर कछुक कसैला है मधुर है रक्तको शांत करता है बलमें हित है वातको और पित्तको कछुक नाशता है यह मूंगके समान रूपवाला होता है ॥ ३० ॥

अथ मसूरका गुण ॥

रूक्षो विशोषी मधुरः प्रदिष्टः शूलार्त्तगुल्मग्रहणीविकारान् ॥

करोति वातामयवर्द्धनश्च पित्तासृजं ग्राहहरो मसूरः ॥ ३१ ॥

मसूर रूखा है शोषी है मधुर है और शूल, गुल्म, ग्रहणीदोष-इन्हेंको करता है वातरोगको बढ़ाता है पित्त रक्तको उपजाता है कबजको नाशता है ॥ ३१ ॥

अथ धान्यवर्गका उपसंहार ॥

इति प्रदिष्टो बहुधान्यवर्गो ग्रन्थस्य विस्तारभयाच्च किञ्चित् ॥ ये ये

प्रसिद्धाः सुतरां हि लोके तेषां गुणाः श्रेष्ठतमाः प्रदिष्टाः ॥ ३२ ॥ इति आत्रे

यभाषिते हारीतोत्तरे प्रथमस्थाने धान्यवर्गो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

ऐसे धान्यवर्ग कहा ग्रंथका विस्तारके भयसे कछुक कहा है जोजो प्रसिद्ध धान्य लोकमें है तिन्हेंके गुण अतिश्रेष्ठ माने है ॥ ३२ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवै-
द्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने धान्यवर्गो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

षोडशोऽध्यायः ॥१६॥

अथ शाकवर्गः ॥

शाकञ्चतुर्विधं प्रोक्तं पत्रं पुष्पं फलं तथा ॥ कन्दश्चापि समुद्दिष्टं वक्ष्या-
म्येतत्पृथक्पृथक् ॥ १ ॥ द्विविधं शाकमुद्दिष्टं गुरु विद्यात् तथोत्तर-
म् ॥ प्रायः सर्वाणि शाकानि विष्टम्भीनि गुरूणि च ॥ २ ॥ रूक्षाणि व-
हुवर्चांसि सृष्टविण्मारुतानि च ॥

पत्र, पुष्प, फल, कंद, इन भेदोंसे शाक चार प्रकारका कहा है तिसको पृथक् २ कह-
ताहूँ ॥१॥ शाक २ प्रकारका कहा है भारा और हलका और विशेषकरके सब शाक विष्टम्भीको
करते हैं भारे हैं ॥२॥ रूखे हैं और बहुत मलवाले हैं विष्टा और अधोवातको करते हैं.

अथ पृथक् २ शाकोंके गुण दोष ॥

जीवन्तीशाकके गुण ॥

चक्षुष्या सर्वरोगघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा ॥ ३ ॥

जीवन्तीशाक नेत्रोंमें हित है सब रोगोंको नाशता है मधुर और शीतल है ॥ ३ ॥

अथ चौलाईके शाकके गुण ॥

स्वादुपाकमसूक्ष्मपित्तविषघ्नं तण्डुलीयकम् ॥

विविधवातविट्हुन्ता मूत्रवातकफे हितः ॥ ४ ॥

चौलाई शाक पाककालमें स्वादु है और रक्त, पित्त, विष, इन्हेंको नाशता है अनेकमर्मा-
रका वात और विष्टाको हरता है और मूत्र, वात, कफ, इन्हेंमें हित है ॥ ४ ॥

अथ कासविंदाके शाकके गुण ॥

मधुरः कफवातघ्नः पाचनः कण्ठशोधनः ॥

विशेषतः पित्तहर इत्युक्तः कासमर्दकः ॥ ५ ॥

कासविंदाशाक मधुर है कफको और वातको नाशता है पाचन है कंठको शोधता है और
विशेषकरके पित्तको हरता है ॥ ५ ॥

अथ जयन्ती और मुकोह शाकके गुण ॥

जयन्ती वातकफकृत्पित्तसंशमनी तथा ॥

त्रिदोषशमनी वृष्या काकमार्ची रसायनी ॥ ६ ॥

जयंती शाक वातको और कफको करता है पित्तको शांत करता है मकोह विशेष शाक त्रिदोषको शांत करता है वीर्यमें हित है और रसायन है ॥ ६ ॥

अथ वधुवा और चिल्ली शाकके गुण ॥

वास्तूकं मधुरं हृद्यं वातपित्तार्शांसां हितम् ॥

तद्वच्चिल्ली तु विज्ञेया वातपित्तविकारिणाम् ॥ ७ ॥

वधुवाशाक मधुर है सुंदर है वात और पित्तकी बवासीरवालोंको हित है चिल्लीशाक-
भी वधुवाके समान गुणोंको देता है परंतु वात पित्तके विकारवालोंको अच्छा है ॥ ७ ॥

अथ केतकी और मेथी शाकके गुण ॥

केतकी वातला वृष्या तन्द्रानिद्राकरी मता ॥

मेथिका वातशमनी वेजिका वातला मता ॥ ८ ॥

केतकीशाक वातल है वीर्यमें हित है तंद्राको और नींदको करता है मेथी शाक वातको
शांत करता है वेजिका शाक वातको करता है ॥ ८ ॥

अथ सरसों और सोंपके शाकका गुण ॥

सार्षपञ्च त्रिदोषघ्नं रुचिदध्नाग्निवर्द्धनम् ॥

शतपुष्पा त्रिदोषघ्नी मेध्या पथ्या रुचिप्रदा ॥ ९ ॥

सरसोंका शाक त्रिदोषको नाशता है रुचिको देता है अग्नीको बढ़ाता है सोंपका शाक
त्रिदोषको नाशता है पवित्र है पथ्य है रुचिको देता है ॥ ९ ॥

अथ कटेली और कुसुंभा शाकके गुण ॥

जरात्र सिंहिका प्रोक्ता सातीसारे प्रशस्यते ॥ कुसुम्भं रुचिकृद्वातं हन्ति
बल्यं रुचिप्रदम् ॥ १० ॥ किञ्चिद्वातावहं स्वादु विपाके च कफापह
म् ॥ किञ्चिच्चाम्लं भवेत्क्षारं प्रशस्तमग्निमान्द्यके ॥ ११ ॥ मेदनं रूक्ष
मधुरं कषायमतिवातलम् ॥

कटेलीका शाक अतीसारमें श्रेष्ठ है कुसुंभाका शाक रुचिको करता है वातको हरता है
और बलमें हित है प्रीति बढ़ाता है ॥ १० ॥ कछुक उदरमें वातको करता है पाककालमें
स्वादु है कफको हरता है कछुक खटा है खारा है और मंदाग्निमें श्रेष्ठ है ॥ ११ ॥ भेदन है
रूखा है मधुर है कसैला है अति वातल है

अथ चूकाशाकके गुण ॥

उष्णा कषायमधुरा चाङ्गेरीवह्निदीपनी ॥ १२ ॥

चूकाशाक गर्म है कसैला है मधुर है और अग्निको जगाता है ॥ १२ ॥

अथ दूसरे शाकोंके गुण ॥

कफादनी तथा फञ्जी तिलपर्णी तु सिंहिका ॥

चक्रमर्दन इत्यन्ये दुर्जरा वातकोपनाः ॥ १३ ॥

कफादनी, फंजी, तिलवन, सिंहिका, पुवाड, ये शाक दुर्जर हैं और वातको को-
पते हैं ॥ १३ ॥

अथ कफकारक और वातल शाक ॥

पिण्डालुको बला भिण्डी चिञ्चुकान्या बलादनी ॥

एते श्लेष्मकराः शाका वातलाग्निप्रशान्तकाः ॥ १४ ॥

श्वेतरतालु, खरैहरी, भिंडी, चिञ्चुका, बलादनी ये शाक कफको करते हैं वातल हैं अग्नि-
को मंद करते हैं ॥ १४ ॥

अथ शाकोंके विशेष गुण ॥

सर्वे शाका दृष्टिहरा वीर्यत्वात्तण्डुलीयकम् ॥ तथैव शतपुष्पञ्च जयन्ती

कासमर्दकम् ॥ १५ ॥ आलूषकञ्च वेतायं गुडूची चापमर्दकम् ॥ किरात

तिक्तसहितास्तिक्ताः पित्तहरा मताः ॥ १६ ॥

सब शाक दृष्टिको हरते है और वीर्यपनेसे चौलाई शौफ—जयन्ती—कासविंदा ॥ १५ ॥
आलू, वैतकी कोपल, गिलोय, चापमर्दक, चिरायता, ये शाक कडुवे है और पित्तको हरने-
वाले माने है ॥ १६ ॥

अथ अन्यप्रकारके शाक ॥

कूष्माण्डकालिङ्गकलिङ्गचिर्भटं पटोलञ्च पुष्पञ्च तथा च तुण्डी ॥

वीजन्तु कर्कोटककारवेल्लं कोशातकीवेल्लिफलानि चैव ॥ १७ ॥

कोहला, कालिङ्ग, इन्द्रजव, लालतूवी, परवल, मीठीतोरी, ककोडा, करेला, कहुई तोरी,
वेल्लिफल येभी सब शाक कहे है ॥ १७ ॥

अथ कोहलाका गुण ॥

कूष्माण्डं त्रिविधं ज्ञेयं बाल्यं मध्यं तथोत्तमम् ॥ वातघ्नं रोचकं बाल्यं

॥ १८ ॥ शोकं वातकफौ हन्ति रक्तपित्त

कोहला ३ प्रकारका जानना एक वालक दूसरा मध्य तीसरा उत्तम—वालक कोहला वातको नाशता है रुचिको उपजाता है मध्यम कोहला त्रिदोषको हरता है ॥ १८ ॥ उत्तम कोहला शोभा, वात, कफ, इन्हेंको हरता है और रक्त पित्तको दूर करता है ॥ १९ ॥

अथ कुरुडुके शाकका गुण ॥

कलिङ्गं कफकृद्वातकरणं पित्तनाशनम् ॥ २० ॥

कुरुडुका शाक कफको करता है वातको करता है और पित्तको नाशता है ॥ २० ॥

अथ करैलाका गुण ॥

कारवेल्लश्च वातघ्नः कफघ्नः पित्तकारकः ॥

उष्णो रुचिकरः प्रोक्तो रक्तदोषकरो नृणाम् ॥ २१ ॥

करैला वातको नाशता है कफको हरता है पित्तको करता है गर्म है रुचिको करता है और मनुष्योंके रक्तके दोषको करता है ॥ २१ ॥

अथ लालतूरीके पुष्पका गुण ॥

पुष्पञ्च चिर्भटश्चैव दोषत्रयकरं स्मृतम् ॥

अपक्वं जीर्णकफकृत्पक्वं किञ्चिद्विशिष्यते ॥ २२ ॥

तूवाका फूल त्रिदोषको करता है नहीं पकाहुआ अजीर्णको और कफको करता है और पकाहुआ कछुक विशेष होजाता है ॥ २२ ॥

अथ तोरी ककोडा करैला कडुई तोरीका गुण ॥

तुण्डीरमग्निरुचिकृद्वातपित्तनिवारणम् ॥ कर्कोटकं त्रिदोषघ्नं रुचिकृन्मधुरं

तथा ॥ २३ ॥ कोशातकीफलं स्वादु मधुरं वातपित्तनुत् ॥ विपाके च

कफं हन्ति ज्वरे शस्तं प्रदिश्यते ॥ २४ ॥

तोरीशाक अग्निको और रुचिको करता है वातको और पित्तको दूर करता है ककोडा त्रिदोषको नाशता है रुचिको उपजाता है और मधुर है ॥ २३ ॥ कडुई तोरी स्वादु है पाकमें मधुर है वातको और पित्तको नाशता है कफको हरती है और ज्वरमें श्रेष्ठ है ॥ २४ ॥

अथ परवलका गुण ॥

पटोलपत्रं विनिहन्ति पित्तं नालं कफघ्नं प्रवदन्ति धीराः ॥ फलञ्च

तस्यास्तु त्रिदोषशान्तिं करोति नूनं ज्वरिणो हितं स्यात् ॥ २५ ॥

परवलका पत्ता पित्तको हरता हैं और परवलका ताल कफको नाशता है और परवलका फल त्रिदोषको शांत करता है और ज्वरवालेको निश्चय हित है ये सब वैलियोंके शाक कहे ॥ २५॥

अथ वैंगनका गुण ॥

निद्राकरं प्रीतिकरं गुरु स्यात्सवातलं कासविकारकारि ॥ श्रेष्ठं
सुदीर्घं कफवर्धनञ्च सश्वासकासारुचिवर्धनञ्च ॥ २६ ॥

वैंगन नींदको और प्रीतिको करता है भारा है वातल है खांसीके विकारको करता है और सुंदर लंबा वैंगन श्रेष्ठ है कफको बढ़ाता है और स्वास, खांसी, अरुचि; इन्होंको बढ़ाता है ॥ २६ ॥

अथ बड़ी कटेलीका गुण ॥

तथा बृहत्याः फलमेव शस्तं सन्दीपनं स्यात्कफवातनाशनम् ॥
कण्डूविसर्पज्वरकामलानां तथारुचौ शस्तमिदं वदंति ॥ २७ ॥

बड़ी कटेलीका फल श्रेष्ठ है अग्निको जगाता है कफको और वातको नाशता है और खाज, विसर्प, ज्वर, कामला, अरुचि, इन्होंमें उत्तम है ये फलशाकके गुण कहे ॥ २७ ॥

अथ कंदशाक ॥

कन्दशाकान्प्रवक्ष्यामि शृणु पुत्र पृथक् पृथक् ॥ सूरणः पिण्डपिण्डा
लू पलाण्डुर्गृजनस्तथा ॥ २८ ॥ ताम्बूलपर्णः कन्दः स्याद्धस्तिकन्दस्त
थापरः ॥ बराहकन्दश्चाप्यन्यः कन्दशाका इमे स्मृताः ॥ २९ ॥

कंदशाकोंको पृथक् २ कहताहूं हे पुत्र! सुन. जिमीकंद, पिंडशाक, आलू, प्याज, गाजर ॥ २८ ॥ रातालुं, हस्तोकंद, बराहकंद, ये कंदशाक कहे हैं ॥ २९ ॥

अथ जमीकंदका गुण ॥

दीपनः सूरणो रुच्यः कफघ्नो विशदो लघुः ॥

विशेषात्सर्वपथ्यः स्यात्प्लीहगुल्मविनाशनः ॥ ३० ॥

जमीकंद अग्निको जगाता है कफको नाशता है रुचिमें हित है सुंदर है हलका है विशेष करके पथ्य है तिलीरोगको और गुल्मको नाशता है ॥ ३० ॥

अथ आम्लिकाकंदका गुण ॥

आम्लिकायाः स्मृतः कन्दो ग्र प्यर्शो लघुः ॥ ३१ ॥

आम्लिका कंद हलका है ग्रहणीदोष और ववासीरमें हित है ॥ ३१ ॥

अथ पिंडशाकका गुण ॥

पिण्डको वातलः श्लेष्मी ग्राही वृष्यो महागुरुः ॥

पिंडशाक वातको करता है कफवाला है वीर्यमें हित है बहुत भारा है—

अथ आलूका गुण ॥

पिण्डालुकः श्लेष्मकरः शुक्रवृद्धिकरो मृदुः ॥ ३२ ॥

रातालू कफको करता है वीर्यको बढ़ाता है और कोमला है ॥ ३२ ॥

अथ प्याजका गुण ॥

पलाण्डुर्वातकफहा शुक्रलः शूलगुल्मनुत् ॥

प्याज वातको और कफको नाशता है वीर्यको बढ़ाता है शूलको और गुल्मको नाशता है

अथ रातालूका गुण ॥

ताम्बूलपर्णः कन्दः स्याच्छुक्रलो विशदो लघुः ॥ ३३ ॥

रातालूकंद वीर्यको बढ़ाता है सुंदर है और हलका है ॥ ३३ ॥

अथ हस्तिकंदका गुण ॥

हस्तिकन्दो गुरुर्ग्राही शुक्रवृद्धिप्रदो मतः ॥

हस्तिकंद भारा है कब्जको करता है वीर्यको बढ़ाता है

अथ वाराहकंदका गुण ॥

वाराहकन्दश्चाशोघ्नो वातगुल्मनिवारणः ॥ ३४ ॥

वाराहकंद घवासीरको नाशता है वातको और गुल्मको दूर करता है ॥ ३४ ॥

अन्ये तेऽज्ञातकन्दाश्च ते न प्रोक्ता मयाऽनघ ॥ सर्वेषां कन्दशाकानां

सूरणः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ३५ ॥ दीपनोऽर्शास्तथा गुल्मक्रिमिल्लीहविनाशनः ॥

दद्रूणां रक्तपित्तानां कुष्ठानां न प्रशस्यते ॥ ३६ ॥ एते कन्दाः समाख्या

ताः श्रीमन्तो हि भिषग्वर ॥ ३७ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे प्र

थमस्थाने शाकवर्गो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

अन्यभी कंद है वे अप्रसिद्ध है इसवास्तै भेनें नहीं कहेहैं परंतु सब प्रकारके कंद शाकमें

जमीकंद श्रेष्ठ है ॥ ३५ ॥ और अशिको जगाता है और ववासीर, गुल्म, कृमिरोग, तिछीरोग, इन्होंको नाशता है परंतु दद्रू और कुष्ठको अच्छा नहीं है ॥ ३६ ॥ हेवैद्यवर ! शोभासे युक्त हुये कंद मैंने अच्छीतरह कहेहैं ॥ ३७ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्रयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने शाकवर्गो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अथ फलवर्ग ॥

आम्रं जम्बूश्च कौलश्च दाडिमामलकं तथा ॥ स्वर्जूरश्च पल्लवश्च मातुलु
ङ्गपियालजम् ॥ १ ॥ नागरं वाम्लिका चैव द्राक्षा च करमर्दकम् ॥ क्षी
रिका मधुराश्चैव फलवर्गे प्रकीर्त्तिताः ॥ २ ॥

आंब, जामम, वेर, अनार, आमला, लुहारा अथवा खजूरिया, फालसा, विजौरा, चिरो
जी ॥ १ ॥ नारंगी, अमली, दाख, करौंदा, खिरनी, सुंदर खजूर फल—ये सब फलवर्गमें कहेहैं ॥ २ ॥

अथ आंबके फलका गुण ॥

अपक्वमांशं फलमेव शस्तं संग्राहि पित्तासृजि कोपनञ्च ॥ त
था विपक्वं मधुरञ्च चाम्लं भेद्यं सपित्तामयनाशनञ्च ॥ ३ ॥

कलुक पकाहुआ आंबका फल श्रेष्ठ है कब्जको करता है पित्तको और रक्तको कोपता
है और विशेष पकाहुआ आंबका फल मधुर है खट्टा है दस्तावर है और पित्तके
रोगको नाशता है ॥ ३ ॥

अथ जामन वेर अनार चिरोंजीके गुण ॥

जम्बूर्षाही मधुरकफहा रोचनो वातहारी कोलञ्चाम्लं मधुरमथ्वा
श्लेष्मलं ग्राहि शस्तम् ॥ श्रेष्ठं वातादिकरुजहरं दाडिमञ्चामयघ्नं तप्तो
क्तञ्च मधुरमुदितं स्वाडु राजादनञ्च ॥ ४ ॥

जामनका फल कब्जको करता है मधुर है कफको नाशता है रुचिको करता है और
वातको हरता है—वेर खट्टा है अथवा मधुर है कफको करता है कब्जको करता है सुंदर है
अनारका फल श्रेष्ठ है वात आदिकी पीडाको हरता है और रोगको नाशता है—चिरोंजी
मधुर है और स्वाडु कहा है ॥ ४ ॥

अथ विशेषवर्णन ॥

पल्लवककरहपालुकानां पिथालसिंहीकरमर्दकानाम् ॥ फला
नि मेहे विनिहन्ति पित्तं हन्याच्च सर्वातुरसन्धिवातम् ॥ ५ ॥

फालसा, करहा, पीलू, त्रिरौजी, कटेली-करोंदी-इन्होंके फल प्रमेहको और पित्तको
हरते हैं और रोगीका संपूर्ण शरीरके वातको हरता है ॥ ५ ॥

अथ विजोराका गुण ॥

स्यान्मातुलुङ्गः कफवातहन्ता हन्ता क्रिमीणां जठरामयघ्नः।संदूषितरक्त
विकारपित्तसन्दीपनः शूलविकारहारी ॥ ६ ॥ श्वासकासारुचिहरं तृ
ष्णाम्नं कण्ठशोधनम् ॥ दीपनं लघु रुच्यञ्च मातुलुङ्गमुदाहृतम् ॥ ७ ॥
त्वक् तित्ता दुर्जरा तिष्या क्रिमिवातकफापहा। स्वादु शीतं गुरु स्निग्धं
करहं वातपित्तजित् ॥ ८ ॥ मध्यं श्लेष्मातकं छर्दिकफारोचकनाशनम् ॥
दीपनं लघु संघ्राहि गुल्मार्शोघ्नन्तु केशरम् ॥ ९ ॥ पित्तमारुतहृद्वातपित्त
लं बद्धकेशरम् ॥ हृद्यं वर्णकरं रुच्यं रक्तमांसबलप्रदम् ॥ १० ॥ शूला
जीर्णविरुद्धेषु मन्दाग्नौ कफमारुते ॥ अरुचौ श्वासकासे च स्वरसोऽस्यो
पदिश्यते ॥ ११ ॥ रसोऽतिमधुरो हृद्यो वीर्य्यं पित्तानिलापहम् ॥ कफ
कृद्दुर्जरः पाके मातुलुङ्गकटाहकः ॥ १२ ॥ चेतोहारी तेन पृथगतिकटुत्व
ञ्चाभिधत्ते ॥ हृद्रोगानाहगुल्मश्वसनकफकरो ग्रीष्मकालेऽपहन्ता ॥ १३ ॥
वीर्य्यकञ्चार्शहृत्काले स्यात्तथा क्रिमिहन्मतम् ॥ तिक्तं पुष्पञ्च बीजञ्च
गुल्मनुत्स्यात्तथापरम् ॥ १४ ॥

विजौरा कफको और वातको नाशता है और कृमिरोगको हरता है और पेटके रोगको दूर
करता है दूषितहुये रक्तविकारको और पित्तको दूर करता है अग्निको जगाता है और शूल-
विकारको नाशता है ॥ ६ ॥ और विजोराका फल श्वास, खांसी, अरुचि, इन्होंको नाशता
है घृषाको हरता है कंठको शोधता है अग्निको जगाता है हलका है रुचिमें हित है ॥ ७ ॥
विजौराकी छाल कडुई है दुर्जर है सुंदर है और कृमि, वात, कफ, इन्होंको नाशती है और
विजौराकी कोंपल स्वादु है शीतल है भारा है चिकना है वातको और पित्तको जीतता
है ॥ ८ ॥ और विजौराका गूदा कफको नाशता है छर्दिको और कफके अरोचकको नाशता

है और विजौराका केसर अग्निको जगाता है हलका है कवजको करता है गुल्मको और ववासीरको नाशता है॥१॥पित्तको और वातको हरता है और केसरसे संयुक्तहुआ विजौराका फल पित्तको और वातको करता है सुंदर है वर्णको करता है रुचिमें हित है और रक्त मांस, वल, इन्हेंको देता है ॥ १० ॥ और विजौराका स्वरस शूल, अजीर्ण, मंदाग्नि, कफ, वात, अरुचि, श्वास, खांसी, इन्होंमें उत्तम है ॥११॥ और विजौराका रस अति मधुर है सुंदर है वीर्यको देता है पित्तको और वातको नाशता है कफको करता है और पाककालमें दुर्जर है ॥ १२ ॥ और चित्तको हरता है तिस्ते पृथक् अति चर्चरापनाको धरता है और हृद्रोग, अफारा, गुल्म, श्वास, इन्होंको अन्यकालमें करता है और गर्मकालमें नाशता है॥१३॥ विजौराके फूल और बीज सुंदर कालमें वीर्यको करते हैं ववासीरको दूर करते हैं रुमिको हरते हैं कडुवे है और गुल्मको नाशते हैं ॥ १४ ॥

अथ नींबूका गुण ॥

निम्बूकं क्रिमिसमूहनाशनं तीक्ष्णमुष्णमुदरग्रहापहम् ॥ वातपित्तकफशूलिनां हितं नष्टधान्यरुचिशोधनं परम् ॥ १५ ॥ त्रिदोषसद्योज्वरपीडितानां दोषाश्रितानाञ्च स्रवज्जलानाम् ॥ मलग्रहे वद्धगुदे हितञ्च विसूचिकायां मुनयो वदन्ति ॥ १६ ॥

निंबू कीडोंके समूहको नाशता है तीक्ष्ण है गर्म है पेटके कजवको हरता है और वात, पित्त, कफ, इन्होंके शूलवालोको हित है और नष्टअन्नमें रुचिको शोधता है ॥ १५ ॥ त्रिदोष और ताकाल उपजे ज्वरसे पीडितको और दोषसे आश्रित हुयोंको और पानीको क्षिरातेहुयेको और विष्ठाके बंधमें और वद्धगुदरोगमें और विसूचिका अर्थात् हैजाके भेदमें हित है ऐसे मुनिजन कहते हैं ॥ १६ ॥

अथ नारंगीका गुण ॥

नारङ्गं स्वादु गुणोपपन्नं सन्दीपनं रोचकमर्शासाञ्च ॥ त्रिदोषहृच्छूलक्रिमीन्निहन्ति मन्दाग्निकासश्वसनापहारि ॥ १७ ॥

नारंगीफल स्वादु है गुणवाला है अग्निको जगाता है ववासीरमें रुचिको उपजाता है और त्रिदोष, शूल, रुमि, मंदाग्निरोग, खांसी, श्वास—इन्होंको नाशता है ॥ १७ ॥

अथ अम्लीका गुण ॥

अम्ली हि चाम्लफलमविपकां तदस्रपित्तामकरं विदाहि ॥ वातामये शूलगदे प्रशस्तं पकं तथा शीतगुणोपपन्नम् ॥ १८ ॥

नहीं पकाहुआ अम्लीफल पित्तको और आमको करता है विशेषसे दाहको करता है वातरोगमें और शूलमें श्रेष्ठ है और पकाहुआ अम्लीका फल शीतल होता है ॥ १८ ॥

अथ दारुका गुण ॥

द्राक्षाफलं मधुरमम्लकषाययुक्तं क्षारेण पित्तमरुतां कफहारि शीघ्रम् ॥
श्रेष्ठं निहन्ति रुधिरामयदाहशोषमूर्च्छाज्वरश्वसनकासविनाशकारि ॥ १९ ॥
कपायघ्ना विपाके च द्राक्षा चैव कफे हिता ॥ २० ॥

दाख मधुर है खटा है कसैला है खारेपनेसे पित्त-वात-कफ-इन्होंको शीघ्र हरता है श्रेष्ठ है और रक्त-रोग-दाह-शोष-मूर्च्छा-ज्वर-श्वासरोग-खासी-इन्होंको नाशता है ॥ १९ ॥ और पाककालमें कसैलेपनेको नाशता है और कफमें हित है ॥ २० ॥

अथ नारियलका गुण ॥

नालिकेरं सुमधुरं गुरु स्निग्धञ्च शीतलम् ॥ हृद्यं सवृंहणं वस्तिशोधनं
रक्तपित्तनुत् ॥ २१ ॥ विटम्भि पक्वं मतिमन्नपक्वं कफवातलम् ॥ वृंहणं
शीतलं दृष्यं नालिकेरफलं विटुः ॥ २२ ॥

नारियल मधुर है भारा है चिकना है शीतल है सुंदर है धातुओंको पुष्ट करता है वस्ति-को शोधता है रक्तपित्तको नाशता है ॥ २१ ॥ विटंभी है ये सब पकेहुयेके गुण है हेतुद्वि-मन् ! नहीं पकाहुआ नारियल कफको और वातको करता है धातुओंको बढ़ाता है शीतल है और वीर्यमें हित है ॥ २२ ॥

अथ केलाके फलका गुण ॥

हृद्यं मनोज्ञं कफवृद्धिकारि शान्तञ्च सन्तर्पणमेव बल्यम् ॥ रक्तं सपित्तं
श्वसनञ्च दाहं रम्भाफलं हन्ति सदा नराणाम् ॥ २३ ॥ अपक्वं संघाहि
च शीतलञ्च कपायकं वातकफं करोति ॥ विटम्भि बल्यं गुरु दुर्जरञ्च
आरण्यरम्भाफलमेव तद्रत् ॥ २४ ॥

पकाहुआ केलाका फल सुंदर है मनोहर है कफको बढ़ाता है शांतिको करता है वृद्धि-को करता है बलमें हित है और रक्तपित्त-श्वासरोग-दाह-इन्होंको सबकालमें नाशता है २३ नहीं पकाहुआ केलाका फल कवजको करता है शीतल है कसैला है वातको और कफको करता है विटंभी है बलमें हित है भारा है दुर्जर है और वनके केलाका फलभी इन्हीं गुणोंवाला है ॥ २४ ॥

अथ केथका गुण ॥

कपित्थकाम्लं मधुरं कषायं विशदं गुरु ॥ कासातिसारहृद्भोगच्छर्दिं
कफामयापहम् ॥ २५ ॥ कपित्थं मधुरं शीतं कषायं माहकं लघु ॥ २६ ॥

केथफल खटा है मधुर है कसैला है सुंदर है भारा है और खांसी, अतीसार, हृद्भोग, छर्दि, कफरोग, इन्हेंको नाशता है ॥ २५ ॥ कच्चाकेथफल मधुर है शीतल है कसैला है कवजको करता है और हलका है ॥ २६ ॥

अथ खजूरिया अथवा छुहाराका गुण ॥

अपक्वं खजूरफलं त्रिदोषशमनं मतम् ॥

पक्वमेव हितं श्रेष्ठं त्रिदोषशमनं परम् ॥ २७ ॥

नहीं पकाहुआ खजूरिया अथवा छुहारा त्रिदोषको शांत करता है और पकाहुआ हित हैं श्रेष्ठ है और निश्चय त्रिदोषको शांत करता है ॥ २७ ॥

अथ सुपारीका गुण ॥

कषायमधुरं जेदि पूगं पित्तकफापहम् ॥ २८ ॥

सुपारीफल कसैला है मधुर है मलको पतला करता है पित्तको और कफको नाशता है २८

अथ नागरपानका गुण ॥

नागवल्लीदलं हृद्यं सुगन्धि कफवातजित् ॥ २९ ॥

नागरपान सुंदर है सुगंधवाला है कफको और वातको जीतता है ॥ २९ ॥

अथ कत्थाका गुण ॥

खदिरः कफपित्तघ्नः कण्ठ्यः कुष्ठनिवर्हणः ॥ ३० ॥

कत्था कफको और पित्तके नाशता है कंठमें हित है कुष्ठको दूर करता है ॥ ३० ॥

अथ चुन्नाका गुण ॥

चूर्णाकं पित्तहृत्तीक्ष्णं ताम्बूलं कफवातजित् ॥ ३१ ॥ संयोगात्सुरसं

त्वाद्दु मुखवैरस्घनाशनम् ॥ दन्तस्थैर्यकरं शोपपीनसरोगशान्तिकत्त्वा ॥ ३२ ॥

चुन्ना पित्तको हरता है तीक्ष्ण है और नागरपान कफको और वातको जीतता है परंतु संयोगसे सुंदर रसवाला है स्वादु है और मुखमें विरसपनेको करता है ॥ ३१ ॥ और दंतोंको स्थिर करता है और शोप, पीनस इनको शांत करता है ॥ ३२ ॥

अथ कथा कपूरसे संयुक्त नागरपानका गुण ॥

रोगपाटवसंशुद्धिस्वरकान्तिकरं मतम् ॥ कण्ठ्यं रुच्यमुरस्यश्च फलकंपूर्णं
रसंयुतम् ॥ ३३ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे प्रथमस्थाने फलवर्गो
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

कथा कपूरसे संयुक्त किया नागरपान रोगको शोधता है स्वरको और कान्तिको करता है कंठमें हित है रुचिको उपजाता है और छातीमें गुणको करता है ॥ ३३ ॥ इति वेरीनि-वासिबुधशिवसहायसुनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने फलवर्गो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

अथ मधुवर्ग ॥

अतो वक्ष्यामि माक्षीकं त्रिविधं शृणु पुत्रक ! ॥

भ्रामरं सारघं क्षौद्रं तेषां वच्मि गुणागुणम् ॥ १ ॥

अब शहदको कहूंगा हेपुत्र ! वह शहद तीन प्रकारका है सुन भ्रामर १ सारघ २ क्षौद्र ३ तिनहोंके गुणोंके और दोषोंको कहताहूँ ॥ १ ॥

अथ शहदका गुण ॥

शीतं कषायं मधुरं लघु स्यात्सन्दीपनं लेहनमेव शस्तम् ॥ संशोधन
श्च व्रणशोधनश्च संरोपणं हृद्यतमश्च बल्यम् ॥ २ ॥ त्रिदोषनाशं कुरुते
च पुष्टिं कासक्षये वा क्षतजे च लघुं ॥ हिक्काभ्रमे शोषणपीनसानां
रक्तप्रमेहे सरलातिसारे ॥ ३ ॥ रक्तातिसारे च सपित्तरक्ते तृणमोहहृत्पा
श्वर्गदेऽपि शस्तः ॥ नेत्रामये वा ग्रहणीगदे वा विषे प्रशस्तं भ्रमरैश्वितं
यत् ॥ ४ ॥

शहद शीतल है कसैला है मधुर है हलका है अग्निको जगाता है स्वादु है सुंदर शोधता है घावको शुद्ध करता है घावपै अंकुरको लाता है अति मनोहर है बलमें हित है ॥ २ ॥ त्रिदोषको नाशता है पुष्टिको करता है खांसीमें, क्षयमें, छातीके फटनेमें, छर्दीमें और हिचकी, भ्रम, शोष, पीनस, रक्तप्रमेह कोमल, अतीसार, इन्होंमें हित है ॥३॥ और रक्तातिसार, पित्तर-

क्त, तृपा, मोह, हृद्रोग, पसलीरोग, इन्होंमें श्रेष्ठ है भ्रामर शहद नेत्ररोगमें अथवा संग्रहणीमें और विषमें हित है ॥ ४ ॥

अथ शहदकी विशेषता ॥

भ्रामरं सघनं जाड्यं भूयिष्ठं मधुरञ्च यत् ॥ क्षौद्रं विशेषतो ज्ञेयं शीतलं लघु लेहनम् ॥ ५ ॥ तस्माद्दुतरं रूक्षं सारघं नातिशीतलम् ॥ कासे क्षये प्रशस्तं स्यात्कामलाशोविनाशनम् ॥ ६ ॥ नातिशीतं नच रूक्षं दीपनं बलकन्मतम् ॥ अतीसारे नेत्ररोगे क्षते वा क्षतजं हितम् ॥ ७ ॥ भ्रामरं वृक्षसंस्थाने विटपे सारघं भवेत् ॥ रन्ध्रे तु कोटरे वापि क्षौद्रं तत्र प्रशस्यते ॥ ८ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे मधुवर्गो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

भ्रामर शहद कठिन है मोटा है भारा है मधुर है और क्षौद्रसंज्ञक शहद विशेषपनेसे शीतल है हल्का है स्वादु है ॥ ५ ॥ इस्सेभी अति हल्का सारघ शहद है यह रूखा है अति शीतल नहीं है खांसिमें और क्षयमें अतिश्रेष्ठ है कामलाको और ववासीरको नाशता है ॥ ६ ॥ क्षौद्रशहद अतिशीतल नहीं है रूखाभी नहीं है अग्निको जगता है बलको करता है और अतीसार—नेत्ररोग—वायु—क्षतसे उपजारोग—इन्होंमें हित है ॥ ७ ॥ वृक्षपै भ्रामर शहद होता है तृणके गुच्छेमें सारघ शहद होता है वृक्षके छिद्रमें अथवा कोटरमें क्षौद्र शहद होता है ॥ ८ ॥ इति वेरीनिवासिविषयसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्रनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने मधुवर्गो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

अथ मधुवर्ग ॥

गौडी माध्वी तथा पैटी निर्यासा कथितापरा ॥ इति चतुर्विधा ज्ञेयाः सुरास्तासां प्रभेदकाः ॥ १ ॥ भेदेन द्वादश प्रोक्ताः सुराः सौवीरकारसैः ॥ सीधुर्गौडी च मत्स्यण्डी गुडेन प्रभवास्त्रयः ॥ २ ॥ माध्वीकं मधुकं माध्वं मधुना संयुताः सुराः ॥ पैटीष्वरिष्टजातन्तु तण्डुलप्रभवास्त्रयः ॥ ३ ॥ मृद्धी कारससम्भूता ताडमाडरसोद्भवा ॥ निर्यासा सा तु विज्ञेया तासां वक्षि गुणागुणम् ॥ ४ ॥

गौडी, माध्वी, पैष्टी, निर्यासा, इनभेदोंसे मदिरा ४ प्रकारकी है तिन्हेंके भेद ॥ १ ॥ वारह १२ कहे है सीधु—गौडी—मत्स्यंडी—ये तीन मदिरा गुडसे बनती हैं ॥ २ ॥ माध्वीक, मधुक, माध्व, ये तीन मदिरा शहदसे बनती हैं पैष्टी, अरिष्ट, जात, ये तीन मदिरा चावलोंसे बनती हैं ॥ ३ ॥ शृङ्गीका मदिरा रससे बनती है ताडमदिरा ताडके रससे बनती है और वही निर्यासा मदिरा जाननी तिन्हेंके गुण और दोषोंको कहताहूँ ॥ ४ ॥

अथ सुधुमदिराका गुण ॥

सीधुः कषायाम्लकमाधुरो वा सन्दीपनो भेदमलापमर्दः ॥ आ
मातिसारानिलपित्तशूलश्लेष्माजघाशोर्ग्रहणीगदघ्नः ॥ ५ ॥

सीधुमदिरा कसैली है खटी है अग्निको जगाती है मेदको और मलको नाशती है और आमामीसार, वात, पित्त, शूल, कफका रोग, ववासीर, ग्रहणीदोष, इन्हेंको नाशता है ॥ ५ ॥

अथ गौडी मदिराका गुण ॥

गौडी कषाया मधुराम्लशीता सन्दीपनी शूलमलापहन्त्री ॥ हृद्या
त्रिदोषं शमयत्यजीर्णं पाण्ड्वीमथार्शः श्वसनं निहन्ति ॥ ६ ॥

गौडीमदिरा कसैली है मधुर है खटी है शीतल है अग्निको जगाती है शूलको और अफा-
राको हरती है सुंदर है और त्रिदोष, अजीर्ण, पांडुरोग, ववासीर, श्वासरोग इन्हेंको शांत
करती है ॥ ६ ॥

अथ मत्स्यंडी मदिराका गुण ॥

हरति मलमियञ्च दीपनी पाण्डुमेहान् लघुमधुरसुशीता रोचना पित्त
हन्त्री ॥ जरयति सकलं वा पीतमम्लातिमात्रं श्वसनरुधिरकासान् हन्ति
वा कामलाञ्च ॥ ७ ॥

रावकी मदिरा अग्नीको जगाती है और मल, पांडुरोग, प्रमेह, इन्हेंको हरती है हलकी है
मधुर है सुंदर शीतल है रुचिको करती है पित्तको हरती है सब चीजोंको जराती है पीनेमें
खटी है और श्वासरोग, रक्त, खांसी, कामला, इन्हेंको नाशती है ॥ ७ ॥

अथ माध्वीक मदिराका गुण ॥

माध्वीकं शीतलं चाम्लं मधुरमपि तथा कषायोष्णकञ्च हन्यात्पित्तामया
र्शः श्वसनमपि तथा चातिसारं प्रमेहान् शूलानाहोपमर्दं जरयति सकलं
दीपयत्यग्निसारम्यं तस्माद्वातामवातं वसनमपि तथा हन्ति सर्वांश्च रोगान् ८ ॥

मेऽपस्मारे च पक्षाणाञ्च भ्रमेषु च ॥ १४ ॥ श्रान्ते वा विषपीते वा
सर्षदष्टे जलोदरे ॥ रक्तपित्ते तथा श्वासे वारुणी न हिता मता ॥ १५ ॥
इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे मद्यवर्गो नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

कपायपनेसे युक्त हुआ पित्त जब पूर्ण होवै तब योगसे युक्तकरी मदिरा हित है यह बहुत
दोषोंको हरती है और विशेष करके कफके रोगमें हित है ॥ १३ ॥ परिश्रम और प्वरसे
पीडित और शोष, शोजा, पांडुरोग, क्षय, वृद्धिकी, ग्लानि, मृगीरोग, यशआदिसे उपजा भ्रम
इन्होंसे पीडितको ॥ १४ ॥ और शांतहुयेको और विषको पीयेहुयेको और सर्पसे इसेको
और जलोदर—रक्तपित्त—श्वासरोग, इन्होंसे पीडितको मदिरा हित नहीं है ॥ १५ ॥ इति
वेरीनिवासिबुंधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थान एको-
नविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

अथ चौपायोंका और दुपायोंका मांसवर्ग ॥

शूलिनः शृङ्गिणश्चैव नखिनोऽन्ये प्रकीर्तिताः ॥ श्वापदाः पक्षिणंश्चान्ये
मत्स्याश्चान्याः सरीसृपाः ॥ १ ॥ जलेचरा जलाधारा ग्रामारण्यनिवा-
सिनः ॥ अनूपा जाङ्गला जीवास्तथा साधारणोऽपरः ॥ २ ॥ मृगरुचि-
त्राङ्गस्तथा गण्डश्च वनगवयमहिषाः ॥ सूकराद्याश्च येऽपि भवन्ति वि-
विधवर्णा ग्रामवासिनश्च ॥ ३ ॥ ये ये वनगजाद्याश्च ग्रामकाद्याश्च शू-
ङ्गिणः ॥ शूकरच्छिक्कराद्याश्च शूरिणो वा भवन्त्यमी ॥ ४ ॥

शूलवाले, शिंगवाले, नखवाले, श्वापद, पक्षी, मच्छ, सर्प ये जो कहे हैं ॥ १ ॥ जलमें
विचरनेवाले, जलके आश्रितहुये ग्राममें वसनेवाले, वनमें वसनेवाले, आनूपदेशमें रहनेवाले-
जांगलदेशमें रहनेवाले, साधारणदेशमें रहनेवाले ॥ २ ॥ मृग, रोहिपमृग, विलावभेद, गैंडा,
रोझ, गैंसा, शूरआदि—ये सब अनेक प्रकारका वर्णवाले ग्राममें वसनेवाले है ॥ ३ ॥ जो जो व-
नमें रहनेवाले हस्तीआदि हैं और जो ग्राममें रहनेवाले शींगवाले हैं और शूर, छिक्कर इन-
आदिभी ग्रामवासी है ॥ ४ ॥

अथ सरीसृपवर्णन ॥

शराकः शल्लुकी गोधा मार्जाराद्या नखायुधाः ॥

सर्पमत्स्यादिका ये च ते विज्ञेयाः सरीसृपाः ॥ ५ ॥

शशा, सेह, गोह, चिलाव, इनआदि नखरूपी शस्त्रोंवाले है सर्प और मच्छ आदि सरी-
सृप संज्ञक जानने ॥ ५ ॥

अथ आनूपवर्णन ॥

मत्स्यमङ्कुरकाद्या ये कच्छपा दुर्जरादयः ॥ हंससारसचक्राद्याः कपि
अलकुम्बूकाः ॥ ६ ॥ आनूपास्तेषु विज्ञेयाः श्लेष्मला वातकोपनाः ॥ ७ ॥

मच्छ, मङ्कुरक आदि कच्छप ये दुःखसे जर्नेवाले है और हंस, सारस, चक्रवा, इन आदि
और पपैया, पेंडरिआ पक्षी, ॥ ६ ॥ ये सब आनूपदेशमें रहनेवाले होते है और कफको क-
रते है और वातको कोपते है ॥ ७ ॥

अथ जाङ्गलवर्णन ॥

शशलावकवाताटा गोधाहरिणकूटकाः ॥ छिक्कराद्यास्तथान्येऽपि तित्ति
राद्याश्च कूर्चकाः ॥ ८ ॥ भारद्वाजास्तथा श्येना मूषका वरवारणाः ॥
इत्येता जाङ्गला जीवा ये जलेन विना स्थिताः ॥ ९ ॥

शशा, लावा, वाताट, गोह, हरिण, कूटक, छिक्कर आदि और तीतरआदि, जीवक पक्षी ॥
॥ ८ ॥ काग अथवा मुर्गा विशेष, शिकरा, मूषा-मापीविशेष ये सब जांगलसंज्ञक है ये पानीके
विनाभी स्थित रह सकते है ॥ ९ ॥

अथ जलचरजीववर्णन ॥

शूकरा मृगशल्लाद्याः सलिलाशयमाश्रिताः ॥ मकराद्याश्च गण्डाका गव
याश्च तथापराः ॥ १० ॥ महिषाद्याश्च ये चैव ते च साधारणा मताः ॥
क्रुरवकमकराः कङ्कचटकपिकभृङ्गसारसाः ॥ ११ ॥ आडिदात्यूहहंसा
जलकरटिकपिङ्कटिभिन्नाद्याश्च ॥ जलेचरा विहङ्गस्ते खञ्जरीटाश्च भास
काः ॥ १२ ॥ इत्येते जलजा जीवाः स्थलजाः स्थलचारिणः ॥ १३ ॥

शूर, हरण, शल्ल अर्थात् गोहके आकार जीव इन आदि जीव पानीका आशयके आश्रित
रहते है और मकर मच्छ आदि-गैडा-रोझ ॥ १० ॥ भैंसा आदि जीव साधारणमाने है और पपैया
वगला-मकरा-कंक-वत्तक-कोयल-भौरा-सारस- ॥ ११ ॥ आडीपक्षी-ढौंकरपक्षी
हंस-शंखकाजीव-रटिक-पिंगापक्षी-टिटवीपक्षी इनआदि ॥ १२ ॥ जलमें विचरनेवाले है खंज-
रीट और भासपक्षीभी जलचारी है और स्थलमें विचरनेवाले स्थलचारी जीव ॥ ॥

अथ ग्रामचारी पशुवर्ग ॥

गजवाजिनस्तथोष्ट्रा माहिषा सौरभाजकाः ॥ खरशूकरभेषाश्च श्वानो
मार्जारमूषकाः ॥ १४ ॥ इत्येते पशवो ज्ञेया ग्रामवासनिवासिनः ॥

हस्ती, घोडा, ऊंट, बैसा, बैल, बकरा, गधा, शूर, मेंढा, कुत्ता, बिलव, मूषा ॥ १४ ॥
ये सब जीव गाममें बसनेवाले हैं ॥

ग्रामचारी पक्षी

कुक्कुटकलविङ्कपारावतकपोतकाः ॥ १५ ॥

पक्षिणो ग्रामचाराश्च वच्मि चैषां गुणागुणम् ॥ १६ ॥

और मुर्गा, चिमणापक्षी, परेवा, कबूतर, ॥ १५ ॥ ये पक्षी गाममें विचरते हैं इन्होंने
गुण और दोषको कहताहूँ ॥ १६ ॥

हरिणोंके मांसका गुण ॥

शृङ्गिणां हरिणः श्रेष्ठो बल्यो रोचनदीपनः ॥

त्रिदोषघ्नो लघुः पाके मधुरो ज्वरिणां हितः ॥ १७ ॥

शिंगवालोंने हरिण श्रेष्ठ है बलमें हित है रुचीको देता है अमिको जगाता है विदोषको
हरता है हलका है पाककालमें मधुर है ज्वरवालोंको हित है ॥ १७ ॥

अथ कृष्णमृगके मांसका गुण ॥

क्षते क्षयार्शसोः पाण्डावरोचकनिपीडिते ॥

कासश्वासातुराणाञ्च पुणमांसं सुखावहम् ॥ १८ ॥

छातीका फटजाना, क्षय, बलासीर, पांडु, अरुची, खांसी, श्वास, इन्होंने पीडित रोगियोंको
कृष्णमृगका मांस हित है ॥ १८ ॥

अथ चित्रांगके मांसका गुण ॥

चित्राङ्गो वातशमनो बृंहणो बलकृन्मतः ॥

श्लेष्मलः कथितो वापि दुर्जरो मेदवर्द्धनः ॥ १९ ॥

बिलावका मांस वातको शांत करता है धातुओंको पुष्ट करता है बलको बढ़ाता है कफ-
को करता है दुर्जर है और मेदको बढ़ाता है ॥ १९ ॥

अथ छिक्करके मांसका गुण ॥

छिक्करो लघु बृंहि च मधुरो दोषनाशनः ॥

तुल्यो हरिणमांसस्य ज्वरेष्वपि प्रशस्यते ॥ २० ॥

छिक्करका मांस हलका है धातुओंको पुष्ट करता है मधुर है दोषको नाशता है मृग-
का मांसके समान है और ज्वरमें श्रेष्ठ है ॥ २० ॥

अथ रक्तमृगके मांसका गुण ॥

रोहितो बृंहणश्चैव विबन्धी दुर्जरो घनः ॥

ज्वरिणां विषमाग्नीनामतीसारेण चास्यते ॥ २१ ॥

रक्त मृगका मांस धातुओंको बढ़ाता है विशेष करके बंधाको करता है दुर्जर है क-
ठिन है और ज्वर, विष, अग्नी, इनरोगवालोंको अतीसार करके चासित करता है ॥ २१ ॥

अथ गेंडा, रोझ, भैंसा, ऊंट, घोडा-इन्होंके मांसोंके गुण ॥

तथैव गण्डगवयमहिषोत्तुरङ्गकाः ॥

विबन्धिगुरवः स्निग्धा वातालस्ये प्रकीर्त्तिताः ॥ २२ ॥

गेंडा, रोझ, भैंसा, ऊंट, घोडा इन पांचोंके मांस विशेष करके बंधाको करते हैं भारे हैं
चकने हैं वातमें और आलस्यमें हित है ॥ २२ ॥

अथ शूरके मांसका गुण ॥

वातघ्नं रोचनं वृष्यं दुर्जरं श्रमनाशनम् ॥

वातलं पित्तशमनं रुचिदं धातुवर्द्धनम् ॥ २३ ॥

शूरका मांस वातको नाशता है रुचिमें हित है वीर्यमें हित है दुर्जर है परिश्रमको ना-
शता है पित्तको शांत करता है धातुओंको बढ़ाता है ॥ २३ ॥

अथ शशाके मांसका गुण ॥

शशाको जाङ्गलश्रेष्ठो लघुवृष्यश्च दीपनः ॥ रुचिकृत्तर्पणो बल्यस्त्रिदो

षशमनो मतः ॥ २४ ॥ ज्वरे च पाण्डुरोगे च क्षये कासे गुदामये ॥

राज्यक्षमणि पाण्डौ च तथातीसारिणां हितः ॥ २५ ॥

शशाका मांस जांगलजीवोंके मांसोंमें श्रेष्ठ है हलका है वीर्यमें हित है अग्निको जगाता
है रुचिको करता है तृप्तिको करता है बलमें हित है और त्रिदोषको शांत करता है ॥ २४ ॥
और ज्वर, पांडुरोग, क्षय, खांसी, ववासीर, राजरोग, पांडुरोग, आतीसार, इनरोगवालोंको
हित है ॥ २५ ॥

अथ शेहके मांसका गुण ॥

शङ्खकी बृंहणो बल्यः स्निग्धो वृष्यो रुचिप्रदः ॥
वातश्लेष्महरो हृद्यो मधुरो धातुवर्द्धनः ॥ २६ ॥

शेहका मांस धातुओंको पुष्ट करता है वीर्यमें हित है बलको करता है चिकना है रुचिको देता है वातको और कफको हरता है सुंदर है मधुर है और धातुओंको बढ़ाता है ॥ २६ ॥

अथ गोह सरीखा शल्यकनामवाला जीवके मांसका गुण ॥

शल्यको बृंहणो बल्यः स्निग्धो वृष्यो रुचिप्रदः ॥
वातलः किञ्चिद्भातूनां वर्द्धनो मधुरो घनः ॥ २७ ॥

गोह सरीखा जीवका मांस धातुओंको पुष्ट करता है बलमें हित है चिकना है वीर्यमें हित है रुचिको देता है वातको करता है धातुओंको कछुक बढ़ाता है मधुर है और कठिन है ॥ २७ ॥

अथ गोहके मांसका गुण ॥

रक्तपित्तहरा वृष्या स्निग्धा मधुरशीतला ॥
श्वासकासहरा, प्रोक्ता गोधा चार्शोहिता बला ॥ २८ ॥

गोहका मांस रक्तपित्तको हरता है वीर्यमें हित है चिकना है मधुर है शीतल है श्वासको और खांसीको हरता है और ववासीरमें हित है ॥ २८ ॥

अथ मूषाके मांसका गुण ॥

स्निग्धो बलकरः शुक्लवर्द्धनो मधुरो लघुः ॥ दुर्नामक्रिमिदोषघ्नो वातहारी
च मूषकः ॥ २९ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे चतुष्पदानां मांस
वर्गो नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

मूसाका मांस चिकना है बलको करता है वीर्यको बढ़ाता है मधुर है हलका है और ववासीरको और कृमिदोषको हरता है और वातकोभी नाशता है ॥ २९ ॥ इति वेरीनि-
वासिवुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्रयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थानेमांसवर्गोनाम
विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

अथ स्थलमें विचरनेवाले जीवोंका मांसवर्ग ॥

प्रथम लावापक्षीके मांसका गुण ॥

पक्षिणाश्च महाश्रेष्ठो लावको जाङ्गलात्मजः ॥ संघाही दीपनः प्रोक्तः
कषायो मधुरो लघुः ॥ १ ॥ तथा विपाके मधुरः सन्निपातेऽतिपूजितः ॥ २ ॥

लावाका मांस सब पक्षियोंके मांससे श्रेष्ठ है परंतु जांगलदेशमें विचरनेवाला लावापक्षीका मांस हो यह कब्जको करता है अग्निको जगाता है कसैला है मधुर है और हल्का है ॥ १ ॥ और पाककालमें मधुर है और सन्निपातमें अतिपूजित है ॥ २ ॥

अथ तीतरके मांसका गुण ॥

तथैव तित्तिरो वृष्यो मेधाग्निबलवर्द्धनः ॥ सर्वदोषहरो बल्यो बलाका
समता गुणैः ॥ ३ ॥ वार्त्ताको विशदो वृष्यो यथा लावस्तथैव च ॥ कृ
ष्णगौरप्रजेदाश्च श्रेष्ठो गौरश्च तित्तिरः ॥ ४ ॥ तृतीयतित्तिरोऽन्योऽपि सा
मान्यो गुणलक्षणैः ॥ सवातलोऽतिबलकृद्घनः किञ्चिद्रसायनः ॥ ५ ॥

तीतरका मांस वीर्यमें हित है और बुद्धि, अग्नि, बल, इन्होंको बढ़ाता है सबदोषोंको हरता है बलमें हित है और बगलाका मांसके समान गुणोंवाला है ॥ ३ ॥ वार्त्ताकसंज्ञक तीतरका मांस सुंदर है वीर्यमें हित है और लावाका मांसके समान गुणोंवाला है कृष्ण और गौर तीतरोंमें गौर वर्णका तीतर श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ गुण और लक्षणों करके समान तीसरे रंगका तीतर अन्यभी होता है परंतु वह वातल है अतिबलको करता है तिसका मांस कठिन है और कछक रसायन है ॥ ५ ॥

अथ नीला मोरके मांसका गुण ॥

मेधावृद्धिं सोतसाश्च करोत्युत्पादनं शिखी ॥

सवातलोऽतिबलकृद्घनः किञ्चिद्रसायनः ॥ ६ ॥

नीला मोरका मांस बुद्धिको बढ़ाता है और कानोंको उत्पादित करता है वातल है अ-
और कछक रसायन है ॥ ६ ॥

अथ साधारण मोरके मांसका गुण ॥

सुस्निग्धो श्लेष्मलो वृष्यो घनः शुक्रविवर्द्धनः ॥

मांसदृढिकरो बल्यो द्वितीयश्च मयूरकः ॥ ७ ॥

साधारण मोरका मांस सुंदर चिकना है कफको करता है वीर्यमें हित है कठिन है वीर्यको बढ़ाता है मांसको बढ़ाता है बलमें हित है ॥ ७ ॥

अथ मुर्गाके मांसका गुण ॥

तथैव कुक्कुटो ज्ञेयो मधुरश्च गुणात्मकः ॥ ८ ॥

मुर्गाका मांसभी मोरका मांसके समान गुणोंवाला है और मधुर है ॥ ८ ॥

अथ कपोतके मांसका गुण ॥

कपोतो बृंहणो बल्यो वातपित्तविनाशनः ॥

तर्पणः शुक्रजननो हितो नृणां रुचिप्रदः ॥ ९ ॥

कपोतका मांस धातुओंको पुष्ट करता है बलमें हित है वातको और पित्तको नाशता है वृंहिको करता है वीर्यको बढ़ाता है और मनुष्योंके रुचिको देता है ॥ ९ ॥

अथ परेवाके मांसका गुण ॥

तथा पारावतो ज्ञेयो वातश्लेष्मकरो गुरुः ॥ बल्यो वृष्यो रुचिकञ्च तथा

हारीतको मतः ॥ १० ॥ पोतको भङ्गिका क्षुद्रा तथाच कुनटी तथा ॥

एते तुल्यगुणा ज्ञेया लघुवातापहारिणः ॥ ११ ॥

परेवाका मांस वातको और कफको करता है भारा है बलमें हित है वीर्यमें हित है रुचिको करता है और ऐसेही गुणोंवाला तिलजिरूपक्षीका मांस है ॥ १० ॥ और पीतक—इंद्रगोप—मधुमाखी—कुनटी इन चारोका मांस समान गुणोंवाला है हलका है और वातको हटाता है ॥ ११ ॥

अथ ककेराके मांसका गुण ॥

लघुश्च रुकरो ज्ञेयः कायाग्निवर्द्धनो भृशम् ॥ १२ ॥

ककेराका मांस हलका है शरीरकी अग्निको बढ़ाता है ॥ १२ ॥

अथ खातीचिडाके मांसका गुण ॥

तथा लघुवातहरः काष्ठकूटोऽग्निवर्द्धनः ॥ वातश्लेष्माधिको ज्ञेयः शी

तलः शुक्रवर्द्धनः ॥ १३ ॥ अश्मरीं हन्ति विशदो बलकृन्मांसतक्षणः ॥ १४ ॥

स्वातीचिडाका मांस हलका है वातको हरता है और जठराग्निको बढ़ाता है वात और कफकी अधिकतासे संयुक्त है शीतल है और वीर्यको बढ़ाता है ॥ १३ ॥ पथरीको हरता है सुंदर है बलको करता है मांसको काटता है ॥ १४ ॥

अथ चकोर, तोता, मैना इन्हींके मांसका गुण ॥

चकारोऽथ तथा शारी समदोषो गुणागुणैः ॥ १५ ॥

चकोर, तोता, मैना, इन्हींकाभी मांस गुण और दोषोंसे समान है ॥ १५ ॥

अथ कुंजके मांसका गुण ॥

कौंचो वृष्योऽतिरुचिकृदश्मरीं हन्ति नित्यशः ॥

शोषमूर्च्छाहरो वृष्यो हन्ति कासमरोचकम् ॥ १६ ॥

कुंजका मांस वीर्यमें हित है ज्यादा रुचिको करता है निश्चय पथरीको हरता है और शोष, मूर्च्छा, खांसी, अरुचि, इन्हींको नाशता है ॥ १६ ॥

अथ कोयलके मांसका गुण ॥

कोकिलः श्लेष्मलो ज्ञेयः पित्तसंशमनो मतः ॥ १७ ॥

कोयलका मांस कफको करता है बलमें हित है और वीर्यको बढ़ाता है ॥ १७ ॥

अथ विटताक्षके मांसका गुण ॥

विटताक्षस्त्रिदोषघ्नो वल्यः शुक्रविवर्द्धनः ॥ १८ ॥

विटताक्षका मांस त्रिदोषको नाशता है बलमें हित है और वीर्यको बढ़ाता है ॥ १८ ॥

अथ घरका वत्तकके मांसका गुण ॥

गृहस्य चटको वृष्यो बलशुक्रविवर्द्धनः ॥ सर्वदोषहरश्चापि दीपनो मांसवर्द्धनः ॥ १९ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारिनोत्तरे स्थलचराणां मांसवर्गो नाम एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

घरके वत्तकका मांस वीर्यमें हित है बल और वीर्यको बढ़ाता है सब दोषोंको हरता है अग्निको जगाता है और मांसको बढ़ाता है ॥ १९ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायस्त्रुवैद्यरविदत्तशास्त्रयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने स्थलचराणां मांसवर्गो नाम एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

अथ जलचरोका मांसवर्ग

प्रथम हंसआदि जलके पक्षियोंके मांसका गुण

हंसः श्लेष्मकरो बलातिरुचिदो वृष्यो गुरुः शीतलस्तद्वच्च कण्ठजाड्य
शुक्रजननो वृष्योऽतिरुच्यो मृदुः ॥ ज्ञेयः सारसकः कफानिलहरो वृष्यो
गुरुश्चोच्यते वृष्यो वीर्यविवर्द्धनः कफहरः कङ्कस्तथा भासकः ॥ १ ॥

हंसका मांस कफको करता है बलको और अति रुचिको देता है वीर्यमें हित है भारा है और शीतल है सारसका मांस हंसका मांसके समान गुणोंवाला है कंठमें जड़पनेको और वीर्यको करता है वीर्यमें हित है रुचिमें हिा है और कोमल है कफको और वातको हरता है और भारा है कंक और भासपक्षीका मांसमें हित है और वीर्यको बढ़ाता है ॥ १ ॥

आडी आदि पक्षीके मांसका गुण ॥

आडी वातविकारकासहननी बल्या वषा दीपनी कौञ्ची चासुरिशुक्रदो
षहननी तुल्यस्तथा कर्कटः ॥ दाःयूहो मरुतस्य नाशनकरो वृष्यो
वलःशुक्रदस्तथा श्रेष्ठगुणः श्रमोपशमनः शुक्रप्रदो वातहा ॥ २ ॥

वातका विकार और खांसीको हरता है बलमें और वीर्यमें हित है और अग्निको जगाता है कुंजका मांस और आसुरीका मांस वीर्यक दोषको हरता है और इसीके समान गुणोंवाला कांकडपक्षीका मांस है और करहोंक पक्षीका मांस वातको नाशता है वीर्यमें हित है बलको और वीर्यको देता है और श्रेष्ठ गुणोंवाला है परिश्रमको शांत करता है ॥ २ ॥

अथ मकर मच्छके मांसका गुण ॥

मत्स्थानां नकरः श्रेष्ठो दीपनो वातनाशनः ॥

रुचिप्रदः शुक्रकरश्वाशमरीदोषनाशनः ॥ ३ ॥

सबमकारके मच्छोंके मांसोंमें मकरमच्छका मांस श्रेष्ठ है अग्निको जगाता है वातको नाशता है रुचिको देता है वीर्यको करता है और पथरी दोषको नाशताहै ॥ ३ ॥

अथ मच्छके मांसका गुण ॥

शूङ्गी वातविनाशनो रुचिकरो वृष्यः कफघ्नो मतस्नस्माद्रोहितको
हितो बलकरो वातात्मकःश्लेष्मकः ॥ ४ ॥ श्लेष्माकरी तु शफरः

नलमीनः कफात्मकः ॥ शकुली च विशाला च ज्ञेयौ वातकफात्मकौ ॥
विलं विमत्स्यं ज्ञेयञ्च वातपित्तकफाकरम् ॥ ५ ॥

शृंगीमच्छका मांस वातको नाशता है रुचिको करता है वीर्यमें हित है वात और कफकी प्रकृतिवाला है ॥ ४ ॥ शफरी मछली कफको करती है नलनामक मच्छ वातकी प्रकृतिवाला है शकुली और विशालानामवाली दोनों मच्छली वात और कफकी प्रकृतिवाली है विल और विमत्स्यनामवाले मच्छ वात, पित्त, कफ, इन्हेंको नाशते है ॥ ५ ॥

अथ कच्छुवाके मांसका गुण ॥

कच्छपो मधुरः स्वादुः शुक्रवृद्धिकरो मतः ॥

वानश्लेष्मप्रजननो वृंहणो रूक्ष एव च ॥ ६ ॥

कच्छुवाका मांस मधुर है स्वादु है वीर्यको बढ़ाता है वात और कफको उपजाता है धातुओंको पुष्ट करता है और रूखा है ॥ ६ ॥

अथ र्वेकडाके मांसका गुण ॥

कुलीरोऽतिबलो वृष्यः पाण्डुक्षयविनाशनः ॥

शोफानिसारग्रहणीस्थविराणां स्त्रियां हितः ॥ ७ ॥

र्वेकडाका मांस ज्यादै बलको करता है वीर्यमें हित है धातुओंको पुष्ट करता है और रूखा है और शोजा, अतीसार, संग्रहणी दोष, इन्हेंसे पीडित और बूढा और स्त्री इन्हेंको हित है ॥ ७ ॥

अथ मांसविशेषता

मकरो दीपनो हृद्यो ग्राही चोष्णविकारहा ॥

मूत्राश्मरीणां शमनो गुल्मातीसारनाशनः ॥ ८ ॥

मकर मच्छका मांस अग्निको जगाता है सुंदर है कबजको करता है गर्म विकारको नाशता है मूत्ररोग और पथरको शांत करता है गुल्म और अतीसारको नाशता है ॥ ८ ॥

अथ वर्जनीय मांस

वककाकारिश्येनशूकररवरोट्टाश्वादयो भल्लुका व्यालाः सौरभेयप्रभृतय
श्च ये चान्ये जीवा नृणाम् ॥ मण्डूकाश्च सरीसृपादिकगणा यूकाः
कलिङ्गाश्च ये काकसारसशारिकाः शुका इमे भक्ष्या न शस्ता इमे ॥ ९ ॥
गृहचटकचकोराः काकजात्याश्च श्येनाः पिकशुकमघशारीभृङ्गदात्यू

हमाङ्गाः ॥ जलकरटकपोतपोटकीखञ्जरीटाः कुकुरमघमलिङ्गा यूकपि
द्वादशश्च ॥ १० ॥ एते भक्ष्या नैव भक्ष्या न चेष्टा ये चान्येऽप्यज्ञात
नामाण्डजाश्च ॥ अन्ये चापि श्वापदा ये च निन्धास्ते च स्वाद्ये वर्जि
ताश्चात्र सर्वे ॥ ११ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे मांसवर्गो नाम
द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

काक, बाज, शिकरा, मघा, शूर, उंट, कुत्ता, रीछ, भेडिया, गाय, बैल, आदि और मंडक,
सर्प आदि समूह, जूम, धूम्याटपक्षी, सारस, मैना, तोता, इन्होंके मांस खानेमें वर्जित है ॥ ९ ॥
और घरमें रहनेवाली बत्तक, चकोर, काककी जातीके पक्षी, शिकराकी जातीके पक्षी, कोयल,
तोताकी जातीके पक्षी, मघा, शारी, भोरा, करदौकपक्षी, मांग, शंखका जीव, कबूतर, पोटकी, खं-
जना, कुत्ता, मघ, मलिंग, जूम, पिंपापक्षी ॥ १० ॥ इन्होंके मांस खाने और चेष्टाके योग्य
नहीं है और जो जो निर्दित जीव है तिन्होंके भी मांस वर्जने चाहिये ॥ ११ ॥ इति वेरी-
निवासिनूधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्रपनुवादितहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने मांसवर्गो
नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

अथ अन्नपानवर्ग ॥

प्रथम मंडका गुण ॥

मण्डः परिस्रवो भक्तस्तर्पणो वाननाशनः ॥ मूत्रमेहसमीरघ्नो रुचिकृन्मू
त्रलो मतः ॥ १ ॥ आशुमण्डो भवेद् आही मधुरो वा कफात्मकः ॥
तर्पणः क्षयदोषघ्नः शुक्रवृद्धिकरः परः ॥ २ ॥

मंड झिरानेवाला है तृप्तिको करता है वातको नाशता है मूत्र, मेह, और वातको नाशता
है रुचिको करता है और मूत्रको उपजाता है ॥ १ ॥ शीघ्रक्रिया मंड कचजको करता है म
धुर है कफकी प्रकृतिवाला है तृप्तिको करता है क्षय दोषको नाशता है और वीर्यको
बढाता है ॥ २ ॥

अथ भातका गुण ॥

अप्रसाधितभक्तो युगन्धराणां भक्तश्च घनो विशदमाधुरश्च ॥
कफे त्रिदोषशमनश्च कथ्यते कासश्च श्वासात्मक एव स स्मृतः ॥ ३ ॥

नहीं साधित किया और दो तरहसे मिलाहुआ भात कठिन है सुंदर है मधुर है कफमें हित है त्रिदोषको नाशता है खांसीको और श्वासरोगको हरता है ॥ ३ ॥

अथ यवागू अर्थात् गुडपाणीका गुण ॥

सन्दीपनी स्वेदकरा यवांगूः सम्पाचनी दोषमलामयानाम् ॥

सन्तर्पणी धातुवलेन्द्रियाणां शस्ता भवेत्स्याज्वररोगिणाञ्च ॥ ४ ॥

यवागू पसीनाको लाती है अग्निको जगाती है और दोष, आम, वल, इन्हेंको पकाती है और धातु, वल, इंद्रिय, इन्हेंको तृप्ति करती है और ज्वररोगवालोंको श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥

अथ यवागूका लक्षण ॥

भागैकञ्च भवेत् तत्र द्विभागेन जलं क्षिपेत् ॥ चित्रकं पिप्पलीमूलं
पिप्पली चव्यनागरम् ॥ ५ ॥ धान्यकस्य समांशानि पिष्ट्वा श्वेतासित
ण्डुलान् ॥ संशुद्धा शिथिला किञ्चित् सा यवागूर्निगद्यते ॥ ६ ॥ यवागू
मुपभुञ्जानो जनो नारुचिमाचरेत् ॥ शाकमाषफलैर्युक्ता यवागूः स्या
च्च दुर्जरा ॥ ७ ॥

एक भाग द्रव्य और दो भाग पानी मिलावै और चीता, पीपलामूल, पीपल, चव्य, सेंठ, ॥५॥ धनियां, ये सब समभाग लेने सफेद और दूसरे रंगके चावल इन सबोंको पीस मिला-कै पकावै कलुक पतली रहै तिसको यवागू कहवैहै ॥ ६ ॥ यवागूको भोजन करताहुआ मनुष्य अरुचिको नहीं प्राप्त होता और शाक, उडद, फल, इन्हेंसे युक्तकरी यवागू दुर्जर होती है ॥ ७ ॥

अथ मंडका गुण ॥

पञ्चकोलकधान्याकैर्युक्तो रास्त्रान्वितः पुनः ॥

मण्डस्त्रिदोषशमनो ज्वराणां पाचनः परः ॥ ८ ॥

पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सेंठ, धनियां, रायशन, इन्हेंसे युक्त किया मंड त्रिदोषको नाशता है और ज्वरोंको पकाता है ॥ ८ ॥

अथ खीरका गुण ॥

पायसं गुरु विष्टम्भजननं श्लेष्मवातलम् ॥

पित्तसंशामनं बल्यं वृष्यं श्रेष्ठं रसायनम् ॥ ९ ॥

खीर भारा है विष्टम्भको करती है कफ और वातको करता है पित्तको शांत करता है बलमें और वीर्यमें हित है श्रेष्ठ है और रसायन है ॥ ९ ॥

अथ खीचडीका गुण ॥

गुरुर्विष्टम्भजननो वातश्लेष्मकरः स्मृतः ॥ पित्तसंशमनो बल्यो वृष्य
श्वैव बलप्रदः ॥ १० ॥ मुहुस्तण्डुलसंयुक्तो माषतण्डुलवान् पुनः ॥
अन्यथा धान्यगुणवान् लक्ष्यते च त्रिषग्वर! ॥ ११ ॥ तिलानां संयुतो
हृद्यो धातुपुष्टिविवर्द्धनः ॥ गुरुर्विष्टम्भमलकृद् दुर्जरः श्लेष्मकोपनः ॥ १२ ॥

खीचडी भारा है विष्टभको करती है वातको और कफको करती है पित्तको शांत क-
रती है बलमें और वीर्यमें हित है और बलको देती है ॥ १० ॥ चावलसे युत हुई अथवा
चावल और उडदोंसे युतहुई खीचडीके ये गुण है अन्यतरहकी खीचडी अन्नके गुणको
देती है ॥ ११ ॥ तिलोंकी खीचडी सुंदर है धातुओंकी पुष्टिको बढ़ाती है भारा है विष्टभको
और मलको करती है दुर्जर है कफको कोपती है ॥ १२ ॥

अथ दालका गुण

सूपश्वोक्तस्त्रिदोषघ्नो व्यञ्जितश्चैव सर्पिषा ॥

धातुपुष्टिकरः श्रेष्ठो बृंहणो बलवर्द्धनः ॥ १३ ॥

दाल त्रिदोषको नाशती है और घृतमें भूनी अथवा छोंकीहुई दाल धातुओंकी पुष्टिको
करती है श्रेष्ठ है धातुओंको और बलको बढ़ाती है ॥ १३ ॥

अथ खलका गुण ॥

वातकफकरो हृद्यः खलको बलकारकः ॥ १४ ॥

तिलोंका खल वातको और कफको करता है सुंदर है और बलको करता है ॥ १४ ॥

अथ अनारका पन्ना ॥

कफानिलहरो हृद्यो दीपनो दाडिमाम्लकः ॥ १५ ॥

अनारका पन्ना कफको और वातको हरता है सुंदर है और अग्निको जगाता है ॥ १५ ॥

अथ पापडका गुण ॥

पर्यटसैलसंभृष्टो दोषाणाञ्च ज्वरापहः ॥

रुचिकृद्बलकृच्चैव दाहशोषतृपापहः ॥ १६ ॥

तेलमें भुनाहुआ पापड दोषोंसे उपजे ज्वरको नाशता है रुचिको और बलको करता है
और दाह, शोष, तृपा, इन्होंको नाशता है ॥ १६ ॥

अथ संडाकीका गुण ॥

सण्डाकी च गुरुस्निग्धा दुर्जरा गुरुशीतला ॥

पित्तश्लेष्मकरा वलया धातूनाञ्च बलप्रदा ॥ १७ ॥

संडाकी भारी है चिकनी है दुर्जर है अति शीतल है पित्तको और कफको करती है ब-
लमें हित है और धातुओंके बलको देती है ॥ १७ ॥

अथ उडद आदिके वडोंका गुण ॥

दुर्जरा मधुरा रुच्या वटिका माषकादिभिः ॥ १८ ॥

उडद आदिके वडे दुर्जर हैं मधुर हैं रुचिमें हित हैं ॥ १८ ॥

अथ शिखरणका गुण ॥

गुडदधिप्रमुदिता हितां शिखरिणी नृणाम् ॥

धातुवृद्धिकरा वृष्या वातपित्तविनाशिनी ॥ १९ ॥

गुड और दहीसे बनीहुई शिखरण मनुष्योंको हित है धातुओंको बढ़ाती है वीर्यमें हित
है वातको और पित्तको नाशती है ॥ १९ ॥

अथ शीधुका गुण ॥

शीतलः पित्तशमनो भ्रममूर्च्छातृषापहः ॥

खण्डेन संयुतः श्रेष्ठो घृतयुक्तो जलाधिकः ॥ २० ॥

शीधु शीतल है पित्तको शांत करता है और भ्रम, मूर्च्छा, तृषा, इन्हेंको नाशता है और
खांड तथा घृतसे संयुक्त और पानीकी अधिकतासे संयुक्त ऐसा शीधु श्रेष्ठ है ॥ २० ॥

अथ मंथका लक्षण और गुण ॥

शक्तवः सर्पिपाभ्यक्ताः शीतवारिपरिप्लुताः ॥ नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्थ

इत्यभिधीयते ॥ २१ ॥ मन्थः सद्यो बलच्छर्दिपिपासादाहनाशनः ॥

साम्लः स्नेहश्च सगुडो मूत्रकृच्छ्रस्य साधनः ॥ २२ ॥

घृतमें भुनेहुये सत्तुओंमें पानी मिलाकै ऐसा बनावै जो न अति पतला और न अति क-
ठिन हो तिसको मंथ कहते है ॥ २१ ॥ तत्कालका बनाया मंथ बल, छर्दि, पिपासा, दाह,
इन्हेंको नाशता है खटा है स्नेहन है और गुड सहित मंथ मूत्रकृच्छ्रको साधता है ॥ २२ ॥

अथ मांसका गुण ॥

सिद्धं मांसं वेसवारेण युक्तं बल्यं श्रेष्ठं स्वादु संदीपनञ्च ॥ त्रिदोषशमनं
गुरु लवणस्नेहयुक्तं दुर्जरं दीपनं स्मृतम् ॥ २३ ॥

सिद्ध किया और वेसवारसंज्ञक मसालासे संयुक्त किया मांस बलमें हित है श्रेष्ठ है स्वा-
दु है अग्निको जगाता है त्रिदोषको शांत करता है भारा है नमक और स्नेहसे संयुक्त कि-
या मांस दुर्जर है और अग्निको जगाता है ॥ २३ ॥

अथ मांसकी श्रेष्ठता ॥

नहि मांससमं किञ्चिदन्यद्देहमहत्त्वकृत् ॥

मांसादमांसं मांसेन संभृतत्वाद्धिशिष्यते ॥ २४ ॥

शरीरकूं बढ़ानेकेवास्तै मांससरीखा दूसरा कोई पदार्थ नहीं है. तिसमांसमेंभी जो प्राणी
मांस खाते हैं उनप्राणिओंका मांस मांससे भरा रहता है. इसवास्तै वह बोहोत अच्छा
होता है ॥ २४ ॥

अथ भूजेद्गुण मांसका गुण ॥

अङ्गारैः परिपक्वञ्च दीपनं श्लेष्मनाशनम् ॥

बल्यञ्च स्नेहसंयुक्तं घनं घनगुणात्मकम् ॥ २५ ॥

मांस अग्निको जगाता है हलका है श्लेष्मको नाशता है. बलमें हित है और स्नेहसे सं-
युक्त किया यही मांस कठिन है और कठिन गुणवाला है ॥ २५ ॥

अथ मंडका गुण ॥

अत्युष्णं मण्डकं पथ्यं लघु चैव यथोत्तरम् ॥ त्रिकशूलपार्श्वशूलपरि
णामापहंतथा ॥ तृष्णामारुतच्छर्दिघ्नमामाशयकरं तथा ॥ २६ ॥

मंड अति गर्म है पथ्य है, हलका है यह त्रिकशूल, पसलीशूल, परिणामशूल, इन्होंको
नाशता है तृष्णा, वायु, छर्दि इन्होंको नाशता है. आमको बढ़ाता है ॥ २६ ॥

अथ मांडाका गुण ॥

तप्तकर्परपक्वा या रोचनी मधुरा घना ॥

कफवृद्धिकरी बल्या पित्तरक्तप्रदायिनी ॥ २७ ॥

तप्तकिये तवेपर पकाया मांडा रुचिको करता है मधुर है कठिन है कफको बढ़ाता है ब-
लमें हित है पित्त और रक्तको देता है ॥ २७ ॥

अथ पूरी और घेवरका गुण ॥

पूरिका घृतपूरन्तु त्रिदोषशमनं परम् ॥

दृष्यं संवृहणं स्वादु क्षतक्षयनिवारणम् ॥ २८ ॥

पूरी और घेवर त्रिदोषको शांत करता है वीर्यमें हित है धातुओंको पुष्ट करता है स्वादु है क्ष-
त और क्षयको नाशता है ॥ २८ ॥

अथ गूझ मालपुवाका गुण ॥

गुरूष्णो दुर्जरो ज्ञेयो वातश्लेष्मकरो गुरुः ॥

पूपकः श्लेष्मको हृद्यो दृष्यो वातानुलोमतः ॥ २९ ॥

मालपुवा भारा है दुर्जर है वातको और कफको करता है कफको करता है सुंदर है वी-
र्यमें हित है और वातको अनुलोमता है ॥ २९ ॥

अथ सोमालिकाका गुण ॥

सोमालिका घना स्वादू रोचनी बलवर्द्धनी ॥

दुर्जरा दोषशमनी वृथानुकरणी मता ॥ ३० ॥

सोमालिका पक्वान कठिन है स्वादु है रुचिको उपजाता है बलको बढ़ाता है दुर्जर है
दोषको शांत करती है और वीर्यमें हित है ॥ ३० ॥

अथ फेनीका गुण ॥

वृहणी वातपित्तघ्नी पथ्या लघुतरा मता ॥

फेनिका रोचनी बलया सर्वधातुबलप्रदा ॥ ३१ ॥

फेनी विष्टंभको करती है रुचिको उपजाती है बलमें हित है और सब धातुओंमें
बलको देती है ॥ ३१ ॥

अथ भिन्न वडाका गुण ॥

विष्टम्भी मधुरो हृद्यो घनो वातकफात्मकः ॥

स सिक्तो वा त्रिदोषघ्नो दुर्जरो जायते पुनः ॥ ३२ ॥

भिन्नकिया वडा विष्टंभको करता है मधुर है सुंदर है कठिन है वातको और कफकी प्र-
कृतिवाला है और संचितकिया वडा त्रिदोषको नाशता है फिर दुर्जर होजाता है ॥ ३२ ॥

अथ अभिन्नवडाका गुण ॥

अभिन्नो दुर्जरो बल्यो घनतृष्णाप्रदः स्मृतः ॥

तीक्ष्णो विपाके विष्टम्भी दुर्जरो जायते पुनः ॥ ३३ ॥

नहीं भिन्न किया वडा दुर्जर है बलमें हित है ज्यादै तृपाको देता है तेज है पाककालमें विष्टम्भी है फिर दुर्जर होजाता है ॥ ३३ ॥

अथ लड्डुका गुण ॥

कटुकास्तर्पणा बल्या दुर्जराःशोषकारकाः ॥ मन्दाग्रौ न प्रशस्यन्ते

मोदका बहुवर्णकाः ॥ द्रव्यं गुणविशेषेण सारस्वादेन वा पुनः ॥ ३४ ॥

लड्डु चर्चरे है, तृषिको करते है बलमें हित है दुर्जर है शोषको करते है और मंदाग्रिमें हित नहीं है बहुत वर्णवाले है अथवा द्रव्यका गुण विशेष करके—ब—सारस्वाद करके लड्डु-कहे है ॥ ३४ ॥

अथ यवपोलिकाका गुण ॥

पोलिका कथिता बल्या कफदोषकरी मता ॥

वृष्या वीर्यप्रदा ज्ञेया दोषला वीर्यवर्द्धनी ॥ ३५ ॥

विदलान्नस्य या पर्णा सिद्धा कर्परकेण तु ॥

रुच्या वान्नविशेषेण दोषान् सर्वान् विभावयेत् ॥ ३६ ॥

जवोंकी पोली बलमें हित है कफदोषको करती है वीर्यमें हित है वीर्यको देती है दोषोंको उपजाती है और वीर्यको बढाती है ॥ ३५ ॥ और तंदूरपर पकाईहुई रोटी रुचिमें हित है ऐसेही अन्नका दोषके अनुसार सब पदार्थोंको विचारै ॥ ३६ ॥

अथ अन्नके गुणोंका उपसंहार ॥

अन्यानि चान्नपानानि नैवोक्तानि महामते ! ॥

यन्थविस्तारभीरुश्च लोको वक्तुं न च क्षमः ॥ ३७ ॥

हे महामते! अन्य अन्न और पान नहीं कहे है क्योंकि ग्रंथको बढजानेसे संसारके लोक विचारनेको समर्थ नहीं हो सकेंगे ॥ ३७ ॥

अथ थकेहुए मनुष्यको भोजननिषेध ॥

श्रमात्तु भोजनं यस्तु पानं वा कुरुते नरः ॥

ज्वरः संजायते तस्य छर्दिर्वा तत्क्षणाद्भवेत् ॥ ३८ ॥

जो मनुष्य परिश्रमसे भोजनको अथवा पानको करता है तिसके शीघही ज्वर अथवा छर्दि उपजती है ॥ ३८ ॥

अथ भोजनके उपरांत मेहेनत और सुरतका निषेध ॥

कृत्वा तु भोजनं सद्यो व्यायामं सुरतं तथा ॥

यः करोति विपत्तिः स्यात्तस्य गात्रस्य निश्चितम् ॥ ३९ ॥

जो मनुष्य भोजनको करके तत्काल कसरतको अथवा मैथुनको करता है तिसके शरीरमें निश्चय दुःख होजाता है ॥ ३९ ॥

अथ थंडा और गरमभोजनका निषेध ॥

न चातिशीतं भुञ्जीत नात्युष्णं भोजने हितम् ॥

कुर्व्याद्घातकफौ शीतमुष्णं भवति सारकम् ॥ ४० ॥

अतिशीतलपदार्थको खानेकी और अतिगर्म भोजनभी हित नहीं है क्योंकि शीतल भोजन वातको और कफको करता है और गर्म भोजन दस्तावर है ॥ ४० ॥

श्रमितआदिकोंके भोजनका निषेध ॥

न श्रान्तो भोजनं कुर्व्यान्न व्यायामसमाकुलः ॥

विषमासने न भोक्तव्यं करोति विविधान् गदान् ॥ ४१ ॥

परीश्रमसे थकाहुआ और कसरतसे थकाहुआ मनुष्य भोजनको करे नहीं और विषम आसन बैठके भोजनको करे नहीं ये अनेक प्रकारके रोगोंको करते हैं ॥ ४१ ॥

भोजनमें फलादिकोंका नियम ॥

आदौ फलानि भुञ्जीत वर्जयित्वा तु कर्कटीम् ॥

न नक्तं दधि भुञ्जीत भोजनाद्धे न धावनम् ॥ ४२ ॥

काकडीके विना सब फलोंको आदिमें खावै रात्रिमें दहीको नहींखावै और आधा भोजन करके कुलोंको नहीं करै ॥ ४२ ॥

भोजनके पीछे बैठनेका नियम ॥

भोक्तोपविशति स्थौल्यं बलमुत्तानशायिनः ॥

आयुर्वामकटिस्थस्य मृत्युर्धावति धावति ॥ ४३ ॥

जो भोजनको करके बैठता है वह स्थूलपनेको प्राप्त हो जाता है और भोजन करके सोधा शयन करनेवालेके चल बढ़ता है और भोजन करके वामें करवट शयन करनेसे आयु बढ़ता है और भोजन करके दोड़नेसे मृत्यु दौड़ता है ॥ ४३ ॥

भोजनमें पानीका नियम ॥

नवादौ सलिलं पेयं भोजने पानमाचरेत् ॥ अर्द्धाहारेण भुञ्जीत तृतीयं
व्यञ्जनेन तु ॥ ४४ ॥ चतुर्थं तोयपानेन पूर्णहारः सुजायते ॥ ४५ ॥

भोजनकी आदिमें पानीको नहीं पीवै भोजन करतेहुये पानीको पीवै दो भागके काष्ठको भोजनसे पूरितकरै और तीसरे भागको व्यंजनसे पूरित करै ॥ ४४ ॥ और चौथे भागको पानीसे पूरित करै ऐसे पूर्ण भोजन होता है ॥ ४५ ॥

भोजनके ऊपर व्यायाम ॥

भोजनोर्ध्वं चक्रमते शतपादं शनैः शनैः ॥

पश्चादुत्तानशयनं ततो वामे क्षणं त्यजेत् ॥ ४६ ॥

और भोजन करके सौं १०० पैर हौलें २ चलै पीछे सीधा शयनकर पीछे वामें करवट दो घड़ी शयन करै ॥ ४६ ॥

अथ भोजनके उपरांत नेत्रादिकोंका मार्जन ॥

भुक्त्वोपरि समाचम्य मार्जयेद्वक्षिणाकरैः ॥

पुनर्दक्षिणहस्तेन मार्जयेद्दुदरं सुधीः ॥ ४७ ॥

भोजन करके पीछे आचमनले दाहिने हाथसे मुखको शुद्ध करै पीछे दाहिने हाथ करके बुद्धिमान् पेटको शोधित करै ॥ ४७ ॥

अथ अङ्कारका नियम ॥

उद्गीरयेत्समुद्धारं न चोद्धारस्य धारणा ॥ ४८ ॥

अङ्कारको अच्छी तरह लेवै क्योंकि अङ्कारको धारित करना अच्छा नहीं ॥ ४८ ॥

अथ व्यायामादिकोंका नियम ॥

व्यायामञ्च व्यवायञ्च धावनं पानमेव च ॥ युद्धं गीतञ्च पाठञ्च क्षणभुक्तो विवर्जयेत् ॥ ४९ ॥ न सद्यःपीते पठनं गमनं न च कारयेत् ॥ न वा वाहनमारोहं विवादं न च कारयेत् ॥ ५० ॥

और भोजन करके दो घडीतक कसरत, मैथुन, दंतधावन आदि शुद्धि, जलआदिका पान इन्होंको और कुशती आदि युद्ध, गाना, पढाना, इन्होंको वर्ज्य ॥ ४९ ॥ और तत्काल पानीको पीके पठन और गमनको न करे भोजन करके बोझाको उठावै नहीं और सवारी आदिपर चढे नहीं और विवादको करे नहीं ॥ ५० ॥

अथ दिनमें शयन करनेका निषेध ॥

दिवास्वापं न कुर्व्यात्तु भुक्त्वोपरि च विश्रमेत् ॥ अकालशयनान्छ्लेष्मा प्रतिश्यायः प्रपीनसः ॥ ५१ ॥ क्षयशोफशिरोऽर्त्तिश्च जायते चाग्निमदन्ता ॥ ५२ ॥

और दिनमें शयनको करे नहीं किंतु भोजनकरके विश्राम करे अकालमें शयन करनेसे कफ, खेहर, पीनसरोग ॥ ५१ ॥ क्षय, शोजा, शिरमें पीडा— मंदाग्नि ये उपजते हैं ॥ ५२ ॥

अथ दिनमें शयन कराने लायक मनुष्य ॥

मद्यपीते परिश्रान्ते हिक्काश्वासातुरेषु च ॥ भयशोकक्षुधान्तानां पठनान्मैथुनेन च ॥ ५३ ॥ तथैव वृद्धवाले च भाराक्रान्ते तथातुरे ॥ अतीसारे च शोफे च तृष्णापानात्ययेऽपि च ॥ ५४ ॥ ग्रीष्मे बाल्ये निशादृप्ते दिवास्वप्नं हितं भवेत् ॥ ५५ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे अन्नपानवर्गो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ प्रथमस्थानं समाप्तम् ॥ १ ॥

मद्यपान करनेमें, परीश्रमसे थकनेमें, हिचकी और श्वासकी पीडामें, भय, शोक, भूख, इन्होंमें, पठन और मैथुनमें ॥ ५३ ॥ वृद्धपना और बालकपनामें, बोझासे थकेहुयेंमें, रोगमें, अतीसार और शोजामें, तृषा और पानात्यय रोगमें ॥ ५४ ॥ ग्रीष्मऋतुमें रात्रिके जागनेमें दिनको शयन करना हित है ॥ ५५ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्रपुनर्वादिहारीतसंहिताभाषायां प्रथमस्थाने अन्नपानवर्गो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

—यहां प्रथमस्थान समाप्त हुआ—

अथ द्वितीयस्थान ॥

प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

आत्रेय उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि द्वितीयस्थानमुत्तमम् ॥ शुभा
शुभानि स्वमानि त्वास्थ्यारिष्टानि मानुषे ॥ १ ॥ शृणु पुत्र ! समासेन
यथा वत्स ! प्रकाशयते ॥ २ ॥

अथ आत्रेयजी कहते हैं—अब उत्तमरूपी द्वितीयस्थानको कहताहूँ मनुष्योंके शुभ,
अशुभ, स्वम, स्वस्थपना, अरिष्ट ॥ १ ॥ इन्हेंको हे पुत्र ! विस्तारसे सुन जैसे हे वत्स ! प्रका-
शितकिया जाता है ॥ २ ॥

हारीत उवाच ॥ ज्ञातं मया महाप्राज्ञ ! अन्नपानं तथोत्तमम् ॥ इदानीं
ज्ञातुमिच्छामि रोगाणां रोगविज्ञताम् ॥ ३ ॥ कर्मजा व्याधयो ये च
तान्वद त्वं महामते ! ॥ ४ ॥

अथ हारीत पूछता है—हे महाप्राज्ञ ! अन्नपानकी विधि मैंने जानी अब रोगवालोंके
रोगोंको जाननेकी इच्छा करताहूँ ॥३॥ हे महामते ! कर्मसे जो व्याधि उपजती है तिन्हेंको
आप कहो ॥ ४ ॥

आत्रेय उवाच ॥ कर्मजा व्याधयः सर्वे भवन्ति हि शरीरिणाम् ॥ सर्वे
नरकरूपाः स्युः साध्यासाध्या भवन्त्यमी ॥ ५ ॥ अज्ञातं यत्कृतं पापं
पश्चात्कच्छे समाचरेत् ॥ प्रायश्चित्तबलेनापि साध्यरूपो भवेद्भद्रः ॥ ६ ॥
क्रियते ज्ञातरूपेण यत्पश्चात्कच्छेमाचरेत् ॥ प्रायश्चित्तेन प्रान्ते तु कष्ट
साध्यो भवेद्भद्रः ॥ ७ ॥ ब्रह्मघ्नगोघ्नधरणीपतिघातकश्च आरामतोयधर
नाशकपारदारः ॥ स्वाम्यङ्गनागुरुवधूकुलजाभिगामी एते त्रयोदश प्रव
लरूपधरा गदाश्च ॥ ८ ॥ पाण्डुः कुष्ठं राजयद्मामितारो मेहो मूत्रं
चाश्मरी मूत्रकच्छम् ॥ शूलः श्वासः कासशोफव्रणाश्च दोषाश्चैते पाप

रूपा वृणां स्युः ॥ ९ ॥ ज्वरो जीर्णं तथा छर्दिभ्रममोहाग्निमान्द्यताः ॥
 यकृत्स्नीहार्शःशोषाश्च एते चैवोपदूषकाः ॥ १० ॥ व्रणं शूलं शिरःशूलं
 रक्तपित्तं तथोर्द्ध्वगम् ॥ एते रोगा महाप्राज्ञ ! अभिशापाद्भवन्ति हि ॥ ११ ॥
 अन्येऽपि बहुधा रोगा जायन्ते दोषसम्भवाः ॥ अतो वक्ष्ये समासेन
 शृणु त्वञ्च महामते ॥ १२ ॥

अथ आत्रेयजी कहते हैं—शरीरधारियोंके कर्मसे उपजनेवाली सब व्याधि है और सब दुःखरूप है साध्य और असाध्यरूप व्याधि है ॥५॥ विनाजाने जो किया हुआ पाप है वह पीछे कृच्छ्र चांद्रायणको करै परंतु प्रायश्चित्तका बलसे वह पाप साध्यरूप रोग हो जाता है ॥ ६ ॥ जो जानके पाप किया जाता है वह पीछे कृच्छ्र चांद्रायणको करता है इस प्रायश्चित्त-करके कष्टसाध्य रोग होजाता है ॥ ७ ॥ ब्राह्मणको मारनेवाला, गायको मारनेवाला, राजाको मारनेवाला और बाग, तथा जलके स्थानको नाशनेवाला और पराई स्त्रीको अपनी स्त्री बनानेवाला और स्वामीकी भाय्या, गुरुकी भाय्या, अपने कुलमें उपजी ऐसी स्त्रियोंसे भोग करनेवाला ऐसे मनुष्योंके तेरह प्रकारके रोग होते हैं ॥ ८ ॥ पांडु, कुष्ठ, राजरोग, अतीसार, मूच्छा, मूत्ररोग पथरीरोग, मूत्रकृच्छ्र, शूल, श्वास, खांसी, शोभा, घाव ये पापरूपरोग तिन मनुष्योंके उपजते हैं ॥ ९ ॥ और ज्वर, अजीर्ण, छर्दि, भ्रम, मोह, मंदाग्नि, यकृतव्रोग, तिष्ठी-रोग, ववासीर, शोष, ये उपरोग कहते हैं ॥ १० ॥ घाव, शूल, शिरका शूल, शरीरके ऊपरले अंगोंमें प्राप्तहुआ रक्तपित्त—ये रोग हेमहाप्राज्ञ ! अभिशापसे होते हैं ॥ ११ ॥ अन्यभां बहुतसे रोग दोषोंसे उपजते हैं इसवास्ते विस्तारसे मैं कहूंगा हेमहामते ! तू सुन ॥ १२ ॥

अथ कर्मविपाक ॥

ब्रह्मघ्नो जायते पाण्डुः कुष्ठी गोवधकारकः ॥ राजघ्नो राजयक्ष्मी स्याद्
 तिसार्घ्योपघातकः ॥ १३ ॥ स्वाम्यङ्गनाभिगमने मेहा रोगा भवन्ति हिं॥
 गुरुजायाप्रसङ्गेन मूत्ररोगोऽश्मरीगदः ॥ १४ ॥ स्वकुलजाप्रसङ्गाच्च जाय
 ते च भगन्दरः ॥ शूली परोपतापी च पैशून्याच्छ्वासकासिनः ॥ १५ ॥
 मार्गे विघ्नकरा ये तु जायन्ते पादरोगिणः ॥ अभिशापाद्घ्नोत्पत्तिर्यकृद्धा
 पि प्रजायते ॥ १६ ॥ सुरालये जले चापि शकृद्वृष्टिं करोति यः ॥ गुदरो
 गा भवन्त्यस्य पापरूपातिदारुणाः ॥ १७ ॥ परतापिद्विजानाश्च जायन्ते
 हि महाज्वराः ॥ परान्धविघ्नजननादजीर्णमपि जायते ॥ १८ ॥ गरदश्छ

द्विरीगी स्यात्पादाष्टविभ्रमी तथा ॥ धूर्त्तोऽपस्मारोगी स्यात्कदम्ब
दोऽग्निमान्द्यके ॥ १९ ॥ यकृत्स्लीहो भवेद्भोगो भ्रूणपातकपातकात् ॥
व्रणं शूलं शिरःशूलं परतापोपकारणात् ॥ २० ॥ अपेयपानरतको रक्त
पित्ती प्रजायते ॥ दावाग्निदायको यस्तु जायते च विसर्पवान् ॥ २१ ॥
बहुदृक्षोपच्छेदी च जायते च बहुव्रणः॥परद्रव्यापहाराच्च जायते यह
णीगदः ॥ २२ ॥ कुनखी स्वर्णस्तेयाच्च प्रसूतिस्तस्य जायते ॥ रौप्य
स्तेयाच्चिन्नकुष्ठं ताम्रचौराद्विपादिका ॥ २३ ॥ त्रपुश्वोरः सिध्मलश्च मु
खरोगी च सीसहत् ॥ वर्वरो लोहचौरः स्यात्क्षारचौरोऽतिमूत्रलः ॥ २४ ॥
घृतचौरोऽन्त्ररोगी च तैलचौरोऽतिकण्डुकः ॥ एतैश्छिद्रैस्तु काणाक्षो व
क्रोक्तौ वक्रलोचनः ॥ २५ ॥ दोषवान्स्याच्छयावदन्तो दुष्टवाक्कुष्ठदूष
णः ॥ रसनाशाज्जिह्वरोगी गोत्रहा लूतिकाव्रणी ॥ २६ ॥ एते चैव म
हादोषा अतो वक्ष्यामि निष्कृतिम् ॥ कृच्छ्रेण येन सिध्यन्ति पापह
पा इमे गदाः ॥ २७ ॥

ब्राह्मणको मारनेवाला पांडुरोगी होता है गायको मारनेवाला कुष्ठी होता है राजाको मार-
नेवाला राजरोगी होता है मनुष्यको मारनेमें सलाह देनेवाला अतीसाररोगीहोता है ॥ १३ ॥
स्वामीकी स्त्रीसे भोग करनेसे प्रमेह रोग उपजता है और गुरुकी स्त्रीसे भोग करनेमें मूत्र-
रोग और पथरी रोग उपजता है ॥ १४ ॥ अपने कुलसे उपजी स्त्रीके संग भोग करनेसे भ-
गंदर रोग उपजता है पराये सुखको देख दुःखपानेवालाके शूलरोग होता है चुगली करनेसे
श्वासरोग और खांसी उपजती है ॥ १५ ॥ मार्गमें विघ्नकरनेवालोंके पैरोंमें रोग उपज-
ता है अभिशापसे घावकी उत्पत्ति अथवा यकृत् रोग उपजता है ॥ १६ ॥ देवतोंके
स्थानमें और पानीमें जो विषाको गेरता है तिसके पापरूपी और दारुण ऐसे गुदाके रोग
उपजते हैं ॥ १७ ॥ ब्राह्मणको दुःखदेनेसे महाज्वर उपजता है और पराये भोजनमें
विघ्नको करनेसे अजीर्णरोग उपजता है ॥ १८ ॥ विषको देनेवालेके छर्दिरोग उप-
जता है अथवा वह रोगी घुटनोंसे आठ दिशातक भ्रमनेवाला होता है धूर्त मनुष्यके शृगीरोग
उपजता है और कुत्सित अन्नको देनेवाला मंदाग्निसे पीडित होता है ॥ १९ ॥ गर्भको गि-
रानेवाला यकृत् रोगसे और तिष्ठोरोगसे पीडित होता है दूसरेको देख दुःखपानेसे घाव, शूल,
शिरका, शूल ये उपजते हैं ॥ २० ॥ नहीं पीनेके योग्य चीजको पीनेवाला रक्तपित्तसे पीडित
होता है और वनमें अग्निको लगानेवाला विसर्परोगी होजाता है ॥ २१ ॥ बहुतसे वृक्षको

छेदनेवाला बहुत घावोंसे पीडित होता है और पराये द्रव्यको हरनेसे ग्रहणी रोग उपजता है ॥ २२ ॥ सोनाकी चोरी करनेसे कुत्सितनखोंवाला होजाता है चांदीको चोरनेसे चित्र-कुष्ठ उपजता है तांबाको चुरानेसे विषादिका कुष्ठ उपजता है ॥ २३ ॥ रांगको चुरानेसे सेपेरोग होता है सीसाको चुरानेसे मुखरोम उपजता है लोहाको चुरानेसे वर्वर संज्ञक रोगको प्राप्त होता है क्षारको चोरनेवालाके अतिमूत्ररोग उपजता है ॥ २४ ॥ घृतको चोरनेसे आंतरोग होता है तेलको चोरनेसे खाजरोग उपजता है दूसरोंमें छिद्रको काढनेवाला नेत्रोंसे काणा होता है और टेढा बोलनेवाला टेढे नेत्रोंवाला होता है ॥ २५ ॥ दोषवालाके काले दंत होते हैं दुष्टकर्मको करनेवाला कुष्ठरोगी होता है रसको नाशनेवाला जीभरोगी होता है गोत्रके मनुष्योंको नाशनेवाला भूत और घावसे पीडित होता है ॥ २६ ॥ ये सब महादोष हैं इसवास्ते इन्होंकी निष्कृतिको कहताहूं जिस कृच्छ्रसे ये पापरूपी रोग सिद्ध होते हैं ॥ २७ ॥

अथ पापदोषप्रतिकार ॥

गोदानं भूमिदानञ्च स्वर्णदानं सुरार्चनम् ॥ कृत्वा पश्चात्प्रतीकारं कुर्ध्या
त्पाण्डूपशान्तये ॥ २८ ॥ महापापेषु सर्वस्वं तदर्द्धमुपदोषजे ॥ आ
त्रेयाद्विशषष्ठांशात्कल्प्यं व्याधिवलावलम् ॥ २९ ॥ नवपष्टिकृतं कर्म
कुष्ठरोगोपशान्तये ॥ गोहिरण्यप्रदानञ्च तथा मिष्टान्नभोजनम् ॥ ३० ॥
चतुर्विधं दानमिदं दत्त्वा कुर्ध्यात्प्रतिक्रियाम् ॥ क्रदाचिदपि सिद्ध्येत आ
युषश्च वलक्रियाम् ॥ ३१ ॥ मेहे सुवर्णदानञ्च शूले श्वासे भगन्दरे ॥ अश्वा
नडुहदानेन श्वासकात्ताद्विमुच्यते ॥ ३२ ॥ ज्वरे चेश्वरपूजा च रुद्रजाप्यं
समाचरेत् ॥ अतिपानान्नदानञ्च शस्त्रदानं भ्रमातुरे ॥ ३३ ॥ अग्निहो
मं चाग्निमान्द्ये कन्यादानञ्च गुल्मके ॥ मेहाश्मरीविनाशाय लवणञ्च
प्रदीयते ॥ ३४ ॥ बहुभोजनदानेन शूलरोगाद्विमुच्यते ॥ महाज्वरे शा
न्तिकञ्च सहस्रं गण्डुकं शिवम् ॥ ३५ ॥ स्नापयेत्तेन सिद्धिः स्या
ज्वररोगाद्विमुच्यते ॥ घृतमधुप्रदानेन रक्तपित्तं प्रशाम्यति ॥ ३६ ॥
वनस्पतिसिञ्चनेन विसर्पात्परिमुच्यते ॥ विटपिसिञ्चनेनाऽथ नात्र याति
बहुव्रणः ॥ ३७ ॥ चतुर्विधेन दानेन साध्यः स्याद्ग्रहणीगदः ॥ सुवर्णदाना
त्कुनखी श्यावदन्तः सुखी भवेत् ॥ ३८ ॥ रौप्यदानाच्चित्रकुष्ठं साध्यं
वापि प्रदिश्यते ॥ सिध्मले त्रपुदानञ्च वर्बरे लोहदानकम् ॥ ३९ ॥ मुख

व्रणे नागदानं गोदानं बहुपुन्नके ॥ नेत्ररोगे घृतं दद्यात्सुगन्धं नासिकाग
दे ॥ ४० ॥ तैलदानञ्च कण्डूके रसदानञ्च जिह्वके ॥ श्यावदन्तेन देवानां
संस्कृतिः प्रविधीयते ॥ ओष्ठरोगेऽपि तद्वच्च लूतारोगे ददेत गाः ॥ ४१ ॥

गोदान, पृथिवीदान, सोनादान, देवतोंकी पूजा इन्होंको करकै पीछे पांडुरोगकी शांतिक
लिये चिकित्साको करै ॥ २८ ॥ महापापोंमें सर्वस्वका दान करै और उपदोषमें घरके धनसे
आधा दान करै आत्रेयके मतसे व्याधिके बल और अलबको देख घरके धनसे सोलहवां हि
स्सा दानको करै ॥ २९ ॥ कुष्ठरोगकी शांतिके लिये उनहत्तर ६९ प्रकारका कर्म करना
लिखा है परंतु गाय और सोनाका दान और मिष्टान्नका भोजन ॥ ३० ॥ इन चार
प्रकारके दानोंको देकर पीछे कुष्ठकी चिकित्सा करनी क्योंकि आयुकी शेषतासे कदाचित्
चिकित्सा सिद्धभी होजाती है ॥ ३१ ॥ प्रमेह, श्वासरोग, खांशी, भगंदर, इनरोगोंमें सोना-
का दान करना घोडा और बैलके दानको करनेसे मनुष्य श्वासरोग और खांसीसे छुटजा-
ता है ॥ ३२ ॥ ज्वररोगमें महादेवकी पूजा और महादेवके स्तोत्रका पाठ करावै और भ्रम-
रोगमें पानीका और अन्नका दान श्रेष्ठ है ॥ ३३ ॥ मंदाग्रिमें अग्निका होमकरै गुल्मरोगमें
कन्धाका दान करै और प्रमेह—तथा पथरीरोगको दूर करनेके लिये नमकका दान करना ॥ ३४ ॥
बहुतसे भोजनका दान करनेसे मनुष्य शूलरोगसे मुक्त होता है महाज्वरमें शांतिकर्म करावै
और हजारधारावाले कलशसे शिवको स्नान करावै ॥ ३५ ॥ तिस्से सिद्धि होती है और
महाज्वर दूर होता है घृत और शहदके दानसे रक्तपित्त दूर होता है ॥ ३६ ॥ वनस्पतिको
सीचनेसे विसर्प रोग दूर होता है वृक्षको सीचनेसे घावरोग दूर होजाता है ॥ ३७ ॥ च्यार
प्रकारका दानसे ग्रहणीरोग साध्य होजाता है सोनाके दानसे कुनखी और काले दंतोंवालो
सुखी होता है ३८ ॥ चांदीके दानसे श्वित्र कुष्ठ साध्य कहा है सीपरोगमें रांगका दान और
वर्वरोगमें लोहाका दान श्रेष्ठ है ॥ ३९ ॥ मुखके घावमें हस्तीका दान हित है और पापडी-
रोगमें गौका दान हित है नेत्ररोगमें घृतको देवै नासिकाके रोगमें सुगंधका दान करना ॥ ४० ॥
खाजमें तेलका दान और जीभके रोगमें रसका दान करना कालेदंतोंके रोगमें देवतोंका स-
त्कार करना और ओष्ठरोगमेंभी यहीविधि है और लूतारोगमें गाका दान देना ॥ ४१ ॥

अथ अन्य २ रोगोंका कारण ॥

अन्यांश्च कथयिष्यामि मनुष्याणां शरीरगान् ॥ लज्जितः परनिन्दायां
परतर्केण काणगः ॥ ४२ ॥ खुरहा स्याद्वक्रनासः पक्षाघातेन पक्षहा ॥
वामनः स्वप्रशंसायां परद्वेषातिपिङ्गलः ॥ ४३ ॥ परस्य कृत्यकर्त्ता च

जायते विकृतात्मकः ॥ एते महागदाश्र्वान्ये जायन्ते पापसम्भवाः ॥
 ॥ ४४ ॥ यदिवात्र न सिध्येत्तु परभावो भवेन्न च ॥ अतो हि प्रायश्चित्तं
 तु कारयेद्भिषजां वरः ॥ ४५ ॥ भूयो जन्मान्तरे यावत्पापं रोग्यथ भुञ्ज
 ति ॥ प्रायश्चित्ते कृत्ते वापि न पुनर्जायते भवे ॥ ४६ ॥ इति आत्रेयभाषि-
 ते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने पापदोषप्रतीकारो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

मनुष्योंके शरीरमें प्राप्तहुये अन्य रोगोंकीभी कहुंगा पराई निंदा करनेवाला मनुष्य ला-
 जवाला होता है दूसरेको तर्क करनेवाला मनुष्य काणा होता है ॥ ४२ ॥ गधाको
 मारनेवाला टेढी नासिकासे संयुक्त होता है दूसरेके पक्षको काटनेवाला मनुष्य अर्धांग रो-
 गसे पीडित होता है अपनी प्रशंसा करनेमें मनुष्य वामनाकी योनीको प्राप्त होता है दूसरोसे
 वैर करनेवाला मनुष्य अतिपिंग शरीरवाला होता है ॥ ४३ ॥ दूसरेके कृत्यको करनेवाला
 मनुष्य विकृत शरीरवाला होता है ये सब औरभी अन्य महारोग पापसे उपजनेवाले है ॥ ४४ ॥
 जो रोग सिद्ध नहीं होवै तो वैद्यवरने प्रायश्चित्त कराना उचित है ॥ ४५ ॥ किये हुये पापको
 दूसरे जन्ममेंभी रोगी भोगता है परंतु प्रायश्चित्तके करनेमें फिर वह पापरूपी रोग नहीं उप-
 जता है ॥ ४६ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्तुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसं-
 हिताभाषायां द्वितीयस्थाने पापदोषप्रतीकारो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथ स्वमाध्यायका वर्णन ॥

आत्रेय उवाच ॥ शृणु पुत्र ! समासेन यथा वत्स ! प्रका-
 श्यते ॥ तथारिष्टपरिज्ञानं भेषजं संप्रवक्ष्यते ॥ १ ॥

आत्रेयजी कहते है—हे पुत्र ! विस्तारसे सुन जैसे प्रकाशितकिया जाता है और अ-
 रिष्टके परिज्ञानको और औषधको कहुंगा ॥ १ ॥

अथ वर्ज्यं स्वप्न ॥

वातिकः पैत्तकश्चैव भयाङ्गीनबलादपि ॥

मूत्रान्विष्टे सपित्ते च षट्स्वप्नानि च वर्जयेत् ॥ २ ॥

वात, पित्त, भय, हीनबल, मूत्रकी शंका, पित्तका संयोग—इन्होंके संयोगसे उपजे ये छः स्वम वर्णित हैं ॥ २ ॥

अथ कालसें स्वमफल ॥

संवत्सरेण फलदो हि भवेन्निशायां यामे तु दृष्टप्रथमे फलदः शुभस्य ॥
स्याद्द्वत्सराद्धर्मतियाममथ द्वितीये मासत्रयेण फलदो भवति तृतीये ॥ ३ ॥
निशावसाने प्रवदन्ति किञ्चिद्दशाहकः स्यात्फलदो मनुष्ये ॥ वर्षादिनं
स्यात्तमुशन्ति शान्ताः षाण्मासिको मध्यदिने प्रदिष्टः ॥ ४ ॥

रात्रिमें आयाहुआ स्वम एकवर्षमें फलको देता है रात्रिके प्रथम पहरमें आया स्वम शुभफलको देता है और दूसरे पहरमें आया स्वम छः महीनोंमें फलको देता है और तीसरे पहरमें आया स्वम तीन महीनोंमें फलको देता है ॥ ३ ॥ रात्रिके अंतमें आया स्वम दश दिनमें फलको देता है और दुपहरीके समय आया स्वम छः महीनोंमें फलको देता है वर्षाके दिनमें आया स्वम शांतिको करता है और स्वममें देखेहुये सफेद चीज शुभ कहे हैं ॥ ४ ॥

अथ स्वममें शुभद्रव्य ॥

स्वमेषु शुभ्राणि शुभानि धीराः सर्वाणि चेमानि विवर्जयित्वा ॥ का
पासभस्मास्थिकपालशूलं कुर्यान्नराणां विपदं रुजं वा ॥ ५ ॥

इन सब अच्छे पदार्थोंके वर्जकर कपास, भस्म, हड्डी, खोपरी, इन्होंका दर्शन स्वममें होवै तो मनुष्योंके दुःख अथवा रोग उपजता है ॥ ५ ॥

अथ अशुभद्रव्य ॥

सर्वाणि कृष्णानि विनिन्दितानि स्वमे नराणां विपदं रुजं वा ॥ कुर्व
न्ति चैतानि हि वर्जयित्वा गोवाजिराजद्विजहस्तिमत्स्यान् ॥ ६ ॥

और स्वममें सब प्रकारकी काली चीज निंदित है जो स्वममें काली चीज दीखजावै तो मनुष्योंको दुःख अथवा रोग उपजता है ॥ ६ ॥

अथ शुभ स्वमोंका वर्णन ॥

मुकुरकुसुमभृङ्गारातपत्रं ध्वजं वा दधि फलमथ वस्त्रं चान्ताम्बूलवस्त्र
न् ॥ कमलकलशशङ्खं भूषणं काञ्चनस्य भवति सकलसंपच्छेयसे रो
गिणाञ्च ॥ ७ ॥

गाय, घोडा, राजा, पंडित, हस्ती, मछली, शीशा, फूल, सोनाका पात्र, छत्र, ध्वजा, दही^१ फल, वस्त्र, अन्न, नागरपान कमल, कलश, शंख, सोनाका गहना, इन्हेंको स्वप्नमें देखना सब प्रकारका सुख और रोगियोंको कल्याण प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

अथ शुभस्वप्न ॥

दिनकरनिशिनाथं मण्डलं तारकस्य विकचकमलकुञ्जैः पूर्णपद्माकरं वा ॥ तरति सलिलराशिप्रौढनद्याश्च पारं घनसुखविभवाम्निर्व्याधिनां रोगमुक्तिः ॥ ८ ॥ देवो द्विजो वा पितरो नृपो वा स्वप्नेषु वाक्यं वदते यथैव ॥ तथैव नान्यच्च भवेन्मनुष्ये यद्यस्य सौख्यं विपदो रुजो वा ॥ ९ ॥ गोवाजिकुञ्जरनृपाः सुमनः प्रशस्तं स्वप्नेषु पश्यति नरः सरुजः सुखाय ॥ रोगान्वितश्च रुजनाशनसम्भवाय बद्धोऽपि वै सपदि बन्धविमोचनाय ॥ १० ॥ यो भूषणं पश्यति मन्दिरं वा कन्यां दधि मीनकुमारकं वा ॥ सपुष्पवल्लीपिलितं द्रुमं वा स्वस्थे धनार्थि रुजनाशनाय ॥ ११ ॥ स्वप्ने पयःपानमतिप्रशस्तं पानं सुराया अजभोजनं वा ॥ घृतं यवागूःकसरोदनं वा क्षैरैयिकं भोजनकं सुखाय ॥ १२ ॥ सितो भुजङ्गो दशति कराग्रे नरस्य सुप्तस्य शरीरकेषु ॥ पुत्रस्य लाभं वदते धनं वा नाशं विदध्यादचि राट्टुजां वा ॥ १३ ॥ सश्वेतवस्त्रां रमणीं सुरम्यां स्वप्ने समालिङ्गति यो मनुष्यः ॥ तस्य प्रकर्षेण सुखं श्रियः स्यात्सुपुत्रलाभश्च रुजां विनाशः ॥ १४ ॥ यो धान्यपुञ्जं तिलतण्डुलानां गोधूमसिद्धार्थवादिकानाम् ॥ धान्याप्तिरस्यामयनाशहेतुः स्वप्नेषु शीघ्रं मनुजे सुखाय ॥ १५ ॥ सफले धनसम्पत्तिर्दीप्ति रोगविनाशनम् ॥ सुखञ्च पुष्पिते ज्ञेयं सम्पूर्णे वा ऽच्छितं फलम् ॥ १६ ॥

और सूर्य, चंद्रमा, तारागण, इन्हेंके मंडलको देखै और तिलेहुये कमलोंके समूहसे पूरितहुआ तलावको देखै और पानीके समूहसे भरीहुई नदीको तिरै और ज्यादै सुखको तथा विभवको प्राप्त होवै ऐसे स्वप्ने आवैं तो रोगको गया जानना ॥ ८ ॥ देवता, पंडित, पितर, राजा, ये सब स्वप्नमें वाक्यको कहदेवैं तैसेही मनुष्यको होता है चाहै सुख हो चाहै दुःख हो या रोग हो ॥ ९ ॥ गौ, घोडा, हस्ती, राजा, फूल, इन्हेंको जो मनुष्य स्वप्नमें देखता है तिसरोगीको सुख होता है और इसस्वप्नको देखनेसे बंधमें प्राप्तहुआ मनुष्य

शीघ्र छूट जाता है ॥ १० ॥ जो मनुष्य स्वप्नें महनाको और मंदिरको देखता है अथवा कन्या, दही, मछली, बालक, इन्हेंको देखता है अथवा फूल औ व वेलसे फलित हुये वृक्षको देखै ये स्वप्न स्वस्थ मनुष्यको आवै तो धनकी प्राप्ति होवै और रोगी-मनुष्यके रोगका नाश होवै ॥ ११ ॥ स्वप्नें दूधका पीना अतिश्रेष्ठ है मंदिराका पीना अथवा वकराके मांसका भोजन, घृत, गुडयाणी, खीचडी, चावल, दूधका भोजन इन्हेंको स्वप्नें देखै तो सुखकी प्राप्ति होवै ॥ १२ ॥ मनुष्यका दाहिने हाथके अग्रभागको अथवा शरीरको सफेद सर्प सोतेहुये मनुष्यको डशता है ऐसा स्वप्नेसे पुत्रका और धनका लाभ होता है अथवा शीघ्रही रोगका नाश होता है ॥ १३ ॥ सफेद वस्त्रोंवाली और मणीक और सुंदर ऐसी स्त्रीसे जो मनुष्य मिलाप करता है तिसको अत्यंत सुख और धनकी प्राप्ति होती है और पुत्रका लाभ तथा धनकी प्राप्ति होती है और रोगोंका नाश होता है ॥ १४ ॥ जो मनुष्य तील, चावल, गेहूं, सरसों, जव, अन्नका समूह इन्हेंको स्वप्नें देखता है तिसको अन्नकी प्राप्ति और रोगका नाश होता है और सुखभी मिलता है ॥ १५ ॥ जो मनुष्य स्वप्नें फलकरिके सहित वृक्षको देखै, तौ उसकूं धनसंपत्ति प्राप्त होती है. और जलताहुआ देखे, तौ रोगका नाश होता है. पुष्पकरिके युक्त वृक्षको देखै, तौ सुख होता है. और पत्र, पुष्प, फल और शाखा आदिकोंकरिके युक्त वृक्षको देखै तौ मनवांछित फल मिलता है ॥ १६ ॥

अथ अशुभस्वप्नोंका वर्णन ॥

काकैः क्रद्धैः करभभुजगैः सूकरोलूकगृध्रैर्जम्बूकैर्वा वृकरवरमहिष्या
तिरक्षैः श्वभिश्च ॥ व्याघ्रेर्गर्हैर्भकरकपिभिर्भक्ष्यमाणं स्वकायं पश्येद्योऽ
सौ जजति नितरां हानिमापद्भुजं वा ॥ १७ ॥ योऽभ्यञ्जितं स्वं मनुजः
प्रपश्येत्सर्पिर्वसानैलविशेषणेन ॥ शीघ्रं रुजाप्तिर्भवतीह तस्य वदन्ति
धीरा निपुणं विधेयम् ॥ १८ ॥ व्याघ्रोष्ट्रवरसंयुक्ते रथे सौरभसंयुते ॥
उह्यमानो दिशं याम्यां गच्छेच्च स मृतिं भजेत् ॥ १९ ॥ रक्तवस्त्रां कृ
ष्णवस्त्रां मुक्तकेशां विसर्पिणीम् ॥ याम्यां स्थितां रुदन्तीं वा गायन्तीम
थ पश्यति ॥ २० ॥ अथाह्वयति संक्रुद्धां समालिङ्गति चर्वति ॥ यः
पश्यति सुखी स स्याद्वाधितो मृत्युमृच्छति ॥ २१ ॥ यस्य स्वप्ने च नि
ष्कुष्ठदन्तपातः प्रदृश्यते ॥ शीघ्र्यन्ते केशरोमाणि स सुखी चापदं व्रजेत्
॥ २२ ॥ यस्य खट्वा प्रभज्येत तोमरादिप्रहारतः ॥ रक्तञ्च दृश्यते देहे स
स्वस्थो व्याधिमृच्छति ॥ २३ ॥ शून्यागारं पश्यति यो मनुष्यः प्रासा

दं वा देवहीनञ्च पश्येत् ॥ तापश्चान्द्रे पुष्पितानां द्रुमाणां तस्यानिष्टं मृ
 त्युमाशु प्रपद्येत् ॥ २४ ॥ नरः पश्येद्भिन्नदेवं घटं वा भग्नशाखं तर्हं
 मन्दिरं वा ॥ विशीर्णं विपश्येत्सुखी व्याधिं प्रपद्येद्द्रुजाग्रस्त आशु
 ॥ २५ ॥ यस्याह्वयन्ति पितरो दिशि दक्षिणस्यामाश्रित्य चाशु
 तनुते मनुजस्य मृत्युम् ॥ यस्यास्ति शूललकुटोद्यतपाशपाणिराह्वय
 ति स मृतिमाशु तनोति कष्टम् ॥ २६ ॥ कार्पासभस्मास्थिकपालशूलं
 चक्रञ्च पाशञ्च स्वप्ने प्रपश्येत् ॥ तस्यापदो रोगधनक्षयौ वा रोगी मृतिं
 वा तनुतेऽतिकष्टम् ॥ २७ ॥ इति प्रदिष्टानि शुभानि तानि निशासु सुप्ते
 मनुजे विशेषात् ॥ तथाशु विज्ञाय महामते ! त्वं गदस्य नाशाय विधेहि
 मन्त्रम् ॥ २८ ॥ स्नानञ्च दानञ्च सुरार्चनञ्च होमं तथा भाग्यविधानतश्च ॥
 दुःस्वप्नमतेषु विनाशमेति शुभञ्च सौख्यञ्च तनोति शीघ्रम् ॥ २९ ॥ इति
 आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने स्वप्नाध्यायो नाम द्वितीयोऽ
 ध्यायः ॥ २ ॥

काक, कंक, उंट, सर्प, सूकर, उलू, गीध, गीदह, भेडिया, गधा, भैंसा, तिरखू, कुत्ता, भगेरा,
 ग्राह, मच्छ, वानर, इन्होंसे भक्षित हुये अपने शरीरको देखै तिसको हानि, दुःख, रोग, इन्होंकी
 प्राप्ति होती है ॥ १७ ॥ जो मनुष्य अपने शरीरको घृत, वसा, तेल, इनआदिसे भीजाहुआ देखै
 तिसको रोगकी प्राप्ति शीघ्र होती है ऐसे वैद्योंने कहा है वहां अरिष्टनाशकशांति वगैरह करै
 ॥ १८ ॥ सिंह, उंट, गधा, बैल—इन्होंसे जुडेहुये रथमें बैठकै जो मनुष्य दक्षिणदिशाको गमन करै
 तिसको मृत्यु जानना ॥ १९ ॥ रक्तवस्त्रोंको पहननेवाली और लुण्णवस्त्रोंको पहननेवाली
 और छुटेहुये वालोंवाली और दौडतीहुई और दक्षिणदिशामें स्थित हुई और रोती हुई
 ऐसी स्त्रीको जो देखता है ॥ २० ॥ और क्रोधको प्राप्तहुई तिस स्त्रीको बुलाता है अथवा
 तिस्से मिलता है ऐसा स्वप्ना सुखीको आवै तो रोगकी उत्पत्ति होती और रोगीको आवै
 तो वह रोगी मरजाता है ॥ २१ ॥ स्वप्नमें जिस सुखी मनुष्यके दंत, चाल, रोम, ये गिर
 पड़ें तिसके रोगकी उत्पत्ति होती है ॥ २२ ॥ जिस सुखी मनुष्यकी स्वप्नमें शय्या टूटजावै
 और भालाआदि शस्त्रके पहारसे देहमें रक्त दिखै वह मनुष्य व्याधिको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥
 शून्य हुये स्थानको और देवतासे रहित मंदिरको जो स्वप्नमें देखै और जो स्वप्नमें चंद्रमामें
 तापको और फूले हुये वृक्षोंमें तापको देखै तिस मनुष्यकी शीघ्र मृत्यु कही ॥ २४ ॥ जो
 मनुष्य स्वप्नमें देवतासे रहित मंदिरको और पानीसे रहित कलशको और टूटीहुई शाखाओं-

वाले वृक्षको देखै अथवा स्थानके नाशको देखै तब रोगी मनुष्यकी मृत्यु होजाय और सुखी मनुष्य रोगको प्राप्त होवै ॥ २५ ॥ स्वममें जिसको दक्षिणदिशामें आश्रितहुये पितर बुलातेहैं तब तिस मनुष्यकी मृत्यु जानो और जिसको स्वममें शूल, लाठी, फांसी, इन्हेंको हाथमें धारनेवाला मनुष्य बुलाता है तब तिसकी शीघ्र मृत्यु जाननी ॥ २६ ॥ जो स्वममें कपास, हड्डी, भस्म, खोपरी, शूल, चक्र, फांसी, इन्हेंको देखै तिस मनुष्यके रोग, दुःख, धनका नाश—ये उपजते हैं और ऐसा स्वम रोगीको आवै तो मृत्यु अथवा अत्यंत कष्ट होता है ॥ २७ ॥ रात्रीमें सोते हुये मनुष्यको विशेषकरके ऐसे अशुभ स्वमभी कहे हे महामते! तैसेही जानके रोगका नाशके लिये मंत्रविधिको करना उचित है ॥ २८ ॥ स्नान, दान, देवताकी पूजा, होम, इन्हेंसे भाग्यके विधान करके दुःस्वम नाशको प्राप्त होता है शुभ और सुख शीघ्र प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्त्रुवैद्यरविदत्तशास्त्र-नुवादितहारीतसंहितायां द्वितीयस्थाने स्वमाध्यायो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

अथ स्वास्थ्यारिष्टम् ॥

आत्रेय उवाच ॥

शृणु पुत्र! महाप्राज्ञ! सर्वदेहार्थसाधकम् ॥

वैद्यशास्त्रस्य सारं यत्स्वास्थ्यारिष्टञ्च मानवे ॥ १ ॥

अथ स्वस्थमनुष्यको अरिष्टवर्णन—आत्रेयजी कहते है—हे महाप्राज्ञ! हे पुत्र! संपूर्ण देहके प्रयोजनको साधनेवाला और वैद्यकशास्त्रका सार ऐसे स्वस्थमनुष्यके अरिष्टको सुन ॥ १ ॥

अथ ध्रुवादिक न देखनेका अरिष्ट.

यो न पश्येद् ध्रुवं सम्यक्स्वर्णं वा मनुजो बुधः ॥

तस्य षण्मासमध्ये तु मृतिश्चैवोपपद्यते ॥ २ ॥

जो मनुष्य ध्रुवताराको अथवा ध्रुव अर्थात् नासिकाके अग्रभागको और सोनाको अच्छी तरह नहीं देखता है तिसका छः महीनोंके मध्यमें मृत्यु होता है ॥ २ ॥

अथ द्वितीयाचंद्रका अदर्शनका अरिष्ट.

यो वै द्वितीयां हिमधामलेखां नरो न पश्येद्विजहानिरस्य ॥

मासत्रयं प्राप्य शरीरमाशु जीवो व्रजेत्तस्य यमस्य लोकम् ॥ ३ ॥

जो मनुष्य किरनोंसे व्याप्तहुआ द्वितीयाका चंद्र नहीं देखै और जिसके दंत गिर पड़ें तिस मनुष्यका तीन महीनोंमें मृत्यु जानना ॥ ३ ॥

अथ कर्णघोष न सुननेका अरिष्ट ॥

यः कर्णघोषं न शृणोति दृप्ता मृताश्च यूकाः प्रपतन्ति लाभात् ॥

यो वैपरीत्यं विशृणोति शब्दं मासद्वयं प्राप्य जहाति जीवम् ॥ ४ ॥

जो मनुष्य कानमें शब्दको नसुनै और गर्वितहुई और मृतहुई जूम और लीख शरीरमें पडजावै और जो विपरीतपनेसे शब्दको विशेष करकै सुनै वह दो महीनोंमें मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

अथ मुखश्वासादिकका अरिष्ट ॥

यः स्वस्थदेहः श्वसते मुखेन नेत्रेऽरुणे श्यावमथैव वक्त्रम् ॥

जिह्वा विशीर्णा दशनाश्च कृष्णाः स्वस्थोऽपि शीघ्रं यमलोकगन्ता ॥ ५ ॥

जो स्वस्थ शरीरवाला मनुष्य मुख करकै श्वासको लेवै और लालनेत्र होजावै और कालामुख हो जावै और फटीहुई जीभ होजावै और काले दंत होजावै ऐसा स्वस्थ मनुष्य मृत्युको प्राप्त हो जाता है ॥ ५ ॥

अथ प्रभातमें मस्तकशूलका अरिष्ट ॥

यस्य प्रभाते च शिरोव्यथा स्याद्दीपे परीवेशमवेक्ष्यमाणः ॥

विपश्यते यः पटलश्च रेणोः स वै मृतिं याति न दीर्घमायुः ॥ ६ ॥

जिसके प्रभातमें शिरमें पीडाहो और जो दीपककी ज्योतिमें मंडलको देखै और जो आकाशमें धूलिके समूहको विशेष करकै देखै वह शीघ्र मरजाता है ॥ ६ ॥

अथ सूर्याविंवादिकके दर्शनका अरिष्ट ॥

यः सूर्याविम्बे शशिनं प्रपश्येद् विना परीवेशमवेक्ष्यमाणः ॥

धूमावृतं वा रविमण्डलं च प्रपश्यते शीघ्रमृतिं स गन्ता ॥ ७ ॥

जो सूर्यके विंभमें चंद्रमाको देखै और विनाचंद्रहुयेही मंडलको देखै और धूमासे आच्छादितहुआ सूर्यका मंडल दीखै तिसकी शीघ्र मृत्यु जानना ॥ ७ ॥

अथ इंद्रधनुष्य देखनेका अरिष्ट ॥

स्वस्थे निरभ्रे गगने च पश्येद्यः शक्रचापं विदिशादिशासु ॥

तथैव विद्यान्वयनाग्रतो यः स शीघ्रमेव यमलोकगन्ता ॥ ८ ॥

जो स्वस्थ और वादलोंसे रहितहुये आकाशमें और दिशा तथा विदिशाओंमें इंद्रके धनुषको देखै अथवा नेत्रोंके आगे इंद्रके धनुषको देखै वह मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

अथ विपरीत देखनें सुननेंका अरिष्ट ॥

यो नेत्रे मीलितेऽपि द्युतिमथ चपलां पश्यते यः पुरस्तात्कर्णे रन्ध्रं
निरुध्याद्धनिमथ मनुजो न शृणोति कथञ्चित् ॥ ९ ॥ तिक्तादीनां रसानां
कथमपि रसनास्वादमात्रं न वेत्ति रौद्रं वैवस्यतस्य प्रतिगमनमथो पश्यते
मानुषश्च ॥ १० ॥

जो मीलेहुये नेत्रोंमेंभी अपने आगे चपलरूपी ज्योतिको देखै और जो कानके छिद्रको रोकलेवै और जो कदाचिद् ध्वनिको नसुनै और जो कडुआ आदि रसोंके स्वादमात्रको नहीं जानै वह मनुष्य मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ जिस मनुष्यका शरीर अत्यंत गर्म और शीतल और कोलसेसे संयुक्त ऐसा होजावै और शीतको जानै नहीं और शीतलपानीके छिद्रके देनेमें रोमहर्ष होवै नहीं वह मनुष्य मरजाता है ॥ १० ॥

अथ शरीरके स्पर्शसें अरिष्टकथन ॥

यस्यात्युष्णं शरीरं शिशिरमथ मनुजस्य यस्याघिलञ्च शीतं नो चेति
यस्य हिमजलसिक्कते रोमहर्षो न यस्य ॥ दण्डाघातेन राजा न भवति
स पुनः श्राद्धदेवस्य लोके लोकानां दर्शनाय द्रुतमतिरुचिरां स्वस्थतां
न प्रयाति ॥ ११ ॥

जिस मनुष्यका शरीर अतिशय गरम होय, और तुरतही ठंडा होजाय, जो पुरुष ठंडीको और गर्मीको जानसक्ता नहीं, जिस मनुष्यके शरीरको शीतलजलके बिंदुओंका या ठंडेवालूरेतका स्पर्श होनेसें रोमांच नहीं खडे रहते हैं. वह पुरुष यमराजके डंडेसें माराजाता है, अर्थात् मृत्युको प्राप्त होता है. यमराजके लोककों देखनेके वास्ते जलदी करता है. और अत्यंत सुंदर ऐसे स्वस्थताको वह पुरुष प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

अथ प्रतिबिंब नदेखनेसें अरिष्ट ॥

तैले जले दर्पणके घृते वा परस्य नेत्रे प्रतिबिम्बमात्मनः॥पश्येन्न योऽसौ
यमलोकगन्ता जानीहि तं जीवविहीनमेव ॥ १२ ॥ इति आज्ञेयभाषिने
हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने स्वास्थ्यारिष्टं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

जो मनुष्य तेल, पानी, शीशा, दूसरोंके नेत्र, इन्होंमें अपने प्रतिबिंबको नहीं देखता

हे तिसकी घृत्यु जाननी ॥ १२ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायस्नुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवा-
दितहारीतसंहिताभाषायां स्वास्थ्यारिष्टं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अथ व्याध्यरिष्टका लक्षण ॥

आत्रेय उवाच ॥ उपद्रवैश्च ये पुष्टाव्याधयो यान्ति वार्य्यताम् ॥

रसायनादिना वत्स ! तान्ममैकमनाः शृणु ॥ १ ॥

उपद्रवोंसे युक्तहुये रोग रसायनआदिसे निवारण कियेजाते हैं हे पुत्र ! तिन रोगोंको एकमनवाला होकै सुन ॥ १ ॥

अथ अष्टमहाव्याधियोंका नाम.

वातव्याधिः प्रमेहश्च कुष्ठमर्शो भगन्दरम् ॥ अश्मरी मूढगर्भश्च तथा चो
दरमष्टमम् ॥ २ ॥ अष्टावेते प्रकृत्यैव दुश्चिकित्स्या महागदाः ॥ ३ ॥

वातव्याधि, प्रमेह, कुष्ठ, ववासीर, भगंदर, पथरी, मूढगर्भ, आठमां उदररोग ॥ २ ॥
ये आठों प्रकृति करकै महारोग दुश्चिकित्स्य है ॥ ३ ॥

अथ आठमहारोगोंके उपद्रव.

प्राणमांसक्षयश्वासतृष्णाशोषवमिज्वरैः ॥ मूर्च्छानिसारहिक्काभिः-पुनरंतै
रुपद्रुताः ॥ ४ ॥ वर्जनीया विशेषेण त्रिषजा सिद्धिमिच्छता ॥ ५ ॥

बलक्षय, मांसक्षय, श्वासरोग, तृषा, शोष, छर्दि, ज्वर, मूर्च्छा, अतीसार, हिचकी, इ
उपद्रवोंसे युक्तहुये पूर्वोक्त महारोग ॥ ४ ॥ सिद्धिकी इच्छा करनेवाले मनुष्यनें वर्जने
चाहिये ॥ ५ ॥

अथ ज्वररोगीके अरिष्ट ॥

यस्य जिह्वा भवेत्तीव्रा पीता वा नीलसम्भवा ॥ श्वासो भवत्यतीवोष्णः
शरीरं पुलकाङ्कितम् ॥ ६ ॥ नीलनेत्रेऽरुणे पीते कण्ठो घुरघुरायते ॥ न
जीवति ज्वरार्त्तस्तु लक्षणं यस्य चेदृशम् ॥ ७ ॥ मुखे श्वासो भवेद्य
स्य श्यावा दन्तावली पुनः ॥ स्तब्धनेत्रो बलाद्यः स्याज्ज्वरार्तो नैव जी
वति ॥ ८ ॥ बहूमूत्री बहुश्वासी क्षामोऽरोचकपीडितः ॥ हतप्रभेन्द्रियो

यश्च ज्वरी शीघ्रं विनश्यति ॥ ९ ॥ यस्यास्ये श्रयते रक्तं शिरोर्चिर्यस्य
दृश्यते ॥ अन्तर्दाहो बहिःशीतो ज्वरस्तु मृत्युमृच्छति ॥ १० ॥ यस्ताम्य
ति विसञ्ज्ञस्तु शेते विपतितोऽपि वा ॥ शीतार्दितोऽन्तरुष्णश्च ज्वरेण म्रिय
ते नरः ॥ ११ ॥ यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि सङ्घातशूलवान् ॥ नित्यञ्च
वक्त्रेणोच्छ्वासः स ज्वरो हन्ति मानवम् ॥ १२ ॥ हिक्काश्वासपिपासार्त्तं
मूढं विभ्रान्तलोचनम् ॥ सन्ततोच्छ्वासिनं क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरः ॥ १३ ॥
आविलाक्षं प्रताम्यञ्च तन्द्रायुक्तमतीव च ॥ क्षीणशोणितमांसञ्च नरं
नाशयति ज्वरः ॥ १४ ॥ घनं निष्ठीवनं नेत्रं प्लावारोचक्रपीडितम् ॥ अ
न्तर्दाहोऽसिता जिह्वा शीघ्रं नाशयति ज्वरः ॥ १५ ॥

जिसकी तीक्ष्ण और पीली और नीली ऐसी जीभ हो जावै और अत्यंत गर्म श्वास आवै
और हर्षित हुये रोमांकरकै युक्त शरीर हो ॥ ६ ॥ नीले और लाल और पीले नेत्र होजावै
और कंठ घुघुर करै ये लक्षण जिस ज्वररोगीके होवैं तिसका जीवना नहीं है ॥ ७ ॥ जिसके
मुखमें शीघ्र श्वास आवै और दंतोंकी पंक्ति काली होजावै और गर्वसे युक्त नेत्र होजावै और
बलसे युक्त होजावै ऐसा ज्वरसे पीडित रोगी नहीं जीवता है ॥ ८ ॥ बहुत मूत्रको करनेवाला
और बहुत श्वासको लेनेवाला और कृश और अरुचिसे पीडित और नष्ट हुई इंद्रियोंकी कां-
तिवाला ऐसा ज्वररोगी शीघ्र मरजाता है ॥ ९ ॥ जिसके मुखमें रक्त झिरै और जिसके
शिरमें पीडा होवै और भीतर दाह और बाहिर शीत लगै ऐसे ज्वरवाला मरजाता है ॥ १० ॥
जो मोहको प्राप्तहोवै और संज्ञासे रहितहुआ सोवै अथवा निरंतर पतितहुआ जावै और
बाहिर शीतसे और भीतर गर्मीसे पीडितहोवै ऐसा मनुष्य ज्वरसे मरजाता है ॥ ११ ॥
जो हर्षितहुये रोगीवाला हो और लालनेत्रोंवाला हो और हृदयमें दारुण शूलवाला हो और
निरंतर मुखसे ऊंचे श्वासको लेता हो ऐसा ज्वररोगी मरजाता है ॥ १२ ॥ हिचकी और
श्वाससे पीडित और मूढ और विशेष करकै भ्रमते हुये नेत्रोंवाला और निरंतर ऊंचे श्वास-
को लेनेवाला और क्षीण—ऐसे रोगीको ज्वर मारदेता है ॥ १३ ॥ डूंचे अथवा धूम्रवर्णवाले
नेत्रोंवाला और मोहको प्राप्तहुआ और तंद्रासे अत्यंत युक्तहुआ क्षीणहुये रक्त और मांस-
वाला ऐसे मनुष्यको ज्वर मार देता है ॥ १४ ॥ बहुत छर्दिवाला और नेत्रोंसे पानीको झिरा-
नेवाला और अरोचकसे पीडित और भीतर दाह तथा काली जीभसे युक्त ऐसे मनुष्यको
ज्वर शीघ्र मारदेता है ॥ १५ ॥

अथ दारुण उपद्रवका अरिष्ट ॥

यश्चैकोपद्रवस्यार्त्तैः शाम्यता नोपदृश्यते ॥ दारुणोपद्रवाश्चान्ये भूयिष्ठं

बहुरूपवान् ॥ १६ ॥ तेन मृत्योर्वशं याति सिद्धिं नेच्छति दारुणः ॥ १७ ॥

जिसके एक उपद्रवभी शांत नहींहोवै किंतु अन्यभी बहुतसे उपद्रव उपजते रहै और बहुतसे रूपोंको धारण करै ॥ १६ ॥ ऐसा मनुष्य मृत्युको प्राप्त होजाता है ॥ १७ ॥

अथ अतीसारका अरिष्ट ॥

यस्यादौ दृश्यते चैवाप्यतीसारस्तथापरः ॥ श्वासः शोषश्च यस्य स्यात्सोऽपि शीघ्रं मूर्तिं व्रजेत् ॥ १८ ॥ श्वासशूलपिपासासंक्षीणं ज्वरनिपीडितम् ॥ विशेषेण नरं वृद्धमतीसारो विनाशयेत् ॥ १९ ॥ यस्यातिसारशोफाः स्युस्तथारोचकशूलवान् ॥ सोऽपि शीघ्रं मूर्तिं याति बहुभिः प्रतिकर्मभिः ॥ २० ॥

जिसके आदिमें अतीसार उपजे पीछे श्वास और शोष उपजे वह मनुष्य शीघ्र मरजाता है ॥ १८ ॥ श्वास, शूल, तृष्णा, इनकरिके पीडित, क्षीण, ज्वरसे त्रास पायाहुआ ऐसे वृद्ध-मनुष्यको विशेषकरके अतीसारसे अनिष्टकर देता है ॥ १९ ॥ जिसके अतीसार, शोफा, अरुचि, शूल, ये उपजै तिस मनुष्यकी बहुतसी चिकित्सा करनेसेभी मृत्यु होजाती है ॥ २० ॥

अथ सूजनका अरिष्ट ॥

वालस्य चातिवृद्धस्य विकलस्य नरस्य च ॥

सर्वाङ्गे जायते शोफः शोफी स म्रियते ध्रुवम् ॥ २१ ॥

वालक, अतिवृद्ध, विकल, ऐसे मनुष्योंके संपूर्ण अंगमें शोफा उपजै तो वह निश्चय मरजाता है ॥ २१ ॥

अथ शूलका अरिष्ट ॥

यस्याध्मानश्च शूलश्च श्वासस्तृष्णा विमूर्च्छना ॥

शिरोऽर्त्तिर्यस्य दृश्येत शूली मृत्युमवामुयात् ॥ २२ ॥

जिसके अफारा, शूल, श्वासरोग, तृष्णा, मूर्च्छा, शिरमें पीडा ये उपजै तिसकी मृत्यु हो जाती है ॥ २२ ॥

पाण्डुरोगीका अरिष्ट ॥

पाण्डुदन्तनखो यश्च पाण्डुनेत्रश्च मानवः ॥ पाण्डुसङ्घातवांश्चैव पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ २३ ॥ पाण्डुत्वक्पाण्डुनेत्रे च मूत्रं वा पाण्डुरं भवेत् ॥ पाण्डुसङ्घातवांश्चैव पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ २४ ॥

पीले दंत और नखोंवाला और पीले नेत्रोंवाला और पीलेपनको सब जगह देखै ऐसा पांडुरोगी नष्ट होजाता है ॥ २३ ॥ पीली खाल होवै पीले नेत्रहों और मूत्रभी पीलाही होवै और पीलेपनको सब जगह देखै ऐसा पांडुरोगी मरजाता है ॥ २४ ॥

अथ क्षयरोगका अरिष्ट ॥

शुक्लाक्षमन्त्रद्वेष्टारमूर्ध्वाश्वसनिपीडितम् ॥ कृच्छ्रेण बहुमेहंतं यक्ष्मा हन्तीह मानवम् ॥ २५ ॥ धातुहीनो भवेद्यस्तु शोफश्वासैर्निपीडितः ॥ बहुभोज्यो घृणावांश्च राजयक्ष्मी विनश्यति ॥ २६ ॥

सफेदनेत्रोंवाला और अन्नसे वैर करनेवाला और ऊंचे श्वाससे निरंतर पीडितहुआ और कष्टसे बहुतवार मूत्रको करताहुआ ऐसा राजरोगी मरजाता है ॥ २५ ॥ धातुओंसे हीन हुआ शोजा और श्वाससे पीडितहुआ और बहुतसे भोजनको करताहुआ और दयावाला ऐसा राजरोगी मरजाता है ॥ २६ ॥

अथ श्वासरोगका अरिष्ट ॥

हुंकारः शीतलो यस्य फूत्कारस्योष्णता भवेत् ॥ शीघ्रनाडी न निर्वाहः शीघ्रं याति यमालयम् ॥ २७ ॥ अङ्गकम्पो गतेर्भङ्गो मुखं वा कुङ्कुम प्रभम् ॥ उच्चारे च भवेद्वायुः स च याति यमालयम् ॥ २८ ॥

जिसके मुखसे हाके निकसनेमें शीतलता होवै और फूत्कारमें गरमाईपना होवै और नाडी शीघ्र चले चलनेकी सामर्थ्य नहीं होवै ऐसा रोगी शीघ्र मरजाता है ॥ २७ ॥ जिसके अंग कांपे और चलाजावै नहीं और केसरके समान मुख होजावै और दस्तजानेके समय वायु निसरै वह मरजाता है ॥ २८ ॥

अथ बहोतदिनतकके रोगका अरिष्ट ॥

चिरं प्रवृद्धरोगस्तु भोजनेऽप्यसमर्थकम् ॥ भग्नगात्रमुपेक्षेत शेषजोऽप्यरहस्यकम् ॥ एतादृशं नरं ज्ञात्वोपचारः क्रियते बुधैः ॥ २९ ॥

बहुत दिनोंसे बढेहुये रोगवाला और भोजनको नहीं करनेवाला और भग्नहुये अंगोंको देखनेवाला और औषधको नहीं लेनेवाला ऐसे रोगीके जानिके उपचार करना ॥ २९ ॥

अथ उदररोगका अरिष्ट ॥

निर्भक्तसश्वासशोफाच्च तथा ज्वरनिपीडनात् ॥

हन्ति सघनं तस्य तदुरः क्षयते नरम् ॥ ३० ॥

विष्टाके क्षयसे, श्वास और शोजासे तथा ज्वरकी पीडासे गंभीर और कठिनहुई छाती तिसको मारदेती है ॥ ३० ॥

अथ गुल्मरोगका अरिष्ट ॥

श्वासशूलपिपासात्तिविद्वेषो ग्रन्थिमूढता ॥

भवति दुर्बलत्वञ्च गुल्मिनो मृत्युमेष्यतः ॥ ३१ ॥

श्वास, शूल, अत्यंतदृषा, ये उपजै और अन्नमें वैर रहै और गाढ तथा मूढपनाहो और दुर्बलपनाहो ऐसा गुल्मरोगी मरजाता है ॥ ३१ ॥

अथ रक्तपित्तका अरिष्ट ॥

नेत्रे जिह्वाधरौ यस्य रक्तौ वा रुधिरं वमेत् ॥ रक्तमूत्री रक्तसारी रक्त
पित्ती विनश्यति ॥ ३२ ॥ लोहितं छर्दयेद्यस्तु बहुशो लोहितेक्षणः ॥
रक्तानाञ्च दिशां द्रष्टा रक्तपित्ती विनश्यति ॥ ३३ ॥

जिसके जीभ, दोनोंओष्ठ, नेत्र, ये लाल होजावै अथवा रक्तको सिरावै ऐसा रक्तमूत्रवाला और रक्तातीसारवाला और रक्तपित्तवाला मनुष्य मरजाता है ॥ ३२ ॥ जो लोहूकी छर्दि करै और बहुत करके लालनेत्रोंवालाहो और लालरूपसे संयुक्तहुई दिशाओंको देखै ऐसा रक्तपित्तरोगी मरजाता है ॥ ३३ ॥

अथ ववासीररोगका अरिष्ट ॥

मुखशोफो भवेद्यस्य भ्रमारोचकपीडितः ॥

विवन्धोदरशूली च उदयाच्च विनश्यति ॥ ३४ ॥

जिसके मुखपर शोजाहो भ्रम और अरुचिसे पीडितहो वंधा और उदरशूलसे संयुक्तहो ऐसा रोगी मरजाता है ॥ ३४ ॥

अथ विद्रधिरोगका अरिष्ट ॥

आध्मानवद्धनिष्पन्दं छर्दिहिक्कारुगन्वितम् ॥

रुजाश्वाससमाविष्टं विद्रधिर्नाशयेन्नरम् ॥ ३५ ॥

जो अफारा और नहीं करकेसे संयुक्तहो और छर्दि, हिचकी, शूल, इन्होंसे समन्वितहो और श्वासरोगसे संयुक्तहो ऐसे मनुष्यको विद्रधिरोग नाशता है ॥ ३५ ॥

अथ भ्रमरोगका अरिष्ट ॥

यस्य तृष्णा भ्रमेद्धोरादाहो वापि न

अध्यापः
गंभीर

अमोपपन्नो भवति न स जीवति मानवः ॥ ३६ ॥ त्तरे द्वितीयस्थाने

जिसके दारुणतृषा और दाह तथा छर्दि उपजै और भ्रमसे संपन्नहो वह नहीं है ॥ ३६ ॥ और

अथ आर्तवका अरिष्ट ॥

अपूर्णे दिवसे नारी ज्वरान्ता पुष्पमाभुयात् ॥

सा न जीवेन्महाप्राज्ञ ! यस्या हि सारणो भवेत् ॥ ३७ ॥

जो ज्वरसे पीडितहुई नारी नहीं पूर्णहुये दिनमें पुष्प अर्थात् योनिसे रक्तके बहनेको प्राप्तहोवै हे महाप्राज्ञ ! जो वह रक्तक्षिरताही रहै तो वह नारी जीवै नहीं ॥ ३७ ॥

अथ कामला और पांडुरोगका अरिष्ट ॥

यः शोफश्वाससंयुक्तस्तृष्णायुक्तोऽथ शूलवान् ॥

कामलापाण्डुरोगान्तो नरश्च स विपद्यते ॥ ३८ ॥

जो शोजा और श्वाससे पीडितहो तृषा और शूलसे संयुक्तहो कामला और पांडुरोगसे संयुक्तहो वह मनुष्य जीवतानहीं है ॥ ३८ ॥

अथ भगंदरका अरिष्ट ॥

वातमूत्रपुरीषाणि क्रिमयः शुक्रमेव च ॥

भगन्दरात्प्रस्रवन्ति यस्य तं परिवर्जयेत् ॥ ३९ ॥

जिसके भगंदरके घावसे अधोवात, मूत्र, विष्ठा, कीड़े, वीर्य, ये क्षिरतेहों तिस रोगीको असाध्य जानो ॥ ३९ ॥

अथ अश्मरीरोगका अरिष्ट ॥

प्रसूननाभिदृषणं रुद्धमूत्रं रुगन्वितम् ॥

अश्मरी क्षपयत्याशु सिकताशर्करान्विता ॥ ४० ॥

नाभि और पोतोंपर शोजासे संयुक्तहो मूत्र रुकजावै शूल चलै ऐसे मनुष्यको पथरी, सिकता, शर्करा, ये रोग मारदेते हैं ॥ ४० ॥

अथ मूढगर्भका अरिष्ट ॥

गर्भकोषसमापन्नो मकुटो योनिःसङ्गतः ॥

हन्ति स्त्रियं मूढगर्भे यथोक्ताश्वाप्युपद्रवाः ॥ ४१ ॥

विष्टाके क्षयसे, श्वाह्वा वाक्ये योनिके छिद्रको बंधकरै और यथोक्त सब उपद्रवभी तिसको मारदेती है स्त्रीको मारदेता है ॥ ४१ ॥

अथ अपस्माररोगका अरिष्ट ॥

पाश्वर्भङ्गान्निविद्वेषशोफातीसारपीडितम् ॥ बहुशोऽपस्मरन्तन्तु क्षीणञ्च
वलितभ्रुवम् ॥ ४२ ॥ नेत्राभ्याञ्च विक्रुर्वाणमपस्मारो विनाशयेत् ॥ ४३ ॥

पसलीका भंग, अन्नसे बैर, शोजा, अतीसार—इन्होंसे पीडितहुआ और बहुतवार विस्मरणको प्राप्तहुआ और क्षीण और टेढ़ीभ्रुकुटियोंवाला ॥ ४२ ॥ और नेत्रोंसे विकारको करताहुआ ऐसे मनुष्यको श्मरीरोग मारदेता है ॥ ४३ ॥

अथ वातव्याधिका अरिष्ट ॥

शूलं सुप्तत्वचं भ्रममाध्मानेन निपीडितम् ॥

रुजास्तिमन्तश्च नरं वातव्याधिर्विनाशयेत् ॥ ४४ ॥

शूल और सोतीहुई खालसे संयुक्तहो और भ्रमहो और अफारासे निरंतर पीडितहो और दुःखसे संयुक्तहो ऐसे मनुष्यको वातव्याधि नाशता है ॥ ४४ ॥

अथ प्रमेहका अरिष्ट ॥

यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रसृतमेव च ॥

पिडकापीडितं गाढं प्रमेहो हन्ति मानवम् ॥ ४५ ॥

यथोक्त उपद्रवोंसे व्याप्तहो और अत्यंत झिरताहुआहो और फुन्तियोंसे अत्यंत पीडितहो ऐसे मनुष्यको प्रमेहरोग नाशता है ॥ ४५ ॥

अथ कुष्ठरोगका अरिष्ट ॥

प्रभिन्नं प्रसृताङ्गञ्च रक्तनेत्रं हतस्वरम् ॥

पञ्चकर्मगुणातीतं कुष्ठं हन्तीह कुष्ठिनम् ॥ ४६ ॥

प्रभिन्नहुआ और झिरतेहुये अंगोंवाला और लालनेत्रोंवाला और नष्टहुआ स्वरवाला और वमन, विरेचन, नस्य, निरूहवस्ति, अनुवासनवस्ति, इनपंचकर्मोंके गुणोंसे वर्जित ऐसे कुष्ठिको कुष्ठरोग मारदेता है ॥ ४६ ॥

अथ उन्मादरोगका अरिष्ट ॥

अवाह्युरवस्तून्मुखो वा क्षीणमांसवलोत्तरः ॥ जागरूकस्त्वसन्देहमुन्मा

देन विनश्यति ॥ ४७ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने
व्याध्यरिष्टं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

नीचेको मुख रखनेवाला अथवा उपरको मुख रखनेवाला और क्षीणहुये मांसवाला और बलसे युक्तहुआ और दिनरात जागनेवाला ऐसा उन्मादरोगी निश्चय मरजाता है ॥ ४७ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां द्वितीयस्थाने व्याध्यरिष्टं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

अथ पञ्चेन्द्रियविकारवर्णन ॥

आत्रेय उवाच ॥ यः शीलवान्क्रोधनतामुपैति यः क्रोधवाञ्छीलगुण
श्च धत्ते ॥ द्वावेव मृत्युं तनुतो विधिज्ञ ! स्थूलो नरः शीघ्रतरं कशाङ्गः ॥ १ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—जो शीलवान् मनुष्य क्रोधपनेको प्राप्तहोवै और जो क्रोधी मनुष्य शीलपनेको धारण करै हे विधिज्ञ ! ये दोनों मनुष्य मृत्युको शीघ्र प्राप्त होते हैं और जो मोठा मनुष्य शीघ्र माड़ा होजावै और माडा मनुष्य शीघ्र मोठा होजावै येभी दोनों मृत्युको प्राप्त होजाते हैं ॥ १ ॥

यो धर्मशीलो भवतीह पापी पापात्मको धर्मरतो यदि स्यात् ॥

स मृत्युभाजी भवतीह शीघ्रं यश्च प्रकृत्या विकृतिं प्रयाति ॥ २ ॥

जो धर्मशील मनुष्य पापी होजावै और जो पापी धर्मको करनेलग जावै और जो प्रकृतिकरकै विकारको प्राप्तहोजावै ये मनुष्य शीघ्र मृत्युको प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

यो गौरवर्णो विदधाति काण्ठ्यं कृष्णोऽतिगौरत्वमुपैति यश्च ॥ तथा

मूर्तिं याति नरः प्रकृत्या शीघ्रं विकृत्या भजते वियोगम् ॥ ३ ॥

जो गौरवर्णवाला मनुष्य कालावर्णको प्राप्त होजावै और जो कालावर्णका मनुष्य गौरवर्णको प्राप्त होजावै और जो अपनी प्रकृतिको शीघ्र त्यागदेवै ऐसे मनुष्य शीघ्र मृत्युको प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

यो वैपरीतं श्रवणोऽपि शब्दं गृह्णाति वा न शृणुते स शीघ्रम् ॥ स

वै मूर्तिं पश्यति यो न पश्येच्छायां स्वकीयां धरणीप्रपन्नाम् ॥ ४ ॥

जो शब्दको विपरीतपनेसे ग्रहण करै अथवा शब्दको नहीं सुनै और जो पृथिवीमें प्राप्त हुई अपनी छायाको नहीं देखै वे मनुष्य मृत्युको शीघ्र प्राप्त होते है ॥४॥

यो वेन्द्रियैः प्रतिहतः कृशतां प्रयाति स्थूलोऽतिनिम्नप्रभवपुर्मरणं विपश्येत्॥

यो विस्रगन्धिश्च रसश्च क्वचिन् वेत्ति स वै मृतिं प्रियतमां भजते मनुष्यः॥५॥

जो इंद्रियोंसे प्रतिहतहुआ कृशपनेको प्राप्त होजावै और जो कृशमनुष्य अत्यंत मोठेपनको प्राप्त होवै वह जिसका शरीर कृशपनेको प्राप्त होवै जो दुर्गंधको और रसको कहींभी नहीं जानै वह मृत्युको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

यस्यास्यगन्धमाघ्राय भजन्ते नीलमक्षिकाः ॥ नासिकायां शरीरे वा स
चैव यमलोकगः ॥ ६ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने
पञ्चेन्द्रियविकारो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

जिसका मुखके गंधको सूंघकै नीलमक्षिका अर्थात् भौरे नासिकामें अथवा शरीरमें वास करनें लगजावै तिसकी मृत्यु होती है ॥ ६ ॥ इति वेरीनिवासिनुधशिवसहायस्सुवैद्यरविदत्त-
शास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां द्वितीयस्थाने पंचेन्द्रियविकारो नाम पंचमोऽध्यायः ॥५॥

पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथ नक्षत्रज्ञानवर्णन ॥

आत्रेय उवाच ॥ अथ नक्षत्रयोगेन व्याधिर्यस्य प्रजायते ॥

साध्यासाध्यश्च याप्यं च वक्ष्यामि शृणु पुत्रक ! ॥ १ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—जिसके नक्षत्रके योगसे व्याधि उपजै तिसको साध्य, असाध्य,
इनभेदोंसे कहताहूं हे पुत्र ! सुन ॥ १ ॥

अथ मृत्युयोगोंका वर्णन ॥

आदित्ययोगेन मघा विशाखा चन्द्रेण युक्ता कुज आर्द्रया तु ॥ मूलं
प्रबुद्धे गुरुकृत्तिका च शुक्रेण रोहिण्यसितेन हस्तः ॥ २ ॥ एतान्वदन्ति
निपुणा यमघण्टयोगान्व्याधिप्रपन्नमनुजो यदि पुण्ययोगात् ॥ जीवे
द्यदा कथमसौ घनदत्तयन्त्रघोरान्तरेण तपनेन कथं सुखं स्यात् ॥ ३ ॥

आदित्येनानुराधा वसति हिमरुचिश्चोत्तरासंप्रयुक्तो भौमः पितृषियुक्तो बुध इति तुरगीयुक्त एतत्सुखं न ॥ तस्माज्जीवेन युक्तो मृगशिरसहितोऽश्लेषया भार्गसूनुः संयुक्तो हस्तसंज्ञैर्न तु वदति शुभं शास्त्रविद्यो गयुक्तः ॥ ४ ॥

रविवारसे युक्त मघानक्षत्र और सोमवारसे युक्त विशाखानक्षत्र और मंगलवारसे युक्त आर्द्रानक्षत्र और बुधवारसे युक्त मूलनक्षत्र और बृहस्पतिवारसे संयुक्त कृत्तिकानक्षत्र और शुक्रवारसे युक्त रोहिणी और शनिवारसे युक्त हस्तनक्षत्र ॥ २ ॥ इन्हेंको पंडित यमघंट योग कहते हैं. इन्होंमें रोगको प्राप्तहुआ मनुष्य पुण्यके योगसे कदाचित् जीवता है अन्यथा सुखकी प्राप्ति नहीं है ॥ ३ ॥ रविवारसे संयुक्त अनुराधा और चंद्रवारसे संयुक्त उत्तरानक्षत्र और मंगलवारसे युक्त मघा और बुधवारसे युक्त अश्विनी और बृहस्पतिवारसे युक्त मृगशिर और शुक्रवारसे युक्त आश्लेषा और शनिवारसे संयुक्त हस्तनक्षत्र ये मृत्युयोग हैं इन्होंमें रोगकी उत्पत्ति होवै तो शुभ नहीं होताहै ॥ ४ ॥

अथ अमृतयोगकथन ॥

दिनकरकरयुक्तः सोमसौम्येन वापि तुरगसहितभौमः सोमपुत्रोऽनुराधा ॥
सुरगुरुपि पुष्ये रेवती शुक्रवारे दिनकरसुतयुक्ता रोहिणी सौख्यहेतुः ॥ ५ ॥

रविवारसे युक्त हस्त और सोमवारसे युक्त मृगशिर और मंगलवारसे संयुक्त अश्विनी और बुधवारसे संयुक्त अनुराधा और बृहस्पतिवारसे युक्त पुष्य और शुक्रवारसे युक्त रेवती और शनिवारसे युक्त रोहिणी ये शुभयोग हैं इन्होंमें रोग उपजे तो सुख होता है ॥ ५ ॥

अथ क्रूरयोगवर्णन ॥

शूले वज्रेऽतिगण्डे वा व्याघाते व्यतिपातके ॥ विष्कम्भयोगयुक्ते च
नक्षत्रे क्रूरदैवते ॥ ६ ॥ एतैरसाध्या ज्वरिणस्तस्माद्योगान् परीक्षयेत् ॥
योगे ऋक्षे तथा वारे क्रूरे प्राप्ते न जीवति ॥ ७ ॥

शूल, वज्र, अतिगंड, व्याघात, व्यतीपात, विष्कम्भ, इन योगोंमें जब क्रूरदैवतोंवाले अर्थात् आश्लेषा मघाआदिनक्षत्र होवै तिन्होंको क्रूरयोग कहते हैं ॥ ६ ॥ इन्होंमें ज्वर उपजे तो रोगी असाध्य होजाते हैं इसवास्ते योगोंकी परीक्षा करनी और यह क्रूरयोगभी हो और तिसमें क्रूरवारहो तब रोग उपजे तो रोगी जीवता नहीं ॥ ७ ॥

अथ योगविज्ञान ॥

सिद्धिः शुक्लः शुभः प्रीतिर्वायुष्मान्सौभाग्यश्च वै ॥

धृतिर्वृद्धिर्ध्रुवो हर्षः सुखसाध्या इमे स्मृताः ॥ ८ ॥

सिद्धि, शुक्ल, शुभ, प्रीति, आयुष्मान्, सौभाग्य, धृति, वृद्धि, ध्रुव, हर्ष, ये योग सुखसाध्य कहे हैं ॥ ८ ॥

अथ विशेषवर्णन ॥

मघा विशाखा भरणी तथार्द्रा मूलं तथा कृत्तिकहस्ततिष्याः ॥

एते न शस्ता मुनयो वदन्ति वारक्रमेणैव विचिन्तनीयाः ॥ ९ ॥

मघा, विशाखा, भरणी, आर्द्रा, मूल, कृत्तिका, हस्त, पुष्य, ये रोगकी उत्पत्तिमें श्रेष्ठ नहीं हैं ये सब वारके क्रमसे चिंतन करने चाहिये ॥ ९ ॥

अथ असाध्य नक्षत्र ॥

मघाभरणिहस्तेषु मूले वा ज्वरितोऽपि वा ॥

मृत्युमापद्यते सोऽपि नात्र कार्या विचारणा ॥ १० ॥

मघा, भरणी, हस्त, मूल, इन नक्षत्रोंमें ज्वरितहुआ मनुष्य मरजाता है इसमें विचार नहीं ॥ १० ॥

अथ साध्य नक्षत्र ॥

अश्विनीरोहिणीपुष्यमृगश्येष्ठाः पुनर्वसू ॥

एते साध्याश्च विज्ञेया ज्वरिणाश्च विशेषतः ॥ ११ ॥

अश्विनी, रोहिणी, पुष्य, मृगशिर, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, ये इन नक्षत्रोंमें हुआरोग साध्य कहा है और इन्होंने उपजा ज्वर विशेषकरके साध्य है ॥ ११ ॥

अथ कष्टसाध्य नक्षत्र ॥

पूर्वात्रयं स्वातिरथापि चित्रा तथा त्रयार्द्राश्रवणाधनिष्ठाः ॥ मूलं वि

शाखा सह कृत्तिकाभिः साप्योऽनुराधा सह ज्येष्ठया च ॥ १२ ॥ एते

सकाष्ठा रुजपीडितानां तिष्या सुयाप्या कुरुते नरस्य ॥ तस्मात्तु वि

ज्ञाय वुधाश्च सम्यग् रुजां विनाशं प्रतिकर्मणा च ॥ १३ ॥

तीनोंपूर्वा, स्वाती, चित्रा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, मूल, विशाखा, कृत्तिका,

आश्लेषा, अनुराधा, ज्येष्ठा॥१२॥इन्होंमें उपजा रोग कष्टको देता है और इन्होंमेंसे पुष्यनक्षत्रमें उपजा रोग कष्टसाध्य कहा है तिसकारणसे जान चिकित्सासे रोगको दूर करना ॥ १३॥

अथ नक्षत्रोंके पीडाकी मर्यादा ॥

अश्विन्याश्चैकरात्रन्तु भरण्यां मृत्युमीक्षते ॥ नवरात्रं कृत्तिकायां रोहि
ण्यान्तु दिनत्रयम् ॥ १४ ॥ मृगेण बहुपीडा स्यादाद्र्यां मृत्युरेव च ॥
पुनर्वसौ च पुष्ये च सप्तारात्रन्तु पीड्यते ॥ १५ ॥ नवरात्रं तथाश्लेषा
मघा चैति यमालयम् ॥ पूर्वा मासत्रयं ज्ञेयमुत्तरा पञ्चकत्रयम् ॥ १६ ॥
पूर्वात्रये त्रयोऽशाश्च शुभा ज्ञेया मनीषिभिः ॥ एतेषां तुर्धये चान्ते य
दि रोगस्तदा मृतिः ॥ १७ ॥ हस्तेन प्राप्यते सौख्यं चित्रा पञ्चदशाहक
म् ॥ स्वातिः षोडशारात्रन्तु विशारवा विंशारात्रकम् ॥ १८ ॥ अनुराधा
पक्षमेकं ज्येष्ठा दशदिनानि तु ॥ मूलेन मृत्युमामोति आषाढासु त्रिप
ञ्चकम् ॥ १९ ॥ उत्तरा विंशारात्रेण श्रवणे मासकद्वयम् ॥ मासद्वयं ध
निष्ठा स्याच्छतर्क्षे दिनविंशतिः ॥ २० ॥ नवरात्रं भवेत्पूर्वा उत्तरा
पञ्चकत्रयम् ॥ दशाहं रेवती पीडा मुच्यते व्याधिभिस्ततः ॥ २१ ॥

अश्विनीमें रोग उपजै तो एकरात्रिमें आरामहो, भरणीमें रोग उपजै तो रोगी मरजाता है, कृत्तिकामें रोग उपजै तो नवरात्रिमें आराम होता है रोहिणीमें रोग उपजै तो तीनदिनोंमें आराम होता है ॥ १४ ॥ मृगशिरमें रोग उपजै तो बहुतसी पीडा रहती है आर्द्रामें रोग उपजै तो रोगी मरजाता है पुनर्वसुमें और पुष्यमें रोग उपजै तो सातरात्रिक पीडा रहती है ॥ १५ ॥ आश्लेषामें रोग उपजै तो नवरात्रिक पीडा रहती है मघामें रोगहो तो रोगी मरजाता है पूर्वाफाल्गुनीमें रोगहो तो तीनमहीनोंतक पीडा रहती है उत्तराफाल्गुनीमें रोगहो तो पंद्रह दिनोंतक पीडा रहती है ॥ १६ ॥ और तीनों पूर्वा अर्थात् पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ, पूर्वाभाद्रपद इन्होंके पहले तीनभाग शुभ है और अंतका एकभाग बुरा है तिसमें रोग हो तो रोगी मरजाता है ॥ १७ ॥ हस्तमें रोग हो तो शीघ्र आराम होजाता है चित्रामें रोग हो तो पंद्रह दिनोंमें आराम होजाता है स्वातीमें रोग हो तो सोलहरात्रिमें सुख होजाता है विशाखामें रोग हो तो बीस रात्रिमें आराम होजाता है ॥ १८ ॥ अनुराधामें रोग हो तो पंद्रहदिनमें आराम होता है ज्येष्ठामें रोग हो तो दशदिनमें आराम होजाता है मूलमें रोग हो तो रोगी मरजाता है पूर्वाषाढमें रोग हो तो पंद्रहदिनोंमें आराम होता है ॥ १९ ॥ उत्तराषाढमें रोग उपजै तो

वीसरात्रिमें आराम होता है श्रवणमें रोग उपजै तो दो महीनोंमें आराम होता है धनिष्ठामें रोग उपजै तो दो महीनोंमें आराम होता है शतभिषामें रोग उपजै तो बीसदिनोंमें आराम होता है ॥ २० ॥ पूर्वाभाद्रपदमें रोग उपजै तो नवरात्रिमें आराम होता है उत्तराभाद्रपदमें रोग उपजै तो पंद्रहदिनोंमें आराम होता है रेवतीमें रोग उपजै तो दशदिनमें आराम होता है ऐसे रोगकी निवृत्ति कही है ॥ २१ ॥

अथ नक्षत्रोंके भागानुसार रोगोंकी मर्यादा ॥

कृत्तिका नक्षत्र ॥

कृत्तिकासु ज्वरस्तीव्रो व्याधिर्भवति पैत्तिकः ॥ दिनानि दश प्रथमे चरणे च विनिर्दिशेत् ॥ २२ ॥ दशैव द्वितीये भागे तृतीये दिनपञ्चकम् ॥

कृत्तिकानक्षत्रमें दारुण ज्वर और पित्तकी व्याधि उपजती है और कृत्तिकाके प्रथम भागमें रोग उपजै तो दशदिन पीडा रहती है ॥ २२ ॥ और दूसरेभागमें रोग उपजै तो भी दशदिन पीडा रहती है और तीसरेभागमें रोग उपजै तो पांचदिन पीडा रहती है ॥

अथ रोहिणी नक्षत्र ॥

रोहिण्यां नवरात्रन्तु प्रथमेशे प्रकीर्तितम् ॥ २३ ॥ द्वितीये द्विगुणं प्रोक्तं तृतीये दशरात्रकम् ॥

रोहिणीके प्रथमभागमें रोग उपजै तो नवरात्रि पीडा रहती है ॥ २३ ॥ और दूसरेभागमें अठारह दिन और तीसरेभागमें दशदिन पीडा रहती है ॥

अथ मृग नक्षत्र ॥

नक्षत्रे चन्द्रदैवत्ये पीडा वै जायते ध्रुवम् ॥ २४ ॥ प्रथमांशे पञ्चरात्रं मध्ये द्वादशावासरान् ॥ तृतीयांशे तथा ज्ञेयं मृत्युर्मासादनन्तरम् ॥ २५ ॥ मृगशिरके प्रथमभागमें रोग उपजै तो पांचरात्री पीडा रहती है ॥ २४ ॥ और दूसरेभागमें बारहदिन और तीसरेभागमें १ महीनातक पीडा रहके पीछे मृत्यु होजाता है ॥ २५ ॥

अथ आर्द्रा नक्षत्र ॥

नक्षत्रे रुद्रदैवत्ये पक्षं स्यात्प्रथमेशके ॥

द्वादशाहं द्वितीये च तृतीयांशे न जीवति ॥ २६ ॥

आर्द्रानक्षत्रके प्रथम अंशमें रोग उपजै तौ वह रोग एक पखवाडेतक रहता है. दूसरे अंशमें हुआ व्याधि बारह दिनतक रहता है. तीसरे अंशमें रोग उत्पन्न हुआ होय तौ वह मनुष्य जीता नहीं ॥ २६ ॥

अथ पुनर्वसु नक्षत्र ॥

पुनर्वसौ ज्वरं विद्यात्प्रथमांशे त्रिपक्षकम् ॥

मध्यमे दिवसान्सप्त तृतीये पंचविंशतिम् ॥ २७ ॥

पुनर्वसुनक्षत्रके प्रथम अंशमें आयाहुआ ज्वर तीन पखवाडेतक रहता है. दूसरे अंशमें सातदिन रहता है. और तीसरे अंशमें आयाहुआ ज्वर पचीस दिनतक रहता है ॥ २७ ॥

अथ पुष्य नक्षत्र ॥

पुष्ये स्यात्प्रथमे सप्त द्विके विंशतिवासरान् ॥

तृतीयांशे तथा विद्याद्विवसानेकविंशतिम् ॥ २८ ॥

पुष्यनक्षत्रके प्रथम अंशमें आयाहुआ रोग सातदिनतक रहता है. दूसरे अंशमें बीस दिनतक रहता है. और तीसरे अंशमें इक्कीसदिनतक रहता है ॥ २८ ॥

अथ आश्लेषा नक्षत्र ॥

आश्लेषायां च नक्षत्रे यस्य संभवति ज्वरः॥मासत्रयेण प्रागंशे कष्टाज्जी

वति मानवः ॥२९॥ द्वितीये च तृतीये च मृत्युरेव न संशयः ॥

जिस मनुष्यकूं आश्लेषानक्षत्रमें ज्वर उत्पन्न होता है उसकूं प्रथम अंशमें ज्वर उत्पन्न होनेसे वह मनुष्य बडे कष्टसे जीता है ॥२९॥ और दूसरे तथा तीसरे अंशमें ज्वर उत्पन्न होनेसे उसमनुष्यकूं मृत्युही प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं ॥

अथ मघा नक्षत्र ॥

नक्षत्रे पितृदैवत्ये रोगो यस्य प्रवर्तते ॥ ३० ॥ प्रथमेशे सप्तरात्रिं द्वितीये

धिष्ण्यतुल्यताम् ॥ विंशत्तृतीये दिवसान्पीड्यते कर्मणो बलात् ॥ ३१ ॥

मघानक्षत्रमें जिस मनुष्यकूं रोग उत्पन्न होता है ॥ ३० ॥ उसका रोग प्रथम अंशमें सातरात्रितक रहता है. दूसरे अंशमें उत्पन्न होवे तौ घरसरीखा हमेशा बनाही रहता है. और तीसरे अंशमें होवे तौ वह मनुष्य अपने कर्मके बलसे बीस दिनतक बहोत पीडाको प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥

अथ पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र ॥

नक्षत्रे भगदैवत्ये यस्य संजायते ज्वरः॥३२॥प्रथमेशे पंचरात्रिं मध्ये द्वा

दशवासरान् ॥ तृतीयांशे तथा ज्ञेयं मृत्युर्मासादनंतरम् ॥ ३३ ॥

पूर्वाफाल्गुनीनक्षत्रमें जिसकूं ज्वर उत्पन्न होवे ॥ ३२ ॥ उस मनुष्यका ज्वर प्रथम अं-

शमें पांच रात्रितक रहता है. दूसरे अंशमें बारह दिनतक रहता है. और तीसरे अंशमें ज्वर उत्पन्न होवे, उस मनुष्यका एक महीनेके पीछे मृत्यु होगा ऐसा जानना ॥ ३३ ॥

अथ उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र ॥

उत्तराया आद्यभागे वासराणि चतुर्दश ॥

द्वितीये सप्तरात्रन्तु तृतीये दिवसान्ध्रव ॥ ३४ ॥

उत्तराके प्रथमभागमें रोग उपजै तो चौदहदिन पीडा रहती है और दूसरेभागमें सात रात्रि और तीसरेभागमें नव दिन पीडा रहती है ॥ ३४ ॥

अथ हस्त नक्षत्र ॥

यदि हस्ते भवेद्रोगः प्रथमे सप्तरात्रकम् ॥

चत्वार्यहानि द्वितीये तृतीये दिनपञ्चकम् ॥ ३५ ॥

हस्तके प्रथमभागमें रोग उपजै तो सात रात्री पीडा रहती है और दूसरेभागमें च्यार दिन और तीसरेभागमें पांच दिन पीडा रहती है ॥ ३५ ॥

अथ चित्रा नक्षत्र ॥

मृत्युं विद्यात्तथा पूर्वे त्वाष्ट्रो यस्य भवेज्ज्वरः ॥ त्रिभिर्मासैर्द्वितीयांशे

रोगो भवति दारुणः ॥ ३६ ॥ तृतीयांशे तथा ज्ञेयं वासराणि त्रयोदश ॥

चित्राके प्रथमभागमें जिसके ज्वर उपजै तिसका मृत्यु होजाता है और दूसरेभागमें रोग दारुणरूपी होकै तीन महीनोंमें दूर होता है ॥ ३६ ॥ और तीसरेभागमें तेरहदिन पीडा रहती है ॥

अथ स्वाती नक्षत्र ॥

वायव्ये प्राक् सप्तदश द्वितीये चैकविंशतिः ॥ ३७ ॥ अस्यैव तु तृतीयां

शे मृत्युमेव विनिर्दिशेत् ॥ ३८ ॥

स्वातीके प्रथमभागमें रोग उपजै तो सतरह दिन पीडा रहती है और दूसरेभागमें रोग उपजै तो इक्कीसदिन पीडा रहती है ॥ ३७ ॥ और तीसरेभागमें रोग उपजै तो मृत्युही जानना ॥ ३८ ॥

अथ विशाखा नक्षत्र ॥

प्रथमांशे विशाखायां त्रिगुणाः षोडश स्मृताः ॥

द्वितीये द्वादश प्रोक्तास्तृतीयेऽपि तथैव च ॥ ३९ ॥

विशाखाके प्रथमभागमें रोग उपजै तो अठतालीस ४८ दिन पीडा रहती है और दूसरे-

भागमें रोग उपजै तो बारह दिन पीडा रहती है और तीसरेभागमें रोग उपजै तोभी बारह दिन पीडा रहती है ॥ ३९ ॥

अथ अनुराधा नक्षत्र ॥

मैत्रांशे प्रथमे सप्त द्वितीये पक्षमादिशेत् ॥

तृतीयांशे चतुःषष्टिर्वासराणां महामुने ! ॥ ४० ॥

अनुराधाके प्रथमभागमें रोग उपजै तो सात दिन पीडा रहती है और दूसरेभागमें रोग उपजै तो पंद्रह दिन पीडा रहती है और तीसरेभागमें पीडा उपजै तो हे महामुने! चौंसठ ६४ दिन पीडा रहती है ॥ ४० ॥

अथ ज्येष्ठा नक्षत्र ॥

त्रिपक्षमैन्द्रे प्रथमे द्वित्रिभागे च षोडश ॥ ४१ ॥

ज्येष्ठाके प्रथम, भागमें रोग उपजै तो ४५ दिन पीडा रहती है. द्वितीय, और तृतीय, इन भागोंमें रोग उपजै तो सोलह दिन पीडा रहती है ॥ ४१ ॥

अथ मूल नक्षत्र ॥

मूर्लेऽशे तृतीये ज्ञेयः पक्ष एव मनीषिभिः ॥

आद्ये पूर्वत्रयो मासा मध्यमेऽहानि षोडश ॥ ४२ ॥

और मूलके तीसरेभागमें रोग उपजै तो पंद्रहदिन पीडा रहती है और मूलके प्रथमभागमें रोग उपजै तो तीन महीनें पीडा रहती है और मूलके दूसरेभागमें रोग उपजै तो सोलह दिन पीडा रहती है ॥ ४२ ॥

अथ पूर्वा नक्षत्र ॥

पूर्वाऽशे द्वितये ज्ञेयः पक्ष एव मनीषिभिः ॥

तृतीयांशे पुनर्द्वयुरतीरात्रात् प्रजायते ॥ ४३ ॥

पूर्वाषाढके प्रथम और द्वितीयभागमें रोग उपजै तो पंद्रह दिन पीडा रहती है और तीसरेभागमें रोग उपजै तो रोगी मरजाता है ॥ ४३ ॥

अथ उत्तराषाढा नक्षत्र ॥

विश्वेशे प्रथमे पक्षे मध्ये द्वादशरात्रिकम् ॥

दिनानां विंशतिः प्रोक्ता तृतीयांशे महामुने ! ॥ ४४ ॥

उत्तराषाढके प्रथम और द्वितीयभागमें रोग उपजै तो बारह रात्रि पीडा रहती है हे महामुने! उत्तराषाढके तीसरेभागमें रोग उपजै तो बीस दिन पीडा रहती है ॥ ४४ ॥

अथ श्रवण नक्षत्र ॥

सप्ताहमादौ श्रवणे विंशतिर्मध्यमे मता ॥

षोडशाहं तृतीयांशे सत्यमेतद्भ्रवीम्यहम् ॥ ४५ ॥

श्रवणके प्रथमभागमें रोग उपजै तो सातदिन पीडा रहती है और द्वितीयभागमें रोग उपजै तो बीसदिन पीडा रहती है और तीसरेभागमें रोग उपजै तो सोलहदिन पीडा रहती है यह मैं सत्य कहताहूं ॥ ४५ ॥

अथ धनिष्ठा नक्षत्र ॥

विंशतिर्वासवे पूर्वं मध्यमे मासयुग्मकम् ॥

मासस्तृतीये विज्ञेयो देवज्ञैश्च निवेदितम् ॥ ४६ ॥

धनिष्ठाके प्रथमभागमें रोग उपजै तो बीसदिन पीडा रहती है और दूसरेभागमें रोग उपजै तो दोनमहीने पीडा रहती है और तीसरेभागमें रोग उपजै तो एकमहीना पीडा रहती है ऐसा ज्योतिषीओंने कहा है ॥ ४६ ॥

अथ पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र ॥

वारुणे दारुणो रोगस्त्रिपक्षं प्रथमांशके ॥

द्वितीये मासषट्कं तु षोडशाहं तृतीयके ॥ ४७ ॥

पूर्वाभाद्रपदाके प्रथमभागमें दारुण रोग उपजै तो पहतालीसदिन पीडा रहती है और दूसरेभागमें रोग उपजै तो छःमहीनें और तीसरेभागमें रोग उपजै तो सोलहदिन पीडा रहती है ॥ ४७ ॥

अथ उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र ॥

अह्निर्बुधये पक्षमादौ मध्ये मासं विनिर्दिशेत् ॥

अन्तेऽष्टाविंशतिर्ज्ञेया पीडात्स्यापापकर्मणि ॥ ४८ ॥

उत्तराभाद्रके प्रथमभागमें रोग उपजै तो पंदरहदिन पीडा रहती है और दूसरेभागमें रोग उपजै तो एक महीना पीडा रहती है और तीसरेभागमें रोग उपजै तो अठईसदिन पीडा रहती है ॥ ४८ ॥

अथ रेवती नक्षत्र ॥

रेवत्याः प्रथमे चाष्टौ द्विभागे तु च षोडश ॥

अन्ते त्रिंशद्दिनान्येवं प्रोक्तानि पूर्वसूरिभिः ॥ ४९ ॥

रेवतीके प्रथमभागमें रोग उपजै तो आठदिन पीडा रहती है और दूसरेभागमें सोलह-दिन पीडा रहती है और तीसरेभागमें रोगी मरजाता है अथवा तीसदिन पीडा रहती है ॥४९॥

अथ अश्विनी नक्षत्र ॥

अश्विन्याः प्रथमे भागे दिनमेकं प्रकीर्तितम् ॥

द्वितीये पञ्चरात्रन्तु तृतीये समकं तथा ॥ ५० ॥

अश्विनीके प्रथमभागमें एक दिन पीडा रहती है और दूसरेभागमें पांचरात्रि और तीसरेभागमें सातरात्रि पीडा रहती है ॥ ५० ॥

अथ भरणी नक्षत्र ॥

भरण्याः प्रथमे चांशे सप्तवासरमेव च ॥

मध्ये मृत्युस्तथा चान्ते रोगो मासत्रयावधिः ॥ ५१ ॥

भरणीके प्रथमभागमें सातदिन पीडा रहती है और दूसरेभागमें मृत्यु और तीसरेभागमें तीनमहीनें पीडा रहती है ॥ ५१ ॥

अथ नक्षत्रारिष्टोंका उपसंहार ॥

एवं ज्ञात्वा सुधीः सम्यक्कुर्व्यात्प्रशमनक्रियाम् ॥ नक्षत्रस्य त्रयो भागा
आत्रेयेण प्रकाशिताः ॥ ५२ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे द्विती-
यस्थाने नक्षत्रज्ञानं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

ऐसे जानकै कुशलवैद्य रोगको शांत करनेकी क्रियाको करै नक्षत्रोंके तीनभाग आत्रेयजीनें प्रकाशित किये हैं ॥ ५२ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसुनुवैद्यरविदत्तशास्त्रयनुवादितहा-
रीतसंहिताभाषार्यां द्वितीयस्थाने नक्षत्रज्ञानं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अथ होमकी विधि ॥

आत्रेय उवाच ॥ अर्कः खदिरपालाशबदर्यः पारिभद्रकः ॥ दूर्वा शमी
कुशः काशः पिप्पलो वटभूरुहः ॥ १ ॥ जम्बामौ करहाटश्च सोमवृ-
क्षः कलिद्रुमः ॥ रक्तसारश्वन्दनश्च जयन्ती गुरुवृक्षकम् ॥ २ ॥ सह-
चरी सितावर्षा सर्वौषधिनिशायुगम् ॥ समिद्धर्गः समस्तोऽपि समिद्धोमः
प्रकाशितः ॥ ३ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—आक, खैर, पलाश, बडचेरी, पारिभद्र, दूव, जांठी, कुशा, कांस, पीपलवृक्ष, बडवृक्ष, ॥ १ ॥ जामनवृक्ष, आंववृक्ष, पद्मकंद, श्वेतखैर, बहेडा, लालखैर, चंदन, अरनी, सीसमवृक्ष, ॥ २ ॥ पीलाकुरंटा, सफेदसांठी, सर्वौषधी, अर्थात् कूट, छालछलीरा, हलदी, वच, लोवान, मुरामांसी, चंदन, कपूर, नागरमोथा, और हलदी, दारुहलदी, यह समिद्धर्ग है इससे समिद्धोम होता है ॥ ३ ॥

अथ शांतिप्रकारं ॥

चन्दनं रक्तचन्दनं गोरोचना हरिद्रा गैरिकनिम्बबिल्वं कदम्बं कुंकुममि
श्रितकस्तूरिका घनसारं श्रीपर्णं सुरदारु हरिचन्दनं पद्मकं हरिद्राद्वयं
कालीयकागुरु शिंशपा रक्तगोरोचना पलाश इति गन्धानि, पद्मवि
त्वसुरसादूर्वाकुशजयन्तीशमीपत्रार्ककिंशुककर्णिकारगिरिकर्णिकासहच
रालूपपुष्पाणि जम्बाम्रपल्लवानि काञ्चनारपाटलावर्वरी अगस्तिः काक
काह्वारी अशोकपुष्पमिति धूपदीपादिभिरलङ्कारैरलङ्कृतं वास्तुमण्डलं
कृत्वा ईशानदिक्क्रमेण नक्षत्रमण्डलं चार्चयेत् ॥ तन्मण्डलकमध्ये आ
दित्यादीन् ग्रहान् समभ्यर्च्य क्रमेण समिद्धिर्होमं कुर्यात् ॥ तस्मात्पुन
र्दधिमधुधृताक्ताग्निः समिद्धिरश्विन्यादिक्रमेण जुहुयात् ॥ आकृष्णे
ति अर्कसमिद्धिरिदं अश्विन्यै विष्णोरराटमसीति पलाशेन इदं भर
ण्यै मधुमाध्वीति वदरीसमिद्धिरिदं कृत्तिकायै काण्डात्काण्डेति पारिभद्र
कपूर्वकुशसमिद्धिः रोहिणीमृगशिरःपुनर्वस्वादीन् काण्डेति होमयेत् ॥
इदं देव इति विष्पलसमिद्धिरिदं पुष्याय सप्तत्यग्निमन्त्रेण चूतसमिद्धि
रिदं सार्ष्ण्यै अग्निर्मूर्द्धादिवइति जम्बूसमिद्धिर्मघां होमयेत् ॥ सद्योजाताग्निः
करहाटकसमित्पूर्वसमिद्धिर्होमयेत् ॥ तत्पुरुषाय विद्महे इति सोमवह्नी
समिद्धिरुत्तरात्रयं नमो घोराय विभीतकंसमिद्धिर्हस्तं होमयेत् ॥ नमो
ज्योतिष्पतये रक्तसारसमिद्धिश्रिचां होमयेत् ॥ नमो देवाय नमो ज्ये
ष्ठायेति चन्दनसमिद्धिः स्वात्यै होमं कुर्यात् ॥ उदुम्बरजयन्तीसमिद्धि
र्विशाखां होमयेत् ॥ बृहते इति यदुपतये गुरुवृक्षकसमिद्धिरनुराधां हो
मयेत् ॥ एतज्ज्योतिःसहचरीसमिद्धिर्ज्येष्ठां काण्डात्काण्डेति शतावरीस-
मिद्धिर्मूलमिष्टं स्तौति ॥ निशायुगसमिद्धिः पूर्वाषाढामुत्तराषाढां मधुवा

तेति उदुम्बरसमिद्धिः श्रवणं त्र्यम्बकमिति बिल्वसमिद्धिर्वासवंप्रभृती
नि होमयेत् ॥ घृतेन पूर्णाहुतिं दद्यात् ॥ नवग्रहस्थापनं चतुरस्रेण हो
मकुण्डे होमयेत् ॥ तस्मादभिषेकस्नानमाचरेत् ॥ शुक्लवस्त्रोपवीतं य
ज्ञोपवीतसहितं रोगिणं कृत्वा वेदादिभिराशिष्य गोभूवस्त्रहिरण्या
दिदानं कुर्यात् ॥ इति विधाने कृते सम्यक् शान्तिर्भवति ॥ ४ ॥ इति
आत्रेयभाषिते हारीनोत्तरे द्वितीयस्थाने होमविधिर्नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

चंदन, लालचंदन, गोरौचन, हलदी, गेरू, तीवकी छाल, बेलगिरी, कदंब, केशर, कस्तूरी
कपूर, कमल, देवदार, हरिचंदन, पद्मास, हलदी, दारुहलदी, कालाअगर, अगर, शीसम,
गोरोचन, पलाश, अर्थात् ढाका ये सब गंध हैं श्वेतकमल, बेलगिरी, तुलशी, दूब, कुशा,
गारनी, जांटीके पत्ते, आक, केशू, अमलताश विशेष, विष्णुकांता, नीलाकुरंटा, शतावरी,
इन्होंके फूल, जामन और आंवके पत्ते और कचनार, पाडल, रानतुलशी, अगस्तिवृक्ष,
काकजंघा, अशोक, इन्होंके फूल, धूपदीपआदिसे अलंकृतकिये वास्तुमंडलको कर ईशानआ-
दिके क्रमसे नक्षत्रमंडलकी पूजा करनी तिस मंडलके मध्यमें सूर्यआदिग्रहोंकी अच्छी-
तरह पूजाकर क्रमसे पूर्वोक्त समिधोंसे होमको करै तिससे पीछे फिर दही, शहद, घृत, इन्होंसे
भिगोईहुई पूर्वोक्त समिध अर्थात् लकड़ियोंसे अश्विनीआदिनक्षत्रोंके क्रमकरके होम करै
'आरुष्णेन रजसा' इसमंत्रसे और आककी लकड़ीसे अश्विनीकेलिये होम करै पीछे इदं
अश्विन्यै ऐसे कहै 'विष्णोरराट' इसमंत्रसे ढाककी लकड़ियोंकरके भरणीका होम करै अंतमें
इदं भरण्यै ऐसे कहै 'मधुमाधी' इसमंत्रसे और बडवेरीकी लकड़ियोंसे लत्तिकाका होम करै
'कांडाकांडे' ति इसमंत्रसे और पारिभद्रकुशा इन्होंकरके रोहिणी, मृगशिर, पुनर्वसु,
इनआदिका होम करै 'इदं देव' इसमंत्रसे और पीपलकी लकड़ियोंकरके पुष्यका होम करै
'सप्तत्यशि' इसमंत्रसे और आंवकी लकड़ियोंकरके आश्लेषाका होम करै 'अग्निर्मूर्द्धा'
इसमंत्रसे और जामनकी लकड़ियोंकरके मघाका होम करै 'सद्योजाताभि०' इसमंत्रसे और
श्वेतखैरकी लकड़ियोंकरके पूर्वाका होम करै 'तत्पुरुषाय विद्महे' इसमंत्रसे और लालखैरकी
लकड़ियोंकरके तीनों उत्तराओंका होम करै 'नमो घोराय' इसमंत्रसे और बहेडाकी लकड़ी-
करके हस्तका होम करै 'नमो ज्योतिष्पतये' इसमंत्रसे और लालशीसमकी लकड़ियों
करके चित्राका होम करै 'नमो देवाय नमो ज्येष्ठाय' इसमंत्रसे और चंदनकी लकड़ियों
करके स्वातीका होम करै और इसीमंत्रसे तथा गूलर और अरनीकी लकड़ियों ९ करके
विशाखाका होम करै 'बृहते इतियदुपतये०' इसमंत्रसे और शीसमकी लकड़ियोंकरके अनु-
राधाका होम करै 'एतज्ज्योति०' इसमंत्रसे और पीलाकुरंटाकी लकड़ियोंकरके ज्येष्ठाका

होम करै 'कांडाकांडे'ति इसमंत्रसे और शतावरीकी लकड़ियोंकरके मूलका होम करै नामरूपमंत्रसे और हलदी तथा दारुहलदीकी लकड़ियोंसे पूर्वापाठ और उत्तरापाठका होम करै 'मधुवाता' इसमंत्रसे और गूलरकी लकड़ियोंसे श्रवणका होम करै त्र्यंबकमंत्रसे और बेलपत्रकी लकड़ियोंसे धनिष्ठाआदि और रेवतीतकके नक्षत्रोंका होम करै वृत्तकरके पूर्णाहुतीको देवै नवग्रहोंको चौकुंडीवेदीपै स्थापनकर पीछे होमके कुंडमें होमको करै तिससे पीछे अभिषेकस्नानको करै सफेदवस्त्रोंको पहनेहुये और यज्ञोपवीत अर्थात् जनेहुको धारण किये ऐसे रोगीको बना और वेदआदिके मंत्रोंसे आशीर्वाद दे पीछे रोगी गौ, पृथिवी, सोना, इनआदि दानको करै ऐसे विधानकरनेसे अच्छीतरह शांति होती है इति वेरीनिवासि-
बुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्रयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां द्वितीयस्थाने होमविधिर्नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अथ दूतकी परीक्षाका लक्षण ॥

आत्रेय उवाच॥अथातो गदग्रस्तानां दूतारिष्टं भिषग्वर! ॥ शुभं वाशुभ
मेवान्यत्समासेन प्रचक्ष्यते ॥ १ ॥ आतुरस्योपकारार्थं दूतो याति भिष
गृहे ॥ तस्य परीक्षणं कार्थ्यं येन संलक्ष्यते गदः ॥ २ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे वैद्यवर ! अब रोगोंसे ग्रस्तहुये मनुष्योंका दूतारिष्टको विस्तारसे कहताहूँ जो शुभ और अशुभ होता है ॥ १ ॥ रोगीका उपकारके लिये जो दूत वैद्यके घरको जाता है तिसका परीक्षा करनी चाहिये जिसे रोगका शुभाशुभ मालूम होवै ॥ २ ॥

अथ वर्ज्यदूतके लक्षण ॥

खआन्धमूकबधिरं रुजपीडितं वा बालं स्त्रियञ्च विकलं तृपितं विजि
र्णम् ॥ श्रान्तं क्षुधातुरमपि भ्रमितञ्च दीनं दूतं न शस्तमिह वेदविदो वद
न्ति ॥ ३ ॥ कषायरुष्णार्द्रकवाससा च तथैव वस्त्रावृतमस्तकेन ॥ अश्रु
प्लुतैर्वा नयनैश्च युक्ताः केशैस्तथा मुण्डितमस्तकश्च ॥ ४ ॥ समर्कटा
क्षोर्ध्वशिरोरुहश्च खर्वस्तथा वामनकृत्तनासः ॥ एतान्न शंसन्ति विदो

मुनीन्द्रा दूतान्तराणां रुजनाशनाय ॥ ५ ॥ यः कर्कशः क्रोधनपाश
 पाणिर्भिषग्विदूषी तमसादृतश्च ॥ एते न शस्ताः प्रवदन्ति धीरा दूता
 विकारश्च प्रवर्द्धयन्ति ॥ ६ ॥ यः काष्ठहस्तोद्धतपाशापाणिस्तथातुरो
 दीनवचो हि रोदिति ॥ प्रक्लिन्ननेत्रो गमनोत्सुकोऽपि वर्ज्यो रूगार्त्तोऽशु
 भकारिदूतः ॥ ७ ॥ यो रज्जुहस्तोद्धतपाशापाणिर्याम्यां दिशश्च परिभूय
 तूर्णम् ॥ यो वावदीति प्रबलं सरोषस्तथा समागम्य वदेच्च दूतः ॥ ८ ॥
 लगुडं हस्तेऽवष्टम्य वक्रपादेन तिष्ठति ॥ तस्मादाकुलवादी यो न शस्तो
 वैद्यकर्मसु ॥ ९ ॥ पथा गच्छति शीघ्रेण आविश्योत्थाय मुञ्चति ॥ पा
 दौ प्रसार्य विशति मस्तके विन्ध्यसेत्करम् ॥ १० ॥ भिनन्ति लोहका
 ष्च तृणं वा स्फोटने क्वचित् ॥ एतानि स्पृशते नासां स्तनं वा स्पृशति
 पुनः ॥ ११ ॥ भूमिं लिखति पादेन रेखां वापि करोति यः ॥ निद्रां
 वा कुरुते यस्तु स दूतोऽनिष्टकारकः ॥ १२ ॥

लंगडा, अंधा, गुंगा, बहिरा, रोगसे पीडित, बालक, स्त्री, विकल, तृपावाला, अतिवृद्ध,
 परीश्रमको प्राप्तहुआ, भूखसे पीडित और भ्रमवाला और दीन ऐसे दूतको वैद्य श्रेष्ठ नहीं कहते
 हैं ॥ ३ ॥ रंगाहुआ और काला और गीला वस्त्रसे युक्त और वस्त्रसे आवृतहुये मस्तकवाला
 और आंशुओंसे भीजेहुये नेत्रोंवाला और जटाजूटहुआ और मुंडायेहुये शिरके वालोंवाला
 ॥ ४ ॥ और वानरकेसे नेत्रोंवाला और ऊपरको खुलेहुये वालोंवाला और ढींगना तथा
 कटीहुई नासिकावाला ऐसे दूतोंको मुनीन्द्र रोगका नाशकेलिये श्रेष्ठ नहीं कहते हैं ॥ ५ ॥
 जो कठोरहो, क्रोधीहो और फांसीको हाथमें लेनेवाला और वैद्यको दोष लगानेवाला और
 तमोगुणसे संयुक्त ऐसे दूत अच्छे नहीं हैं किंतु ये दूत विकारको बढ़ाते हैं ॥ ६ ॥ जो काष्ठ-
 को हाथमें लियेहो और ऊपरको हाथकिये फांसीको ग्रहण करनेवालाहो, रोगीहो और
 दीनवचनको बोलके रोताहुआ है और भीजेहुये नेत्रोंवाला हो और गमन करनेकी इच्छावा-
 ला हो ऐसा अशुभको करनेवाला दूत वर्जना चाहिये ॥ ७ ॥ जो रज्जुको हाथमें लेके उप-
 रको लियेहुये हो और फांसीको हाथमें लियेहुये हो और जो दक्षिणदिशामें प्राप्तहोके क्रोध-
 से वारंवार बोलै और वैद्यकसेभी दक्षिणदिशामें स्थितहोके बोलै ऐसा दूत श्रेष्ठ नहीं है ॥ ८ ॥
 जो लकड़ीको हाथमें लेके डेढ़पैरसे स्थितहोवै और बुरे वचनको बोलै ऐसा दूत वैद्यकर्ममें
 श्रेष्ठ नहीं है ॥ ९ ॥ जो मार्गमें शीघ्र गमनकों करै बैठता और उठताहुआ मोहको प्राप्त और

पैरोंको पसारकै प्रवेश करै और मस्तकपै हाथको स्थापित करै ॥ १० ॥ लोहा, काठ, तृण, इन्होंमेंसे एककोईसेको भेदित करै अथवा इन्होंको छुहै नासिका और चूचीको छुहै ॥११॥ पृथिवीको पैरसे खोदै अथवा पृथिवीमें रेखाको करै अथवा नींदको प्राप्तहुआ हो वह दूत बुरा कहा है ॥ १२ ॥

शुभदूतके लक्षण ॥

यः श्वेतवस्त्राद्यतपूर्णपाणिः सम्पूर्णताम्बूलमुखः प्रशस्तः॥द्विजस्तथा माण
वंकः सुशीलः प्रज्ञाधिकश्चाह्वयते सुखाय ॥१३॥ कुसुममुकुरवक्त्रं यस्य
स्यात्सर्वदापि श्रमविकचसरोजपद्मकिञ्जल्कपुष्पम्॥ करतलवरवक्त्रं पुष्प
पूगाङ्गरागं करतलधृतमेतत्सौख्यकर्त्ता हि दूतः॥१४॥ आगत्योदीच्यपूर्वा
मथवरुणदिशमैशीमाश्रित्य शान्तो दृष्ट्वा वैद्यं प्रहस्य प्रवदति निपुणं
नातिनीचं नचोच्चम्॥उत्तिष्ठ त्वं प्रसादं कुरु पवन इदं सौख्यवाक्यं तनोति
प्राज्ञैःस्वार्थं प्रकृष्टं सुखमगदकरं रोगिणां वैद्यलाभः ॥ १५ ॥ पूर्वा दिशं
समासाद्य प्रशान्तः शान्तया गिरा ॥ वैद्यं वदति लाभाय रोगिणाञ्च
सुखावहम् ॥ १६ ॥ यश्चागत्योपविष्टोऽपि श्लोकं वाच्य सुभाषितम् ॥
वदते शान्तया वाचा सोऽपि लाभाय शान्तये ॥ १७ ॥ अग्निवाद्यस्य
वैद्यस्य क्षेमं पृच्छति यः पुनः ॥ फलं ददाति पुष्पं वा रोगिणाञ्च
सुखावहम् ॥ १८ ॥

जो सफेद वस्त्रोंको पहनेहुये और किसीचीजको हाथमें लियेहुये और नागरपानको मुखमें धारणकिये और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनवर्णोंमें उपजाहुआ और बालक तथा शीलस्वभाव-वाला और बुद्धिमान ऐसा दूत वैद्यको बुलानेमें सुखको देता है ॥ १३ ॥ जिसका मुख फूल तथा शीसाके समान स्वच्छ सबकालमें रहै और श्रमसे खिलेहुये कमलोंकी केसर और पुष्पों-वालाहो और हस्तोंके तलुओंपरभी वस्त्रको धारणकियेहो अनेकप्रकारके फूल और सुपारी-करकै रंजितकिये अंगोंवालाहो अथवा फूल और सुपारीको हाथमें धारणकियेहो ऐसा दूत सुखको देनेवाला है ॥ १४ ॥ जो आकै उत्तरको, व पूर्वको, व पश्चिमको, व ईशानदिशामें बैठ और वैद्यको देख हसताहुआ न ज्यादै ऊंचेप्रकारसे और न ज्यादै नीचेप्रकारसे बोलै कि हेवैद्यराज ! उठकै प्रसन्नता करो ऐसे शुभवचनको कहै ऐसा दूत रोगियोंके रोगको नाशनेके लिये शुभ कहा है ॥१५॥ जो पूर्वदिशामें आश्रित होकै प्रशांतहुवा दूत शांतवाणीसे वैद्यको बोलता है वह दूत वैद्योंको सुखका देनेवाला कहा है ॥१६॥ जो आकै श्लोकको अथवा सुंदर वच-

नको शांतवाणीसे बोलै वहभी दूत शुभ कहा है ॥१७॥ जो दूत वैद्यको प्रणामकर फिर कुशलको पूछ फलको अथवा फूलको देता है वह रोगियोंके सुखका देनेवाला है ॥ १८ ॥

अथ दूतलक्षणोंका उपसंहार ॥

यस्य सौख्यं सुखं सिद्धिस्तस्य दूता इदं विदुः ॥ किमत्र बहुनोक्तेन
दूतो नरसुखावहः ॥ १९ ॥ न हितमस्त्रीपुरुषं तस्मात्तु परिवर्जयेत् ॥ ए
वं जानाति यो वैद्यस्तस्य सिद्धिः सुखं श्रियः ॥ २० ॥ इति आत्रेयभा.
षिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने दूतपरीक्षणलक्षणं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥८॥

जिसरोगीको सुख और सिद्धिकी प्राप्ति होनेवाली है तिसके दूत इस पूर्वोक्त वचनको बोलते है ज्यादै कहनेसे क्याहै दूतही मनुष्यको सुखका देनेवाला है ॥१९॥ हीजडादूत कर्ममें हित नहीं है तिससे इसको वर्ज्यै ऐसे जो वैद्य जानता है तिसको सिद्धि, सुख, लक्ष्मी, इन्होंकी प्राप्ति होती है ॥ २० ॥ इति वेरीनिवासिनुधशिवसहायसनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारी-
तसंहिताभाषायां द्वितीयस्थाने दूतपरीक्षणलक्षणं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

अथ शकुनवर्णन ॥

आत्रेय उवाच ॥ इदानीं निर्गमे पुत्र ! प्रवेशे वा गृहस्य च ॥

शुभाशुभानि सर्वाणि वक्ष्यामि शकुनानि च ॥ १ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे पुत्र ! अब वैद्यके चलनेमें और रोगीके घरमें प्रवेश करनेमें शुभ और अशुभ जो शकुन हैं तिन्होंको कहताहूं ॥ १ ॥

अथ शुभ शकुन ॥

राजा गजो द्विजमयूरकरवज्ररीटाश्रापः शकुन्तरजकः सितवस्त्रयुक्तः ॥
पुत्रान्विता च युवती गणिका च कन्या श्रेयःसुखाय यशसे प्रतिदर्शय
न्ति ॥ २ ॥ लट्टा श्येनो भासहारीतचक्रो भारद्वाजश्छिक्करश्छागसंज्ञः ॥
एते श्रेष्ठा दक्षिणे सव्यवामे वैद्यावेशे निर्गमे श्रेयसे च ॥ ३ ॥

राजा, हस्ती, ब्राह्मण, मोर, खंजना, पपैय्या, सफेदवस्त्रोंवाला, घोषी, पुत्रसे युक्तहुई स्त्री, वेश्या, कन्या, प्रथम देखेहुये ये शकुन यशको और सुखको देते हैं ॥ २ ॥ गाममें रहनेवाली चिडिया, शिकरा, भासपक्षी, तिलगिरुपक्षी, चकुवा, मुर्गाविशेष, छिक्कर, बकरा, ये सब वैद्यके चलने और प्रवेश करनेमें दाहिने और वामे श्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ :

अथ दुष्ट शकुन ॥

सर्पोलूको वानरः सूकरश्च गोधा ऋक्षः कृकलासः शशश्च ॥ एतेऽरिष्टा
निर्गमे वा प्रवेशे कार्घ्ये निर्घातोपकारेषु शस्ताः ॥ ४ ॥

सर्प, उल्लू, वानर, सूकर, गोह, रीछ, किरलिया शशा, ये सब वैद्यके गमन और प्रवेशमें अच्छे नहीं हैं और घात करनेके कार्घ्यमें येभी शकुन अच्छे हैं ॥ ४ ॥

अथ मृगादिकोंका शकुन ॥

मृगो वा पिङ्गलो वापि प्रशस्तो दक्षिणे सदा ॥
निर्गमे वा प्रवेशे च दक्षिणे शुभदायकः ॥ ५ ॥

मृग अथवा उल्लू सबकालमें दाहिनें श्रेष्ठ है और वैद्यके गमनमें तथा प्रवेशमेंभी दाहिनेंही शुभको देते हैं ॥ ५ ॥

अथ मृगोंके संख्याका शकुन ॥

एको वा त्रयो वा पञ्च सप्त वा नवसंख्यया ॥
भाग्यकाले नराणान्तु मृगा यान्ति प्रदक्षिणाः ॥ ६ ॥

एक अथवा तीन अथवा पांच अथवा सात अथवा नव ऐसी संख्याके मृग मनुष्योंके भाग्यकालमें दाहिनें गमन करनेवाले श्रेष्ठ हैं ॥ ६ ॥

अथ मोरआदिकोंका शकुन ॥

शिरवी च भवनगोधा रासभो भृङ्गराजः पिकभषणकपोताः पोतकी सू
करी वा ॥ तदनु विहगराजो दीर्घकण्ठादयः स्युर्वदति शकुनवेत्ता वाम
तो निर्गमे वा ॥ ७ ॥ तित्तिरः क्रकरः क्रौञ्चसारसा ज्ञाससूकराः ॥ खगः
किरीटी वामे तु सदा शुभतरा मताः ॥ ८ ॥ भवन्ति निर्गमे चैते सर्वका
र्यसुसिद्धये ॥ ९ ॥

मोर, घरमें रहनेवाली गोह, गधा, धूम्याटपक्षी, कोयल, कुत्ता, कयूतर, कालीचिडी, शूरी, नीलटांच, अथवा गीध, बगला इनआदि वैद्यके गमनमें वामें श्रेष्ठ हैं ऐसे शकुनको जाननेवाले कहते हैं ॥ ७ ॥ तीतर, करद्वौकपक्षी, कुंज, सारस, भास, शूर, चील, किरीटी, ये पक्षी सबकालमें वामें श्रेष्ठ हैं ॥ ८ ॥ ये सब वैद्यके गमनमें सर्वकार्यसिद्धिकेवास्तै श्रेष्ठ हैं ॥ ९ ॥

अथ काकशकुन ॥

काको दक्षिणतः श्रेष्ठो निर्गमे शुभदायकः ॥

प्रवेशे गदितः श्रेष्ठो वामतः कृष्णवायसः ॥ १० ॥

वैद्यके गमन करनेमें काक दाहिनें श्रेष्ठ और शुभदायक है और वैद्यके प्रवेशमें काला-
काग वामे श्रेष्ठ कहा है ॥ १० ॥

अथ जाहशशाआदिकोका शकुन ॥

जाहकोऽपि शशकोऽपि मर्कटःकीर्त्तनञ्च गदितं न सुरवाय ॥ न वै ना
म न च दर्शनमेषां सर्पगोधाककलासविडालाः ॥ ११ ॥ दर्शनं हितकरं
प्रवदन्ति खञ्जरीटकमरालच्छिक्कराः ॥ नामतः शुभकराः प्रवदन्ति दार्वघा
टवरटकौ शुक्लश्च ॥ १२ ॥

जहा, शशा, वानर, और इन्होंका कीर्त्तन करना, घोडना, और सर्प, गोह, किरलिया,
विलाव, इन्होंका नाम और देखनाभी हित नहीं है ॥ ११ ॥ खंजना, राजहंस, खातीचिडा,
गांधीलमाखी, तोता, इन्होंके नाम और दर्शन वैद्यको श्रेष्ठ हैं ॥ १२ ॥

अथ गमनसमयके विविधपदार्थदर्शनशकुन ॥

निर्गमे विविधकार्यसिद्धये भृङ्गराजरजतं पयो जलम् ॥ मत्स्यमांसरुधि
रं मृतकं वा धौतवासमुकुरं पिधानकम् ॥ १३ ॥ मार्गं छिन्दन्ति मार्जाराः
सर्पा वा ककलासकाः ॥ गोधा वापि प्रवेशे च पदमेकन्तु न व्रजेत्
॥ १४ ॥ प्रस्वलन्ति पादशिरसो वसनानि स्खलन्ति वा ॥ विक्रुष्टं वचनं
श्रुत्वा पदमेकन्तु न व्रजेत् ॥ १५ ॥ गृहाणां ज्वलनं दृष्ट्वा भिद्यते सज
लं घटम् ॥ पतनं भूरुहाणाञ्च दृष्ट्वा कुर्यान्न चङ्गमम् ॥ १६ ॥ आक्रो
शवचनं श्रुत्वा मार्जाराणां रुतं तथा ॥ कलहं गृहलोकस्य दृष्ट्वा चङ्गम
णं न च ॥ १७ ॥ कनककङ्कणमेव विभूषणं सफलपुष्पमथासववारुणी ॥
फलमशोककरं ज्वरिणां तदा शुभकरो हि भवति भिषक् सदा ॥ १८ ॥

वैद्यके गमनमें अनेक कार्योंकी सिद्धिके लिये भोरा, चांदी, दूध, पानी, मछली, मांस,
रक्त, मुरदा, धोयाहुआ वस्त्र, आच्छादितहुआ शीशा, इन्होंको देखना हित है ॥ १३ ॥ वैद्यके
प्रवेश करनेमें विलाव, सर्प, किरलिया, गोह, ये मार्गको छेदितकरैं तब एकपैरभी नहीं चलना

॥ १४ ॥ पैर और शिथिल होजावै अथवा कपडे ढीले होजावैं और बुरावचन, सुनाजावै तब एकडंघभी गमन नहीं करना ॥ १५ ॥ गमनकरनेमें जलताहुआ घर दीखे और पानीसे भराहुआ कलशा फूटजावै और वृक्ष गिरपडै इन्होंको देखकर गमन नहीं करना ॥ १६ ॥ क्रोधके वचनको और बिलावके रोदनको और मनुष्योंके कलह अर्थात् लडाईको देखकर गमन नहीं करना ॥ १७ ॥ सोनाका कंकणआदि गहना, फल, फूल, आसव, मदिरा, सुखको देनेवाला, फल इन्होंको जो वैद्य गमनमें देखै तो ज्वर रोगियोंको सुख होता है ॥ १८ ॥

अथ शकुनाध्यायका उपसंहार ॥

एवं ज्ञात्वा परमनिपुणं पानमन्नादिकानां वीर्यं चैषां गुणमपि तथा कोपनं कोपवेगम् ॥ आदानं वा पुनरपि चयं कोपनस्योपचारं वैद्यो विद्वान्भवति भवने पूजितो राजलोकैः ॥ १९ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे द्वितीयस्थाने शकुनवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ द्वितीयं स्थानं समाप्तम् ॥ २ ॥

ऐसे परमनिपुण पानको और अन्नआदिके वीर्य तथा गुणको और कोपको और कोपके वेगको और आदान और चयको और कोपनके उपचारको जानकै वैद्य स्थानमें राजालोगोंसे पूजाके योग्य होता है ॥ १९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्त्रुवैद्यरविदत्तशास्त्र-नुवादितहारीतसंहिताभाषायां द्वितीयस्थाने शकुनकथनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

यहां द्वितीयस्थान समाप्तहुआ ॥ २ ॥

अथ तृतीयस्थानम् ॥

अथ प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

—:०:—

अथ औषधपरिज्ञानविधान ॥

आत्रेय उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि रोगसङ्करकारणम् ॥ श्रमाद्वा
यामरोधाद्वा चिन्ताशोकभयादपि ॥ १ ॥ क्रोधादौषधगन्धेन क्षयाद्वातो
विशेषतः ॥ उदीर्य्य कोष्ठादग्निश्च रक्तपित्तं तथा बहिः ॥ त्वचाश्रितश्च स
म्भूय ज्वरं तस्मात्करोति हि ॥ २ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—अब रोगोंके मिलापके कारणको कहताहूँ परिश्रमसे और कसरतको
नहीं करनेसे और चिन्ता, शोक, भय, इन्होंने ॥ १ ॥ और क्रोधसे और औषधीके गंधसे
और विशेषकरके धातुके क्षयसे कोष्ठके अग्निको बढ़ाके और खालके बाहिर आश्रितहुये
रक्तपित्तको तिरस्कृतकर चस्तिसे ज्वरको करता है ॥ २ ॥

अथ ज्वरसं उत्पन्न होनेवाले रोग ॥

उक्तहेतुर्ज्वरो वापि ज्वरान्मन्दज्वरो भवेत् ॥ ३ ॥ मन्दान्मन्दतमो ज्ञेयस्त
स्मादम्लानिसेवनात् ॥ जायते कामलस्तस्मात्प्ररूढे स्याद्दलीमकम्
॥ ४ ॥ हलीमकाद्भवेत्पाण्डुस्तस्माद्यस्मात्प्रकीर्त्तिताः ॥ यक्ष्मणो जा
यते शोफः शोफाद्दुदरमेव च ॥ ५ ॥ तस्माद्गुल्मश्च वातार्थं गुल्माच्छ्वा
सोऽथ शूलिता ॥ मन्दाग्निं भवेत्तस्मात्स्वरभेदोऽथ रोधनः ॥ ६ ॥
एतेषां सर्वरोगाणामुत्पत्तिः स्याज्ज्वरेण तु ॥ ज्वरेण मृत्युर्विज्ञेयो न मृत्युः
स्याज्ज्वरं विना ॥ ७ ॥

ऐसे कहेहुये कारणवाला ज्वर है तिस ज्वरसे मंदज्वरभी होता है ॥ ३ ॥ और मंदज्वरसे
अतिमंदज्वर होता है तब खटे पदार्थको अत्यंत सेवनेसे कामलारोग उपजता है और तिससे
हलीमकरोग उपजता है ॥ ४ ॥ और हलीमकसे पांडुरोग उपजता है राजरोगसे शोजारोग
उपजता है और शोजारोगसे उदररोग उपजता है ॥ ५ ॥ तिस उदररोगसे वातका गुल्मरोग
उपजता है और गुल्मसे श्वासरोग और शूल उपजता है तिस शूलसे मंदाग्निरोग और मंदा-

ग्रिसे स्वरभेदरोग उपजता है ॥ ६ ॥ ज्वरसे सब रोगोंकी उत्पत्ति होती है ज्वरसे मृत्यु होता है विशेषकरकै ज्वरकेविना मरण नहीं होता है ॥ ७ ॥

अथ ज्वरसें उत्पन्न होनेवाले अन्यप्रकारके रोग ॥

शृणु भेषजरोगज्ञ ! द्वितीयं रोगसङ्करम् ॥ मन्दज्वरो भवेन्नृणामतीसारस्त
तो ज्वरः ॥ ८ ॥ तेन चापि भवेद्विक्का शोषो मोहो भ्रमोऽरुचिः ॥ एते
षां शोफतो मृत्युस्तृतीयः कथ्यतेऽधुना ॥ ९ ॥

हे औषध और रोगको जाननेवाले! दूसरे रोगसंकरको सुन मनुष्योंके मंदज्वर होता है
तिस्से अतीसार उपजता है ॥ ८ ॥ और तिस्से हिचकी, शोष, मोह, भ्रम, अरुचि, ये रोग
उपजते हैं इनसबोंकी शोजासे मृत्यु होता है अब तिसरा रोगसंकर कहाजाता है ॥ ९ ॥

अथ दिनमें शयनकरनेसे होनेवाले रोग ॥

दिवास्वप्नादिदोषैर्वा प्रतिश्यायश्च जायते ॥ तस्मात्कासः समुद्दिष्टः कासात्पी
नस एव च ॥ १० ॥ तस्मात्क्षयः क्षयाच्छोफो शोफेनाऽपि मृतिं व्रजेत् ॥

दिनमें शयन करनेआदिसे जुखाम उपजता है तिस जुखामसे खांसी और खांसीसे पीनस
उपजता है ॥ १० ॥ और पीनससे क्षय और क्षयसे शोजा उपजता है और शोजासे
मरजाता है.

अथ महाभयंकर रोग ॥

ज्वरः क्षयश्च यक्ष्मा च कुष्ठगुल्मार्शःसंग्रहाः ॥ ११ ॥ शर्करा मेह उ
न्माद अपस्मारो भगन्दरः ॥ एते महाघोरतरा याप्यं कुर्वन्ति मानवम् ॥ १२ ॥

और ज्वर, क्षय, राजरोग, कुष्ठ, गुल्म, ववासीर, ॥ ११ ॥ शर्करा, प्रमेह, उन्माद, मृगी-
रोग, भगंदर, ये अत्यंतमहाघोर रोग हैं ये मनुष्यको कष्टसाध्य करदेते हैं ॥ १२ ॥

अथ सर्वव्याधियोंका हेतु ॥

वातपित्तादयो दोषास्तथा श्लेष्मसमुद्भवाः ॥

जायन्ते व्याधयः सर्वे तेषां वक्ष्याम्युपक्रमम् ॥ १३ ॥

वात और पित्तसे तथा कफसे उपजे सब रोग होते हैं तिन्हेंके उपचारको कहताहूं ॥ १३ ॥

अथ वातादिदोषोंका पाचनकाल ॥

वातः पचति सप्ताहान्निरात्रात्पित्तमेव च ॥ श्लेष्मा सार्द्धदिनेनापि विप
चेद्भिषजां वर ! ॥ १४ ॥ द्वन्द्वजं वातपित्तञ्च नवरात्रेण पच्यते ॥ श्ले

ष्मवातौ दशाहेन पञ्चाहात्पित्तश्लैष्मिकम् ॥ १५ ॥ शमनाय च द्वन्द्वानां तुर्घ्याहात्पाचनं तथा ॥ त्रिदोषस्य च घोरस्य पाचनं द्वादशे दिने ॥ १६ ॥ सन्निपातश्च पचति चतुर्दशदिनैरपि ॥

वातदोष सातदिनमें पकता है पित्तदोष तीनदिनमें पकता है हे वैद्यवर ! कफदोष डेढदिनमें पकजाता है ॥ १४ ॥ मिलेहुये वात पित्त ९नवदिनोंमें पकते हैं मिलेहुये कफ और वात दशदिनमें पकते हैं मिलेहुये पित्त और कफ पांचदिनमें पकते हैं ॥ १५ ॥ मिलेहुये दो दोषोंकी शांति-के लिये च्यार दिनमें पाचन हित है और घोररूपत्रिदोषमें बारमेंदिन पाचन हित है ॥ १६ ॥ चौदहदिनोंकरके सन्निपात पकता है.

अथ पाचनादिक्रियाका समय ॥

ज्ञात्वा दोषबलं पक्वं तस्माद्देयन्तु पाचनम् ॥ १७ ॥

युक्तं निदानलक्षैस्तु तस्मात्संशमनक्रिया ॥

सो दोषका पाकके बलको जान पीछे पाचन देना चाहिये ॥ १७ ॥ निदानके लक्षणोंसे युक्तहुयेको जान पीछे संशमनक्रिया करनी.

अथ धातुगतदोषोंका पाचनकाल ॥

सप्ताहेनापि पच्यन्ते सप्तधातुगता मलाः ॥ १८ ॥ चिरादपिहि पच्यन्ते सन्निपातज्वरे मलाः ॥ विरामश्चाप्यतः प्रोक्तो ज्वरः प्रायोऽष्टमेऽहनि ॥ न भवेत्सप्तमेऽहनि विरामज्वरकारणम् ॥ १९ ॥

और सातधातुओंमें प्राप्तहुये दोष सातदिनोंमें पकजाते हैं ॥ १८ ॥ विशेषकरके आठमेंदिन ज्वरका विराम होता है कारण सातमेंदिन ज्वरकी शांतिका कारण नहीं होता ॥ १९ ॥

अथ अपक्वदोषमें औषधका निषेध ॥

विचार्य्य भेषजं दद्यादजीर्णं मतिमान्निषक् ॥

मन्दो हि सुतरामग्निर्भेषजं न विपाचयेत् ॥ २० ॥

तब विचारकर बुद्धिमान् वैद्य औषधको नवीनज्वरमेंही देवै क्योंकि अतिमंदहुआ तिनहोंके अग्नि औषधको नहीं पकाता है ॥ २० ॥

अथ लङ्घनका उपचार ॥

सर्वेषु दोषशामेषु पाचनं लङ्घनं स्मृतम् ॥

इसवास्ते सबमकारसे दोषको शांतकरनेके लिये पाचनही लंघन कहा है ॥

अथ लंघनप्रकरण ॥

लङ्घितं मध्यलङ्घितं स्यादतिलङ्घितमेव च ॥ २१ ॥

लक्षणं वक्ष्यते चैषां मनुष्याणां शृणुष्वहि ॥ २२ ॥

मनुष्योंके लंघन, मध्यलंघन, अतिलंघन, इनभेदोंसे लंघन, तीनप्रकारका है ॥ २१ ॥
इन्होंके लक्षण कहेजाते हैं वे मेरेसे सुन ॥ २२ ॥

अथ शुद्धलंघितका लक्षण ॥

गतक्लमो रुचिर्म्लानिरिन्द्रियाणां प्रसन्नता ॥

लङ्घने दोषपाकस्तु शुद्धलङ्घितलक्षणम् ॥ २३ ॥

ग्लानि जातीरहै रुचि उपजै और इंद्रियोंकी प्रसन्नता रहै और लंघनमें दोष पकजावै ये शुद्धलंघनके लक्षण हैं ॥ २३ ॥

अथ मध्यमलंघितका लक्षण ॥

किञ्चिक्लमो रुचिर्ग्लानिरिन्द्रियाणां विवर्णता ॥ बहुत्पृणाल्पक्षुच्चापि
श्रमश्चैव त्रिषग्वर ! ॥ २४ ॥ किञ्चित्संस्निग्धता गात्रे रुचिवाधातिबन्ध
ता ॥ मध्यपाकी च दोषः स्यान्मध्यलङ्घितलक्षणम् ॥ २५ ॥

कछुक ग्लानि रहै रुचिभी अल्पहो इंद्रियोंका वर्ण बदलजावै बहुत तृषा लगै और भ्रूत
लगै नहीं और परीश्रम उपजै ॥ २४ ॥ और शरीरमें कछुक चिकनाईपना उपजै रुचिकी
पीडा हो और बंधापडजावै और दोषभी कछुक पकै और कछुक नहीं पकै ये मध्यलंघितके
लक्षण है ॥ २५ ॥

अथ अतिलङ्घितका लक्षण ॥

वैकल्यं जायते तन्द्रा विद्भेदश्च विनिद्रता ॥ वेपथुश्च शिरोऽर्त्तिश्च क्षु
त्क्षामं शूलमेव च ॥ २६ ॥ श्यावास्यं प्लावनं नेत्रे मूर्च्छामोहश्रमातुरम् ॥
अतिलङ्घितमेतैस्तु लक्षणं संविभावयेत् ॥ २७ ॥

विकल्पना, तंद्रा, विष्ठाका पतलापन, ये उपजै और नींद आवै नहीं, कांपै और
पैरमें दर्दहो अल्प भ्रूत लगै और शूल उपजै ॥ २६ ॥ कालामुख होजावै और नेत्रोंसे पानी-
क्षिरै, और मूर्च्छा, मोह, परिश्रम, इन्होंसे पीडितहो ये सब लक्षण अतिलंघनके हैं ॥ २७ ॥

अथ लङ्घितकरनेमें अयोग्य रोगी ॥

वेलाज्वरे भूतज्वरे तथा पित्तज्वरेऽपि च ॥ आयासे क्रोधजे वापि भय
कामज्वरेऽपि च ॥ २८ ॥ एतेषां लङ्घनं नैव कारयेद्विषगुत्तमः ॥ २९ ॥
वालं वृद्धं कशं क्षीणमतीसारव्रणातुरम् ॥ गुर्विणीं सुकुमारञ्च न लङ्घये
त्कदाचन ॥ ३० ॥

वेलाज्वर, भूतज्वर, पित्तज्वर, परिश्रमका ज्वर, क्रोधज्वर, भयज्वर, कामज्वर, ॥ २८ ॥
इन्होंने वैद्य लंघन नहीं करवाए ॥ २९ ॥ बालक, वृद्ध, कश, क्षीण, अतीसाररोगी, घावरोगी,
गर्भवाली स्त्री, कोमल मनुष्य, इन्होंने कभीभी लंघन नहीं कराना ॥ ३० ॥

अथ लंघनकरनेयोग्य रोगी ॥

सामे मन्दज्वरे तीव्रे रुचिविड्बन्धकैऽपि च ॥ अजीर्णं तु प्रशस्तञ्च लङ्घ
नं मात्रयान्वितम् ॥ ३१ ॥ स्निग्धत्वञ्चातिगात्राणामुदरं गर्जयेद्भृशम् ॥
शिरोऽत्तिर्जठराध्मानः प्रतप्तं कण्ठकूजनम् ॥ ३२ ॥ अरुचिः पीतता मूत्रे
निद्रातन्द्रातुरं नरम् ॥ आमज्वरञ्च विज्ञाय लङ्घयेद्विषगुत्तमः ॥ ३३ ॥

आमसहित मंदज्वर, तीक्ष्णज्वर, अरुचि, विठाका बंधा, अजीर्ण, इन्होंने उन्मानसे
लंघन कराना श्रेष्ठ है ॥ ३१ ॥ शरीरके अंग अत्यंत चिकने होजावै और पेट अत्यंत बोलै
शिरमें पीडाहो और पेटमें अफारा उपजै और निरंतर कंठ बोलवा रहै ॥ ३२ ॥ और अरु-
चि हो नेत्रोंमें पीलापन उपजै नींद और तंद्रासे रोगी पीडित होवै ये आमज्वरके लक्षण हैं
इस रोगवालाको कुशल वैद्य लंघन करवावै ॥ ३३ ॥

अथ छःप्रकारके लंघन ॥

अनशनवमनविरेचनरक्तस्रुतितप्ततोयपानैः ॥

स्वेदनकर्मसहितैः षड्विधं लङ्घनं गदितम् ॥ ३४ ॥

नहींखाना, वमन, जुलाव, रक्तका निकासना, गर्मपानीको पीना, स्वेद अर्थात् पसीनाका
देना इनभेदोंसे लंघन छःप्रकारका कहा है ॥ ३४ ॥

अथ विरतज्वरलक्षण ॥

क्षुक्षामं श्रमशैथिल्यं भ्रमवेगज्वरातुरम् ॥

अन्तर्दाहं रक्तमूत्रं विरामज्वरलक्षणम् ॥ ३५ ॥

भूख थोड़ी लगी श्रमसे शिथिलपनाहो और भ्रम, वेग, ज्वर, इन्होंने रोगी पीडितहोवै और शरीरके भीतर दाह रहै और लालमूत्र उतरै ये विरामज्वरके लक्षण हैं अर्थात् ये लक्षण उपजै तब जाननाकि ज्वर उतरनेवाला है ॥ ३५ ॥

अथ दोषपरत्वसे लंघनकी मर्यादा ॥

वातिको लङ्घनैः षड्भिः पैत्तिकस्तु दिनत्रयम् ॥ सप्तभिः पचते श्लेष्मा
दृष्ट्वा लङ्घनमाचरेत् ॥ ३६ ॥ त्रिदोषो दशरात्राणि पचते लङ्घनैस्तु सः ॥
दिने पञ्चदशे प्राप्ते पचते सान्निपातिकः ॥ ३७ ॥ मुञ्चेद्वा आतुरं हन्ति भवे
द्वा विषमज्वरः ॥

वातदोष छः लंघनोंसे पकता है पित्तदोष तीनदिनमें पकता है कफदोष सातलंघनोंसे पकता है ऐसे देखकै लंघनका आचरण करै ॥ ३६ ॥ त्रिदोष लंघनोंसे दशदिनकरकै पकता है और पंद्रहदिनोंकरकै सन्निपातदोष पकता है ॥ ३७ ॥ इनकालोंमें ये दोष रोगी को छोड़देते हैं अथवा मारते हैं किंवा विषमज्वरको उपजाते हैं.

अथ वयपरत्वसे दोषोंके कोपका प्रकार ॥

वाल्ये रक्तमया दोषाः कफपित्तादनंतरम् ॥ ३८ ॥ षोडशे तु समे प्राप्ते
त्रिदोषप्रभवा गदाः ॥ पञ्चविंशतिमे प्राप्ते ज्वरो वै सान्निपातिकः ॥ ३९ ॥

मनुष्यकी बालकअवस्थामें रक्तकी प्रधानतावाले दोष रहते हैं पीछे कफ और पित्तकी अधिकतावाले दोष होजाते हैं ॥ ३८ ॥ सोलमावर्ष प्राप्त होतेही सन्निपातसे रोग उपजते हैं और विशेषकरकै पञ्चीसवर्षतक सन्निपातसे ज्वररोग उपजता है ॥ ३९ ॥

अथ ज्वरवालेकू काथ देनेका समय ॥

वातपित्तकफैरेव रसरक्तसमुच्चयात् ॥

जायते यो ज्वरः सम्यक् पक्के काथं तु दापयेत् ॥ ४० ॥

वात, पित्त, कफ, रस, रक्त, इन्होंने संचयसे जो ज्वर उपजै वह जब अच्छीतरह पकजावै तब काथको देवै ॥ ४० ॥

अथ काथका प्रकार ॥

काथः सप्तविधः प्रोक्तः पाचनः शमनस्तथा ॥

दीपनः क्लेदनः शोषी सन्तर्पणो विशेषतः ॥ ४१ ॥

पाचन, शमन, दीपन, क्लेदन, शोषण, संतर्पण इनभेदोंसे काथ सातप्रकारका कहाहै ॥ ४१ ॥

अथ सातप्रकारसें काथ देनेका समय ॥

पाचनश्च नरे देयं निशासु प्रविजानता ॥ पूर्वाह्णे शमनो देयोऽपराह्णे
दीपनः स्मृतः ॥ ४२ ॥ सन्तर्पणो भेदनश्च कल्पे पानाय दापयेत् ॥
शोषणोपि प्रभाते च काथः पाने प्रकीर्तितः ॥ ४३ ॥

वैद्यनें पाचनकाथ रात्रिमें देना और शमनकाथ दिनके प्रथमकालमें देना और दुपह-
राके पश्चात् दीपनकाथ देना ॥ ४२ ॥ संतर्पण और भेदनकाथ प्रभातमें देना और शोधन-
काथभी प्रभातमेंही देना ॥ ४३ ॥

अथ औषधादिक देनेके समयकी संज्ञा ॥

रात्रौ यः प्रथमो यामो भूतवेला प्रकीर्त्तिता ॥ द्वितीयं निशि इत्याहुर्नि
शीथश्च ततः परम् ॥ ४४ ॥ गणरात्रं ततो ज्ञेयं कालमप्राप्तराशिनम् ॥
पूर्वापराह्णमध्याह्नाः परार्द्धदिनशेषकाः ॥ ४५ ॥ पूर्वे दिनावसाने च भे
षजानामुपक्रमः ॥ ४६ ॥

रात्रीके प्रथम यामको भूतवेला कहते हैं और दूसरे यामको निशि कहते हैं और तिस्सेपरै
निशीथ कहाता है ॥ ४४ ॥ तिस्सेपरै गणरात्र कहाता है और पूर्वाह्ण, मध्याह्ण, अपराह्ण,
परार्द्ध, दिनशेष ऐसी संज्ञा है ॥ ४५ ॥ प्रभातमें और सायंकालमें ओषधियोंका उपचार है ॥ ४६ ॥

अथ काथके सात प्रकार ॥

पाचनो दीपनीयश्च शोधनः शमनस्तथा ॥

तर्पणः क्लेदनः शोषी काथः सप्तविधः स्मृतः ॥ ४७ ॥

पाचन, दीपन, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन, शोषण, ऐसे सातप्रकारके काथ कहे हैं ॥ ४७ ॥

अथ सातप्रकारके काथोंका लक्षण ॥

पाचनोऽर्द्धविशोषी स्याच्छोधनो द्वादशांशकः ॥ क्लेदनश्चतुरङ्गश्च शम
नोऽष्टावशेषितः ॥ ४८ ॥ दीपनीयो दशांशस्तु तर्पणश्च समांशकः ॥ वि
शोषी षोडशांशश्च काथभेदाः प्रकीर्त्तिताः ॥ ४९ ॥

अग्निसे उवाचनेमें आधा शेष रहा पानी पाचनकाथ कहाता है और जिसमें बारमाहिस्सा
पानी शेष रहै वह शोधन कहाता है जिसमें चौथाहिस्सा पानी शेष रहै वह क्लेदन कहाता

है जिसमें आठमाहिस्ता पानी शोषरहै वह शमन कहाता है ॥ ४८ ॥ जिसमें दशमाहिस्ता पानी शोष रहै वह दीपन कहाता है जो उवाला मात्र जावै वह तर्पण कहाता है जिसमें सोलमाहिस्ता पानी शोष रहै वह शोषण कहाता है ऐसे काथके भेद कहे हैं ॥ ४९ ॥

अथ सातप्रकारके काथोंका कार्य ॥

पाचनः पचते दोषान्दीपनो दीप्यते मलम् ॥ शोधनो मलशोधी स्या
च्छमनः शमते गदान् ॥ ५० ॥ तर्पणस्तर्पते धातून्क्लेदी हृक्क्लेदकार
कः ॥ विशोषी शोषमाधत्ते तस्मात्काथं परीक्षयेत् ॥ ५१ ॥ क्लेदी विशो
षी विज्ञाय वामनं कारयेन्नरम् ॥

पाचनकाथ दोषोंको पकाता है दीपनकाथ मलको प्रज्वलित करता है शोधनकाथ मल-
को शोधता है शमनकाथ रोगोंको शांत करता है ॥ ५० ॥ तर्पणकाथ धातुओंको तृप्त करता
है क्लेदनकाथ हृदयमें क्लेदको करता है शोषणकाथ शोषको करता है तिसवास्ते काथकी
परीक्षा करनी ॥ ५१ ॥ मनुष्यको क्लेदवाला और विशोषकरकै शोषवाला जानकै वमन
कराना चाहिये

अथ काथरक्षणका उपदेश ॥

न लङ्घयेत्काथकृतं नान्तराणि च चालयेत् ॥ ५२ ॥ न शोषयेत्पुनः
स्थाप्यो नाशुचौ न चकासते ॥ स च काथो न शस्तः स्याद्रोगसङ्कर
कारणम् ॥ ५३ ॥ न शोषयेत्पुनः काथं न च भूमिगतं पुनः ॥ दोषसं
शमनेनैते प्रशस्ता गदकर्मणि ॥ ५४ ॥

और वनतेहुये काथको त्याजै नहीं और बीचमें चलावै नहीं किंतु यथायोग्य पकावै
॥ ५२ ॥ स्थापित किये काथको फिर शोषित करै नहीं और अशुद्ध जगहमें काथको
वनावै नहीं क्योंकि अयोग्य काथ अच्छा नहीं होता किंतु रोगोंके मिलापका कारण
होता है ॥ ५३ ॥ काथको फिर शोषित नहीं करै और पृथिवीमें प्राप्तहुये काथको फिर
नहीं ग्रहण करै क्योंकि रोगके नाशमें दोषको शांत करनेकरकै काथ श्रेष्ठ है ॥ ५४-॥

अथ काथसंबंधी अनिष्ट लक्षण ॥

विदीर्यते पततेऽपि स्फुटते काथतो जनः ॥

एतेऽनिष्टकराः काथा न दोषशमनाय च ॥ ५५ ॥

बुरे काथसे रोगी विदीर्ण होजाता है गिरजाता है और फटजाता है ये बुरे काथ दुःख-
को देते हैं और दोषको शांत नहीं करते ॥ ५५ ॥

अथ हीनक्वाथके लक्षण ॥

एतैर्हिलक्षणैर्हीनं क्वाथं दृष्ट्वा परीक्षयेत् ॥ ५६ ॥ कृष्णं नीलं घनं रक्तं
पिच्छिलं शिथिलञ्च यत् ॥ दग्धं कुणपगन्धञ्च विस्रगन्धं विवर्जयेत्
॥ ५७ ॥ एतैरसाध्यं जानीयाद्रोगिणां नात्र संशयः ॥

इनपूर्वोक्तलक्षणोंसे हीनहुये क्वाथकी परीक्षा करनी ॥ ५६ ॥ काला, नीला, कठिन,
लाल, झांगोंवाला, शिथिल, दग्धहुआ, मुर्दाकैसी गंधवाला, कच्ची गंधवाला, ऐसे क्वाथको
वर्ज देवै ॥ ५७ ॥ इसतरहके क्वाथोंसे रोगी असाध्य होजाता है इसमें संशय नहीं ॥

अथ उत्तमक्वाथका लक्षण ॥

द्रव्यगुणानुवर्णेन द्रव्यगन्धं विनिर्दिशेत् ॥ ५८ ॥
तद्वद्विशुद्धं संच्छायं कषायममृतोपमम् ॥

द्रव्यके गुणका अनुबंधसे द्रव्यके गंधको कहै ॥ ५८ ॥ विशेषकरके शुद्ध और सुंदर
कांतिवाला क्वाथ अमृतके समान होता है.

अथ वातज्वरमें पाचनका विधि ॥

वातज्वरे लङ्घनान्ते दत्त्वा चान्नं तथोपरि ॥

निशासु पाचनं देयं ज्ञात्वा दोषबलावलम् ॥ ५९ ॥

वातज्वरमें लघनके अंतमें अन्नको देवै और तिसके ऊपर क्वाथको देवै परंतु दोषके
बल और अवलको देखै ॥ ५९ ॥

अथ पित्तज्वर और कफज्वरमें पाचनका विधि ॥

त्रिरात्रे पित्तिके देयं श्लैष्मिके प्रथमेऽहनि ॥

पित्तके ज्वरमें तीसरेदिन और कफज्वरमें प्रथमदिन पाचन देना.

अथ पाचनका निषेध ॥

अविज्ञाते च दोषे च पाचनं न प्रदापयेत् ॥ ६० ॥

और बिनाजानेदोषमें पाचन नहीं देना ॥ ६० ॥

अथ ज्वरकी मर्यादा ॥

सप्तरात्राद्धि मर्यादा ज्वरेणैवोपलक्ष्यते ॥

तस्मान्नवज्वरे पीतं दोषकृन् च दोषहृत् ॥ ६१ ॥

ज्वरकी मर्यादा सातदिनकी प्रसिद्ध है तिसवास्ते नवीनज्वरमें पानकिया पाचनरूपी ओषध दोषको करता है किंतु दोषको हरता नहीं है ॥ ६१ ॥

अथ ज्वरमें पाचनादिदेनेकी मर्यादा ॥

तस्मादादौ प्रदेयन्तु पाचनञ्च दिनत्रयम् ॥ शमनीयं प्रदेयन्तु पञ्चरात्रं त
तः परम् ॥ ६२ ॥ शोधनं दीपनीयन्तु एकरात्रं प्रदापयेत् ॥ ६३ ॥

तिस्से आदिमें तीनदिन पाचनको देवै तिससेपीछे पांचरात शमनकाथको देवै ॥ ६२ ॥
शोधन और दीपनकाथको एकदिन देवै ॥ ६३ ॥

अथ काथके विपत्तिका प्रकार ॥

काथपाने क्लमो मूर्च्छा वैक्लव्यञ्च प्रदृश्यते ॥

वमनञ्च यदा प्रोक्तं शमनं पथ्यकेऽपि वा ॥ ६४ ॥

जो काथके पीनेमे ग्लानि, मूर्च्छा, विकलपना, ये उपजै तब वमनसंज्ञक ओषध देना
और पथ्यमें शमनकाथ देना ॥ ६४ ॥

अथ पथ्यकी आवश्यकता ॥

सदा पथ्यं प्रयोक्तव्यं नापथ्येन स सिध्यति ॥ औषधेन विना पथ्यैः
सिध्यते भिषगुत्तमैः ॥ ६५ ॥ विना पथ्यं न साध्यः स्यादौषधानां शतैरपि ॥

सबकालमें पथ्य देना चाहिये क्योंकि अपथ्यसे कोईभी रोग सिद्ध नहीं होता किंतु ओ-
षधके विनाभी पथ्योंकरके रोग शांत हो जाता है ॥ ६५ ॥ सैंकड़ों ओषधोंको सेवतेहुयेभी
पथ्यके विना रोग शांत नहीं होता.

अथ ज्वरितको पथ्यभोजनका उपदेश ॥

ज्वरितो हितमश्रीयाद्यप्यस्यारुचिर्भवेत् ॥ ६६ ॥ अन्नकालेष्वभु
ञ्जानो हीयते भ्रियतेऽपि वा ॥ स क्षीणः कृच्छ्रतां याति यात्यसाध्यत्व
मेव च ॥ ६७ ॥ तस्माद्रक्षेद्वलं पुंसां बलशान्तिर्हि जीवितम् ॥

और ज्वरवाला रोगी पथ्यको सेवै जो इसकी अरुचिभी हो तबभी ॥ ६६ ॥ अन्नका-
लमें नहीं भोजन करताहुआ ज्वररोगी क्षीण होजाता है अथवा मरजाता है और क्षीणहुआ
वह कष्टपनेको प्राप्त होके पीछे असाध्यपनेको प्राप्त होता है ॥ ६७ ॥ तिसकारणसे मनु-
ष्योंके बलकी रक्षा करनी क्योंकि बलकी शांतिही जीवन कहा है.

लङ्घिते चैव दोषे च यवागूपानमाचरेत् ॥ ६८ ॥

शालिषटिकमुद्गञ्च यूषं शस्तं वदन्ति हि ॥ ६९ ॥

लंघनके करनेमें और दोषमें यवागूको पीता रहै ॥ ६८ ॥ शालिचावल, सांठी चावल, मूंग, इन्होंके यूपको लंघनमें श्रेष्ठ कहते हैं ॥ ६९ ॥

अथ मध्यलंघितको अन्नविधि ॥

पञ्चकोलकसंसिद्धा यवागूर्मध्यलङ्घिते ॥

भवेत्प्रशस्ता सततं तस्य सन्तर्पणं हितम् ॥ ७० ॥

पीपल, पीपलामूल, चोता, चव्य और सोंठ इन पांचों मूलकूं कूटकर काथ बनावे, इसकाथमें तंदूलकी या मूगकी यवागू बनावे और पकावे, फिर सिद्धहुई यह यवागू मध्यलंघितकूं प्रशस्त है, और रोगीको तृप्त रखती है ॥ ७० ॥

अथ क्लमशांतिका विधि ॥

आजं दुग्धं गुडोपेतं पानाय ज्वरशान्तये ॥

तेन क्लमविनाशः स्यात्सुरवमाशु प्रपद्यते ॥ ७१ ॥

बकरीके दूधमें गुडमिला पीवै इस्से ज्वरकी शांति होती है तब ग्लानिका नाश और त-
काल सुख उपजता है ॥ ७१ ॥

अथ क्वाथपीनेका विधि ॥

उदीच्यां वा पूर्वस्यां वाऽग्निमुखञ्चोपवेशयेत् ॥ पाययेत्क्वाथपानञ्च कृत्वा
ब्राह्मणवाचनम् ॥ ७२ ॥ पानपात्रमधः कृत्वा शयीताज्ञानमेव च ॥
पीत्वा चैव तृषार्त्तोऽपि न जलं पाययेत्क्षणम् ॥ ७३ ॥ गतक्लमं नरं
दृष्ट्वा तदा संपद्यते सुखम् ॥ ७४ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृ-
तीयस्थाने भेषजपरिज्ञानविधिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

उत्तरको अथवा पूर्वको मुखकरा रोगीको बैठावै पीछे ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन करा
क्वाथको पान करावै ॥ ७२ ॥ पीछे पीनेके पात्रको अधोमुख स्थापित कर जागताहुआ
शयन करै और क्वाथका पान करकै तृषावालाभी दो घडीतक पानीको नहीं पीवै ॥ ७३ ॥
जब रोगीकी ग्लानि दूर होजावै तब रोगी सुखको प्राप्त होता है ॥ ७४ ॥ इति वेरीनि-
वासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यविदत्तशास्त्रनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने औषधप-
रिज्ञानविधिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथ ज्वरचिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ अनभिज्ञाश्चिकित्सायां शास्त्राणां पठनेन किम् ॥ यथा पलालं वीजैस्तु रहिनं निष्प्रयोजकम् ॥ १ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—जो वैद्य चिकित्साकर्ममें कुशल नहीं हो और वैद्यकशास्त्रके पठनमें कुशल हो तिसको क्या फल होता है अर्थात् कुछ नहीं जैसे अन्नसे रहित तुप निष्फल होता है वैसे ॥ १ ॥

अथ कुवैद्यनिन्दा ॥

वरमाशीविषविषं कथितं ताम्रमेव च ॥ पीतमत्यग्निसन्तप्ता भक्षिता वा प्ययोगुडाः ॥ २ ॥ न तु श्रुतव्रतां वेशं विभ्रति शरणागताः ॥ ग्रहीतुमन्नपानं वा वित्तं वा रोगपीडितात् ॥ ३ ॥

सर्पआदिका विष, उवालाहुआ तांवा, अत्यंत अग्निमें तप्त किये लोहाके गोले इनसर्वोंको सेवनाभी हित है ॥ २ ॥ परंतु वैद्योंके वेशको धारण करनेवाले और रोगियोंसे अन्न, पान, धन, इन्हेंको हरनेवाले ऐसे वैद्योंकी औषधको नहीं खावै ॥ ३ ॥

अथ वैद्यका लक्षण ॥

तदेव युक्तं भौषज्यं यदारोग्याय जायते ॥

स चैव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यो विमोक्षयेत् ॥ ४ ॥

जो आरोग्यको करता है वही योग्य औषध है और जो रोगोंसे छुटावै वह ही उत्तम वैद्य कहाता है ॥ ४ ॥

अथ वैद्यकशास्त्रपठनकी आवश्यकता ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन रोगवारणहेतुना ॥ युक्ता निदानलक्षैस्तु संहितोपायसंयुता ॥ ५ ॥ पठितव्या समासेन संहिताज्ञानहेतवे ॥ ज्ञात्वा रोगप्रतीकारं ततः कुर्ध्यात्प्रतिक्रियाम् ॥ ६ ॥

तिसकारणसे रोगको निवारण करनेवाले कारणसे संयुक्त सब जतन करके निदानके लक्षण और रोगोंसे तथा रोगप्रतीकारकी चिकित्सासे अन्वित हुई वैद्यकसंहिता ॥ ५ ॥ विस्तार करके पठितकरनी योग्य है संहिताका ज्ञानके लिये और रोगको दूर करनेके उपायको जान पीछे चिकित्साको करै ॥ ६ ॥

रोग नहीं जाननेसे हानि ॥

अविज्ञाय रुजं सम्यङ्मोहादारभते क्रियाः ॥

विधानज्ञोऽथ शास्त्रज्ञो न तत्सिद्धिः प्रजायते ॥ ७ ॥

जो वैद्य रोगको नहीं जानकै क्रियाका आरंभ करता है वह विधानको और शास्त्रको जाननेवालाभी सिद्धिको प्राप्त नहीं होता ॥ ७ ॥

अथ वैद्यशास्त्रज्ञताको फल ॥

निदानं रोगविज्ञानं भेषजानां गुणागुणम् ॥

विज्ञाय कुरुते यस्तु तस्य सिद्धिर्न दूरतः ॥ ८ ॥

निदान और रोगका जानना, ओषधियोंके गुण और दोष इन्होंको जानकै जो वैद्य क्रियाको करता है तिसको शीघ्र सिद्धि होती है ॥ ८ ॥

रोगादिक जाननेकी आवश्यकता ॥

आदावेव रुजां ज्ञानं साध्यासाध्यं विचक्षणः ॥

याप्यं सर्वरुजाश्चैव ततः कुर्यात्प्रतिक्रियाम् ॥ ९ ॥

आदिमें वैद्य रोगके ज्ञानको और साध्य और असाध्यरूपको तथा कष्टसाध्यपनेको जान पीछे क्रियाको करै ॥ ९ ॥

अथ देशकालआदिक जाननेकी आवश्यकता ॥

देशं कालं वयो वह्निसाम्यं प्रकृतिभेषजम् ॥

एवं विज्ञाय सदैवस्ततः कुर्यात्प्रतिक्रियाम् ॥ १० ॥

देश, काल, अवस्था, अग्नि, स्वभाव, प्रकृति, इन्होंको जानकै कुशल वैद्य चिकित्साको करै ॥ १० ॥

अथ रोगहेतु वातादि दोष ॥

नास्ति रोगो विना दोषैर्दोषा वातादयः स्मृताः ॥

ज्वरादयः स्मृता रोगास्तान्सम्यक्परिलक्षयेत् ॥ ११ ॥

दोषोंके विना रोग नहीं होता और वे दोष वातआदि कहाते हैं और ज्वरआदि रोग हैं तिनसवोंकी अच्छीतरह परीक्षा करै ॥ ११ ॥

अथ रोगपरीक्षाके प्रकार ॥

आप्तानाञ्चोपदेशेन प्रत्यक्षीकरणेन च ॥ आतुरादिदृशा स्पर्शाच्छीतादिप्र

श्रुतः परम् ॥ १२ ॥ दर्शनस्पर्शनप्रश्ने रोगज्ञानं त्रिधा मतम् ॥ मुखवाक्षि
दर्शनात्स्पर्शाच्छीतादिप्रश्रुतः परम् ॥ १३ ॥

वैद्योंके उपदेशसे और प्रत्यक्षीकरणसे और वैद्यआदिकी दृष्टिसे और स्पर्शसे और शीतआदिके पूछनेसे रोगका ज्ञान करै ॥ १२ ॥ दर्शन, स्पर्श, और प्रश्न इनभेदोंसे रोगोंका तीनप्रकारका ज्ञान होता है तहां मुख और नेत्र इन्होंके दर्शनसे, अंगके शीत उष्ण आदिक स्पर्शसे और कैसा है क्या क्या होता है इत्यादिक प्रश्नसे तीनप्रकारका रोगज्ञान होता है ॥ १३ ॥

अथ साध्यासाध्यका लक्षण ॥

कृच्छ्रयाप्यसुखोपायो द्विविधः साध्य उच्यते ॥

असाध्यो द्विविधो ज्ञेयः कृच्छ्रः कृच्छ्रतमोऽपरः ॥ १४ ॥

कष्टसाध्य और सुखसाध्य इनभेदोंसे साध्य दो प्रकारका है और कष्टसाध्य और अतिकष्टसाध्य इनभेदोंसे असाध्यभी दो प्रकारका है ॥ १४ ॥

अथ साध्यादिकहोनेका कारण ॥

याप्याः केचित्प्रकृत्यैव याप्याः साध्या उपेक्षया ॥ स्वभावाद्द्वयाधयः
साध्याः केचित्साध्या उपेक्षिताः ॥ १५ ॥ साध्या याप्यत्वमायान्ति
याप्याश्चासाध्यतां तथा ॥ घ्नन्ति प्राणांश्च साध्यास्तु नराणामक्रि
यावताम् ॥ १६ ॥

कितनेक रोग स्वभावसेही कष्टसाध्य होते हैं और कितनेक साध्यरोग चिकित्साके अभावसे कष्टसाध्य होते हैं और कितनेक रोग स्वभावसे साध्य होते हैं और कितनेक नहीं चिकित्सित किये रोग साध्य होते हैं ॥ १५ ॥ साध्यरोग कष्टसाध्यपनेको प्राप्त होते हैं और कष्टसाध्यरोग असाध्यपनेको प्राप्त होते हैं इस्से क्रियाको नहीं करनेवाले मनुष्योंको साध्यरोगभी मारदेते हैं ॥ १६ ॥

उपद्रवका लक्षण ॥

ध्याधेरुपरि यो व्याधिः सोपद्रव उदाहृतः ॥ सोपद्रवा न जीवन्ति जीव
न्ति निरुपद्रवाः ॥ १७ ॥ ज्ञात्वाल्पकोऽपि भिषग्भिः परिचिन्तनीयो
नोपेक्षणीय इति रोगगणो ससाध्यः ॥ स्वल्पोऽपि शत्रुर्विषवह्निसमान
रूप आश्वावलं न शमतामुपयाति काले ॥ १८ ॥ शत्रुः स्थानवलं प्राप्य
विक्रमं कुरुते वली ॥ तथा धात्वन्तरं प्राप्य विक्रमं कुरुते गदः ॥ १९ ॥

रोगकेऊपर जो रोग उपजै वह उपद्रवसहित रोग कहाता है उपद्रवसहित रोगवाले नहीं जीवते हैं और उपद्रवसे रहित रोगवाले जीवते हैं ॥ १७ ॥ अल्परोगभी वैद्योंने चिंतन करना चाहिये किंतु असाध्य रोग छोडना नहीं चाहिये जैसे छोटासाभी वैरी विष और अग्निके समानहोके और बलको प्राप्तहो समयमें शांतिको नहीं प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ जैसे बली शत्रु स्थानको और बलको प्राप्तहो पराक्रमको करता है तैसे धातुओंके अंतरमें प्राप्तहुआ रोग पराक्रमको करता है ॥ १९ ॥

रोग निर्मूल करनेकी आज्ञा ॥

बहुविधपरिकर्मेणापि नीतं शमं यत्कशमपि हि न धार्ढ्यं रोगमूलं
विधिज्ञ ! ॥ कथमपि बहुपथ्यैर्व्याटतो वा बलिष्ठो न शमयति हि रोगं
बाल्यमात्रेण सम्यक् ॥ २० ॥

हे विधिज्ञ ! बहुतसे कर्मोंसे शांतकियेभी रोगका स्वल्पभागकोभी धारण नहीं करना और बहुतसे अपथ्योंकरके व्यावृतहुआ अत्यंत बलवान् रोग शांतिको प्राप्त नहीं होता ॥ २० ॥

सूक्ष्मभी रोग शत्रुसमान है ॥

यथा स्वल्पं विषं तीव्रं यथा स्वल्पो भुजङ्गमः ॥

यथा स्वल्पतरश्वाग्निस्तथा सूक्ष्मोऽपि रुषिपुः ॥ २१ ॥

जैसे स्वल्प विष तीक्ष्ण होता है जैसे छोटासा सर्प बुरा होता है जैसे अत्यंत स्वल्पभी अग्नि बढ़जाता है तैसे सूक्ष्म रोगभी वैरी होता है ॥ २१ ॥

रोगके फैलनेके प्रथमही प्रतीकार करना ॥

यावत्स्थानं समाश्रित्य विकारं कुरुते गदः ॥

तावत्तस्य प्रतीकारः स्थानत्यागाद्वलीयसः ॥ २२ ॥

जबतक स्थानमें आश्रित होके रोग विकारको करता है जबतक वह तिसस्थानको नहीं त्यागै तबतक तिस बलवाले रोगकी क्रिया करता रहै ॥ २२ ॥

व्याधियोंका प्रकार ॥

कर्मजा व्याधयः केचिद्विषजाः सन्ति चापरे ॥

सहजाः कथिताश्चान्ये व्याधयस्त्रिविधा मताः ॥ २३ ॥

कितनेक रोग कर्मसे उपजते हैं और कितनेक रोग दोषसे उपजते हैं और कितनेक रोग शरीरके साथ उपजते हैं ऐसे तीनप्रकारके रोग कहे हैं ॥ २३ ॥

तीनप्रकारके व्याधियोंका लक्षण ॥

बहुभिरुपचारैस्तु ये न यान्ति शमं ततः ॥ ते कर्मजाः समुद्दिष्टा व्याधयो दारुणाः पुनः ॥ २४ ॥ दोषजा वातपित्ताद्याः सहजाः क्षुत्तृषादयः ॥ २५ ॥

जो बहुतसी चिकित्साके करनेसे शांतिको प्राप्त नहीं होते तिनहींको कर्मसे उपजे रोग जानना ये दारुण हैं ॥ २४ ॥ वातपित्तआदिसे उपजे रोग दोषज कहते हैं भूख और तृषाआदि शरीरके साथ उपजते हैं ॥ २५ ॥

ज्वरकी व्यापकता ॥

तस्माद्द्वयामि चादौ ज्वरमतुलगदं वाजिनां कुञ्जराणां मानुष्याणां पशूनां मृगमहिषरवरोट्टादिवानस्पतीनाम् ॥ बल्लीनामोषधीनां क्षितिधरफणिनां पत्रिणां मूषिकाणामेष प्राणापहारी ज्वर इति गदितो दुर्निवारो हि लोको ॥ २६ ॥

तिस्से आदिमें घोडा, हस्ती, मनुष्य, गाय आदि पशू, मृग, बैसा, ऊंट आदि जीव, वनस्पति, बैल, ओषधी, सर्प, पक्षी, मूषा इन्हेंके ज्वरको मैं कहताहूँ यह ज्वर प्राणोंको हरता है और संसारमें दुःखसे दूर होता है ॥ २६ ॥

अथ जातिपरत्वमें ज्वरकी असाध्यता ॥

असाध्योऽयं ज्वरो व्याधिर्गौमहिष्यश्वकुञ्जरे ॥

किञ्चित्कृच्छ्रतमो नृणामन्येषां जीवघातकः ॥ २७ ॥

गाय, बैसा, हस्ती, इन्हेंमें ज्वर असाध्य कहा है और मनुष्योंके ज्वर कष्टसाध्य कहा है और शेषरहे जीवोंको ज्वर मारता है ॥ २७ ॥

अथ ज्वरकी बलिष्ठता ॥

यथा मृगाणां मृगयुर्वलिष्ठस्तथा गदानां प्रबलो ज्वरोऽयम् ॥ नान्योऽपि शक्तो मनुजं विहाय सोढुं भुवि प्राणभृतः सुराद्याः ॥ २८ ॥

जैसे मृगोंमें भगेरा अत्यंत बलवान् होता है तैसे रोगोंमें ज्वररोग बलवान् कहा है मनुष्यके बिना ज्वरको सहनेकेलिये कोईभी जीव समर्थ नहीं है ॥ २८ ॥

अथ मनुष्यज्वर सहसक्ताहै तिस्का कारण ॥

कर्मणा लभते यस्माद्देवत्वं मानुषो दिवि ॥ ततश्चैवच्युतः स्वर्गान्मानुष्यमपि वर्त्तते ॥ २९ ॥ तस्मात्स देवभावात्तु सहते मानुषो ज्वरम् ॥ शेषाः सर्वे विपद्यन्ते पशुवर्गा ज्वरादिताः ॥ ३० ॥

कर्मसे मनुष्य स्वर्गमें जाके देवताके शरीरको प्राप्त होता है पीछे स्वर्गसे भ्रष्टहुआ मनुष्य शरीरको प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ इसकारणसे देवभावकरके मनुष्य ज्वरको सहते हैं शेरह पशुओंके समूह ज्वरसे मरजाते हैं ॥ ३० ॥

अथ सर्वरोगोंमें ज्वरकी श्रेष्ठता ॥

रोगाणां रोगराजोऽयं यथा ऋगपतिर्ऋगे ॥ दाहात्मसु यथा वह्निस्तथा
रोगो ज्वरोऽधिकः ॥ रुद्रक्रोधाग्निसम्भूतः सर्वभूतप्रतापनः ॥ ३१ ॥

जैसे वनमें पशुओंका राजा सिंह है वैसे शरीरमें रोगोंका राजा ज्वर है जैसे दाह करने-वालोंमें अग्नि अधिक है वैसेही ज्वरभी अधिक है महादेवका क्रोधरूपी अग्निसे उपजनेवाला और सत्रजीवोंको तपानेवाला ऐसा ज्वर है ॥ ३१ ॥

अथ पृथक् प्राणिभेदसे ज्वरके नामांतर ॥

पातकः स तु नागानामभिजापस्तु वाजिनाम् ॥ गवामीश्वरसंज्ञस्तु मान
वानां ज्वरो मतः ॥ ३२ ॥ दारिद्रो महिषीणान्तु ऋगरोगो ऋगेषु च ॥
अजावीनां प्रलापारव्यः करभेष्वलसो भवेत् ॥ ३३ ॥ शुनोऽलर्कः स
माख्यातो मत्स्येष्विन्द्रमतो मतः ॥ पक्षिणामभिघातस्तु व्यालेष्वैक्षि
तसंज्ञितः ॥ ३४ ॥ जलस्य नीलिका प्रायो भूमिषूपरनामतः ॥ वृक्ष
स्य कोटराक्षस्तु ज्वरः सर्वत्र दृश्यते ॥ ३५ ॥

हस्तियोंके पातकनामवाला ज्वर होता है घोड़ोंके अभिजापनामवाला ज्वर होता है गा-योंके ईश्वरनामवाला ज्वर होता है मनुष्योंके ज्वरनामसेही प्रसिद्ध है ॥ ३२ ॥ भैंसोंके दारिद्रनामसे ज्वर होता है ऋगोंमें ज्वर ऋगरोगनामसे प्रसिद्ध है बकरी और भेड़ोंके ज्वर प्रलापारव्यनामसे होता है उंटोंमें ज्वर अलसनामसे होता है ॥ ३३ ॥ कुत्ताके ज्वर अलर्क-नामसे और मछलियोंमें ज्वर इन्द्रमतनामसे उपजता है पक्षियोंके ज्वर अभिघातनामसे सर्पोंमें कांचलोनामसे ज्वर उपजता है ॥ ३४ ॥ और जलके ज्वर सिवालनामसे उपजता है पृथिवी-में ऊपरनामसे ज्वर उपजता है वृक्षके कोटराक्षनामसे ज्वर उपजता है ऐसे सब जगह ज्वर दीखता है ॥ ३५ ॥

अथ ज्वरके स्वरूपका लक्षण ॥

त्रिपाद्भस्मप्रहरणस्त्रिशिराः सुमहोदरः ॥ वैयाघ्रचर्मवसनः कपिलोज्ज्वल
विग्रहः ३६ ॥ पिङ्गेशणो ह्रस्वजङ्घो विमत्स्यो बलवानयम् ॥ पुरुषो

लोकनाशाय चासौ ज्वर इति स्मृतः ॥ ३७ ॥ दग्धेन्धनो यथा वह्नि
धातून्हत्वा यथा विषम् ॥ कृतकृत्यो ब्रजेच्छान्तिं देहं हत्वा तथा ज्वरः ३८

तीनपैरोंवाला, भस्मको धारण करनेवाला, तीनशिरोवाला, सुंदर बडापेटवाला, सिंहका चामके बल्लोंको पहननेवाला, कपिलवर्णवाला और प्रकाशित शरीरवाला ॥ ३६ ॥ पीलेने-
नोंवाला, ठींगनी जांघोंवाला और बलवान्, ऐसा पुरुष लोकका नाशके लिये उपजा है वह
ज्वर कहाता है ॥ ३७ ॥ जैसे इंधनको दग्ध करके अग्नि और धातुओंको दग्ध करके विष
कृतकृत्य होके शांत होजाता है तैसे देहका नाशकर ज्वर शांत होजाता है ॥ ३८ ॥

अथ ज्वरकी उत्पत्ति ॥

तस्मात्तस्य समुत्पत्तिं वक्ष्यामि शृणु पुत्रक! ॥ चतुर्विधो महाघोरो जा
तो येन तु चाष्टधा ॥ ३९ ॥ दक्षाद्धरः प्रशमनः कुपितो हि महेश्वरः ॥
श्वासं मुमोच दयिताविधुरश्च तीव्रं तेन ज्वरोऽष्टविधसम्भवतोऽष्टधा
स्यात् ॥ ४० ॥

तिसकारणसे हे पुत्र ! तिसकी उत्पत्तिको कहता हूं सुन च्यारप्रकारका महाघोररूपी
ज्वर है फिर जिसकरके आठ प्रकारका हुआ है ॥ ३९ ॥ सो दक्षप्रजापतीसे कुपित हुआ
महेश्वर सतीजीकेवास्ते आठवार श्वासको छोडता भया है तिससे ज्वर आठप्रकारका
हुआ है ॥ ४० ॥

अथ ज्वरकी निदानसहित संप्राप्ति ॥

वातादिपित्तकफशोणितसन्निधानात्स्वेच्छान्नपाननिरतादृतुवैपरीत्यात् ॥
दोषा मलाशयगता जठराग्निवाह्याः संप्रेरयन्ति रुधिराश्रितवह्निपातम्
॥ ४१ ॥ तेषां ततो हि दधते ज्वरनाम सिद्धम् ॥—

वात, पित्त, कफ, रक्त, इन्होंने सन्निधानसे और अपनी इच्छापूर्वक अन्न और पानके
सेवनेसे और ऋतुके विपरीतपनेसे मलाशयमें प्राप्तहुये पेटके अग्निको बाहिरहुये दोष रक्तसे
आश्रितहुये अग्निके पातको प्रेरते है ॥ ४१ ॥ तिसको ज्वर कहते है

अथ ज्वरके हेतु ॥

व्यायामक्रोधजननाच्छीतसम्भवत्वात् ॥ ४२ ॥ विरुद्धान्नविशेषेण पा
ननिर्झरवारिणा ॥ कूपोदकेन सन्तुष्टस्तिग्मतीव्रांशुरश्मिभिः ॥ ४३ ॥
गन्धवातेन दोषाणामग्निघाताग्निशापतः ॥ ज्वरो नाम महाघोरो जायते
मनुजे भृशम् ॥ ४४ ॥

और कसरत, भोजनके ऊपर भोजन, क्रोध, इनके उपजनेसे और शीतके संभवपनेसेभी ज्वर उपजता है ॥ ४२ ॥ विरुद्ध अन्नआदिके खानेसे क्षिरतेहुये अथवा कूवाके पानीसे और तेजसूर्यके किरणोंकी गरमाईसे ॥ ४३ ॥ बुरे गंधसे, वात आदि दोषोंसे, चोटके लगनेसे और ब्राह्मणके शापसे मनुष्यके देहमें महाघोररूपी ज्वरनाम उत्पन्न होता है ॥ ४४ ॥

अथ प्रकटहुये ज्वरका लक्षण ॥

श्रमो जडत्वं नयनप्लवः स्याद्रोमोद्गमो घुर्घुरकश्च जृम्भा ॥ वै
वर्णता द्वेषसशोपतास्ये ज्वरस्य च व्यक्तकलक्षणानि ॥ ४५ ॥

शरीरमें थकाव और जडपना नेत्रोंमांहसे पानी क्षिरै रोमावली खडी होवै कंठमें घुर्घुरपना और जंभाई आवै, वर्ण बदलजावै, अन्नसे बैर होवै, मुखमें शोष उपजै ये प्रकट हुआ ज्वरके लक्षण हैं ॥ ४५ ॥

अथ ज्वरकी विशेषता ॥

समीरणे च वै जृम्भा कफोद्द्वैत्यं निषीदति ॥ पित्तान्नयनसन्तापः सर्वं
वै सान्निपातिके ॥ तस्माद्बद्धे प्रतीकारं येन सम्पद्यते सुखम् ॥ ४६ ॥

घातकी अधिकतासे जंभाई आवै, कफसे दीनपना उपजै और शिथिल होजावै, पित्तसे नेत्रोंमें संतापहो, सन्निपातमें सब लक्षण मिलें तिसवास्तै जिसकरिकै सुख उत्पन्न होय, ऐसा उपाय करनातो कहंगा ॥ ४६ ॥

अथ वातज्वरमें पाचन ॥

वचा यवानी धनिका सविश्वा पिवेत्कषायं निशि सोष्णमेवम् ॥ स
वातिके वातरुजे ज्वराणां सम्पाचके स्यान्मनुजे सुखाय ॥ ४७ ॥

वच, अजमान, धनियां, सेंठ, इन्होंके गर्भकाथको रात्रिमें पीवै यह पाचन वातज्वरमें और वातकी पीडामें मनुष्यको सुख देता है ॥ ४७ ॥

अथ पित्तज्वरका पाचन ॥

निशा सनिम्वा मृतवल्लिका च धान्यं च विश्वा सगुडः कषायः ॥
निशासु च क्षीरसकोलमिश्रं पानं सपित्तज्वरपाचनाय ॥ ४८ ॥

हलदी, नींबकी छाल, गिलोय, धनियां, सेंठ, इन्होंका काथ बना तिसमें गुडमिला पीवै अथवा इधमें गजपीपलके चूर्णको मिला पीवै यह पाचन पित्तज्वरमें मनुष्यको सुख देता है ॥ ४८ ॥

अथ कफज्वरमें पाचन ॥

वचा यवानी त्रिफला सविश्वा काथो निशायां कफजे ज्वरे वा ॥

सपाचनं स्यान्मनुजस्य दोषे शूले प्रतिश्यायकपीनसेषु ॥ ४९ ॥

वच, अजमान, हरडै, बहेडा, आंवला, संठ, इन्होंका काथ कफसे उपजे ज्वरमें और शूल, खेहर, पीनस, इन्होंमें देना ॥ ४९ ॥ .

अथ संनिपातज्वरमें पाचन ॥

शठीवचानागरकाफलानां वत्सादनीधन्वयवासकानाम् ॥ काथो

हितः सर्वभवे ज्वरे च सम्पाचनं स्यान्मनुजत्रिदोषे ॥ ५० ॥

कचूर, वच, संठ, हरडै, बहेडा, आंवला, गिलोय, जवासा, इन्होंका काथ सवप्रकारके ज्वरमें और मनुष्योंके त्रिदोषज ज्वरमें यह पाचन हित है ॥ ५० ॥

अथ ज्वरमें पथ्य ॥

रात्रौ सुखोष्णतोयेन प्रचुरेण च धीमताम् ॥

अङ्गसंमर्दनं पथ्यं निद्राव्यायामवर्जितम् ॥ ५१ ॥

रात्रीमें सुखपूर्वक गर्म पानीकरके अतिशयसे मनुष्योंके अंगोंका मर्दन पथ्य है परंतु नींद और कसरतको वर्जना ॥ ५१ ॥

अथ वातज्वरका निदान और चिकित्सा ॥

धेपथुर्विषमवेगशोषणं कण्ठतालुवदने विरस्यता ॥ रूक्षता चाक्षिपु बन्धः

कुक्षयोर्जृम्भणं शिरसि रुग्निद्रता ॥ ५२ ॥ कृष्णता कररुहां प्रलाप

को गात्रभङ्गबलवान् विभ्रस्यति ॥ भीतवत्स्वपिति जाग्रतो नरो लक्षणै

र्भवति वातकज्वरः ॥ ५३ ॥

शरीर काँपै, ज्वरका विषमवेगहो, कंठ, तालु, मुख, इन्होंमें शोष उपजै, मुखमें विरसपनाहो, नेत्रोंमें रूखापनहो, कुक्षि बंध होजावै, जंभाई आवै और शिरमें शूल उपजै और नींद आवै नहीं ५२ नख काले होजावै, बकवादकरै, शरीरका भंगहोवै और बलवान् रहै और भयकी इच्छा-करै और भयभीत हुआकी तरह सोवै परंतु जागताही रहै ये लक्षण वातज्वरके हैं ॥ ५३ ॥

अथ वातज्वरका पाचन ॥

नागरं सुरतरुश्च धान्यकं कुण्डली बृहत्तिका युग्मनिशाम् ॥

सप्तमे निशि प्रशस्यते ज्वरे चाष्टमांशगतको हि अष्टवान् ॥ ५४ ॥

सर्वज्वरेषु नागरादिपाचनं वेद्यम् ॥

संठ, देवदारु, धनियां, गिलोय, दोनोंकटेली, हलदी, दारुहलदी, इन्होंका पाचनसंज्ञक काथ बना ज्वरमें सातमीरात्रीको देना ॥ ५४ ॥ यह शंठ्यादिपाचन सवप्रकारके ज्वरोंमें देना चाहिये.

अथ अन्नहीन औषधका गुण ॥

वीर्याधिकं भवति भेषजमन्नहीनं हन्यात्तदामयमसंशयमाशु चैव ॥

अन्नसे हीनहुआ औषध अधिक वीर्यवाला होजाता है और रोगको निश्चय नाशता है.

अथ और ओषधका विशेष वर्णन ॥

तद्वालदृद्धयुवतीमृदुभिश्च पित्ती ग्लानिं परानयति चाशु बलक्षयञ्च ॥५५

वालक, वृद्ध, युवतिस्त्री, कोमल पदार्थ, इन्होंकरकैभी पित्तज्वर शांत होता है परंतु पित्तज्वरवाला परमग्लानिको और बलक्षयको प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥

अथ पाचनहुये औषधका लक्षण ॥

इन्द्रियाणां लघुत्वञ्च नेत्रास्यस्य प्रसादता ॥

सोद्गारमुष्णता कोष्ठे जीर्णभेषजलक्षणम् ॥ ५६ ॥

इंद्रियोंका हलकापनहो नेत्र और मुखकी प्रसन्नता रहै, डकार आवै, कोष्ठमें गर्माई रहै ये जीर्णहुये ओषधके लक्षण है ॥ ५६ ॥

अथ उल्ललनेवाले औषधका लक्षण ॥

क्लमहृल्लाससदनं शिरोरुग्भ्रंशमेव च ॥

उल्लेदो जायते यस्य विद्यादुक्लामभौषधम् ॥ ५७ ॥

ग्लानि और थुकथुकीहो, शरीर शिथिल होजावै शिरमें झूल और नाश उपजै और घमनसा आनेकीतरह होवै ये नहीं जीर्ण हुआ ओषधके लक्षण हैं ॥ ५७ ॥

अथ पाचनहोनेमें शेषरहे औषधका लक्षण ॥

दाहाङ्गसदनं मूर्च्छा शिरोरुक् क्लमदीनता ॥ भ्रमो रतिविशेषेण सविशे

षौषधाकृतिः ॥ ५८ ॥ तस्मादौषधशेषे तु न दोषशमनं क्वचित् ॥ कोप.

न्यनेकधा दोषा न देयं पाचनं विना ॥ ५९ ॥

दाहहो, अंग शिथिलहोजावै, मूर्च्छा, शिरमें शूल, ग्लानि, दीनपना, ये उपजै, भ्रमहो, और विशेषकरकै अरतीहो ये लक्षण ज्यादा लिये औषधके हैं ॥ ५८ ॥ तिसकारणसे ओषधके शेषमें कहींभी दोषका शमन नहीं है क्योंकि पाचनके विना दोष अनेकप्रकारसे कुपित होते हैं ॥ ५९ ॥

अथ भोजनके उपरांत देनेके औषधका गुण ॥

शीघ्रं विपाकमुपयाति बलं निहन्यादन्नावृतं न च मुहुर्वदनाच्चिरिति ॥

प्राग्भुक्तसेवितमहौषधमेतदेव दद्याच्च दृढशिशुभीरुवराङ्गनाभ्यः ॥ ६० ॥

अन्तसे आवृतहुआ ओषध शीघ्र पकजाता है और बलको नाशता है और वारंवार मुखसे नहीं निकसता है इसलिये प्रभातका भोजनके साथ सेवित किया ओषध वृद्ध, बालक, डरपोक, स्त्री, इन्हेंको सुख देता है ॥ ६० ॥

अथ वातज्वरमें पंचमूलका काथ ॥

विल्वाग्निमन्थशुकनासकपाटलीनां कुम्भारिकाप्रयुतकं कथितं कपाय
म् ॥ दन्तान्विशोधयति वारयते समीरं नाशं करोति मरुतज्वरमाशु पुं
साम् ॥ ६१ ॥ किरातमुस्तमृतवल्लिकणासविच्यो गोकण्टको वृहतियु
ग्ममुद्गीच्यतिक्राः ॥ स्याच्छालिपर्णिकलशीकथितः समन्तात्काथः
समीरणभवं ज्वरमाशु हन्ति ॥ ६२ ॥ गुडूची शतपुष्पा च लक्ष्मी रास्ना
पुनर्नवा ॥ त्रायमाणकक्राथश्च गुडैर्वान्ज्वरापहः ॥ ६३ ॥

बेलगिरी, अरनी, शोनापाठा, पाडल, कोहला, इन्होंका काथ बना पीवै यह दंतोंको शोध-
ता है और वातको दूर करता है मनुष्योंके वातज्वरको शीघ्र नाशता है ॥ ६१ ॥ चिराय-
ता, नागरमोथा, गिलोय, पीपल, लालआक, गोखरू, दोनोंकटेली, नेत्रवाला, कुटकी, पिठवन,
चौलाई, इन्होंका काथ वातज्वरको अच्छीतरह नाशता है ॥ ६२ ॥ गिलोय, सौंफ, पिठव-
न, रायशन, सांठी, त्रायमाण, इन्होंके काथमें गुडमिला पीवै यह वातज्वरको हरता है ॥ ६३ ॥

अथ पित्तज्वरके निदान और चिकित्सा ॥

मूर्च्छा दाहो भ्रममदतृषावेगतीक्ष्णोऽतिसारस्तन्द्रालस्यं प्रलयनवमीपा
कतापश्च वक्त्रे ॥ स्वेदः श्वासो भवति कटुकं विह्वलत्वं क्षुधा वा एतैर्लि
ङ्गैर्भवति मनुजे पैत्तिको वै ज्वरस्तु ॥ ६४ ॥

मूर्च्छा और दाह उपजे भ्रम, मद, तृषा येभी होवें और ज्वरका तीक्ष्णवेगहो अतीसारहो
तंद्रा और आलस्यहो और बकवादकरै और छर्दिआवै और मुखमें पाक और दाहहो पसी-
ना और श्वास उपजे मुख कडुआ होजावै विह्वलपना और भूखभी होवै ये सब लक्षण होवें
तब पित्तज्वर जानना ॥ ६४ ॥

अथ रोध्रादि काथ ॥

रोध्रोत्पलामृतलताकमलं सिताढ्यं तत्सारिवासहितमेव हि पाचनेषु ॥
निष्काश्य काथमति चाशु निहन्ति पित्तं पित्तज्वरप्रशमनं प्रकरोति
पुंसाम् ॥ ६५ ॥

लोध, नीलाकमल, गिलोय, श्वेतकमल, अनंतमूल, सारिवा, इन्होंका पाचनकाथ बना तिसमें मिश्री डाल पीवै यह पित्तको शीघ्र शांत करता है और मनुष्योंके पित्तज्वरकोभी नाशता है ॥ ६५ ॥

अथ शक्राह्वादि काथ ॥

कथितं तण्डुलपयसा शक्राहंकटुरोहिणीसहितम् ॥

काथं यष्टीमधुना विनाशनं पित्तज्वराणान्तु ॥ ६६ ॥

इंद्रयव, कुटकी, मुलहटी इन्होंका काथ चावलोंके पानीमें बना पीवै यह पित्तज्वरको नाशता है ॥ ६६ ॥

दुरालभादि काथ ॥

दुरालभावासकपर्पटानां प्रियङ्गुनिम्बकटुरोहिणीनाम् ॥ किराततिकं कथितं कषायं सशर्कराढ्यं कथितञ्च पाचनम् ॥ ६७ ॥ सदाहपित्तज्वरमाशु हन्ति तृष्णाभ्रमं शोषविकारयुक्तम् ॥ ६८ ॥

जवासा, बांसा, पित्तपापडा, कांगनी, नींबकी छाल, कटकी, चिरायता, इन्होंका काथ बना खांडसे संयुक्तकर पीवै ॥ ६७ ॥ यह दाह, पित्तज्वर, तृषा, भ्रम, शोपरोग, इन्होंको नाशता है ॥ ६८ ॥

अथ पित्तपापडाका काथ ॥

एकोऽपि वै पर्पटको वरिष्ठः पित्तज्वराणां शमनाय योग्यः ॥ त

स्मात्पुनर्नागरवालकाढ्यः सिंहो यथा कङ्कटकप्रदत्तः ॥ ६९ ॥

अकेला पित्तपापडाका काथभी पित्तज्वरको शांत करनेके लिये योग्य और अति उत्तम है फिर संठ और नेत्रवालासे युक्तकिये पित्तपापडाका काथ पित्तज्वरको ऐसे नाशता है जैसे हींसके विडेमें प्राप्तहुआ सिंह वनके पशुको नाशता है ॥ ६९ ॥

अथ शुंठ्यादि काथ ॥

नागरोशीरमुस्ता च चन्द्रनं कटुरोहिणी ॥

धान्यकानां तु काथश्च पित्तज्वरविनाशनः ॥ ७० ॥

संठ, खस, नागरमोथा, रक्तचंदन, कुटकी, धनियां, इन्होंका काथ पित्तज्वरको नाशता है ७०

अथ गुडूचादिकाथ ॥

अमृतं पर्पटो धात्री काथः पित्तज्वरं हरेत् ॥ ७१ ॥

गिलोय, पित्तपापडा, आंवला, इन्होंका काथ पित्तज्वरको नाशता है ॥ ७१ ॥

अथ द्राक्षादि काथ ॥

द्राक्षापर्पटकतिकापथ्यारग्वधमुस्तकैः ॥

काथस्तृषाभ्रमदाहयुक्तपित्तज्वरापहः ॥ ७२ ॥

दाख, पित्तपापडा, कुटकी, हरडै, अमलताश, नागरमोथा, इन्होंका काथ तृषा, भ्रम, दाह, इन्होंसे युक्तहुये पित्तज्वरको नाशता है ॥ ७२ ॥

अथ दाहतृषामूर्च्छाके ऊपर विदार्यादिकोंका उपचार ॥

विदारिकारोध्रदधित्थकानां स्थान्मातुलुङ्गस्य च दाडिमानाम् ॥

यथानुलाभेन च तालुलेपो निहन्ति दाहं तृषामूर्च्छनञ्च ॥ ७३ ॥

विदारिकंद, लोध, कैथ, विजोरा, अनार, इन्होंसे जितनोंके जड़ और पत्ते मिलें तिन्होंका लेप बना तालुके ऊपर लगावे यह दाह, तृषा, मूर्च्छा, इन्होंको नाशता है ॥ ७३ ॥

अथ दाहज्वरका उपाय ॥

उत्तानस्य प्रसुप्तस्य कांस्ये वा ताम्रभाजने ॥

नाभौ निधाय धारां नु शीतदाहं निवारयेत् ॥ ७४ ॥

रोगीको सीधा शयन कराके तिसकी नाभीपर कांसीके अथवा तांबाके पात्रमें पानीकी धारा देनी यह दाहको नाशता है ॥ ७४ ॥

रम्यारामाकुचभरनमितालिङ्गनं चेटसङ्गद्राक्षापानं निगदितमथो शीतलं सेवनं स्यात् ॥ शुभ्राम्भोजञ्च मलयजलासिक्तसंशीतवासो मुक्ताहारो विशदतुहिनं कौमुदीयामुरवाय ॥ ७५ ॥ एभिर्हन्ति द्रुततरनिजं मानुषाणां तु पित्तं दाहं शोषं क्लममपि तथा तृड्भ्रमं मूर्च्छनाञ्च ॥ एतैर्योगैर्भवति नितरां पित्तदाहस्य शान्तिर्योग्या चैवं भवति सततं तत्क्रियाश्रीमताञ्च ॥ ७६ ॥

सुंदर और रमणीक चूचियोंके भारसे नम्रहुई स्त्रीका आलिंगन करै परंतु मैथुनको नहीं करै और दाखके रस सेवनकरे. शीतलपदार्थको सेवता रहै सफेद कमल और मलयागिरि चंदनके पानीसे भिगोयाहुआ शीतलवस्त्रको धारै और मोतियोंकी मालाको पहनै और सुंदर शीतल हवा और चांदनी ये सब पित्तज्वरीको सुख देते हैं ॥ ७५ ॥ इन्होंसे मनुष्योंके पित्त, दाह, शोष्ण, ग्लानि, तृषा, भ्रम, मूर्च्छा, ये शांत होजाते हैं और पित्तका दाह दूर होजाता है मनुष्योंके वास्ते यह क्रिया निरंतर योग्य है ॥ ७६ ॥

अथ ज्वरशोषका उपाय ॥

यदि जिह्वागलतालुशोषश्चेन्मनुजस्य च ॥ केसरं मातुलुङ्गस्य म
धुसैन्धवसंयुतम् ॥ पेय्यमाणं तालुलेपे सद्यः पित्तज्वरापहम् ॥ ७७ ॥

और जो मनुष्यके जीभ, गल, तालु, इन्होंने शोष उपजै तो विजोराका केसर ले तिसमें
शहद और सेंधानमक मिला पीसकर तालूपै लेप करै यह शीघ्र पित्तज्वरको नाशता है ॥ ७७ ॥

अथ कफज्वरका निदान और चिकित्सा ॥

स्तेमित्यं मधुरास्यता च जडता तन्द्रा शृशाञ्च तथा गात्राणां गुरुतारुचि
र्विरमता रोमोद्गमः शीतता ॥ प्रस्वेदाः श्रुतिरोधनञ्च कुरुते नेत्रे च पाण्डु
च्छवी विष्टब्धमलटत्तिकासवमनं श्लेष्मज्वरे ते विदुः ॥ ७८ ॥

शरीरका गीलापन हो, मुख मीठा रहै, जडपना, अत्यंत तंद्रा, शरीरका भारीपन, अरुचि,
ग्लानि रोमोंका खडा होना, शीतलपना ये उपजै और पसीना आवै और कानोंका छिद्र रुक
जावै और आधा पीला और आधा सफेद ऐसे वर्णकी कानिसे संयुक्त नेत्र होजावै मलकी
प्रवृत्ति बंधी हो खांसी और छर्दि आवै ये सब लक्षण हों तब कफज्वर जानना ॥ ७८ ॥

अथ कफज्वरका पाचन पिप्पल्यादिकल्क ॥

पिप्पलादिककल्कं तु कफजे पाचनं हितम् ॥ ७९ ॥

पिप्पलादि गणके ओषधोंका कल्क कफके ज्वरमें सुंदर पाचन है ॥ ७९ ॥

अथ व्याड्यादिकल्क ॥

तद्वह्याघ्नी च सिंही च रोध्रं कुष्ठपटोलकम् ॥

ज्वरे कफात्मजे चैतत्पाचनं स्यात्तदुत्तमम् ॥ ८० ॥

कटेली, वांसा, लोध, कूट, परवल, इन्होंका पाचन कफज्वरमें हित है ॥ ८० ॥

अथ वासादिकाथ ॥

वासा गुडूची त्रिफला पटोली शठी च तिक्ता मधुनी कषायम् ॥ श्ले

ष्मप्रभूतेषु रुजेषु सम्यग् ज्वरं निहन्यात्कफजश्च शीघ्रम् ॥ ८१ ॥

वांसा, गिलोय, हरद्वै, बहेडा आंवला, परवल, कचूर, कुटकी, इन्होंके काथमें शहद मिला
पीवै यह कफके ज्वरको शीघ्र नाशता है ॥ ८१ ॥

अथ आमलक्यादिकाथ ॥

आमलक्यभया कृष्णा षड्ग्रन्था त्रिन्निकन्तथा ॥

मलभेदी कफान्तको ज्वरनाशनदीपनः ॥ ८२ ॥

आंवला, हरद्वै, पीपल, वच, स्रंठ, मिरच, पीपल, हरदे, वहेडा, आंवला, दालचिनी, इलायची, तेजपात, इन्होंका काथ मलको पतला करता है कफको हरता है ज्वरको नाशता है और अग्निको जगाता है ॥ ८२ ॥

अथ पिप्पल्यादिकाथ ॥

पिप्पली शृङ्गवेरञ्च षड्यन्था वत्सकं फलम् ॥

काथो मधुप्रगाढः स्याच्छ्लेष्मज्वरविनाशनः ॥ ८३ ॥

पीपल, अदरक, वच, इंद्रयव, इन्होंका काथ बना तिसमें शहद मिला पीनेसे कफज्वरका नाश होता है ॥ ८३ ॥

अथ पिप्पलीका अवलेह ॥

क्षौद्रेण पिप्पलीचूर्णं लिह्याच्छ्लेष्मज्वरापहम् ॥

प्लीहानाहविषं हन्ति कासश्वासासामर्दनम् ॥ ८४ ॥

पीपलके चूर्णको शहदमें मिला चाटनसे कफज्वर, तिह्नी रोग, अफारा, विष, खांसी श्वासरोग, आम, इन्होंका नाश होता है ॥ ८४ ॥

अथ वातपित्तज्वरका निदान और चिकित्सा ॥

तृष्णा मूर्च्छा वमिरथ कटुकमानने रूक्षता स्यादन्तर्दाहो वपुषि नयने रक्तता कण्ठशोषः॥निद्रानाशः श्वसनशिरसो रुक्मभेदोऽङ्गभङ्गो रोमोद्धर्ष स्तमकमिति चेद्वातपित्तज्वरः स्यात् ॥ ८५ ॥

तृषा, मूर्च्छा, छर्दि ये उपजैं और मुखमें कहुआपनहो और शरीर रूखा होजावै, शरीरके भीतर दाहहो और लालनेत्र होजावैं और कंठमें शोषहोवै और नींदका नाशहो श्वास और शिरमें शूलहो और अंगडाई टूटै रोमावली खडीहो और अंधेरी आवै ये सब लक्षण हों तब वातपित्तज्वर जानना ॥ ८५ ॥

अथ वातपित्तज्वरका पाचन त्रिफलादि काथ ॥

संस्तृष्टदोषैर्विहितञ्च सम्यग्विपाचनं पित्तमरुज्वरे च ॥ फलत्रिकं शा

ल्मलिसंप्रयुक्तं रास्नाकिरातस्य पिवेत्कषायम् ॥ ८६ ॥

मिलेहुये दोषोंसे युक्तज्वरमें योग्यपाचनको वातपित्तज्वरमें देवै और हरद्वै, वहेडा, आंवला, शंभलकी छाल, रायशन, चिरायता, इन्होंके काथको पीवै ॥ ८६ ॥

अथ शालिपर्ण्यादिकल्क ॥

द्विपञ्चमूली सह नागरेण गुडूचिभूनिम्बधनैः समेता ॥ कल्कः

प्रशास्तः सगुडो मरुत्सु स पित्तवातज्वरनाशहेतुः ॥ ८७ ॥

दशमूल, स्रंठ, गिलोय, चिरायता, नागरमोथा इन्होंके कल्कमें गुडमिला खावै यह वात-पित्तज्वरको नाशता है ॥ ८७ ॥

अथ किरातादि काथ ॥

किराततिक्तामलकीशठीनां द्राक्षोषणानागरकामृतानाम् ॥ काथः
सुशीतो गुडसंयुतः स्यात्स पित्तवातज्वरनाशहेतुः ॥ ८८ ॥

चिरायता, आंवला, कचूर, मुनक्का दाख, मिरच, स्रंठ, गिलोय, इन्होंके काथमें गुड मिला पी-वै यह वातपित्तज्वरको नाशता है ॥ ८८ ॥

अथ पंचभद्रकाथ ॥

अमृतमुस्तकवासापर्पटविश्वाजलेन काथः ॥

पानं पित्तमरुत्सु ज्वरं निहन्याच्च भद्रमुञ्जः ॥ ८९ ॥

गिलोय, नागरमोथा, वांसा, पित्तपापडा, स्रंठ, इन्होंका पानीमें काथ बनावै यह पंचभद्र-काथ वातपित्तज्वरको नाशता है ॥ ८९ ॥

अथ पित्तकफज्वरका निदान और चिकित्सा ॥

निद्रागौरवकात्ससन्धिशिरुक्कार्त्तिस्तथा पर्वणां भेदो मध्यमवेगमत्र न
यने वातान्विते श्लेष्मणि ॥ सन्तापः श्वसनं रुचिः श्रुतिपथे कण्ठे च
शुष्काद्यतिस्तन्द्रामोहमरोचकभ्रममथ श्लेष्मज्वरे पित्तले ॥ ९० ॥

मींद बहुत आवै संधि और शिरमें शूल चलै और संधि दूटै और स्वरका वेग मध्यहोवै
नेत्रोंमें संतापहो श्वासहो सुननेमें रुचिहो और कंठमें सूखापनहो और तंद्रा, मोह, अरोचक,
भ्रम, येभी उपजैं, ये सब लक्षण होवैं तब पित्तकफज्वर, जानना ॥ ९० ॥

अथ पित्तकफज्वरका पाचन शुंठ्यादि काथ ॥

नागरं भद्रमुस्ता वा गुडूच्यामलकाह्वयम् ॥ पाठामृणालोदीच्याश्च का
थः पित्तज्वरे कफे ॥ ९१ ॥ पाचनो दीपनीयः स्याद्रक्तशोषनिवारणः ॥ ९२ ॥

स्रंठ, नागरमोथा, गिलोय, आंवला, पाठा, कमलकी डंडी, नेत्रवाला, इन्होंका काथ पित्त-
कफज्वरमें हित है ॥ ९१ ॥ और पाचन है अग्निको जगाता है रक्तको और शोषको दूर
करता है ॥ ९२ ॥

अथ द्राक्षादि क्वाथ ॥

द्राक्षामृतावासकरिष्टकाश्च भूनिम्बतिक्तेन्द्रयवाः पटोलम् ॥ मुस्ता-
सभागार्ग कथितः कषायः पित्तकफस्य ज्वरनाशनाय ॥ ९३ ॥

मुनक्का दाख, गिलोय, वांसा, नींबकी छाल, चिरायता, कुटकी, इंद्रयव, परवल, नागरमो-
था, भारंगी, इन्होंका क्वाथ पित्तकफज्वरको नाशता है ॥ ९३ ॥

गुडूच्यादि क्वाथ ॥

गुडूचिका निम्बदलानि शुण्ठी मुस्तश्च कुस्तुम्बुरुचन्दनानि ॥ क्वाथं
विदध्याःकफपित्तवातज्वरं निहन्याच्च गुडूचिकाद्यः ॥ ९४ ॥ एष सर्वं
ज्वरान्हन्ति हृष्टासाद्यानरोचकान् ॥ प्रतिश्यायपिपासाम्नः शोषदाहनि
वारणः ॥ ९५ ॥

गिलोय, नींबके कोंपल, संठ, नागरमोथा, धनियां, रक्तचंदन, गिलोय, इन्होंका क्वाथ पि-
त्तकफज्वरको हरता है ॥ ९४ ॥ और यही क्वाथ सवमकारके ज्वर, थुकथुकी, अरोचक,
खेहर, पिपासा, शोष, दाह, इन्होंको नाशता है ॥ ९५ ॥

अथ अन्यगुडूच्यादि क्वाथ ॥

गुडूचीनिम्बचक्रवासकश्च शठी किरातं मगधाटहल्यौ ॥ दार्वी पटो
लं कथितं कषायं पिवेन्नरः पित्तकफे ज्वरे च ॥ ९६ ॥

गिलोय, नींबकी छाल, तगर, वांसा, कचूर, चिरायता, पीपल, अटहली, दारुहलदी परव-
ल, इन्होंका क्वाथको पीवै यह पित्तकफज्वरमें हित है ॥ ९६ ॥

अथ पटोलादि क्वाथ ॥

पटोली चन्दनं तिक्ता मूर्वा पाठामृतागणः ॥

पित्तश्लेष्मज्वरच्छर्दिदाहकण्डूनिवारणः ॥ ९७ ॥

परवल, रक्तचंदन, कुटकी, मरोडफली, पाठा, गिलोयआदि गणके ओपध, इन्होंका क्वाथ
पित्तकफज्वर, छर्दि, दाह, खाज, इन्होंको दूर करता है ॥ ९७ ॥

अथ अन्यपटोलादि क्वाथ ॥

पटोलवासापिचुमन्दकस्य मूलानि यष्टीमधुकं धना च ॥ कषायमेत
त्प्रतिसाधितन्तु ज्वरे कफे पित्तभवे प्रशस्तः ॥ ९८ ॥ सन्दीपनो पित्तकफा
त्मके च तथैव पित्तासृजसम्भवे च ॥ ज्वरे मलानां प्रतिभेदनः स्यात्प
टोलधान्याश्रितकः प्रशस्तः ॥ ९९ ॥

परवल, वांसा, नीचकी छाल, मुलहदी, धनियां, इन्होंका काथ पित्तकफज्वरमें श्रेष्ठ है ॥ ९८ ॥ यह काथ अधिको जगाता है पित्त कफज्वरमें हित है पित्तरक्तके ज्वरमें हित है और मलोंको पतला करता है ॥ ९९ ॥

अथ वातकफज्वरका निदान और चिकित्सा ॥

शीतं वेपथुपर्वभङ्गवमथुर्गात्रे जडत्वं रुजां मन्दोष्मारुचिबन्धनं परुषता
कासस्तमः शूलवान् ॥ तन्द्रा कूजनमात्मलौघमथवा स्तैमित्यजृम्भारु
चिः प्रस्वेदमलमूत्रोदसहितः स्याच्छ्लेष्मवातज्वरः ॥ १०० ॥

शीत लगै और शरीर काँपै—और संधियें टूटै—और शरीरमें जडपना, शूल, मंदाग्नि, अरुचि, बंधना, कठोरपना, खांसी, शूल, ये उपजै तंद्राहो शब्दको करै और शरीरमें चंचलपना हो और शरीरका गीलापन, जंभाई, अरुचि, ये उपजै और पसीना आवै मल और मूत्र रुकजाँवै ये सब लक्षण होवै तब वातकफज्वर जानना ॥ १०० ॥

अथ आरग्वधपंचक ॥

आरग्वधस्तिक्तकरोहिणी च हरीतकी पिप्पलिमूलमुस्ता ॥ निष्का
थ्य कल्कः कफवातयुक्ते ज्वरे सशूले हितपाचनोऽयम् ॥ १०१ ॥

आरग्वध, कुटकी, हरड, पीपलामूल, नागरमोथा, इन्होंका, काथकरकै कल्क करै, मह कल्क कफवातसे उत्पन्न शूलकरकै युक्त ज्वरमें हितकारक और पाचन है ॥ १०१ ॥

अथ क्षुद्रादिपाचन ॥

क्षुद्रा गुडूची सह नागरेण वासाजलं पर्पटकश्च पथ्याः ॥ मुस्ता
च दुःस्पर्शयुतः कषायः पानो हितो वातकफज्वरस्य ॥ १०२ ॥

कटैली, गिलोय, स्रंठ, वांसा, नेत्रवाला, पित्तपापडा, हरडै, नागरमोथा, जवासा, इन्होंका काथ वातकफज्वरको नाशता है ॥ १०२ ॥

अथ पर्पटादि काथ ॥

पर्पटनागाख्यवचातन्तुककट्टफलैलाभयाविश्वभूतिके ॥ काथो
हिङ्गुमधुयुतः कफवाते सहिक्कारोगे सगलग्रहे च ॥ १०३ ॥

पित्तपापडा, नागकेसर, वच, रोहिपट्टण, कायफल, इलायची, हरडै, स्रंठ, करंजुवा, इन्होंके काथमें हींग और शहद मिला पीवै यह कफ वातज्वर, हिचकी रोग, गलग्रह इन्होंमें हित है ॥ १०३ ॥

अथ दशमूल काथ ॥

द्विपञ्चमूलकः काथः कणाचूर्णेन भावितः ॥

देधो वातकफे शूले ज्वरे श्वासै च पीनसे ॥ १०४ ॥

दशमूलके काथमें पीपलका चूर्ण मिला पीवै यह वातकफज्वर, शूल, श्वास, पीनस, इन्हों-
में हित है ॥१०४॥

अथ त्रिदोषजज्वरका निदान और चिकित्सा ॥

तन्द्रालस्यं मुखमधुरता ष्ठीवनं कण्ठशोषो निद्रानाशः श्वसनविकलो मू-
र्च्छना शोचना च ॥ जिह्वाजाड्यं परुषमथवा पृष्ठशीर्षं व्यथा स्याद्
न्तर्दाहो भवति यदि वा विद्धि दोषं त्रिदोषम् ॥ १०५ ॥

तंद्रा और आलस्य आवै मुखमें मधुरपना रहे और वारंवार थूके कंठमें शोष उपजे नी-
दका नाशहो श्वाससे विकल होजावै मूर्च्छा और शोचहो जीभमें जडपनाहो अथवा करडी
जीभ होजावै पृष्ठभागमें और शिरमें पीडाहो और शरीरके भीतर दाहहो ये सब लक्षणहों
तब त्रिदोषजज्वर जाजना ॥ १०५ ॥

त्रिदोषज्वरकी यंशःप्रापक चिकित्सा ॥

दृष्ट्वा त्रिदोषजं घोरं ज्वरं प्राणापहारकम् ॥ तस्मादादौ कफस्यास्य शो-
षणं परिकीर्त्तितम् ॥ १०६ ॥ न कुर्व्यापित्तशमनं यदीच्छेदात्मनो यशः ॥
कफवातैर्वलवतः सद्यो हन्ति रुजातुरम् ॥ १०७ ॥ लङ्घनं दमनं वापि
ष्ठीवनं स्यात्त्रिदोषजे ॥ त्रिरात्रं पंचरात्रं वा सप्तरात्रमथापि वा ॥ १०८ ॥
लङ्घनञ्च समुद्दिष्टं ज्ञात्वा दोषबलावलम् ॥ कफं विशोषितं ज्ञात्वा ततो
वातनिवारणम् ॥ १०९ ॥ पित्तसंशमनं कार्यं ज्ञात्वा पित्तस्य कोपन-
म् ॥ शोषणीयौ वातकफौ न तु पित्तं विनाशयेत् ॥ ११० ॥

प्राणोंके हरनेवाला और घोररूप ऐसे त्रिदोषजज्वरको देखकर प्रथम कफको शोषनेका
उपाय कहा है ॥ १०६ ॥ जो वैद्य अपने यशकी इच्छा चाहै तो त्रिदोषजज्वरमें पित्तको
शांत नहींकरै क्योंकि कफ और वातकी अधिकतावाले त्रिदोषजज्वरकी ज्वर मारदेता है
॥ १०७ ॥ त्रिदोषजज्वरमें लंघन, वमन ष्ठीवन ये हित हैं और इस रोगमें तीनरात्रि,
पांचरात्रि, सातरात्रिक ॥ १०८ ॥ दोषके बल और अवलको जान लंघन करना चाहिये जब
कफके शोषको जानले तब वातको निवारण करै ॥ १०९ ॥ पित्तके कोपको जानकर पित्तकीभी
शांति करनी और वात तथा कफको जरूर शोषै और पित्तको कभीभी नहीं नष्टकरै ॥ ११० ॥

अथ सन्निपातज्वरकां लक्षणं और चिकित्सा ॥

तृष्णा च शूलशोषः श्वसनमथ निशाजागरो वासुरैस्तु तन्द्रां मो
हश्च शोषो भवति च वदने घ्राणजिह्वाधराणाम् ॥ पाकं निष्ठीवते यः
रुशतनुश्च भवेन्नण्डलानाञ्च देहे सम्भूतिः श्यावनेत्राधरवदनमदस्वेद
आध्मानशोषः ॥ १११ ॥ क्षुन्नाशो वा भ्रमणमपि तथा शिरसो लो
डनं वा शिरोऽर्त्तिः स्रोतरोधो वभिर्वा गलकघुरघुराशूलकैर्वा द्यतस्तु ॥
एतैर्लिङ्गैः प्रयुक्तः प्रभवति च तृष्णां सन्निपातेतिसंज्ञा रोगाणामाशुका
री ज्वर अतिदुःखदो वाजिनां वा द्विपानाम् ॥ ११२ ॥

तृष्णा, शूल, शोष, श्वास, रात्रिका जागना दिनमें तन्द्रा, मोह, मुखमें शोष ये उपजै और नासिका, जीभ, ओष्ठ, इन्होंका पाकहोवै और वारंवार थूकै और रुशशरीर होजावै और शरीरमें मंडलोंकी उत्पत्तिहो और कालेनेत्र होजावै मुख काला होजावै मद और पसीना उपजै अफारा और शोषभीहो ॥ १११ ॥ भूख जातीरहै शिरभ्रमै अथवा शिरको हिलवै और शिरमें पीडाहो स्रोत रुकजावै अथवा छर्दिहो और गलेमें घुर्घरशब्द और शूल उपजै ये सब लक्षणहोवै तब मनुष्यकै सन्निपातज्वर जानना यह रोगोंको शीघ्रकरता है घोटोंको तथा हाथियोंकोभी अतिदुःख देता है ॥ ११२ ॥

अथ सन्निपातज्वरकी चिकित्सा ॥

सन्निपातज्वरे पूर्वं कुय्याद्वातकफापहम् ॥ पश्चाच्छ्लेष्मणि संक्षीणे निरा
मे पित्तमारुतौ ॥ ११३ ॥ सन्निपातज्वरे यत्नं कृत्वा तन्द्रां जयेत्पराम् ॥
उपद्रवः कष्टतमो ज्वराणाञ्च विशेषतः ॥ ११४ ॥ पथ्ये कारयते यस्तु रो
गिणां कफपूरितम् ॥ स एवास्य शत्रुः स्यान्न पथ्यं नच भेषजम् ॥ ११५ ॥

सन्निपातज्वरमें प्रथम वातकफको नाशनेवाली क्रियाको करै जब कफका क्षय होजावै तब वात और पित्त आपही शांत होजाते हैं ॥ ११३ ॥ सन्निपातज्वरमें यतनसे तन्द्राको दूरकरै यह सन्निपात अत्यंत उपद्रव है और ज्वरोंके मध्यमें विशेषकरकै सन्निपात बुराहै ॥ ११४ ॥ सन्निपातज्वरमें जो वैद्य कफसे पूरितहुये रोगीको पथ्यदेवै वही वैद्य तिसरोगीका वैरी जानना इसवास्तै पथ्यको और ऐसैतैसे ओषधकोभी नहीं देना ॥ ११५ ॥

अथ दशाङ्ग काथ ॥

शठी द्विपञ्चमूलकं दुरालभा चाकोटजम् ॥ पटोलं पौष्करं वाथ युक्ता

भार्गवी पिप्पली॥११६॥निहन्ति सान्निपातिकज्वराग्निमायन्दशाङ्गः११७
कचूर, दशमूल, जवासा, पिस्ते, परवल, पोहकरमूल, श्वेतदूव, पीपल, इन्होंका काथ
॥ ११६ ॥ सन्निपातज्वर और मंदाग्निका नाश करता है ॥ ११७ ॥

अथ भूनिवादि काथ ॥

भूनिम्बदारुदशमूलमहौषधाब्दतिकेन्द्रबीजधनिकभद्रकण्टकणाकषायः॥त-
न्द्राप्रलापभ्रमतृषारुचिदाहमोहश्वासाग्निमान्द्ययुक्तमथज्वरमाशु हन्ति ११८

चिरायता, देवदार, दशमूल सूंठ, कुटकी इन्द्रजव, धनियां, गोखरू, पीपल, इन्होंका काथ
तंद्रा प्रलाप भ्रम तृषा अरुचि, दाह, मोह, श्वासरोग, मंदाग्निज्वर इन्होंको नाशता है ॥११८॥

अथ शुंठ्यादि काथ ॥

शुण्ठीघनागजकणासुरदारुधान्यातिक्ताकलिङ्गदशमूलसमोऽपि कल्कः ॥
श्रेष्ठस्त्रिदोषजनितज्वरनाशनाय श्वासभ्रमारुचिविवन्धहृदामयघ्नः॥११९॥

सूंठ, नागरमोथा, देवदार, गजपीपल, धनियां, कुटकी, इन्द्रजव, दशमूल, ये सब समा
भागले कल्क बनावै यह त्रिदोषज्वरको नाशता है और श्वासरोग, भ्रम, अरुचि, विबंध,
हृदोग इन्होंको नाशता है ॥ ११९ ॥

अथ मुस्तादि काथ ॥

मुस्तोशीरनिशाविशालमधुकं पाठा बला रोहिणी नीली धन्वद्यवास
कटुरशठी शुण्ठी समङ्गा त्रिवृत् ॥ यटीपिप्पलिमूलपर्पटफला पिप्पल्य
कं दारु च श्यामाहेमगुडूचिकासमपयःकाथो ज्वरान्तः स्मृतः ॥ १२० ॥

नागरमोथा, खस, हलदी, सुंदरमुलहटी, सोनापाठा, खरैहटी, हरडै, नीलजवासा, टेंभुनी,
कचूर, सूंठ, मजीठ, निशोत, मुलहटी, पीपलामूल, पित्तपापडा, पीपल, देवदार, कालीनिशोत,
कचनार, गिलोय, इन्होंकी समान पानीमें काथ बनावै यह ज्वरको नाशता है ॥१२०॥

अथ वृहत्यादि काथ ॥

द्वे वृहत्सौ शठी शृङ्गी किरातं कटुरोहिणी ॥ पटोलं पौष्करं भार्ङ्गी वस्त
कञ्च दुरालभा ॥ १२१ ॥ एतद्वृहत्यादिकपाचनं स्यात्कासादिकोपद्र
वनाशनञ्च॥शीघ्रं निहन्ति ज्वरसन्निपातं शूलार्त्तितन्द्राशमने प्रशस्तम् १२२
दोनों कटेहली, कचूर, भांग, चिरायता, कुटकी, परवल, पोहकरमूल, भारंगी, इन्द्रजव, ज-

वासा इन्होंका काथ बनावै ॥ १२१ ॥ यह कटेलीआदि पाचन है खांसी आदि उपद्रवको और सन्निपातज्वरको शीघ्र नाशता है शूल और तंद्राको शांत करनेमें अतिश्रेष्ठ है ॥ १२२ ॥

अथ शठ्यादि पाचन ॥

शठी किरातं कटुका विशाला गुडूचिभृङ्गी बृहतीद्वयश्च ॥ महौषधं पी
ष्करधन्वयासरास्त्रासुराह्वा गजपिप्पली च ॥ १२३ ॥ पीतन्तु निष्का
थ्य हितं नराणां शठ्यादिचातुर्दशकं प्रशस्तम् ॥ जघान तन्द्राश्वसनं शि
रोऽन्तिजाड्यं सशूलं ज्वरमाशु हन्ति ॥ १२४ ॥

कचूर, चिरायता, कुटकी, इंद्रायन, गिलोय, भांग, दोनोकटेली, सूंठी, पोहकरमूल, जवा-
सा, रायशन, देवदारु, गजपीपल, ॥ १२३ ॥ इन्होंका काथ बना पीवै यह चौदह औषधोंका
काथ हित है और तंद्रा, श्वास, शिरका रोग, जडपना, शूल, ज्वर, इन्होंको शीघ्र नाशता है ॥

अथ भूनिंवादि काथ ॥

भूनिम्बःसुरदारुनागरघनातित्ताकलिङ्गानि च तद्वद्वस्तिकणाद्विपञ्चकग
णैर्युक्तः कषायो हितः ॥ पीतः सर्वरुजां विनाशनकरः स्यात्सन्निपात
ज्वरं हन्ति श्वासविशोषवक्षसिरुजं तन्द्रां जघान द्रुतम् ॥ १२५ ॥

चिरायता, देवदारु, सूंठ, नागरमोथा, कुटकी, इंद्रयव, गजपीपल, दशमूल, इन्होंका का-
थ बना पीना यह सब प्रकारके रोगोंको और सन्निपातज्वरको नाशता है और श्वासरोग
शोषरोग, छातीकी, पीडा, तंद्रा, इन्होंको शीघ्र नाशता है ॥ १२५ ॥

अथ बृहद्रास्त्रादि काथ ॥

रास्त्रा गुडूचिधनपर्पटकं पटोली भूनिम्बवसकशठीयुतनागराणाम् ॥
तित्तासुराह्वगजमागधिकायवासावासाबलागजबलाकथितः समांशः
॥ १२६ ॥ काथो निहन्ति मरुतप्रभवामयानां सश्वासकासजठरात्तिवि
षूचिकानाम् ॥ श्रेष्ठो नृणां भुवि च पाचनसन्निपाते रोगेऽथवा कफसमी
रणके प्रदेयः ॥ १२७ ॥

रायशन, गिलोय, नागरमोथा, पिप्पलीपडा, परवल, चिरायता, इंद्रयव, कचूर, सूंठ, कु-
टकी, देवदारु, गजपीपल, जवासा, वांसा, खैरहटी, बड़ीखैरहटी, ये सब समानभागले काथ
बनावै ॥ १२६ ॥ यह काथ वातसे उपजे रोग, श्वासरोग, खांसी, पेटरोग, विषूचिका, इन्होंको
नाशता है यह पाचन मनुष्योंको संसारमें श्रेष्ठ है अथवा कफवातके रोगमें देना चाहिये १२७

अथ लघुरास्नादि ॥

रास्नात्रिकण्टकशतमौषधीनान्तथा भाङ्गी सपुष्करघना सुरदारुधान्याः ॥
 काथो हितः सकलमारुतजिज्वरेषु स्यात्सन्निपातप्रभवेष्वतिदारुणेषु १२८
 रायशन, गोखरू, शतावरी, भारंगी, पोहकरमूल, नागरमोथा, देवदारु, धनियां, इन्होंका
 काथ दारुणरूपी सन्निपातज्वरोंमें हित है ॥ १२८ ॥

अथ त्रिवृतादि मलभेदन ॥

त्रिवृद्विशाला च तथा सुराह्वमारग्वधस्तिक्तकरोहिणी च ॥

काथो भवेद्भेदनको मलानां स्याद्वातशूले नयतो भयघ्नः ॥ १२९ ॥

निशेत, इंद्रायनकी जड़, देवदारु, अमलताश, कुटकी, इन्होंका काथ मलको पतला
 करता है और वातशूलको करता है ॥ १२९ ॥

अथ सन्निपातस्वेदहर ॥

वचा यवानी च महौषधश्च शुष्कश्च चूर्णं तनुलेपनाय ॥ शस्तं वदन्ति
 ज्वरघर्मशान्तिं करोति नूनं परिमर्दनश्च ॥ १३० ॥ मागधी च सुरदारु
 तथा च विश्वकं तिक्ता च दीप्यकयुतं तनुलेपनाय ॥ चूर्णं प्रशस्तमपि
 वारयते शरीरे स्वेदश्च शीतलतनुर्भवेदाशु नूनम् ॥ १३१ ॥

वच, अजमान, स्रुंठ, इन्होंका सूखा चूर्ण बना शरीरपै मालिसकरै यह ज्वरको और प-
 सीनाको शांत करता है ॥ १३० ॥ पीपल, देवदारु, स्रुंठ, कुटकी, अजमान, इन्होंका चूर्ण
 बना शरीरपै मालिस करनेसे पसीने दूर होते हैं और शीतल शरीर होजाता है ॥ १३१ ॥

अथ नस्यविधान ॥

मधूकसारं समहौषधेन वचोपणा सैन्धवसंयुता च ॥ मूत्रेण वा चोष्ण
 जलेन पिष्टं प्रनष्टज्ञानप्रतिबोधनाय ॥ १३२ ॥ शोभाञ्जनकमूलस्य रसं
 समरिचान्वितम् ॥ विसङ्गितानां नस्यं स्याद्बोधनं चाशु रोगिणाम् ॥ १३३ ॥

महुआका सार, स्रुंठ, वच, मिरच, सेंधानमक, इन्होंको गोमूत्रमें अथवा गर्मपानीमें पीस
 नाकमें चढावै यह नस्य मूच्छाको प्राप्तहुयेको जगाता है ॥ १३२ ॥ सहैजनाकी जड़का रसमें
 मिरचोंका चूर्ण मिला नासिकामें चढानेसे संज्ञासे रहित मनुष्योंको शीघ्र ज्ञान होजाता है ॥ १३३ ॥

अथ प्रधमनविधि ॥

एकं बृहत्याः फलपिप्पलीकं शुण्ठीयुतं चूर्णमिदं प्रशस्तम् ॥ प्रधाम

येद्वाणपुटे तु संज्ञाचेष्टां करोति क्ष्वथुप्रबोधः ॥ १३४ ॥

बडीकटेलीका एक फल, पीपल, स्रंठ, इन्होंका चूर्ण बना पुटलीके द्वारा नासिकामें चढानेसे छीक आती है और चेष्टा होजाती है ॥ १३४ ॥

अथ अंजनविधि ॥

शिरीषवीजं मरिचोपकुल्या मूत्रेण घृष्टं सह सैन्धवेन ॥ नेत्राञ्जनं स्या
न्ययने नराणां प्रनष्टसंज्ञां प्रकरोति बोधः ॥ १३५ ॥ त्रिकटु तथा च क
रञ्जवीजं त्रिफला सुरदारु सैन्धवम् ॥ तुलसी वर्त्ति नयनाञ्जनकं तन्द्रा
नाशं करोति नयनानाम् ॥ १३६ ॥

: शिरसके बीज, मिरच, पीपल, सेंधानमक, इन्होंको गोमूत्रमें पीस नेत्रोंमें आजै यह अं-
जन नष्टहुई संज्ञाको फिर उपजाता है ॥ १३५ ॥ स्रंठ, मिरच, पीपल, करंजुवाके बीज, हरडै,
बहेडा, आंवला, देवदार, सेंधानमक, तुलशी, इन्होंको पीस बत्ती बना नेत्रोंमें आजै यह
आंजन तंद्राको नाशता है ॥ १३६ ॥

अथ निष्ठीवनविधि ॥

केसरं मातुलुङ्गस्य शृङ्गवेरं ससैन्धवम् ॥ त्रिकटुसंयुतं कृत्वा आकण्ठा
द्वारयेन्मुखे ॥ १३७ ॥ दन्तजिह्वामुखं तालुघर्षणं कारयेद्बुधः ॥
कुर्ष्यान्निष्ठीवनं सर्वं वारंवारं विधानतः ॥ १३८ ॥ तेन कण्ठविशुद्धिः
स्याच्छ्रेष्माणं चापकर्षति ॥ जिह्वापटुत्वरुचिकृत्कासः श्वासश्च शाम्य
ति ॥ १३९ ॥ त्रिकटुचव्यकापथ्याचूर्णं सैन्धवसंयुतम् । तेन दन्तास्त
था जिह्वां घर्षयेत्तालुकामलम् ॥ १४० ॥ निष्ठीवनं गलशुद्धिरुचिकृ
त्कफसूदनम् ॥ हृष्टासौ नाशमामोति पटुत्वं कुरुते श्रुशम् ॥ १४१ ॥

विजौराकी केसर, आदरक, सेंधानमक, स्रंठ, मिरच, पीपल इन्होंको मिला मुखमें धारै
॥ १३७ ॥ पीछे दंत, जीभ, मुख, ताल इन्होंको विसै पीछे विधानसे वारंवार थूकताजावै ॥ १३८ ॥
इससे कंठकी शुद्धि होती है और कफ दूर होजाता है और जीभ साफ होजाती है और रुचि
उपजती है त्वांसी और श्वास शांत होजाता है ॥ १३९ ॥ स्रंठ, मिरच, पीपल, चव्य, हरडै,
सेंधानमक, इन्होंके चूर्णसे दंत, जीभ, तालु, इन्होंको विसै ॥ १४० ॥ यह निष्ठीवनकर्म
गलकी शुद्धि और रुचिको करता है कफको दूर करता है थकथकीको नाशता है और
अत्यंत स्वादको उपजाता है ॥ १४१ ॥

अथ सन्निपातमें विशेषता ॥

यदि वा शीतगान्त्रे च तदा स्वेदो विधीयते ॥ स्वेदास्त्रयोदश ज्ञेयाः स्वेद
वारणकारणाः ॥ १४२ ॥ सङ्करः प्रस्तुतो नाडीपरिषेकोऽपगाहनः ॥
आतङ्कोऽस्मयनः कर्षः कूटी भूकुम्भिरेव च ॥ १४३ ॥ कूपो होलाक
इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोदश ॥ १४४ ॥ कालस्वेदं घटीस्वेदं वालुकास्त्रे
दमेव च ॥ कारयेद्धस्तपादाभ्यां तथां शिरसि चातुरे ॥ एवं नो शान्ति
र्यदि वा दहेल्लोहशलाकया ॥ १४५ ॥ पादौ दग्धे न चेच्छैत्यं दहेद्वाङ्गु
ष्ठमूलके ॥ तथा च मणिवन्धे च हृदि मूर्ध्नि तथापि वा ॥ १४६ ॥ स्वे
दो ललाटे हिमो वा नरस्य शीतार्दितस्यापि सपिच्छलस्य ॥ कण्ठस्थि
तो यस्य न याति वक्षो नूनं समभ्येति गृहं हि मृत्युः ॥ १४७ ॥ सप्ता
हे वा दशाहे वा द्वादशाहेऽथवा पुनः ॥ त्रयोदशे पञ्चदशे प्रशमं याति
हन्ति वा ॥ १४८ ॥ अथ पञ्चदशाहे वा हन्ति रक्षति मानवम् ॥ सन्नि
पातो महाघोरो ज्वरः कालाग्निसन्निभः ॥ १४९ ॥ एषा त्रिदोषमर्घ्या
दा मोक्षाय च वधाय च ॥ सन्निपातस्य दोषस्य नरस्यास्य भिषग्वर !
॥ १५० ॥ सन्निपातेऽन्तर्दाहे मनुजं यः शीतवारिणा सिञ्चेत् ॥ आंतुरः
क्वथमपि जीवेद्वैद्यश्वासौ कथं पूज्यः ॥ १५१ ॥ यः सन्निपातज्वलधौ
पतितं मनुष्यं वैद्यः समुद्धरति किञ्च कृतं नु तेन ॥ धर्मेण वाथ यश
सा विनयेन युक्तः पूजां च कां भुवितले न लभेत्तु वैद्यः ॥ १५२ ॥

जो शीतल शरीरहो तब पसीनादेना चाहिये दुःखको दूर करनेके कारणरूपी स्वेद
अर्थात् पसीने तेरह जानने ॥ १४२ ॥ संकर, नाडीपरिषेक, अपगाहन, आतंक, अस्मयन,
कर्ष, कूटी, भूकुम्भि ॥ १४३ ॥ कूप, होलाक, कालस्वेद, घटीस्वेद, वालुकास्वेद, ये तेरह
प्रकारके स्वेद मनुष्यके पसीनाको लाते है ॥ १४४ ॥ इन्होंने रोगीका हाथ, पैर, शिर इन्होंने-
पै पसीनाको देवे जो ऐसे शान्ति नहींहो तब लोहाकी शलाईसे दागदेवे ॥ १४५ ॥ जो पैरपै
दागदियेसेभी शीतलता नहीं उपजे तब अंगूठाके मूलमें दग्धकरै अथवा मणिवंध अर्थात्
पहुंचा, हृदय, मस्तक, इन्होंने दग्धकरै ॥ १४६ ॥ जिसके मस्तकपै पसीना आवै और सब
शरीर शीतल होवै शीतसे पीडित और कफकी अधिकतावाला ऐसे मनुष्यके कंठमें स्थित
हुआ श्वास आदि छातीमें नहीं प्राप्तहोवै वह मनुष्य निश्चय मृत्युको प्राप्त होता है ॥ १४७ ॥

सातमा, अथवा दशमां अथवा वारमां, तेरमां, पंद्रमां, इनदिनोंमें सन्निपातज्वर शांत हो-
जाता है अथवा रोगीको मारदेता है ॥ १४८ ॥ और पंद्रहमेंदिन निश्चय सन्निपातज्वर
शांत होता है अथवा रोगीको मारता है यह सन्निपातज्वर महाघोररूप है काल और अग्नि-
के समान कांतिवाला है ॥ १४९ ॥ सन्निपातकी शांत होनेकी अथवा मारनेकी यह मर्या-
दा है ॥ १५० ॥ सन्निपातमें जो शरीरमें दाह उपजै तब वैद्य शीतलपानीके छिडके
दिवाता है तब रोगी नहीं जीवता और वह वैद्य पूजाको प्राप्त नहीं होसका ॥ १५१ ॥
सन्निपातरूपी समुद्रमें पडेहुए रोगीमनुष्यकूं जो वैद्य उद्धार करता है उसमनुष्यने क्या
नहीं किया, और धर्म, यश, तथा विनयकरके युक्त वह वैद्य इस भूतलमें कोनसी पूजाको
नहीं पाता है ? अर्थात् सर्वत्र पूज्य होता है ॥ १५२ ॥

अथ कर्णमूल (शोजा) का निदान और चिकित्सा ॥

वातपित्तकफैस्त्रिजिर्युक्तस्तथा त्रिदोषजः ॥ स च रक्तेन संयुक्तो ज्वरः
स्यात्सान्निपातिकः ॥ १५३ ॥ न रक्तेन विना विद्धि ज्वरं वै सान्निपा-
तिकम् ॥ काथैः पाचनकैर्दोषाः प्रशमं यान्ति मानवो ॥ १५४ ॥ तस्मात्प्रश-
मिते दोषे रक्तं नैव विलीयते ॥ तेनैव जायते शोफः कर्णमूले तु दारु-
णः ॥ १५५ ॥ तस्मात्तस्य प्रतीकारं कुर्व्याद्रक्तविरेचनम् ॥ जलौका-
लावुभृङ्गैस्तु ततश्च लेपनं हितम् ॥ १५६ ॥

वात, पित्त, कफ, इनतीनोंसे युक्त त्रिदोषज्वर होता है और रक्तसे संयुक्तहुआ यही
ज्वर सन्निपात कहाता है ॥ १५३ ॥ रक्तके विना सन्निपातज्वरको नहीं जानना काथ और
पाचनसंज्ञक काथोंसे मनुष्यके दोष शांत होजाते हैं ॥ १५४ ॥ तिसकारणसे दोष शांतभी
होजाते हैं परंतु रक्त नहीं शांत होता तिसकरके कानके जडमें भयंकर शोजा उपजता है
॥ १५५ ॥ तिससे तिसकी चिकित्सा रक्तका निकासना है जोक, तुंबी, शींगी, इन्होंसे रक्तको
निकासे पीछे लेप कराना ॥ १५६ ॥

अथ कर्णशोथ ऊपर लेप ॥

बीजपूरकमूलानि अग्निमन्थस्तथैव च ॥

आलेपनमिदं चास्य कर्णमूलस्य नाशनम् ॥ १५७ ॥

विजोराकी जड, अरनी, इन्होंको पानीमें पीस लेप करना यह लेप कर्णमूलको नाशता है

अथ दूसरा लेप ॥

आगारधूपरजनीसुमहौषधेन सिद्धार्थसैन्धववचापयसा विमर्श ॥ लेपो

यस्योष्मा दृश्यते चापि मन्दस्त्रष्टा च जायते॥वासवेगं विजानीयाज्वरः
साध्यो विजानता ॥ १७५ ॥ यस्यान्ते जायते चोष्मा तृष्णा दाहः शि
रोव्यथा ॥ गम्भीरवेगं जानीयात्कृच्छ्रसाध्यो नृणामपि ॥ १७६ ॥
तस्य कुर्यात्प्रतीकारं योगोऽष्टादशको नृणाम् ॥ १७७ ॥

जिसके गरमाईहो और ज्वरका मंदवेगहो तिसको वासवेगज्वर कहते हैं यह ज्वर साध्य
होता है ॥ १७५ ॥ तिसके हाथ और पैरमें गरमाईहो और तृष्णा, दाह, शिरमें पीडा ये उपजै
तिसको गम्भीरवेगज्वर कहते हैं यह मनुष्योंके कष्टसाध्य होताहै ॥ १७६ ॥ तिसके लिये
अष्टादशांग काथ काफी है ॥ १७७ ॥

अथ शीतलअंगमें गरमकरनेकी चिकित्सा ॥

अन्ते पित्तं यदा तिष्ठेद्देहे वातकफावुभौ ॥ तेन शैत्यं शरीरस्य उष्णत्वं
करपादयोः ॥ १७८ ॥ तस्य रास्नादिकः काथः प्रदेयः पिप्पलीयुतः १७९

जब हाथ और पैरमें पित्तकी स्थितिहो और शरीरमें वात और कफकी स्थितिहो
तिसकरके शरीर शीतल रहता है हाथ और पैरोंमें गरमाई जाननी ॥ १७८ ॥ तिसको
रास्नादि काथमें पीपलका चूर्ण मिला पान कराना ॥ १७९ ॥

अथ गर्माका उपचार ॥

देहे पित्तं यदा तिष्ठेद्वाते वातकफावुभौ ॥ तस्योपजायते देहे शीतत्वं क
रपादयोः ॥ १८० ॥ तस्य द्राक्षादिकः काथः प्रदेयो गुडकान्वितः १८१

जिसके देहमें पित्त स्थितहो हाथ और पैरोंमें वात कफ स्थितहोवै तिसका देह गर्मरहताहै
हाथ और पैर शीतल रहतेहैं ॥ १८० ॥ तिसको द्राक्षादिकाथमें गुडमिला पानकराना ॥ १८१ ॥

अथ शीतत्वका उपचार ॥

यत्र यत्र भवेच्छैत्यं तत्र स्वेदो विधीयते ॥

नात्युष्णे स्वेदनं कार्यं ज्वरस्यास्य विजानता ॥ १८२ ॥

और जहां जहां शीतलता होवै तहां २ पसीना देना चाहिये इस सन्निपात ज्वरको जानने-
वालेमें अत्यंत गरमाईमें पसीना नहीं देना ॥ १८२ ॥

ज्वरादिकोंका कारण वायु है ॥

कफपित्तेन निश्चेष्टो भवत्येवानिलः सदा ॥

तस्मादेवानिलाद्रोगाः सम्भवन्ति ज्वरादयः ॥ १८३ ॥

कफ और पित्तसे चेष्टा करकै रहितहुआ वात सकालमें रहता है तिसकारणकरकै वातसेही ज्वरआदि सब रोग उपजते हैं ॥ १८३ ॥

अथ ज्वरमुक्तिका लक्षण ॥

भ्रमः शैत्यं विह्वलता कम्पा विड्भेदनं क्लमः ॥

श्रमः स्वेदो जल्पनश्च ज्वरमोक्षे भवन्ति च ॥ १८४ ॥

भ्रम, शीतलता, विह्वलपना, कंप, विष्टाका पतलापन, ग्लानि, परिश्रम, पसीना, बोलना, ये सब ज्वरको दूरहोनेके समय होते हैं ॥ १८४ ॥

अथ ज्वरउतरनेका लक्षण ॥

प्रस्वेदकण्डू च शिरा च पुष्टा तथा मुखेषु क्षवथुर्लघुत्वम् ॥ अन्नाग्नि
लाषो विपुलेन्द्रियश्च गतक्लमो गतरुजो मनुष्यः ॥ १८५ ॥

पसीना आवै स्वाज चले और नाडी पुष्ट होजावै और मुखमें छींक आवै और शरीरका हलकापनहो और अन्नकी इच्छाहो और इंद्रियें प्रसन्न होजावै ग्लानि और पीडा जातीरहै तब जानों ज्वर उतरा ॥ १८५ ॥

अथ ज्वर नहीं उतरनेका और लौट आनेका लक्षण ॥

विमुक्तस्यापि हि शिरोगुरुत्वं नैव मुञ्चति ॥

अविमुक्तं विजानीयाज्वरः पुनरुपैति तम् ॥ १८६ ॥

ज्वरसे मुक्तहुआ मनुष्य भारीपनको नहीं छोडै तब जानों कि तिस मनुष्यके फिर ज्वर उपजैगा ॥ १८६ ॥

अथ विषमज्वरका लक्षण और चिकित्सा ॥

यदि धातुगतश्चैव ज्वरो देहे प्रपद्यते ॥ विषमज्वरं जानीयात्स च ज्ञेय
श्वतुर्विधः ॥ १८७ ॥ एकाहिको द्वाहिकश्च त्र्याहिकश्च तथापरः ॥ वेला
ज्वरश्चतुर्थोऽपि विजानीयाद्विचक्षणः ॥ १८८ ॥

जो देहके धातुओंमें ज्वर प्राप्तहोवै तिसको विषमज्वर जानना वह च्यार प्रकारका है ॥ १८७ ॥ एकाहिक अर्थात् दिनमें एकवार आनेवाला, द्वाहिक अर्थात् दूसरे दिन आनेवाला, त्र्याहिक अर्थात् तीसरेदिन आनेवाला और समयपै चौथेदिन आनेवाला ऐसे ज्वर वैद्योंको जानना ॥ १८८ ॥

अथ एकाहिकज्वरका लक्षण ॥

शीतश्च पूर्वं भवति पश्चाद्गुणश्च जायते ॥ स साध्यो मनुजे प्रोक्तः शी-

ग्रं सिध्यति भेषजैः ॥ १८९ ॥ पश्चाच्च दाहमाप्नोति ज्वरो भवति दारुणः ॥ सोऽपि न मुच्यते शीघ्रं ज्वरो धातुक्षयङ्करः ॥ १९० ॥

जिसमें प्रथम शीत उपजै और पीछे गर्माई उपजै वह साध्यज्वर जानना यह औषधोंसे शीघ्र जाता रहता है ॥ १८९ ॥ भयंकर ज्वर होके पीछे दाहसे संयुक्त हो वह शीघ्र नहीं जाता है यह ज्वर धातुओंको क्षय करता है ॥ १९० ॥

अथ तृतीयज्वरलक्षण ॥

त्रिकोरुकठ्यां रुजवातपित्तं स्याच्च पित्तं मस्तके रुग्भ्रमश्च ॥ पृष्ठे तनुश्लेष्मरुजाकरं स्यात्त्रिधा तृतीयज्वरलक्षणं तत् ॥ १९१ ॥ कफपित्तात्रिकग्राही पृष्ठाद्वातकफात्मकः ॥ वातपित्तशिरोग्राही त्रिविधः स्यात्तृतीयकः ॥ १९२ ॥

कटिमांत, जांघ, कटि, इन्होंने वात और पित्तसे पीडा हो और मस्तकमें पित्तसे पीडा हो और भ्रम उपजै और पृष्ठभागमें सूक्ष्म कफ पीडाको करताहो ऐसे तृतीयज्वरका लक्षण तीन प्रकारका है ॥ १९१ ॥ वात और कफसे उपजा तृतीयकज्वर प्रथम कटिमांतमें पीडाको उपजा पीछे आप उपजता है वात और कफसे उपजा तृतीयकज्वर प्रथम पृष्ठ नितंब स्थानमें पीडाको उपजा पीछे आप उपजता है वात और पित्तसे प्रथम शिरमें पीडाको उपजा पीछे आप उपजता है ऐसे तृतीयकज्वर तीनप्रकारका है ॥ १९२ ॥

अथ चातुर्थिकज्वरलक्षण ॥

चतुर्थो द्विविधो ज्ञेयो वानश्लेष्मात्मको ज्वरः ॥ जङ्घाभ्यां श्लेष्मको-
ज्ञेयः शिरसोऽनिलसम्भवः ॥ १९३ ॥ एवं विज्ञाय सदैवः कुर्यात्तत्र प्र-
तिक्रियाम् ॥ १९४ ॥

वात और कफसे उपजा चातुर्थिकज्वर दो प्रकारका है कफका चातुर्थिकज्वर प्रथम जंघाओंसे उपजता है और वातका चातुर्थिकज्वर प्रथम शिरसे उपजता है ॥ १९३ ॥ ऐसे जानके कुशल वैद्य तहां क्रियाको करै ॥ १९४ ॥

अथ वेलाज्वरादिकका लक्षण ॥

वेलाज्वरो रसगते रक्ते चैकाहिकस्तथा ॥ मांसगोऽपि तृतीयः स्याच्चतु-
र्थोऽस्थिसमाश्रितः ॥ सर्वधातुगतो ज्ञेयो जीर्णो धातुक्षयङ्करः ॥ १९५ ॥

वेलाज्वरका स्थान रसमें होता है एकाहिकज्वरका स्थान रक्तमें होता है तृतीयज्वरका स्थान मांसमें होता है और हड्डियोंमें चातुर्थिकज्वरका स्थान होता है सब धातुओंमें गमन करनेवाला जीर्णज्वर धातुओंको नष्ट करता है ॥ १९५ ॥

अथ भूतादिकसें उपजे रोग ॥

भूतजे भूतविद्या स्याद्दधाति शमताडनम् ॥ अभिशापाज्वरो यस्य तस्य
शान्तिः प्रतिक्रिया ॥ १९६ ॥ कामजे कामला पित्तैर्नयेच्च श्वसनं हि
तम् ॥ १९७ ॥ क्रोधजे पित्तजे वापि सद्वाक्यैरुपशामयेत् ॥ ओषधी
गन्धजैर्मूर्च्छां कारयेत्सेवनं हितम् ॥ १९८ ॥

भूतजज्वरमें भूतविद्यासें शांतकरना, ताडनादेनी ये हित हैं और ब्राह्मणके शापसे उपजेज्व-
रमें शान्तिकरानी हित है ॥ १९६ ॥ कामजज्वरमें कामला और पित्तकी चिकित्साकरके
आश्वासन करना हित है ॥ १९७ ॥ क्रोधसे और पित्तसे उपजे ज्वरमें श्रेष्ठवाक्योंसे शां-
ति करना हित है ओषधीका गंधसे उपजे ज्वरमें मूर्च्छाको दूरकरनेकेलिये पदार्थको सेवै १९८

अथ निदिग्धिकादि काथ ॥

निदिग्धिकानागरिकामृतानां काथं पिवेन्मिश्रितपिप्पलीकम् ॥

जीर्णज्वरारोचनकासशूलश्वासाग्निमान्द्यार्दितपीनसेषु ॥ १९९ ॥

कटेली, स्रुंठ, गिलोय, इन्होंके काथमें पीपलका चूर्ण मिला पीवै यह जीर्णज्वर, अरोचक,
खांसी, शूल, श्वासरोग, मंदाग्नि, अर्दितरोग, पीनस, इन्होंको नाशता है ॥ १९९ ॥

अथ गुडपिप्पली ॥

कासाजीर्णं श्वासहृत्पाण्डुरोगे मन्दे वाग्रौ कामलारोचके च ॥ तेषां
शास्ता पिप्पली स्याद्गुडेन हन्ति नृणां जीर्णमाशु ज्वरञ्च ॥ २०० ॥

गुडमें संयुक्तकरी पीपली, खांसी, अजीर्ण, श्वासरोग, पांडुरोग, मंदाग्नि, कामला अरोच-
क, जीर्णज्वर इन्होंको शीघ्र हरती है ॥ २०० ॥

अथ लघुपंचमूलकाथ ॥

लघुपञ्चमूलीकथितः कषायश्छिन्नोद्भवायाः सह पिप्पलीभिः ॥ जी
र्णज्वरे श्वासकफामयघ्नो मन्दाग्निशूलारुचिपीनसानाम् ॥ २०१ ॥

शालपर्णी, पिठवन, छोटी कटेली, बड़ीकटेली, गोखरू, इन्होंके काथको अथवा गिलो-
यके काथमें पीपलका चूर्ण मिलापीवै तौ जीर्णज्वर, श्वास, कफकारोग, मंदाग्नि, शूल, अरुची,
पीनस, इन्होंका नाश होता है ॥ २०१ ॥

अथ जीर्णज्वरपर पटोलादि काथ ॥

पटोलपाठाकटुरोहिणीनां फलत्रयं वत्सकनिम्बमोक्षाः ॥ द्राक्षा

मृताचन्दननागराणां काथः पुराणज्वरनाशनाय ॥ २०२ ॥

परवल, सोनापाठा, कुटकी, हरडै, बहेडा, आंवला, इंद्रजव, नींबकी छाल, मोखापृक्ष, दा-
ख, गिलोय, चंदन, स्रंठ, इन्होंका काथ पुराणज्वरको नाशता है ॥ २०२ ॥

अथ विषमज्वरका औषध ॥

सजीरकं गुडं भक्षोत्सगुडां वा हरीतकीम् ॥ सगुडान्वा तिलान्भक्षेज्वरे
च विषमानुगे ॥ २०३ ॥ गुडार्द्रकं वा संभक्षोत्सगुडं त्रिफलाकाथम् ॥
काथोऽपि विषमाणान्तु ज्वराणां नाशकारकः ॥ २०४ ॥

गुडसहित जीराको अथवा गुडसहित हरडैको अथवा गुडसहित तिलोंको खावै यह
विषमज्वरको नाशता है ॥ २०३ ॥ गुडसहित आदरक अथवा गुडसहित त्रिफलाके काथ-
को पीवै यह विषमज्वरोंको नाशता है ॥ २०४ ॥

अथ चातुर्थिकज्वरका उपाय ॥

वासाधात्रीफलदारुपथ्यानागरसाधितः ॥

मधुना संयुतः काथश्चातुर्थिकनिवारणः ॥ २०५ ॥

वांसा, आंवला, देवदार, हरडै, स्रंठ, इन्होंके काथमें शहद डाल पीवै यह चातुर्थिकज्वरको
नाशता है ॥ २०५ ॥

अथ चातुर्थिकपर नस्य ॥

अगस्तिपत्रं स्वरसैर्निहन्ति नस्ये च चातुर्थिकरोगमुग्रम् ॥ कासं भ्र
मं चापि शिरोरुजाञ्च नाशञ्च नस्यं च हितं नराणाम् ॥ २०६ ॥

अगस्तिवृक्षके स्वरसको नाकमें चढानेसे भयंकरभी चातुर्थिकज्वर नाशको प्राप्त होता है
और खांसी, भ्रम, शिरकी पीडा, इन्होंकाभी नाश होता है ॥ २०६ ॥

अथ विषमज्वरपर लशुनकल्क ॥

रसोनकल्कं तिलतैलमिश्रं योऽश्नाति नित्यं विषमज्वरार्त्तः ॥ विमु
च्यतेऽसौ विषमज्वरेभ्यो वातामयैश्चाप्यतिघोररूपैः ॥ २०७ ॥

जो विषमज्वरसे पीडितहुआ मनुष्य तिलोंके तेलसे युक्तकिये लहसनके कल्कको नित्यं
खातारहता है वह विषमज्वर और अत्यंत भयंकर वातके रोगोंसे मुक्तहोताहै ॥ २०७ ॥

अथ विषमज्वरपर अष्टांगधूप ॥

पलञ्च निम्बस्य दलानि कुष्ठं वचा गुडं गुग्गुलुसर्षपानाम् ॥ हरी

तकी सर्पिर्युतं च धूपं विनाशनं वै विषमज्वराणाम् ॥ २०८ ॥
नींबके पत्ते ४ तोले और कूट, वच, गुड, सरसों, हरद्वै, गूगल, ये सब उनमानसे मिला
महीनपीस घृतसे युक्तकर धूप देनेसे विषमज्वरोंका नाश होता है ॥ २०८ ॥

अथ वेलाज्वरआदिकोंका उपाय ॥

स्वरसो मूलमाट्य हस्ते बद्धः शुभे दिने ॥ वेलाज्वरादिकान् हन्ति भूत
ज्वरनिवारणः ॥ २०९ ॥ मुस्तामृतामलक्यश्च नागरं कण्टकारिका ॥
कणाचूर्णांश्वितः काथस्तथा मधुसमन्वितः ॥ २१० ॥ एकाहिकं वा वे
लाद्यं ज्वरं जातं व्यपोहति ॥ २११ ॥ रसोनबीजं विहाय स्वण्डं कृत्वा
निशासु च ॥ तक्रमध्ये विनिक्षिप्य प्रभाते घृतसंयुतम् ॥ २१२ ॥ सेवि
तश्च ज्वरान्हन्ति वेलाद्यान्देहधातुगान् ॥ २१३ ॥ पिप्पलीवर्द्धमान
श्च पिवेत्क्षीरं रसायनम् ॥ महौषधं नागरश्च धान्यं चन्दनवालुकम् २१४
गुडूचिकापयः पिवेत्तृतीयकज्वरापहम् ॥ अपामार्गस्य मूलश्च नीली
मूलमथापि वा ॥ २१५ ॥ लोहितेन तु सूत्रेण आमस्तकप्रमाणतः ॥
वामकर्णे कटीं बद्ध्वा ज्वरं हन्ति तृतीयकम् ॥ २१६ ॥ वानरेन्द्रमुखं द्वि
व्यं तरुणादित्यतेजसम् ॥ ज्वरमेकाहिकं घोरं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ २१७ ॥

तुलसीकी जड़को शुभदिनमें लकै हाथपर बांधै तब वेलाज्वर और भूतज्वरआदि नाशको
प्राप्तहोते हैं ॥ २०९ ॥ नागरमोथा, गिलोय, आंवला, संत्र, कटेली, इन्होंके काथमें पीपलका
चूर्ण और शहद मिला पीवै ॥ २१० ॥ इस्से एकाहिकज्वर, वेलाआदिज्वर दूरहोता है
॥ २११ ॥ लस्सनके बीजोंको त्याग और रात्रीमें टुकड़े बना तक्रके बीचमें स्थापितकर
पीछे प्रभातमें घृतसे संयुक्तकर ॥ २१२ ॥ सेवै यह वेलाआदि और देहके धातुगत आदि
ज्वरोंको नाशता है ॥ २१३ ॥ वर्द्धमानपीपल, दूध, रसायन औषध, इन्होंको पीवै और
संत्र, सफेद लस्सन, धनियां, चंदन, नेत्रवाला, इन्होंको अलगसेवै ये विषमज्वरको नाशते है
॥ २१४ ॥ गिलोयका रस तृतीयज्वरको नाशता है ऊंगाकी जड़को अथवा नीलकी
जड़को ॥ २१५ ॥ शिरके प्रमाण लालसूत्रमें बांध पीछे वामेकानमें और कटीपर बांधनेसे
तृतीयकज्वरका नाशहोता है ॥ २१६ ॥ तरुणसूर्यका तेजके समान तेजवाला सुग्रीवनामक
वानरोंका राजाके दिव्यमुखको देख घोररूपी एकाहिकज्वर शीघ्र नष्ट होजाता है ॥ २१७ ॥

अथ ज्वरनाशकहनुमान्का पूजन ॥

वानराकृतिमालिख्य स्वटिकायाः पुनः शृणु ॥

गन्धपुष्पाक्षतैर्धूपैरर्चयन्ति भिषग्वराः ॥ २१८ ॥

खडियासे वानरकी आकृतिको लिख गंध, पुष्प, चावलकें अक्षत इन्होंसे दैघवर रक्षा करते है ॥ २१८ ॥

अथ ज्वरनाशक मन्त्र ॥

ओं ह्रां ह्रीं क्लीं सुग्रीवाय महाबलपराक्रमाय सूर्यपुत्रायामिततेजसे
एकाहिकद्वयाहिकत्रयाहिकचातुर्थिकमहाज्वरभूतज्वरभयज्वरक्रोधज्व
रवेलाज्वरप्रभृतिज्वराणां दह दह पच पच अवत अवत वानरराज ज्वरा
णां बन्ध बन्ध ह्रां ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा । नास्ति ज्वरः । ज्वरापगमनसम
र्थं ज्वरस्त्रास्यते ॥ २१९ ॥

(मंत्र) “ओंह्रांह्रींक्लीं सुग्रीवाय महाबलपराक्रमाय सूर्यपुत्रायामिततेजसे एकाहिकद्वयाहिक
त्रयाहिक चातुर्थिक महाज्वर भूतज्वर भयज्वर क्रोधज्वर प्रभृतिज्वराणां दहदह पचपच अवत
अवत वानरराज ज्वराणां बंधबंध ह्रांह्रींक्लीं फट्स्वाहा नास्तिज्वरः ज्वरापगमनसमर्थं ज्वर स्त्रा-
स्यते ” इसमंत्रसे विषमज्वर दूर होजाता है ॥ २१९ ॥

अथ च्यारवर्णवाले ज्वरोंके चिह्न ॥

पुनश्चात्र प्रवक्ष्यामि ज्वराणां रूपलक्षणम् ॥ २२० ॥

ज्वरोंके रूप और लक्षणको फिर कहताहूं ॥ २२० ॥

अथ ब्राह्मण ज्वर ॥

संतप्तकाञ्चनाभासो हुताशनसमप्रभः ॥

उड्डीनयज्ञोपवीती च रौद्रो ब्राह्मणरूपकः ॥ २२१ ॥

अच्छीतरह तपायाहुआ सोनाके समान कांतिवाला और अशिके समान प्रकाशित और
भयंकर यज्ञोपवीत अर्थात् जनेऊवाला ऐसा रौद्रसंज्ञक ब्राह्मणवर्णवाला ज्वर होताहै ॥२२१॥

अथ क्षत्रिय ज्वर ॥

जपाकुसुमसङ्काशो रौद्रदंष्ट्रान्वितस्तथा ॥

खड्गहस्तो महारौद्रो माहेन्द्रः क्षत्रियो मतः ॥ २२२ ॥

जास्वंदका फूलके समान प्रकाशवाला और भयंकर डाढोंसे अन्वित और तलवारको हा-
थमें लियेहुये और महादारुण ऐसा माहेन्द्रसंज्ञक ज्वर क्षत्रियवर्णवाला होता है ॥२२२॥

अथ वैश्य ज्वर ॥

पञ्चकप्रसवाभासतप्तकाञ्चनभूषितः ॥

दण्डहस्तो मध्यवेगी वैश्यो ज्वरेश्वरो मतः ॥ २२३ ॥

पांच प्रकारके फूलोंके समान आकृतिवाला और तपायेहुये सोनासे भूषित हुआ दंडको हाथमें लेनेवाला और मध्यमवेगवाला ऐसा ज्वरेश्वरसंज्ञक ज्वर वैश्यवर्णवाला कहाताहै ॥ २२३ ॥

अथ शूद्र ज्वर ॥

कृष्णमेघाञ्जनाकारस्तीक्ष्णदंष्ट्रो ज्वलाननः ॥

त्रिनेत्रो ज्वलनप्रजः कालः शूद्रो मतस्तथा ॥ २२४ ॥

कालमेघ और पर्वतके समान आकृतिवाला और तीक्ष्णडाढ़ोंसे प्रकाशित मुखवाला और तीन नेत्रोंवाला और अग्नीके समान कांतिवाला और कालरूप ऐसा ज्वर शूद्रवर्णवाला होताहै ॥

अथ ब्राह्मणज्वरका लक्षण और शांति ॥

तीक्ष्णवेगः क्षुधायुक्तः शुचिर्द्वैष्टा व्रतप्रियः ॥ मूत्रञ्च किंशुकाभासं पाठ
शीलोऽतिजल्पकः ॥ २२५ ॥ बहुश्वासी तृषाक्रान्तो रौद्रब्राह्मणपीडि
तः ॥ तस्य स्नानं जपं होमं कृत्वा शान्तिः प्रपद्यते ॥ २२६ ॥

तीक्ष्णवेगवाला और भूखसे युक्त और पवित्र और वैरको करनेवाला और व्रतमें प्यार करनेवाला और केशूका रंगके समान मूत्रको उतारनेवाला और पाठमें अफ्यासवाला और अत्यंत बोलनेवाला ॥ २२५ ॥ बहुत श्वासोंको लेनेवाला और तृषासे आक्रांतहुआ ऐसा मनुष्य रौद्रसंज्ञक ब्राह्मणवर्णवाले ज्वरसे पीडित जानना ॥ २२६ ॥

अथ क्षत्रियज्वरका लक्षण और शांति ॥

तीक्ष्णज्वरोऽतितृष्णश्च रक्तमूत्रञ्च मूत्रयते ॥ कुरुते युद्धवात्ताञ्च उत्तिष्ठति
बलातुरः ॥ २२७ ॥ तप्तनेत्रो महाश्वासः क्षुधया पीडितस्तथा ॥ म
धुगन्धो मुखे स्वेदो माहेन्द्रक्षत्रियादितः ॥ २२८ ॥ तस्यादौ ग्रहहोमं
तु देवतास्तवनं शुचिः ॥ दानजपादिभिः कार्घ्यैः प्राप्यते सिद्धिसङ्गमः ॥ २२९ ॥

तिसकी शांति, स्नान, जप, होम, इन्होंके करनेसे होती है तीक्ष्णज्वरहो, अत्यंत तृषा लगै और लालमूत्र उतरै और युद्धकी बातको करै और बलसे पीडितहुआभी उठखडाहो ॥ २२७ ॥ गर्दितनेत्रोंवालाहो और महाश्वाससे संयुक्तहो सबकालमें क्षुधासे पीडितहो और मधुसरीखे गंधसे युक्तहो और मुखपर पत्तीनासे संयुक्तहो ऐसा मनुष्य माहेन्द्रसंज्ञक क्षत्रियवर्णवाले ज्वर-

से पीडित जानना ॥ २२८ ॥ इसकी शांतिके लिये आदिमें ग्रहोंका होम, देवताकी स्तुति, दान, जप, इन्होंका होना जरूरी है ॥ २२९ ॥

अथ वैश्वज्वरका लक्षण और शांति ॥

मध्यवेगः पीतगात्रः स्वप्नशीलोऽरुचिस्तथा ॥ शीतपवनहृदुष्णः कण्ठ
स्वेदोऽतिविह्वलः ॥ २३० ॥ बहुमूत्री भक्तियुक्तो मौनी पीतान्तलोचनः ॥
नातितृष्णातुरः स्निग्धः स विज्ञेयो ज्वरेश्वरः ॥ २३१ ॥ तत्र स्वस्त्ययनाति
थ्यं द्विजदैवतपूजनम् ॥ जपहोमादिकं सर्वं कर्त्तव्यं शान्तिहेतुना ॥ २३२ ॥

मध्यमवेगवाला, पीले शरीरवाला, और शयनको करनेवाला और अरुचिसे युतहुआ, शीतलपवनको वर्जनेवाला, गर्मस्वभाववाला, कंठमें पसीनासे संयुक्तहुआ और अत्यंत वि-
ह्वलहुआ ॥ २३० ॥ बहुतसे मूत्रको उतारनेवाला, भक्तिसे युक्त और मौनी और नेत्रोंके
अंतमें पीलेपनसे संयुक्त और अत्यंत तृपासे नहीं पीडितहुआ और चिकना शरीरवाला ऐसा
मनुष्य ज्वरेश्वरसंज्ञक वैश्ववर्णवाले ज्वरसे पीडित जानना ॥ २३१ ॥ इसमें शांतिके
लिये कल्याणके कर्म अतिथिकी सेवा, ब्राह्मण और देवतोंकी पूजा, जप, होम, इन
सर्वोंका करना जरूरी है ॥ २३२ ॥

अथ शूद्रज्वरका लक्षण और शांति ॥

हृच्छूलश्र्वातिसारी वा मत्स्यगन्धाङ्गलेपनः ॥ उन्मादी चातितृप्ताक्षो र
तेषु विकलेन्द्रियः ॥ २३३ ॥ प्रणयी त्वध्वनो भीरुर्यासं नैवाजिकाङ्क
या ॥ कालभृङ्गारकेणापि-शूद्रे सिद्धिर्न जायते ॥ २३४ ॥

हृदयमें शूलवाला, अतीसारसे संयुक्तहुआ और मछलीके गंधके समान गंधवाला और
अंगोंपर लेप करनेवाला, उन्मादसे संयुक्त और अतितृप्तहुये नेत्रोंवाला और भ्रोगमें विकल-
हुई इंद्रियोंवाला ॥ २३३ ॥ नम्रतासे युक्तहुआ और रस्तामें चलनेसे डरनेवाला और
इच्छासे ग्रासको नहीं लेनेवाला और भंगरा सरीखे रूपवाला ऐसा मनुष्य शूद्रज्वरसे पीडित
होताहै इसमें सिद्धि होती नहीं ॥ २३४ ॥

अथ सर्वरोगोंपर उपचार ॥

स्नानं दानजपं सुरार्चनविधिर्होमादयः प्रीतता भूतानाञ्च विशेषणेन व
द्बुधा तृप्तिं च कुर्यात्ततः ॥ गोभूमिं कनकान्नपानविधिना दानेन शा
न्तिर्भवेत्सर्वेषां च रुजां विनाशनमिदं शंसन्ति सत्यव्रताः ॥ २३५ ॥

इसज्वरकी शांतिके लिये स्नान, दान, जप, देवतोंकी पूजा, होम आदिको करना और मनुष्योंको प्रसन्नता और भोजनसे तृप्त करना, गाय, पृथिवी, सोना, अन्न, पानी, इन्होंका दान करना, ऐसे करनेसे सवरोरोगोंकी शांति होतीहै ऐसे सत्यमतवाले मुनि कहतेहैं॥२३५॥

अथ ज्वरवालेकूं पथ्यआहारादि ॥

वेगं कृत्वा विषं यद्वदाशये लीयते बलम् ॥ कुप्यते प्रबलं भूयः काले दोषो विषं तथा ॥ २३६ ॥ शालिषष्टिकभक्तानां यूषं मुद्गाढकीपु च ॥ पूर्वोक्तानि च शाकानि वातघ्नानि भवन्ति हि ॥ २३७ ॥ शतपुष्पा च जीवन्ती तण्डुलीयकवास्तुकम् ॥ घृतेन भाजिका सिद्धा शाकपत्राणीमानि च ॥ २३८ ॥ लावतिन्तिरमांसादिवार्त्तकानां तथातुरे ॥ मृगच्छिकरिकाद्यानि जाङ्गलानि प्रयोजयेत् ॥ २३९ ॥ कोशातकी पटोलं च शुण्ठीकं च हितं भवेत् ॥

जैसे विषवेगको करके आशयमें लीनहोके फिर समयपर अत्यंत कुपित होता है तैसेही दोषभी समयपर फिर कुपित होताहै ॥ २३६ ॥ शालिचावल, सांठीचावल, मूंग और अरहरका यूष और पूर्वोक्त शाक ये सब वातको नाशते हैं ॥२३७ ॥ सौंप, जीवन्ती, चौलाई वथुवा, इन्होंकी भाजीको घृतेमें सिद्धकर प्रयुक्तकरै ॥ २३८ ॥ लावा, तीतर, वत्तक, मृगच्छिकर इन आदि जांगलदेशके जोवोंके मांसोंकोभी रोगीको देवै ॥ २३९ ॥ तोरी परवल, सूरठ, येभी हितहै.

अथ ज्वरवालेकूं अपथ्य ॥

वर्जयेद्विदलान्नानि विदाहीनि गुरूणि च ॥२४०॥ न पिच्छलानि तैला नि तथाम्लानि च वर्जयेत् ॥ दधिमस्तुविशालानि क्षुद्रान्नानि भिषग्वरः ॥ २४१ ॥ बहुदकञ्च ताम्बूलं घृतं वापि सुरामपि ॥ २४२ ॥ क्रोधं शोकञ्च त्यक्त्वा वै सदा सौख्यं विभुञ्जते ॥ न कुर्व्याज्जागरं रात्रौ दिवास्वप्नञ्च वर्जयेत् ॥ २४३ ॥ शकटवाजिकरिद्विपिवाहनं प्रबलं परिवर्जयेत्तु सततम् ॥ ज्वरिणमाशु सुखं नुभुजे सुधीः शुभविधाननिधान उपस्थितः ॥२४४॥

विदलसंज्ञक और दाहको करनेवाले और भारे ऐसे अन्नोंको त्यागै ॥ २४० ॥ कफकारी तेल सेवतेहुये और खटे ऐसे शाकोंकोभी वर्जै. दही, दहीका पानी, रसाला, क्षुद्रअन्न ॥२४१॥ बहुतपानी, नागरपान, घृत, मदिरा ॥ २४२ ॥ क्रोध, शोक, इन्होंको त्यागके रोगी सवका-

लमें सुखको प्राप्तहोता है रात्रिमें जागै नहीं और दिनमें सोचै नहीं ॥ २४३ ॥ गाडी, घोडा, हस्ती, गेंडा इन्होंकी सवारीको रोगी निरंतर त्यागै ऐसे त्यागनेसे ज्वरवालेको सुख उपजता है ॥ २४४ ॥

अथ ज्वरमुक्तोका वर्तना ॥

व्यायामं च व्यवायं च अशनं रात्रिजागरम् ॥ ज्वरमुक्तो न सेवेत तदा सम्पद्यते सुखम् ॥ २४५ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने ज्वरचिकित्सानामद्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

ज्वरसे मुक्तहुआ मनुष्य कसरत स्त्रीसंग, दिनमें सोना रात्रिको जागना इन्होंको नहीं सेवे तब सुखको प्राप्तहोता है ॥ २४५ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्रयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने ज्वरचिकित्सानाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

अथातीसारचिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ अथातीसारविज्ञानं भेषजं शृणु पुत्रक ! ॥ ज्वरजो वाति सारश्च भेषजमुपदिश्यते ॥ १ ॥ भेषजं त्रिविधं प्रोक्तं किञ्चिच्च धातुदूषणम् ॥ स्वस्थवृत्तौ मतं किञ्चिद्द्रव्यं त्रिविधमुच्यते ॥ २ ॥ तच्च दैवपथाश्रयं युक्तिपथाश्रयं सत्त्वावजयश्च ॥ मन्त्रौषधमणिमङ्गलवल्गुपहारहोमनियमप्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्ययनप्रणिधानादीति दैवपथाश्रयम् ॥ आहारव्यवहारौषधद्रव्याणां योजनेति युक्तिपथाश्रयम् ॥ अहितेभ्योऽर्थेभ्यो मनोनिग्रह इति सत्त्वावजयश्च ॥ ३ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे पुत्र! अतीसारविज्ञाननामक ओषधको सुन ज्वरातिसारहो अथवा अतीसारहो तहां ओषधका उपदेश कियाजाता है ॥ १ ॥ दोषको शमन करनेवाला कोईक ओषध है और धातुको दूषित करनेवाला कोईक ओषध है और स्वस्थवृत्तिमें कोईक ओषध माना है ऐसे ओषध तीन प्रकारका है ॥ २ ॥ और दैवपथाश्रय युक्तिपथाश्रय सत्त्वावजय, ऐसेभी ओषध तीन प्रकारका है मंत्र, ओषध, मणि, मंगल, वलि, भेट, होम, नियम, प्रायश्चित्त, वृत्त, स्वस्त्ययन, प्रणिधान, इन आदि दैवपथाश्रय अर्थात् दैवके मार्गसे आश्रितहुआ ओषध कहाता है आहार, व्यवहार, ओषध, इन्होंकी योजना कीजावै वह युक्ति-

पथाश्रय अर्थात् युक्तिके मार्गसे आश्रितहुआ ओषध कहाता है अहित अर्थसे मनका निग्रह होना यह सत्वावजय औषध कहाता है ॥ ३ ॥

अथ अतिसारका लक्षण ॥

स्निग्धातिशीतगुरुशीतलपिच्छलान्नं दुष्टाशनातिविषमाशनपानभक्ष्यम् ॥
अद्यादजीर्णमथ शोकविषैर्भयैर्वा शोकार्त्तिदुष्टपयसा तु विपद्यर्थेषु
॥ ४ ॥ दौर्बल्यतां विषमभोजनकेन चाप्सु संमिद्यते मलमजीर्णं निह
न्ति चाग्निः ॥ सञ्जायते हि मनुजस्य तदातिसारो हत्वोदराग्निं मनुजस्य
तदातिसारः ॥ ५ ॥ सञ्जायते स तु पुनर्बहलो मलेन स्यात्पञ्चधा निग
दितो मुनिभिर्विधिज्ञैः ॥ रक्ष्ये समासत उदीर्णरुजस्य नाशः काथादिकैर्भ
वति पाचनकैश्च पूर्वम् ॥ ६ ॥

चिकना, अत्यंत शीतल, भारा, शीतल कफकारी, दुष्ट, ऐसे भोजन और अत्यंत भोजन विषम भोजन और विषमपान और अजीर्णमें भोजन इन्होंसे और शोक, विष, भय, इन्होंसे और शोककरिके दुष्टहुये दूधसे अथवा शयनआदिके विपरीतपनेसे ॥ ४ ॥ मनुष्योंके शरीरमें जलधातु बढके उदरकी अग्नीको शांतकरै और वह जल पवनका प्रेरित विष्टासे मिल गुदाके मार्गसे पतला होकर नीचे अधिक उतरै उसको अतिसार कहते है ॥ ५ ॥ वह मलसे अत्यंत बढा होता है और विधिको जाननेवाले मुनियोंने पांच प्रकारका कहा है बढेहुये रोगके नाशको प्रथम काथआदि और पाचनकरके रक्षित करना ॥ ६ ॥

अथ ज्वरातिसार ॥

युगपज्जायते यस्य ज्वरश्चैवातिसारकैः ॥ ज्वरातिसारो घोरोऽसौ कष्टसा
ध्यो मनीषिणाम् ॥ ७ ॥ न पित्तेन विना सोपि जायते शृणु पुत्रक ! ॥
तस्य नो लङ्घनं प्रोक्तं ज्वरे चैवातिसारके ॥ ८ ॥

जिसरोगीके एककालमें ज्वर और अतीसार उपजै वह घोररूप ज्वरातीसार कहाता है यह बुद्धिमानोंकोभी कष्टसाध्य है ॥७॥ हे पुत्र ! सुन पित्तके विना ज्वरातिसार नहीं होता है इसवास्ते ज्वरातीसारमें लंघन नहीं कहा है ॥ ८ ॥

अथ अतीसारकी चिकित्सा ॥

सुवर्चलमतिविषाहिङ्गुपथ्याकलिङ्गकैः ॥ शुण्ठी वामातिसारघ्नी शूलघ्नी
ग्राहिपाचनी ॥ ९ ॥ पथ्यादारुवचामुस्तानागरातिविषायुतैः ॥ आमाति
सारनाशाय काथमेभिः पिवेन्नरः ॥ १० ॥

कालानमक, अतीस, हींग, हरडै, इंद्रजव, सूंठ, इन्होंकी, गोली आमतीसार, शूल, इनको नाशती है पाचन है और कवजको करती है ॥ ९ ॥ हरडै, देवदार, वच, नागरमोथा, सूंठ, अतीस, इन्होंका काथ आमतीसारको नाशता है ॥ १० ॥

अथ ज्वरातिसारकेपर उत्पलषट्क ॥

उत्पलं धान्यकं शुण्ठी पृश्निपर्णी बलायुतम् ॥ बालविल्वं गवां तन्त्रेणा
त्युष्णेन च पेषयेत् ॥ ११ ॥ तेन लाजाकृतं मण्डं देयमानीय शीतल
म् ॥ ज्वरातिसारशमनं हुताशनवलप्रदम् ॥ १२ ॥

नीलाकमल, धनियां, सूंठ, पिठवन, खरैहटी, बेलगिरीका गूदा इन्होंको गायके तकसे पीसै ॥ ११ ॥ पीछे तिसमें धानको खीलोंका मंड बना शीतलकर पीवै यह ज्वरातीसारको शांत करता है और जठराग्निको बल देता है ॥ १२ ॥

अथ शुण्ठ्यादि काथ ॥

शुण्ठीविषातलधराचूतवत्सकानां तिक्ताह्वयं कनकशीतलकः कषायः ॥
पाने विधेयमधुना प्रतिसाधितस्तु ज्वरातिसारशमनाय सदा प्रदेयः ॥ १३ ॥

सूंठ, अतीस, कलोजी, जीरा, गिलोय, इंद्रजव, कुटकी, पीलाकमल, चंदन इन्होंका काथ पीना यह सब कालमें ज्वरातीसारको नाशता है ॥ १३ ॥

अथ पाठादि काथ ॥

पाठेन्द्रभूनिम्बघनामृतानां सपर्पटः काथ इह प्रशस्तः ॥ आमा
तिसारश्च जयेद्भुतं वा ज्वरेण युक्तं सहजश्च तीव्रम् ॥ १४ ॥

सोनापाठा, इंद्रजव, चिरायता, नागरमोथा, गिलोय, पित्तपापडा, इन्होंका काथ आमती-
सारको और ज्वरातीसारको जीतता है इसवास्तै श्रेष्ठ है ॥ १४ ॥

अथ शुंठ्यादि पाचन ॥

शुण्ठी बालकमुस्ता विल्वं पाठाविषा च धान्यानि ॥

पाचनमरुचौ छर्द्दिज्वरातिसारं विनाशयन्ति ॥ १५ ॥

सूंठ, नेत्रवाला, नागरमोथा, बेलगिरी, सोनापाठा, अतीस, धनियां, इन्होंका पाचनरू-
पी काथ अरुचि, छर्दि, ज्वरातीसार, इन्होंको नाशता है ॥ १५ ॥

अथ वत्सकादि काथ ॥

वत्सकश्च सुरदारुरोहिणीधान्यविल्वमगधान्निकण्डकम् ॥ नि

म्बवीजगजपिप्पलीवृकीकाथ एवमतिसारस्यौषधम् ॥ १६ ॥

इन्द्रजव, देवदार, हरद्वै, धनियां, बेलगिरि, पीपल, निंबोली, गजपीपल, काश्मीरीपाठा इन्होंका काथ अतिसारमें अति उत्तम ओषध है ॥ १६ ॥

अथ पञ्चमूलीकाथ ॥

पञ्चमूलीबलाबिल्वगुडूचीमुस्तनागरेः॥ पाठाभूनिम्बह्वीवेरकुटजत्वक्फलै
र्भृतः ॥ १७ ॥ इति सर्वानतीसारान्वमिश्रवासज्वरादितान् ॥ सशूलोपद्रवां
श्चासौ हन्याच्चासुरदारुणम् ॥ १८ ॥ पञ्चमूल्यतिसामान्या योज्या पित्ते
कनीयसी ॥ महती पञ्चमूली तु वातश्लेष्मज्वरे हिता ॥ १९ ॥

पञ्चमूल, खैरैहटी, बेलगिरी, गिलोय, नागरमोथा, संठ, सोनापाठा, चिरायता, नेत्रवाला, कूडाकी छाल, इन्द्रजव, इन्होंका काथ ॥ १७ ॥ सवमकारके अतीसार, छर्दि, श्वासरोग, ज्वर, शूल, इन्होंको नाशताहै ॥ १८ ॥ पित्तदोषमें लघुपञ्चमूल वर्तना वात और कफ-
दोषमें बृहत्पञ्चमूल वर्तना ॥ १९ ॥

अथ उत्पलादिपाचन ॥

उत्पलं दाडिमं त्वक्क केशरं तथा मधु पद्मकम् ॥

धात्री पिष्टा तण्डुलतोयैः पाचनं ज्वरातिसारघ्नम् ॥ २० ॥

नीलाकमल, अनारकी छाल, केशर, कमल, आंवला इन्होंको चावलके पानीसे पीस
शहद मिला पीवै यह पाचन ज्वरान्तीसारको नाशता है ॥ २० ॥

अथ उशीरादि काथ ॥

उशीरं धान्यकं मुस्तं सविल्वं बालकं बला ॥ तथा च धातकीपुष्पं क
पायस्य प्रशस्यते ॥ २१ ॥ ज्वरातिसारशमनं सहशोणितपैत्तिकम् ॥ निह
न्ति शोफं सकलं रुचिप्रद्विपाचनम् ॥ २२ ॥

खश, धनियां, नागरमोथा, बेलगिरी, नेत्रवाला, खैरैहटी, धवके फूल इन्होंका काथ श्रेष्ठ
है ॥ २१ ॥ ज्वरातिसार, रक्तातिसार, पित्तातिसार, सवमकारका शोजा, इन्होंको शांत करता
है और रुचीको देता है और पाचन है ॥ २२ ॥

विगतामातिसारं चिरोत्थितं रक्तसहितमतिदृढम् ॥

मधुना सहितः शमयत्यरलुः पुष्टपाकनिर्घ्यासितः ॥ २३ ॥

सोनापाठाकों पुटपाककी विधिसे पकाके रसको निचोड तिसमें शहद मिला पीवै यह पकातिसार और पुराना अतीसार और बढाहुआ रकातिसारकोभी नाशता है ॥ २३ ॥

जंब्वादिस्वरस ॥

जम्बूवटोदुम्बरप्लक्षको हि नागश्च प्रपौण्डरिकं शमी च ॥ गुन्द्रः सचूतो ऽम्बुदजीविकाया आसां हि पुञ्जश्च सदा विदध्यात् ॥ २४ ॥ प्रस्थद्वयेन प्रपिवेद्धि तावद्यावद्विशेषांशमिदं प्रजायते ॥ पुनः कटाहे विपचेच्च सम्यग्द्वीप्रलेपः स्वरसश्च यावत् ॥ २५ ॥ उत्तार्य नूनं क्षिपगुत्तमेन क्षौद्रेण मिश्रं हरतेऽतिसारम् ॥ २६ ॥

जामनवड, गूलर, पिलखन, नागकेशर, कमल, जाती, मोथा, टण, आंबं, नागरमोथा, जीवंती, इन्होंके फूलोंको सवकालमें लैवै ॥ २४ ॥ पीछे १२८ तोले पानीमें पकावै जब चौथाईभाग शेष रहै तब फिर कडाईमें घालि फिर पकावै जब कडछीपर चपनेलगे ॥ २५ ॥ तब उतार उत्तमवैद्यनें निश्चय शहद मिला रोगीको देना चाहिये यह अतीसारको हरता है ॥ २६ ॥

काकमाचीका प्रयोग ॥

हारीतेन तथा प्रोक्ता काकमाची सुपूजिता ॥ आलोक्यानेकशास्त्राणि आत्रेयेणापि पूजिता ॥ २७ ॥

जैसे अनेक शास्त्रोंको देख आत्रेयजीने काकमाची अर्थात् भोलणीनामसें प्रसिद्ध मकोह-विशेष ओपधी पूजित कीहै तैसेही हारीतनेंभी यही ओपधी पूजी है ॥ २७ ॥

जंबूत्वगादिका अवलेह ॥

जम्बूत्वचं वत्सकवल्कलं च निष्काथ्य नूनं सलिले समीरणम् ॥ चतुर्विं भागेष्वपि शेषितेषु उत्तार्य वस्त्रेष्वथ गालयेच्च ॥ २८ ॥ पुनः कटाहे विपचेच्च सम्यग्द्वीप्रलेपः स्वरसस्तु यावत् ॥ उत्तार्य शीते मधुना विमिश्रं लीढं हरेदप्यतिसारमुग्रम् ॥ २९ ॥

जामनकी छाल, कुडाकी छाल, इन्होंका पानीमें काथ घना जब चौथाई भाग शेष रहै तब उतारि वस्त्रसे लैवै ॥ २८ ॥ छान फिर कडाहीमें घाल अच्छीतरह पकावै जब कडछीपै चिपनेलगे और स्वरसरूप रहै तबतक अग्निसे उतार शीतलकर शहद मिलांचाटै यह दारुण अतीसारको हरता है ॥ २९ ॥

अतिसारका पूर्वरूप ॥

कुक्षोदरे वक्षसि नाभिदेशे पायुप्रदेशे सततं निरुद्धे ॥ वातस्य रौधश्च शक
द्विभङ्गो भवन्ति सर्वेष्वतिसारकेषु ॥ ३० ॥

अतीसाररोगमें कुक्षि, उदर, छाति, नाभिदेश, गुदामंडल, ये सब स्थान रूककर अधो-
वायुका रोध और विष्ठाका भंग होता है ॥ ३० ॥

अथ वातातिसारका लक्षण और चिकित्सा ॥

सफेनिलं पिच्छलमेव रूक्षमल्पं सकृदामसशब्दशूलम् ॥ कृष्णं भवेद्वात्र
विचेष्टनञ्च वातातिसारे प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३१ ॥ तस्यादौ लङ्घनं चै
कमल्पे वा नैव लङ्घनम् ॥ तस्माद्द्वयं कषायं तु पानभोजनमेव च ॥ ३२ ॥

झागोसे मिलाहुआ और रूखा मल उतरै और थोडा वारंवार आमसहित आवै और
दिशाजानेकें समय शब्द और शूलको उपजावै और शरीरआदि कृष्णवर्ण होजावे तिसको
वातातीसार कहते हैं ॥ ३१ ॥ तिसकी आदिमें एक लंघन करना और अल्परूप वाताति-
सारमें लंघन नही करना तिससे काथ, पान, भोजन, ये देने चाहिये ॥ ३२ ॥

अतिसारका पाचक कल्क ॥

उद्दीच्यधान्यस्य जलेन कल्कं पाने हितं पाचयतेऽतिसारम् ॥ तृष्णाप
हं दाहविनाशनञ्च सशूलहिक्कासुविनाशनं स्यात् ॥ ३३ ॥

नेत्रवाला, धनियां, इन्होंका पानीमें पीस कल्क बना खानेसे अतीसारको पकाता है और
तृषा, दाह, शूल, हिचकी, इन्होंको नाशता है ॥ ३३ ॥

वालकादि कल्क ॥

वालकद्वयसोचहरीतकीपर्पटेन सहितं जलेन च ॥ काथपानभिदमेवाति
सारे नाशमाशु कुरुते च विट्छान्तिम् ॥ ३४ ॥

नेत्रवाला, खश, मोचरस, हरडै, पित्तपापडा, इन्होंका पानीमें काथ बना अतीसार रोगी
पौवै यह विष्ठाको शांत करता है ॥ ३४ ॥

शालिपर्ण्यादिपानक ॥

शालिपर्णी पृथ्विपर्णी बृहती कण्टकारिका ॥ वालाश्वदंष्ट्रा बिल्वानि
पाठा नागरधान्यकम् ॥ ३५ ॥ एतदाहारसंयोगे हितं सर्वातिसारिणाम् ॥

शालवन, पिठवन, बडीकटेहली, छोटीकटेहली, नेत्रवाला, गोखरू, बेलगिरी, सोनापाठां, सेंट, धनियां ॥ ३५ ॥ यह द्रव्य भोजनके संयोगमें अतीसार रोगियोंको हित है.

तिंदुकादिरसपानक ॥

तिन्दुकत्वचमाहृत्य काश्मरीपत्रवेष्टितम् ॥ ३६ ॥ मृदा विलिप्य विधि
वदहेन्दुमिना जिपक् ॥ रसं गृहीत्वा मधुसंयुतं पानं सर्वातिसारघ्नञ्च ॥ ३७ ॥

और तेंदुआवृक्षकी छालिको ले कंभारीके पत्तोंसे वेष्टितकरै ॥ ३६ ॥ पीछे माटीसे विधि-पूर्वक लीपा कौमल अग्निसे दग्धकरै पीछे रस निकाल शहदसे संयुक्तकर पीवै यह सवप्रकारके अतीसारोंको नाशता है ॥ ३७ ॥

कुटजपुटपाक ॥

तुलामथार्द्रगिरिमल्लिकायाः संकुट्य कर्षञ्च समादधीत ॥ तस्मिन्संपूते
पलसंसितञ्च देयञ्च पिष्ट्वा सह शाल्मलेन ॥ ३८ ॥ पाठा समङ्गतिवि
पा समुस्ता विल्वञ्च पुष्पाणि च धातकीनाम् ॥ प्रक्षिप्य भूयो विपचेच्च
तावद्वावीप्रलेपः स्वरसस्तु यावत् ॥ ३९ ॥ पीतस्त्वसौ कालविदा जलेन
मण्डेन वाजापयसाऽथवापि ॥ निहन्ति सर्वमतिसारमुग्रं कृष्णं सितं लो
हितपीतकञ्च ॥ ४० ॥ दोषं ग्रहण्यां विविधं च रक्तपित्तं तथाशींसि स
शोणितानि ॥ असृग्दरं चैवमसाध्यरूपं निहन्त्यवश्यं कुटजाटकोऽयम् ॥ ४१ ॥

कूडाकी गीली छालको ४०० तोले भरले और कूट पानीमें अग्निमें पकावै जव चौथाई-भाग शेष रहै तव वस्त्रमांहके छान फिर अग्निमें धर मोचरस ॥ ३८ ॥ सोनापाठा, मंजीठ, अतीश, नागरमोथा, बेलगिरी, धवके फूल, ये सब चारचारतोलेभर ले पूर्वोक्तमें मिटाके पकावै जव कडछीपै चिपनेलगे और स्वरसही हो तव उतारै ॥ ३९ ॥ पीछे कालको जाननेवाले रोगीने पीनी, मंड, बकरीका दूध, इन्होंके संग पीना यह कृष्ण, सफेद, लाल, पीला, ऐसेवर्णसे सब अतिसारोंको नाशता है ॥ ४० ॥ और ग्रहणीदोष अनेक प्रकारका रक्तकी ववासीर और असाध्यरूप प्रदरोग इन्होंको निश्चय हरता है इसको कुटजाटक कहते हैं ॥ ४१ ॥

अथ पित्तातिसारका लक्षण और चिकित्सा ॥

घर्मेण चोष्णान्निविभोजनेन घर्मेण तप्तोदकसेवनेन ॥ शोकेन तापेन रु
पा कटुत्वे क्षारेण पित्तासृक्सारकः स्यात् ॥ ४२ ॥ तेनारुणं पीतमथा

तिनीलं दुर्गन्धशोषज्वरपाण्डुयुक्तम् ॥ भ्रमार्त्तिमूर्च्छा च तृषाङ्गदाहः
पित्तातिसारस्य च लक्षणानि ॥ ४३ ॥

घामसे और गरम अन्नके भोजनसे और घामसे तमहुआको जलके सेवनेसे शोक और तापसे क्रोधसे कडुआ और खारारसको सेवनेसे पित्तातीसार उपजता है ॥ ४२ ॥ लाल, पीला, अत्यंतनीला, ऐसा मल उतरै और दुर्गन्ध, शोष, ज्वर, पांडुरोग, भ्रम, मूर्च्छा, तृषा, ये उपजै और अंगोंमें दाहहो तिसको पित्तातीसार जानिये ॥ ४३ ॥

अथ शालिपर्ण्यादिपान ॥

शालिपर्णीपृश्निपर्णीबिलाबिल्वैस्तु साधितः ॥

दाडिमाम्लो हितः पेयः पित्तातीसारशान्तये ॥ ४४ ॥

शालवन, पिठवन, खैरहटी, बेलगिरी, इन्होंसे साधितकरी अनारकी कांजीको पीना यह पित्तातीसारकी शांतिमें हित है ॥ ४४ ॥

अथ दशमूलका काथ ॥

कुशकाशेक्षुमूलानां शालीनलभवैर्जलैः ॥

मूलानां काथमाहृत्य शस्तं पित्तातिसारिणाम् ॥ ४५ ॥

डाभ, कांस, ईख, इन्होंकी जड़ोंका चावल और कमलके पानीमें काथ बना पीवै यह पित्तातीसारियोंके श्रेष्ठ है ॥ ४५ ॥

अथ धान्यपञ्चकादिकाथ ॥

धान्यपञ्चकमूलानां काथः पित्तातिसारिणाम् ॥ ४६ ॥

धनियां, और पंचमूलका काथ पित्तातिसारियोंको हित है ॥ ४६ ॥

अथ शाल्मलीमूलकल्का ॥

शाल्मलीमूलत्वग्गुडदुग्धपेषितं च ॥

पानं पित्तातिशमनं सरक्तदाहशोषहरम् ॥ ४७ ॥

संभलकी जड़ और छाल, गुड इन्होंको दूधमें पीसपीवै यह पित्तातिसार, रक्त, दाह, शोष, इन्होंको हरता है ॥ ४७ ॥

अथ कफातिसारलक्षण ॥

दुःस्वमादिश्रमाद्वै सहजजडतया शीतसंसेवनेन स्निग्धाहारातिभोज्यात्स

तिलपलगुडैश्वेक्षुरखण्डैर्गुरुणाम् ॥ शीतातिस्नानलौल्यात्पयसि दधियुता
हारसंसेवनाच्च जातः श्लेष्मातिसारो जठरद्भ्रतभृग्हृदयस्तुपुंसामपाकः
॥ ४८ ॥ तेन श्लेष्मा शुष्कभेदारुचिः स्यात्सान्द्रं विस्रं जाड्यता रोम
हर्षः ॥ मन्दाग्निं मन्द्बेगो विशिष्टः सालस्योऽपि विद्धि सारः कफोत्थः ४९

दुःस्वम अर्थात् बुरीतरह शयन करना आदिसे परीश्रमसे, जडपनेसे, शीतलपदार्थको सेवनेसे चिकना भोजनको और अत्यंतभोजनको करनेसे और तिल, गुड, मांस, ईखकाअन्न, भारापदार्थ इन्हींको सेवनेसे और शीतलपानीमें अत्यंत स्नान और चंचलता करनेसे, और दहीसे युक्तहुये भोजनको दूधमें मिटाके सेवनेसे कफातीसार उपजता है और जो आप नहीं पक्का है वह पेटकी अग्निको नाशता है ॥ ४८॥ जिसका मल चिकना और सफेद गाढा दुर्गंधिलिये शीतल थोड़ी पीडासहित उत्तरे और शरीर भारी रहे और भोजनमें अरुचिहो तिसको कफातिसार कहते है ॥ ४९ ॥

अथ कफातिसारकी चिकित्सा ॥

तस्यादौ लङ्घनं प्रोक्तं ज्ञात्वा देहवलावलम् ॥

पाचनं च विधातव्यं त्र्यूपणाद्यं त्रिषग्वर ! ॥ ५० ॥

तिसकी आदिमें देहके बल और अवलको जानकै वक्ष्यमाण पाचनको देवै ॥ ५० ॥

अथ त्र्यूपणादिक पाचन ॥

त्र्यूपणमभया हिङ्गु चातिविषा रुचकं वचायुक्तम् ॥

मधुसहितं लेहनं नृणां गङ्गामपि वाहिनीं रुन्ध्यात् ॥ ५१ ॥

सूठ, मिरच, पीपल, हरई, हींग, अतीश, कालानमक, वच, इन्हींके चूर्णमें शहद मिला-
चादे, यह मनुष्योंके गंगाके समान बहतेहुये अतीसारको रोकता है ॥ ५१ ॥

अथ कालिंगादि कल्का ॥

कालिङ्गपाठातिविषा बला च सोदीच्यमुस्तामरिचानि शुण्ठी ॥ गुडेन
क्षौद्रेण प्रशस्तकल्को रक्तातिसारे कफजे शमाय ॥ ५२ ॥

इन्द्रयव, सोनापाठा, अतीश, खैरहटी, नेत्रवाला, नागरमोथा, मिरच, सूठ, इन्हींके क-
ल्कमें गुड और शहद मिला सवै यह रक्तातिसारमें और कफातिसारमें हित है ॥ ५२ ॥

अथ वत्सकादि काथ ॥

वत्सकातिविषविल्वमुस्तकं वालकेन सहितं जलेन तु ॥ काथपानमतिशू-
लरक्तपूयनाशनं ज्वरयुतेऽतिसारके ॥ ५३ ॥

कूडा, अतीश, बेलगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाला, इन्होंका पानीमें काथ बना पीवै यह अत्यंतशूल, रक्त, राद, ज्वर, कफ, इन्होंसे युक्तहुये अतिसारमें हित है ॥ ५३ ॥

अथ रक्तातिसारका लक्षण ॥

यस्तु रक्तं च शुद्धं विरेचने शोषदाहमतिरिञ्चेत् ॥

रक्तातिसार इति ज्ञेयो वैद्यैर्महामतिभिः ॥ ५४ ॥

जो मल उतरनेके समय शोष और दाहसें युक्तहुआ शुद्ध रक्त गुदाके द्वारा अत्यंत पीसको कुशलवैद्य रक्तातिसार कहते है ॥ ५४ ॥

अथ धान्यादिकाथ ॥

धान्यनागरमुस्ता च बालकं बालबिल्वकम् ॥

बला नागवलीं चेति काथो रक्तातिसारिणाम् ॥ ५५ ॥

धनियां, स्रंठ, नागरमोथा, नेत्रवाला, कच्चिबेलगिरी, खरैहटी, बडी खरैहटी इन्होंका काथ रक्तातिसारवाजेको हित है ॥ ५५ ॥

अथ दाडिमादिकाथ ॥

दाडिमं च कपित्थं च पथ्याजम्बाम्पल्लवान् ॥

पिट्ठा देया मस्तुयुक्ता रक्तातिसारवारणाः ॥ ५६ ॥

अनार, कैथ, हरदैं, जामन और आंवके पत्ते, इन्होंको दहीके पानीमें पीस देवै यह रक्तातिसारको नाशता है ॥ ५६ ॥

अथ गुडबिल्वादियोग ॥

गुडेन पक्कं दातव्यं बिल्वं रक्तातिसारिणे ॥

मनुजे पथ्या वा मधुयुक्ता वा दध्ना रक्तातिसारघ्ना ॥ ५७ ॥

पकाहुआ बेलगिरीका फल गुडके साथ रक्तातिसारवालेकू देना अथवा स्रंठ शहदके अथवा दहीके साथ देना इससें रक्तातिसारका नाश होता है ॥ ५७ ॥

अथ वत्सकावलेह ॥

वत्सकातिविषानागराभया पिषितं च मस्तुसंगुतम् ॥ लेहस्तु

शस्तो मधुनापि मानुजे रक्तवाहम् ॥ ५८ ॥

कूडा, अतीश, स्रंठ, हरदैं, इन्होंको पीस करनी गुदं दृढवा ॥ पानीमें मिलापीवै यह रक्तातिसारको दूर करता है ॥ ५८ ॥ कया करनी पीला

अथ कुटजादिचूर्णं ॥

कुटजत्वक्क पाठा च विश्वं विल्वं च धातकी ॥

मधुना सहितं चूर्णं देयं रक्तातिसारघ्नम् ॥ ५९ ॥

कूडाकी छाल, पाठा, स्रंठ, बेलगिरी, धवके फूल, इन्हेंके चूर्णको शहदमें मिला देवै यह रक्तातिसारको हरता है ॥ ५९ ॥

अथ सन्निपातके अतिसारका लक्षण और चिकित्सा ॥

वराहवासासदृशं तिलाभं मांसधावनाभासम् ॥

पक्वजम्बूफलसदृशं सन्निपातः प्रवहताम् ॥ ६० ॥

शूरकी वसाके समान और तिलोंके समान कांतिवाला और मांसका धोवनके समान प्रकाशित और पकाहुआ जामनका फलके समान ऐसा मल उत्तरै तिसको सन्निपातका अतिसार जानिये ॥ ६० ॥

अथ कुटजाटक ॥

तुलामथार्द्रागिरिमल्लिकायाः संकुट्य पक्त्वा रसमाददीत ॥ तस्मिन्मुपूते पलसंमिते च देयंच पिष्ट्वा सह शाल्मलेन ॥ ६१ ॥ पाठा समङ्गातिविषा समुस्ता विल्वं च पुष्पाणि च धातकीनाम् ॥ प्रक्षिप्य भूयो विपचेच्च ता वद्द्वार्वीप्रलेपः सरसस्तु यावत् ॥ ६२ ॥ पीतस्ततः कालविदा जलेन मण्डेन च क्षौद्रयुतेन वापि ॥ निहन्ति सर्वमतिसारमुर्धं कृष्णं सितं लोहितपीतकं च ॥ ६३ ॥ दोषं ग्रहण्यां विविधं च रक्तं पित्तस्य चार्शांसि स शोणितानि ॥ असृग्दरं चैवमसाध्यरूपं निहन्त्यवश्यं कुटजाटकोऽयम् ६४

सपेद कूडाका गीला फूल अथवा छाल एक तुलाभरले कूटकर उसका रस निकालकर छान ले फिर उसमें मोचरस ॥ ६१ ॥ सोनापाठा, मजीठ, अतीश, नागरमोथा, बेलगिरी, धायको फूल, इन औषधोंको डारके चुल्हीपर पकावे, जब कडछाको लेपहोनेलगे, तब उत्ताररखे ॥ ६२ ॥ जब पीनेका समय आवे, तब पानीके साथ अथवा मंडके साथ, किंवा शहदके साथ, पिलावे यह कुटजावलेह भयंकरकाला, सपेद, लाल, पीला ऐसे अतिसारको नष्ट करताहै ॥ ६३ ॥ तथा ग्रहणीके अनेक दोष, रक्त, पित्त, रक्तके ववासीर, और असाध्य असृग्दर इन रोगोंके अवश्य नष्ट करदेताहै ५९-६४ ॥

अथ वत्सकामृतवटक ॥

पथ्यापञ्चमूलकाथश्वर्तं बालकेन सारं ॥ तत्र काथे पुनश्चूर्णमिमानी वी
ऽतिसारके ॥ ५३

षधानि तु ॥ ६५ ॥ शृङ्गवेरं तथा लाक्षा पिप्पली कटुरोहिणी ॥ दाडि
मफलत्वक्चूर्णं दावीं सवत्सकं विपम् ॥ ६६ ॥ आटरूपकचूर्णानि सं
क्षिप्यात्र निघट्टयेत् ॥ आजं दुग्धं तदद्धेन घृतं चाष्टांशकं क्षिपेत् ॥ ६७ ॥
दाढ्यां विलेपितं ज्ञात्वा गुडस्य षोडशानि तु ॥ पलानि मिश्रितं तत्र देयम्
प्रातराशने ॥ ६८ ॥ त्रिदोषः सन्निपातोत्थ अतिसारश्च दारुणः ॥ शूल
मूर्च्छाभ्रमानाहकामलानां विपाचनः ॥ ६९ ॥ क्षतक्षीणक्षयाणां तु हि
तोऽयममृतो वटः ॥ ७० ॥

हरैडं, शालवन, पिठवन, छोटी कटेहली, बडीकटेहली, गोखरू, इन्होंको पानीमें उवाळ
चौथा हिस्सा शेष रहै ऐसा काथ बनावै ॥ ६५ ॥ पीछे अदरक, लाख, पीपल, कुटकी,
अनारदाना, अनारकी छाल, दारूहलदी, कूडाकी छाल, अतीश ॥ ६६ ॥ वांसा, इनसवोंका
चूर्ण बना पूर्वोक्तमें मिलावै और काथसें आधा हिस्सा बकरीका दूध और आठमें हिस्से घृ-
तको मिला पकावै ॥ ६७ ॥ जब कडछीपै चिपनेलगे तबजान १६ तोले गुड मिलाय सायं-
कालके भोजनमें देवै ॥ ६८ ॥ इस्से सन्निपातका दारुण अतिसार, शूल, मूर्च्छा, भ्रम, अफा-
रा, कामला, ये शांत होतेहैं ॥ ६९ ॥ क्षतक्षीण, और क्षयरोगी इन्होंको यह अमृतवटक
हित है ॥ ७० ॥

अथ बिल्वादिचूर्ण ॥

एकबिल्वागुरुरोध्रचूर्णं मध्वादियोजितम् ॥ रक्तातिसारशमनं बालानां
क्षीणधातुकम् ॥ ७१ ॥

एक १ बेलगिरी, अगर, लोद, इन्होंके चूर्णमें शहदमिला बालको चटावै यह धातुओंको
क्षीण करनेवाले रक्तातिसारको नाशता है ॥ ७१ ॥

अथ गुदाके निकसनेको बंधकरनेकी चिकित्सा

यदा गुह्यं निरस्येत्तु तदा कुर्ह्यात्क्रियामिमाम् ॥ सहचर्ह्या बालानां
च रसो ग्राह्यो घृतं पुनः ॥ ७२ ॥ पक्वघृतेन लेपः स्यात्तस्य चेदं प्रश-
स्यते ॥ अरणीपल्लवकाथो वाप्यं लोष्टं सचन्दनम् ॥ ७३ ॥ प्रतप्तमथवा
ग्निभिन्नं तथा नरस्य निर्वाप्य काञ्जिकमथ विदधीत तद्वत् ॥ सौख्यं च
सम्यग्गुदसेचनकं प्रशस्तं संवेश्य मध्यतो गुदं दृढबन्धनं स्यात् ॥ ७४ ॥
जब गुदाकी कांच निकसै तब यह क्रिया करनी पीला कुरंदा और खैरहटीके रसमें

घृतको पका लेप करना श्रेष्ठ है ॥ ७२ ॥ अरनीके पत्तोंके काथमें चुल्हाकी माटी और चं-
दनको गर्मकर बुझावै अथवा इसीरीतिसे कांजीको बनावै इन्होंसे अच्छीतरह गुदाको सेचै
॥ ७३ ॥ और कांचको गुदाके बीचमें प्रवेशकर दृढबंधन करना ॥ ७४ ॥

अथ अतिसारविशेषता ॥

लशुनकुणपगन्धं पूयगन्धं घनं वा पललजलसमानं पक्कजम्बूनिभं वा ॥
घृतमधुपयसाभं तैलशैवालनीलं सघनदधिसवर्णं वर्जयित्वातिसारम् ७५
भ्रममदनमकार्शं शूलमूर्च्छाविदाहं श्वसनमतिविवर्णं छर्दिमूर्च्छातृडार्त्त
म् ॥ विकलमतिशयेन सौख्यशोफज्वरान्तिः स परिहरतु दूरं सद्धिधाता न
दृष्टः ॥ ७६ ॥ शोफं शूलं ज्वरं तृष्णां श्वासं कासमरोचकम् ॥ छर्दिमू-
र्च्छां च हिक्कां च दृष्ट्वातीसारिणं त्यजेत् ॥ ७७ ॥ दृष्ट्वा शोफं तथाध्मा
नं हिक्कां छर्दिमरोचकम् ॥ तथा च पाण्डुरोगार्त्तमतिसारयुतं त्यजेत् ॥ ७८ ॥

लस्सनकी गंधके समान गंधवाला और मुरदाके समान गंधवाला और रादके गंधकी
समान गंधवाला कठिन, और मांसके पानीके समान तेल और शिवालके समान नीला और
करडी दहीके समान वर्णवाला ऐसे अतिसारको वर्जे ॥ ७५ ॥ भ्रम, उन्माद, ववासीर,
शूल, मूर्छा, दाह, श्वास, इन्होंसे संयुक्त छर्दि और तृपासे पीडित अतिशय करके विकल शोजा
और ज्वरसे पीडित ऐसा अतिसार वर्जदेना ॥ ७६ ॥ शोजा, शूल, ज्वर, तृपा, श्वास, खांसी, अरु-
चि, छर्दि, मूर्च्छा, हिचकी इन्होंसे संयुक्त हुये अतिसाररोगीको त्यागै ॥ ७७ ॥ और शोजा,
अफारा, हिचकी, छर्दि, अरुचि, पांडुरोग, इन्होंसे पीडितहुये अतिसाररोगीको त्यागै ॥ ७८ ॥

अथ अतिसारका भेद संग्रहणीरोगका निदान और चिकित्सा

यदल्पमल्पं क्रमशो निषेवितं मलं जगाधारगतं च नित्यम् ॥ हत्वान्तरा
ग्निं कुरुते नरस्य विकारमाहुर्ग्रहणीति संज्ञाम् ॥ ७९ ॥ निर्दृक्ते चातिसा
रे शमयति दहनं भूयसा दोषितोऽपि भुक्त्वा नाशयंसलांशं बहुदिनमनिशं
सञ्चयित्वा निसर्त्ति ॥ वारं वारं विगृह्य सहजमसरलं पक्कमानं घनं वा दु
र्व्याधिघोरो मनुजरुजकरः स्यात्तथा ग्रहणीति संज्ञा ॥ ८० ॥

जो अल्प अल्प मल नित्यप्रति उतरै और दोष शरीरकी अग्निको नष्टकर विकारको उप-
जावै तिसको ग्रहणीरोग कहते है ॥ ७९ ॥ अतिसारके निवृत्तहोनेके पश्चात् दोषोंसे युक्तहुई
ग्रहणी पेटकी अग्निको शांत करै और भोजन करके संचितहुआ मलका अंश बहुत दिनोंतक

नित्यप्रति निसरै और वारंवार कवज करकै पकाहुआ और कठिन मल उत्तरै तिसको ग्रहणी-
दोष कहते हैं यह घोररूप दुष्टरोग है मनुष्योंको पीडा देता है ॥ ८० ॥

अथ ग्रहणीके प्रकार ॥

लक्षयेच्चातिसारे च विज्ञेयं ग्रहणीगदम् ॥ वातिकं पैत्तिकं चैव श्लैष्मि
कं सान्निपातिकम् ॥ ८१ ॥ नैव चैकेन दोषेण जायते ग्रहणीगदः ॥ ते
न संक्षीयते देहमन्तर्दाहो विपाकता ॥ ८२ ॥

अतिसारमें ग्रहणीरोगको जानना, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ऐसे ग्रहणीरोग
होता है ॥ ८१ ॥ एक दोष करके ग्रहणीरोग नहीं उपजता तिसकरके मनुष्यका शरीर
छीजता है और शरीरके भीतर दाह होती है और अन्न नहीं पकता ॥ ८२ ॥

अथ ग्रहणीका उपद्रव तथा गुल्मादिकोंकी संप्राप्ति ॥

तिक्तः कषायः कट्टुकाम्लविदाहिरूक्षः शीताल्पभोजनपरैः श्रमभैथुनैश्च ॥
भाराध्वहस्तिरथवाहनधावनेन संकुद्धवायुहननेनलवेगमेनम् ॥ ८३ ॥

कडुआ, कसैला, चर्चरा, खटा, दाहकरनेवा ॥ १०६ ॥ शूल, थैका संग्रहेणी पांडु-
नित्यप्रति सेवनेसे परिश्रम और मैथुनको अतमक, श्वास उन्माद, पथरी ॥ १०७ ॥
हस्ती, रथ, घोडा इन्हींमें बैठके भगानेमें है ॥ १०८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहाय
तस्मान्नामनिर्लेन च निहताभाषायां तृतीयस्थाने अतीसारचिकित्सानामवृत्ती
जायते ३ ॥

॥ ८१ ॥ श्री.

थ षष्ठः ॥

जस्य चि

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अथ गुल्मचिकित्सा

तिस्ते वा प्रिय उवाच ॥ शृणु पुत्र ! प्रवक्ष्यामि गुल्मानां चैव लक्षणम् ॥

उपजता है ये मात्सेषां प्रतीकारमौषधानि विशेषतः ॥ १ ॥

मल, बंधा, कहेते हैं—हे पुत्र! सुन गुल्मोंके लक्षणको कहताहूँ और तिन्होंकी चिकित्सा
मनुष्यको ही कहेते हैं—हे पुत्र! सुन गुल्मोंके लक्षणको कहताहूँ और तिन्होंकी चिकित्सा
भी विशेषकर कहताहूँ ॥ १ ॥

कण्ठर

अथ गुल्मके भेद ॥

च ॥ संभवत्येते गुल्मा जठरसंसृताः ॥ हृत्कुक्षौ नाशिवस्तौ च मध्ये

विद्धि ॥ ८६ ॥ यस्यैतानि च लिङ्गानि गुल्मिनं तं विदुर्बुधाः ॥ ग्रहणी
नामसाध्यो यस्तस्य वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ ८७ ॥

कंठका शोषहो अंधेरी आवै पशली और नाभिमें शूलहो शरीर अत्यंत रुश होजावे
और अत्यंत विपूचिका रोग उपजै कानमें शब्दहो अत्यंत छर्दिआवै और ग्लानि, शूल, मोह,
श्वास, गुल्मरोग ये उपजै ॥ ८६ ॥ ये जिसके लक्षणहों तिसके गुल्मसंज्ञक ग्रहणीरोग
जानना ग्रहणीरोग साध्य है तिसके लक्षण कहताहूं ॥ ८७ ॥

अथ वातकी संग्रहणीका लक्षण ॥

चित्रं सशब्दं सृजतेऽत्र वर्चः शोफोऽनिलो वर्चमतीव रूक्षम् ॥

श्वासात्तियुक्तं तनुशैथिलं च स्रावो ग्रहण्यानिलकोपतः स्यात् ॥ ८८ ॥

चित्र और शब्दसे सहित मल उत्तरे और वह मल अत्यंत रूखाहो और वातसे शोजा
उपजै श्वासरोग और शरीरमें शिथिलपनाहो और स्रावहो ये लक्षण उपजै तब वातकी सं-
ग्रहणी जानिये ॥ ८८ ॥

अथ पित्तकी संग्रहणीका लक्षण ॥

समान गंधवाला कठिन, क्लिप्त, नासके पानीक वर्ण दुर्गन्धपीतारुणनीलकालम् ॥

करडी दहीके समान वर्णवाला ऐसे अतिसारको चोद्गवा सा ग्रहणीति संज्ञा ॥ ८९ ॥

शूल, मूर्छा, दाह, श्वास, इन्होंसे संयुक्त छर्दि और तनुशैथिल्ये मिलाहुआ और पीला, लाल, नीला,

और ज्वरसे पीडित ऐसा अतिसार वर्जदेना ॥ ७६ ॥ शोजा, शूल, पित्तकी संग्रहणीति संज्ञा ॥ ८९ ॥

चि, छर्दि, मूर्छा, हिचकी इन्होंसे संयुक्त हुये अतिसाररोगीको त्यागै ॥ ७७ ॥ अ

अफारा, हिचकी, छर्दि, अरुचि, पांडुरोग, इन्होंसे पीडितहुये अतिसाररोगीको र

अथ अतिसारका भेद संग्रहणीरोगका निदान और चि ॥ ९० ॥

यदल्पमल्पं क्रमशो निषेवितं मलं भगाधारगतं च नित्यम् ॥ १ ॥ ये उपजै और

त्रिं कुरुते नरस्य विकारमाद्ग्रहणीति संज्ञाम् ॥ ७९ ॥ निर्वृत्ते हो तिसको क-

रे शमयति दहनं भूयसा दोषितोऽपि भुक्त्वा नाशयंमलांशं बहुदि

सञ्चयित्वा निसर्त्ति ॥ वारं वारं विगृह्य सहजमसरलं पक्कमानं घ

व्याधिघोरो मनुजरुजकरः स्यात्तथा ग्रहणीति संज्ञा ॥ ८० ॥ वा ॥

जो अल्प अल्प मल नित्यप्रति उत्तरे और दोष शरीरकी अग्निको नष्टकर विव ॥ ९१ ॥

जावै तिसको ग्रहणीरोग कहते है ॥ ७९ ॥ अतिसारके निवृत्तहोनेके पश्चात् दोषोंद आवै और

ग्रहणी पेटकी अग्निको शांत करै और भोजन करके संचितहुआ मलका अंश बहु ९१ ॥

अथ वातग्रहणीका पाचन ॥

दारुनागरनिशा सवासका कुण्डली मगधजा शठी घनम् ॥

रास्त्रा सभाङ्गी सरलाह्वपुष्करं पाचनं भवति वातिकग्रहे ॥ ९२ ॥

हल्द, शूठ, हल्दी, वांसा, गिलोय, पीपल, कचूर, नागरमोथा, रास्त्रा, भारंगी, साल-
वृक्ष, पोहकरमूल, तिन्होंका पाचन वातकी संग्रहणीमें हित है ॥ ९२ ॥

अथ पित्तग्रहणीका पाचन ॥

नलवेणुकुशानां च काशेक्षूणां च मूलकम् ॥

निष्काथ्य पानं हितं वास्य पाचनं पैत्तिके ग्रहे ॥ ९३ ॥

नरशल, वांस, डाभ, कांश, ईस, इन्होंकी जडको पानीमें औटावै यह पाचन पित्तकी सं-
ग्रहणीमें हित है ॥ ९३ ॥

व्याघ्रीग्रन्थिकचव्यसुरसा शुण्ठी दाडिमम् ॥

रजनी घनचित्रकमेवं हिक्कासूथकफुयहणीं हन्ति ॥ ९४ ॥

कदेहली, पीपलामूल, चव्य, तुलसी, संदवै ॥ १०६ ॥ यह पित्तकी संग्रहणी पांडु-
इन्होंका काथ हिचकी और कफकी सेंकी, तमक, श्वास उन्माद, पथरी ॥ १०७ ॥

अथ शुश्रूता है ॥ १०८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहाय

शुण्ठी शशाङ्ग निरञ्जनी जठरहताभाषायां तृतीयस्थाने अतीसारचिकित्सानामुत्ती

विडङ्गः ॥ ३ ॥

मिश्रितं च

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

लमपि र

मिजरो

अथ गुल्मचिकित्सा

बलं मित्रेय उवाच ॥ शृणु पुत्र ! प्रवक्ष्यामि गुल्मानां चैव लक्षणम् ॥

मापहृत्स्मात्तेषां प्रतीकारमौषधानि विशेषतः ॥ १ ॥

संप्रजी कहते हैं—हे पुत्र! सुन गुल्मोंके लक्षणको कहताहूं और तिन्होंकी चिकित्सा
संधानमधकोभी विशेषकर कहताहूं ॥ १ ॥

और गुल्म

अथ गुल्मके भेद ॥

ग्रहणी

इन्होंका संभवत्येते गुल्मा जठरसंस्तताः ॥ हृत्कुक्षौ नाग्निवस्तौ च मध्ये

देती है वर्ण और इंद्रियोंको प्रकाशित करती है दुःखको नाशती है और सबकालमें कुष्ठको और भ्रमको नाशती है ॥ ९७ ॥

अथ अभयाद्यवलेह ॥

हरीतकीपञ्चशतानि धीमान् द्रोणेन गोमूत्रशतेन पाच्यम् ॥ मृद्वग्निना या
वदशेषमेव मूत्रं विजीर्णे विधिवद्विधिज्ञः ॥ ९८ ॥ निर्वाप्य चूर्णे प्रति
शोष्य शीतं छायाविशुष्कान् प्रविदार्य चाष्टीः ॥ चूर्णे च शुण्ठीमग
धाविषाश्च सुगन्धिमूर्वाचविकान्विताश्च ॥ ९९ ॥ निष्काध्य कल्कः कु
टजस्य तावदृष्यौपलेपी भवतीति यावत् ॥ तस्यार्द्धभागेन गुडं विम
थ्याक्षीरं तदद्धेन गवाजकं वा ॥ १०० ॥ निर्वापितं तं घृतमाजने च
संस्थापितं प्राङ्मुदितेन तेन ॥ सिन्धूथवह्नित्रिकटुकं त्रिसुगन्धियुक्तं चू
र्णं पातुर्गुडयुतं घृतमिश्रितं च ॥ १०१ ॥ चूर्णेन तेन सकलग्रहणीयपा

अथ पित्तकी सौप्तारान् ॥ प्लीहयकृच्छ्वासिषु मानवेपु
तमानं गंधवाला के... ॥ सके पाने... ॥
करडी दहीके समान वर्णवाला ऐसे अतिसारक... ॥
शूल, मूर्छा, दाह, श्वास, इन्होंसे संयुक्त छर्दि और तोहेकादिज्वरनाशनः स्याल्लेहोऽ
और ज्वरसे पीडित ऐसा अतिसार वर्जदेना ॥ ७६ ॥ शोजा, शूल, गद्योऽवके... ॥
चि, छर्दि, मूर्छा, हिचकी इन्होंसे संयुक्त हुये अतिसाररोगीकी रोग... ॥
अफारा, हिचकी, छर्दि, अरुचि, पांडुरोग, इन्होंसे पीडितहुये अतिसाररोगीको वै कोमल अग्निसे

अथ अतिसारका जेद संग्रहणीरोगका निदान और फाँको छायामें सुखा
यदल्पमल्पं क्रमशो निषेवितं मलं जगाधारगतं च नित्यम् ॥ १०२ ॥ रोडफली, चव्य,
मिं कुरुते नरस्य विकारमाहुर्ग्रहणीति संज्ञाम् ॥ ७९ ॥ निर्दन्ते... से बलावै जब
रे शमयति दहनं भूयसा दोषितोऽपि भुक्त्वा नाशयंमलांशं बद्ध्वा, चीता, सेंठ,
सञ्चयित्वा निसर्त्ति ॥ वारं वारं विगृह्य सहजमसरलं पक्कमानं ६ ॥ १०१ ॥
व्याधिर्घोरो मनुजरुजकरः स्यात्तथा ग्रहणीति संज्ञा ॥ ८० ॥ वा, सवम-
जो अल्प अल्प मल नित्यप्रति उतरै और दोष शरीरकी अग्निको नष्टकर दि... इन्होंको
जावै तिसको ग्रहणीरोग कहते है ॥ ७९ ॥ अतिसारके निवृत्तहोनेके पश्चात् दोष... बलेह मनु-
ग्रहणी पेटकी अग्निको शांत करै और भोजन करके संचितहुआ मलका अंश वा... ॥

अथ द्राक्षादिदूध ॥

द्राक्षाक्षीरेण पक्त्वा यावद्भनं द्रव्युपलेपि च ॥ दृष्ट्वा पश्वात्तैः समालो
ड्य चेमान्यौषधानि मतिमान् ॥ १०४ ॥ पर्पटातिविषा मूर्वा पटोलं
घनवालकम् ॥ तथाभयानां चूर्णं तु समशर्करया युतम् ॥ १०५ ॥ तेन
क्षीरेण संयोज्य विदार्याः कन्दमेव च ॥ घृतेन नवनीतेन पिण्डं कृत्वाऽ
थ भक्षयेत् ॥ १०६ ॥ सपित्तग्रहणीपाण्डुकामलार्त्तिचूषापहम् ॥ भ्रम
मूर्च्छां तथा हिक्कां तमकोन्मादमशरीम् ॥ १०७ ॥ मेहपित्तासृजं कुष्ठं
नाशयत्याशु निश्चितम् ॥ १०८ ॥ इति द्राक्षादिक्षीरम् ॥ इति आत्रेयभा
षिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने अतीसारचिकित्सानामतृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

दाखोंको दूधमें मिला पकवै जब करडा होके कडछीपैः चिपनें लगे तब बुद्धिमान् वैध इन
औषधोंको डालै ॥ १०४ ॥ पित्तपापडा, अतीश, मरोडफली, परवल, नागरमोथा, नेववाला,
हरडै, इन्होंके चूर्णको और बराबरकी खांडको मिलावै ॥ १०५ ॥ पीछे तिस दूधमें वि-
दारीकंद और नौनीघृत मिला गोली बनाके खावै ॥ १०६ ॥ यह पित्तकी संग्रहणी पांडु-
रोग, कामला, तृपारोग, भ्रम, मूर्च्छा, हिचकी, तमक, श्वास, उन्माद, पथरी ॥ १०७ ॥
ममेह, रक्तपित्त, कुष्ठ, इन्होंको शीघ्र नाशता है ॥ १०८ ॥ इति वेरीनिवासितुधशिवसहाय
सनुवैद्यरविदत्तशास्त्रयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने अतीसारचिकित्सानामतृती
योऽध्यायः ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अथ गुल्मचिकित्सा

आत्रेय उवाच ॥ शृणु पुत्र ! प्रवक्ष्यामि गुल्मानां चैव लक्षणम् ॥

तस्मात्तेषां प्रतीकारमौषधानि विशेषतः ॥ १ ॥

अत्रेयजी कहते हैं—हे पुत्र! सुन गुल्मोंके लक्षणको कहताहूँ और तिन्होंकी चिकित्सा
और औषधकोभी विशेषकर कहताहूँ ॥ १ ॥

अथ गुल्मके जेद ॥

पञ्चधा संभवत्येते गुल्मा जठरसंस्तताः ॥ हृत्कुक्षौ नाग्निवस्तौ च मध्ये

च पञ्चमः स्मृतः ॥ २ ॥ हृदयस्थो यकृन्नाम कुक्षौ साष्ठीलकोच्यते ॥
मध्ये स्त्रीहा समाख्यातो वस्तौ चण्डविट्द्रकः ॥ ३ ॥ नाभौ संलक्ष्यते य
न्थी नामान्येषां पृथक् पृथक् ॥

उदरमें फैलेहुये गुल्म पांच प्रकारके हैं हृदयमें एक कुक्षिमें दूसरा नाभिमें तीसरा वस्ति-
स्थानमें चौथा मध्यभागमें पांचमा ऐसे गुल्म होते हैं ॥ २ ॥ हृदयमें उपजनेवाले गुल्मका
यकृत् नाम है कुक्षिमें होनेवाले गुल्मका अष्ठीला नाम है मध्यभागमें स्त्रीहानामसे विख्यात
है वस्तिस्थानमें चंडविवृद्धकनामवाला होता है ॥ ३ ॥ नाभिमें ग्रंथिनामसे लक्षित है.

अथ गुल्मके निदान ॥

अतः प्रकोपं वक्ष्यामि येन कुर्वन्ति बाधकम् ॥ ४ ॥ स्वभावात्पित्तरक्तौ
त्थे सेविताम्लविदाहिनम् ॥ उष्णं च क्षारमद्यं वा चोष्णपानातिसेवना
त् ॥ ५ ॥ तथा शोकः श्रमोऽध्वानां शोषात्संक्षोभनादपि ॥ उच्चभाषण
गानेन धनुर्ज्याकरणेन च ॥ ६ ॥ पृष्ठे मुष्ट्यभिघातेन हृदयात्ताडनेन
वा ॥ भारणोद्धारणाद्वापि रक्तं शोष्यते हृदि ॥ ७ ॥ तेन गुल्मेति नाम
तु जायते रक्तपित्तकम् ॥ कदाचिन्निषु दोषेषु सम्भवश्वास्य दृश्यते
॥ ८ ॥ वातेनोदीरितश्चैव कफेन च घनीकृतम् ॥ पित्तेन पाकतां प्राप्तं
त्रिदोषसंस्तं यकृत् ॥ ९ ॥

इन्होंने ऐसे पृथक् २ नाम हैं अब इन्होंने प्रकोपको कहता हूँ जिसकरके पीडाको
करते हैं ॥ ४ ॥ रक्तपित्तके स्वभावसे, आम्ल और विदाही पदार्थको सेवनेसे और गर्म पदार्थ
खारा, मदिरा, इन्होंनेको सेवनेसे और गर्मपानको अतिसेवनेसे ॥ ५ ॥ शोक, श्रम, मार्गमें,
अत्यंत चलना, शोष, क्षोभ, ऊंचा बोलना, ऊंचा प्रकारसे गाना और धनुषकी टंकारको कर-
नेसे ॥ ६ ॥ पृष्ठभागमें मुक्काके लगनेसे और हृदयमें चोट आदिके लगनेसे वोज्ञको उठा-
नेसे मनुष्यके हृदयमें रक्त सूख जाता है ॥ ७ ॥ तिस्से रक्तपित्त करके गुल्मरोग उपजता
है और कभीक तीनों दोषोंसेभी गुल्म उपजता है ॥ ८ ॥ वातसे बढाहुआ और कफसे
कठिन हुआ और पित्तसे पाकभावको प्राप्तहुआ यकृत् त्रिदोषसे फैलता है ॥ ९ ॥

अथ गुल्मका लक्षण ॥

लक्षणं तस्य वक्ष्यामि येन तच्चापि लक्ष्यते ॥ क्षीयते येन मनुजो

त्युमाशु प्रपद्यते ॥ १० ॥ वमिः कृमस्तथोद्गारो हृष्टासः श्वसनं भ्रमः ॥
दाहोऽरुचिस्तृषा मूर्च्छा कण्ठे दाहः शिरोव्यथा ॥ ११ ॥ हृच्छूलं च
प्रतिश्यायण्ठीवनं कटुकैः सह ॥ सशल्यं हृदि शूलं च निद्रानाशः प्रला
पतः ॥ १२ ॥ हृदये मन्यते दाढर्यमुदरं गर्जति भृशम् ॥ एतैर्लिङ्गैर्विजा
नीयाद्यक्तकोष्ठान्तवक्षसि ॥ १३ ॥

विसर्गके लक्षणको कहूंगा जिस करके वहभी लक्षित हो सका है इस रोगसे मनुष्य सूख-
जाता है और शीघ्रही मृत्युको प्राप्त होजाता है ॥ १० ॥ छर्दि आवै ग्लानि उपजै अडकार
आवै थुकथुकीहो श्वास और भ्रम उपजै और दाह, अरुचि, तृषा, मूर्च्छा, येभी उपजै
कंठमें दाहहो और शिरमें पीडाहो ॥ ११ ॥ हृदयमें शूलहो जुवाम होजावै कडुआ थूकै
शल्यसहित शूल हृदयमें होवै नींदका नाशहोवै बकवादको करै ॥ १२ ॥ और हृदयमें
दाहको मानै और उदर अत्यंत गर्जे इन लक्षणोंसे कोष्ठके समीप छातीमें यकृतसंज्ञक गुल्म
जानना ॥ १३ ॥

अथ शुंठ्यादिचूर्ण ॥

यदि साक्षात्त्रिकटुकं कुष्ठं तथा पञ्चमकं यवानीम् ॥ षष्ठं च सिन्धू
त्थविमिश्रितं च सूक्ष्मं च चूर्णं सह रामठेन ॥ भक्षेच्च तस्योपरि तक्रपा
नं निष्काथ्य तोयं च पिवेच्च वास्त्वम् ॥ १४ ॥ सौवीरकं वा विनिहन्ति
शीघ्रं यकृद्विधानुदरशूलकासान् ॥ विषूचिकाजीर्णकफामयघ्नं पाण्डुम
यार्त्तियहर्णां सगुल्माम् ॥ १५ ॥ शुण्ठ्यादिचूर्णं त्वरितं निहन्ति ॥

सुंठ, मिरच, पीपल, कूट, अजमान, हींग, इन्होंका मिहीन चूर्ण बना खावै ऊपर तक्र,
गर्मपानी, खट्टारस, इन्होंमाहसे एककोईसेका अनुपान करै ॥ १४ ॥ अथवा कांजीका अ-
नुपान करै यह शुंठ्यादि चूर्ण यकृतरोग, उदरशूल, खांसी, विषूचिका, हैजा, अजीर्ण, कफ-
रोग, पांडु, संग्रहणी, गुल्मरोग, इन्होंको शीघ्र नाशता है ॥ १५ ॥

अथ क्षारामृत ॥

क्षारं मुष्कककिंशुकार्जुनधवापामार्गरम्भातिला जीवन्तीकनकाहयञ्च
रजनी कूष्माण्डवल्ली तथा॥वासासूरणमेव तीव्रतरदहनं प्रज्वाल्य भस्मी
कृतं तोयेन प्रतिसेव्य निभृतपयःपानं विधेयं यकृत् ॥ १६ ॥ तथा शू
लानाहविबन्धकफजानोगाअथेत्कामलान्विद्रधीन् हृदिशूलपाण्डुग्रह

णीशोफार्शसां पीनसान् ॥ मंदाग्नीनामजीर्णकम्यलसगुदभ्रंशमोहांस्तथा
क्षतजटद्धिस्तेन सदाहशूलकास्थुद्धारता वभिः ॥ १७ ॥ पूयाग्निः पतते
श्लेष्मा पूतिगन्धोऽतिविस्रक्तः ॥ रक्ताभस्तत्र सङ्काशण्ठीवते स मुद्गमुद्गुः ॥
तथातिसाद्यते रक्तं श्रमः संक्षीयते वपुः ॥ १८ ॥ क्षतजाः संस्तता गा
त्रे यकृद्वक्षसि संसृतः ॥ १९ ॥ श्वासस्तृषा वभिर्मोहः शोफः स्यात्क
रपादयोः ॥ रुचिबन्धोऽतिसारश्च यकृद्दूरे परित्यजेत् ॥ २० ॥ अतो व
क्ष्यामि भैषज्यं येन संपद्यते सुखम् ॥ तस्यादौ लङ्घनं चैकं पाचनं तद
नन्तरम् ॥ २१ ॥ शुण्ठ्योपकुल्या तिमिरं शठीनां यवानिकाभीरुहरीत
कीनाम् ॥ काथोथकल्कपाचनके प्रशस्त आनाहगुल्मान्तिविषूचिकाना
म् ॥ २२ ॥ अद्रोपकुल्याज्यशूङ्गवेरं पथ्या त्रिभागा च कणा चतुर्था ॥ २३ ॥

तालमखाना, मोखावृक्ष, केशू, अर्जुनवृक्ष, धव, ऊंगा, केला, तिल, महुआ, सुहागा,
हलदी, लालतुंबी, वांसा, जमीकंद, इन्होंको तेजअग्निसे जला भस्म बना पानीमें मिला खार
बनावै तिसको लेनेसे यकृदरोग ॥ १६ ॥ शूल, अफारा, बंधा, कफका रोग, कामला, विद-
धि, हृदयशूल पांडु, संग्रहणी, शोजा, ववासीर, पीनस, मंदाग्नि, अजीर्ण, कृमि, आलस्य,
गुदभ्रंश, मोह, क्षतजरोग, वृद्धिरोग, दाह, शूल, खांसी, अडकार, छर्दि, इन्होंका नाश होता
है ॥ १७ ॥ रादके समान कफ पडे दुर्गंधसे और कच्चे गंधसे संयुक्त और रक्तके समान वा-
रंवार थूके और रक्तकाही अतीसार जावै शरीरमें परीश्रम होवै शरीर सूखता जावै ॥ १८ ॥
और क्षतसे उपजे रोग होवै ये लक्षण होवै तब छातीमें फैलाहुआ यकृदरोग जानना
॥ १९ ॥ श्वास, तृषा, छर्दि, मोह, ये उपजे हाथ और पैरोंमें शोजा होवै रुचिबंध होवै और
अत्यंत प्रकाश होवै ऐसे यकृदरोगको दूरसे त्यागै ॥ २० ॥ अब औषधको कहताहूँ जिसकर-
कै सुखकी प्राप्तिहो इसरोगकी आदिमें एक लंघन कर पीछे पाचन देना हित है ॥ २१ ॥
सूठ, पीपल, लोहाका मैल, कचूर, अजमान, शतावरी, हरदैं, इन्होंका काथ अथवा कल्करू-
पी पाचन हित है यह अफारा, गुल्म, विषूचिका, हैजा इन्होंको नाशता है ॥ २२ ॥ नागर-
मोथा, पीपल, हरदैं, अदरक, ये लेने परंतु इन्होंमें तीनभाग हरदैंके लेने और पीपल इन्होंका
पाचन इसरोगको नाशता है ॥ २३ ॥

अथ यकृद्गुल्मपथ्य ॥

क्षतक्षयं यकृतपूर्वं चोपवासं च पाचनम् ॥

न देयं हिङ्गुसंयुक्तं चूर्णं हितं तदातुरे ॥ २४ ॥

जो क्षतक्षय रोगसे संयुक्त हुये यकृत रोगमें लंघन और पाचन हित नहीं है और इसरोगवालेको हींगसे संयुक्त किया चूरन नहीं देना ॥ २४ ॥

अथ निंबादिक्राथ ॥

निम्बनीपधरवेतसं निशा काशमरी च तुलसी च सिंहिका ॥ क्राथ

एव हृदयामघापहः कफं शूलमाशु यकृदास्यनाशकृत् ॥ २५ ॥

नींबकी छाल, कदंबकी छाल, विनोलाकी गिरी, मननामक वनकी ओषधिविशेष, हल्दी, कंभारी, तुलसी, कटेहली, इन्होंका क्राथ हृदयरोग, कफ, शूल, मुखका रोग इन्होंको नाशता है ॥ २५ ॥

अथ सौराष्ट्रिकादिक्राथ ॥

सौराष्ट्रिकासीसमहौषधानि डुरालभाजातिप्रवालकं च ॥ दावी य

वानी ककुभं समङ्गा क्राथः ससर्पिर्यकृदाशु हन्ति ॥ २६ ॥

फटकडी, कसीस, संठ, जवांशा, चवेलीकी कोंपल, दारुहलदी, अजमान, अर्जुनवृक्षकी छाल, मजीठ, इन्होंके क्राथमें घृत मिला पीनेसे यकृतरोगका नाश होता है ॥ २६ ॥

अथ धवादिक्राथ ॥

ध्वार्जुनकदम्बानां शिरीषवदरीषु च ॥

निष्क्राथ्य पानसामघ्नं विपूच्याः शूलवारणम् ॥ २७ ॥

धवके फूल, अर्जुन और कदंबवृक्षकी छाल, शिरस और वडवेरकी छाल, इन्होंका क्राथ घना पीवै यह आमदोष, विपूचिका, हैजा, शूल, इन्होंको दूर करता है ॥ २७ ॥

अथ कदलीजलपानक ॥

कदलीक्षारमादाय शङ्खक्षारमथापि वा ॥ प्रस्नाव्य जलपानं तु हिङ्गुसौव

र्चलान्वितम् ॥ २८ ॥ आमं हरति विसृष्टं शूलं चाशु नियच्छति ॥ वि

पूचिकानां शमनमजीर्णं जरयत्यपि ॥ २९ ॥

केलाका खार, शंखका खार, हींग, कालानमक, इन्होंको पानीमें मिला पीवै ॥२८॥ यह आमको हरता है और शूलको हरता है और विपूचिका हैजाको शांत करता है और अजीर्णको जराता है ॥ २९ ॥

अथ विजोराआदिकपान ॥

मातुलुङ्गरसं ग्राह्यं द्विगुणं तत्र काञ्जिकम् ॥

हिङ्गु सौवर्चलयुतं पानं हन्ति विपूचिकाम् ॥ ३० ॥

विजौराके रसमें दूनी कांजी मिलावै हींग और कालानमकसे संयुक्तकर पीवै यह विषू-
चिकाको हरता है ॥ ३० ॥

अथ खारका सेवन ॥

क्षारं तोयं च पानाय दाहस्योपरि पाचयेत् ॥

शूलाध्मानं निहन्त्याशु कुरुते चाग्निदीपनम् ॥ ३१ ॥

खारके पानीको अग्निपै पकाके पीवै यह शूल और अफाराको हरता है और अग्निको
शीघ्र जगाता है ॥ ३१ ॥

अथ आमाजीर्णका उपाय ॥

आमेषु वमनं कुर्याद्विपके चैव लङ्घनम् ॥

विशिष्टस्वेदनं निद्रा रसशोषे विरेचनम् ॥ ३२ ॥

आमसंज्ञक अजीर्णमें वमन कराना और पकेहुये अजीर्णमें लंघन, पसीना, नींद, इन्हों-
को सेवै और रसशोष अजीर्णमें विरेचन हित है ॥ ३२ ॥

अथ दिवास्त्रापविधान ॥

उन्मत्ते चातिसारे च वमिक्रोधातुरेषु च ॥ अजीर्णे तु विषूच्यां च
दिवास्त्रमं हितं भवेत् ॥ ३३ ॥ न हितं श्लेष्मणि चैव हृद्रोगे तु शिरोरु
जि ॥ हृष्टासे च प्रतिश्याये दिवास्त्रप्रं च वर्जयेत् ॥ ३४ ॥

उन्माद, अतीसार, छर्दि, क्रोध, अजीर्ण, विषूचिका, हैजा इन्होंमें दिनका सोना हित है
॥ ३३ ॥ कफरोग, हृद्रोग, शिरकी पीडा, थुक्थुकी, जुखाम, इनरोगोंमें दिनके शयनको
वर्जै ॥ ३४ ॥

अथ हरीतक्यादि अंजन ॥

फलत्रयं व्यूषकरञ्जवीजं रसं तथा दाडिममातुलुङ्गयः ॥

निशायुतं पेप्य कृता च वर्त्तिस्तदञ्जने हन्ति विषूचिकाश्च ३५

हरदैं, बहेडा, आंवला, सूँठ, मिरच, पीपल, करंजुआके बीज, अनार, और विजौराका रस,
और हलदी, इन्होंको पीस बत्ती बना नेत्रोंमें आजै यह विषूचिका हैजाको हरती है ॥ ३५ ॥

अथ रास्नादिभक्षण ॥

रास्ना विशाला च सुराब्दकुष्ठं शिथु वच्चा नागरकं शताह्वम् ॥ आम्रेय

पिष्टाहपुषाविदार्यः खल्ली विषूचीषु निवारयन्ति ॥ ३६ ॥

रास्ता, इन्द्रायन, देवदार, नागरमोथा, कूट, सहोंजना, वच, सूँठ, शतावरी, हाउवेर, विदा-
रीकंद, इनसर्वोंको चीताके रसमें पीस खानेसे खलीरोग और विषूचिका हैजा दूर होता है ३६

अथ स्वेदका उपयोग ॥

स्वेदो विधेयो घटकस्य वाष्पमेकैर्घटाजिर्वसनेन चोष्णः ॥ तथोष्ण

पाणिं प्रतिसेक एवं जयेद्विषूर्ची जठरामयानाम् ॥ ३७ ॥

कलशमें अग्निको घालि तिसकी भाषोंसे अथवा गरमकिये वस्त्रसे अथवा गरमकिये
हाथसे पसीना देवै तो विषूचिका हैजा और पेटको रोग दूर होता है ॥ ३७ ॥

अथ गंधकादिभक्षण ॥

गन्धकं सैन्धवं द्यूषं निम्बूरसविमर्दितम् ॥ आतुरो भक्षयेच्छीघ्रं विषू
चीनां निवारणम् ॥ ३८ ॥ इति आत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्था
ने गुल्मचिकित्सा नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

गंधक, सैन्धानमक, सूँठ, मिरच, पीपल, इन्होंको नींबूके रसमें खलकर प्रमाणसे रोगी खावै
यह विषूचिका हैजाको जल्दी दूर करता है ॥ ३८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यर
विदत्तशास्त्रयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने गुल्मचिकित्सा नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

—:०:—

अथ कृमिरोगके प्रकार और तिन्होंके भेद ॥

आत्रेय उवाच ॥ क्रिमयो द्विविधाः प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरसम्भवाः ॥ बाह्या
यूकाः प्रसिद्धाः स्युराभ्यन्तराश्च किञ्चुकाः ॥ १ ॥ सप्तविधो भवेद्बाह्यः
षड्विधोऽन्तःसमुद्भवः ॥ तेषां वक्ष्यामि सम्भूतिं बाह्यानाभ्यन्तरे नृणाम् ॥ २ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—बाह्य और आभ्यन्तरभेदसे कृमि दोप्रकारके कहे हैं जूमआदि
बाह्यकृमि कहाते हैं चूरनेआदि आभ्यन्तर कृमि कहाते हैं ॥ १ ॥ बाह्यकृमि सात प्रकारके
हैं आभ्यन्तर कृमि छःप्रकारके हैं अब तिन्होंके उत्पत्तिको कहताहूँ ॥ २ ॥

अथ जूमकी उत्पत्ति ॥

रौक्ष्यादतिमलात्स्वेदाच्चिन्तया शोचनादपि ॥ कफधातुसमुद्भूतास्तीक्ष्णा यू

का भवन्ति हि॥३॥ यूकाः कृष्णाः पराः श्वेतास्तृतीया चर्मणि स्थिता॥
सूक्ष्मातिविकटा रूक्षा चर्मभा चर्मयूकिका॥ ४ ॥ चतुर्थी विन्दुकी नाम
वर्तुला मूत्रसम्भवा ॥ मत्कुणा स्याच्च पञ्चमी वास्योपद्रवकारिणी ॥५॥
यूका मस्तकसंस्थाने श्वेता शिरोनिवासिनी ॥ चर्मयूका नेत्रचर्म सूक्ष्मे
रोमणि यटिका ॥ ६ ॥

रौक्षसे, अत्यंत मलसे, पसीनासे, चिंता और शोचसे कफ और धातु करके उपजेहुये ती-
क्ष्ण जूम होते हैं ॥ ३ ॥ पहली कृष्णा, दूसरी श्वेता, और चर्ममें स्थित होनेवाली और
सूक्ष्म, अतिविकट, रूखी, ऐसी ऐसी चर्मसरोखी कांतिवाली तीसरी है, ॥४॥ और चर्मयूकिका-
नामवाली चौथी और विंदुकी नामवाली पांचमी है और मूत्रसे उपजी वर्तुलानामवाली छठी
है और शरीरके बाहर उपद्रव करनेवाली मत्कुणा सातमी है ॥ ५ ॥ मस्तकके स्थानमें
यूका जूम होती है और सूक्ष्मरोमोंमें चर्मभी जूम होती है और नेत्रके चाममें चर्मयूका जूम
होती है और सूक्ष्मरोमोंमें चर्ममेंभी जूम होती है ॥ ६ ॥

अथ कृमि उत्पन्न होनेका कारण ॥

रूक्षान्मयवान्गोधूमपिटैर्गुडैर्न वा क्षीरविपर्ययेण ॥ दिवाशयानेन सपि
च्छलेन घर्मेण तापोदकसेवनेन ॥ ७ ॥ संजायते तेन मलाशयेषु कि
मिब्रजं कोष्ठविकारकारि ॥ ८ ॥

रूखाअन्न, जव, गेहूं, पीठी, गुड, दूधका पदार्थ, दिनका सोना, कफकारी पदार्थ, घाम,
गरमपानी, इन्होंके सेवनेसे ॥ ७ ॥ मलाशयमें कृमियोंका समूह उपजता है यह कोष्ठमें वि-
कारको करताहै ॥ ८ ॥

अथ छःप्रकारके अंतर्गतकृमि ॥

पृथुविधास्ते समुद्विष्टास्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ कफकोष्ठं मलाधारं
कोष्ठे सर्पन्ति सर्पवत् ॥ ९ ॥ पृथुमुण्डा भवन्त्येके केचित्किञ्चुकसन्नि
भाः ॥ धान्याङ्कुरनिभाः केचित्केचित्सूक्ष्मास्तथाणवः॥ १० ॥ सूचीमुखः
परिज्ञेयाश्चान्त्राणि सीदयन्ति ते ॥ वक्ष्यामि लक्षणं तेषां चिकित्साञ्च
शृणु मे ॥ ११ ॥

जो छः प्रकारके बाह्यकृमि कहेहैं तिन्होंके लक्षणोंको कहताहूं मलके आधारवाले
कफके कोष्ठमें आभ्यंतर कृमि सर्पकी तरह चलते हैं ॥९॥ कितनेक पृथुमुंडनामसे विख्यात
हैं और कितनेक चुरमोंके समान कांतिवाले होते हैं, कितनेक अन्नका अंकुरके समान कां

तिवाले होते हैं, कितनेक सूक्ष्म होते हैं कितनेक अत्यंतसूक्ष्म होते हैं ॥ १० ॥ कितनेक सूचीमुख नामसे विख्यात हैं ये आंत्रोंको शिथिल करते हैं, तिन्होंके लक्षण और चिकित्साको कहताहूं मेरेसे सुन ॥ ११ ॥

अथ कृमिरोगका लक्षण॥

ज्वरो हृद्रोगशूलं वा वमिहृत्क्लेदनं भ्रमः ॥ रुचिवन्धो विवर्णत्वमतीसारः सफेनिलः ॥ १२ ॥ गर्जनं जठरे चैव मन्दाग्निं च जायते ॥ पिपासा पीतता नेत्रे किञ्चुकैः पीडितस्य च ॥ १३ ॥

ज्वरहो हृदयरोग और शूल उपजै और छर्दि हृदामें ग्लानि भ्रम ये उपजै और रुचिवन्ध होजावे वर्ण बदलजावे रागोवाले मलसे सहित अतिसार उपजै ॥ १२ ॥ पेटमें शब्द होवै और मन्दाग्नि उपजै और अत्यंत तृषा होवै और नेत्रोंमें पीलापनहो ये सब लक्षण हों तब आन्ध्रतर कृमिरोग जानना ये गंडुपद कृमिरोगके लक्षण हैं ॥ १३ ॥

अथ सूचीमुखकृमिका लक्षण ॥

सूचीवतुद्यतेऽन्त्राणि रक्तं चैवातिसार्यते ॥ यकृद्वा भक्षयन्त्यन्ये रक्तं वा वमते भृशम् ॥ १४ ॥ क्लेदो मुखेऽरुचिर्जाड्यं मन्दाग्निं च वेपथुः ॥ क्षुत्तृष्णा च ज्वरो ज्ञेयाः सूचीमुखक्रिमीरुजः ॥ १५ ॥

सईकी तरह आंत्रोंको पीडितकरै और रक्तको अत्यंत गुदाके द्वारा निकसै और यकृत स्थानको भक्षणकरै और रक्तकी अत्यंत छर्दि आवै ॥ १४ ॥ मुखमें ग्लानिहो अरुची और जडपना उपजै मन्दाग्नि और कंप उपजै और भूख तृषा ज्वर येभी उपजै ये सब लक्षणहों तब सूचीमुखकृमिरोगके लक्षण जानिये ॥ १५ ॥

अथ धान्यांकुरकृमिका लक्षण ॥

ये च धान्याङ्कुरास्तेषां वक्ष्याम्यथ च लक्षणम् ॥ मलाशयस्थाः क्रिमयो मलं जग्धन्ति ते भृशम् ॥ १६ ॥ तैस्तु संपीड्यते देहे कृशत्वविद्रधिभेदपरुषताः ॥ तेन गात्रे रुजत्वञ्च हृत्क्लेदो यवक्रिमयो मताः ॥ १७ ॥

धान्यका अंकुरके समानकृमिके लक्षणको कहताहूं मलाशयमें स्थितहुये ये कृमि मलको खाते हैं ॥ १६ ॥ तिन्होंसे संपीडितहुये देहमें कृशपना, विद्रधि, हडफोड, कठोरपना, शूल ये उपजते हैं ॥ १७ ॥

हारीतका प्रश्न ॥

हारीतः संशयापन्नः पादौ संगृह्य पृच्छति ॥ कथं देहे मनुष्यस्य

मलमूत्ररसाशये ॥ १८ ॥ संभवन्ति कथं चादौ वर्द्धयन्ति कथं
पुनः ॥ कथं चं शीर्णेऽन्तरसे नानाहारविभक्षणे ॥ १९ ॥ जा
यन्ते केन क्रिमयः सूक्ष्मा वाप्यधोगामिनः ॥ नानामपक्वभक्ष्यान्
दहते वा द्रुताशनः ॥ २० ॥ कथं ते क्रिमयश्चान्ते न ह्यन्तेऽन्तराग्निना ॥
एवं पृष्टो महाचार्यः प्रोवाच मुनिपुङ्गवः ॥ २१ ॥

संशयको प्राप्तहुआ हारीतमुनि आत्रेयजीके पैरोंको ग्रहणकर पूछता है हे भगवन्! मनु-
ष्यके मल मूत्र रस इन्होंके स्थानोंसे संयुक्त हुये देहमें कैसे ॥ १८ ॥ आदिमें कृमि उपजते
हैं और फिर कैसे बढ़जाते हैं और अनेक प्रकारके आहारसे उपजेहुये अन्नरसके क्षय होनेपै
कृमि कैसे होते हैं ॥ १९ ॥ सूक्ष्म और नीचेको गमनकरनेवाले कृमि कैसे उपजते हैं और
अनेक प्रकारके कच्चे और पक्के भोजनकिये अन्न आदिको उदरका अग्नि दग्ध करता है ॥ २०
परंतु वे कृमि समीपमें स्थितहुयेभी तिसी अग्निसे क्योंनही दग्ध होते ऐसे पूछेहुये महा आ-
चार्य और मुनियोंमें श्रेष्ठ आत्रेयजी कहने लगे ॥ २१ ॥

अथ आत्रेयजीका उत्तर ॥

आत्रेय उवाच ॥ शृणु पुत्र ! महाबाहो ! क्रिमिसम्भवकारणम् ॥ विरु
द्धान्तरसैः पुत्र ! रक्तं चैवास्य कुप्यति ॥ २२ ॥ कफेनैकदिनं याति
शुक्लेण कारणं व्रजेत् ॥ पञ्चभूतात्मके कायेते तु जाताः सचेतनाः
॥ २३ ॥ कोष्ठाग्निना न दह्यन्ते न जीर्ण्यन्ते रसानिति ॥ विषे जातो
यथा कीटो न विषेण मृतिं व्रजेत् ॥ २४ ॥ तथा द्रुताशनोद्भूतं न द्रुता
शेन जीर्ण्यते ॥ २५ ॥ भेषजं संप्रवक्ष्यामि येन तेऽपि तरन्ति वै ॥ पत
न्ति वा शमं यान्ति भेषजानि शृणुष्व मे ॥ २६ ॥

आत्रेयजी कहतेहैं—हे पुत्र! हे महाबाहो ! कृमिकी उत्पत्तिके कारणको सुन हे पुत्र!
विरुद्धअन्न और रसोंकरके मनुष्यके रक्त कुपित होता है ॥ २२ ॥ कफकरके एकदिनको
प्राप्तहोते है वीर्यसे कारणको प्राप्त होते है फिर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन्होंसे संयुक्त-
हुये शरीरमें चैतन्यरूप होकै उपजतेहैं ॥ २३ ॥ कोष्ठकी अग्निसे नहीं दग्ध होते हैं और
रसोंके साथ जीर्ण नहीं होते जैसे विषसे उपजा कीडा विषकरके मृत्युको प्राप्त नहीं होता
॥ २४ ॥ तैसे अग्नि करके उपजे कृमि अग्निसे दग्ध नहीं होते हैं ॥ २५ ॥ अब औषध-
को मैं कहताहूँ जिसकरके वे कीडे नहीं उपजते हैं अथवा गिर पडते हैं अथवा शांत हो
जाता है मुझसे सो सुन ॥ २६ ॥

अथ कृमिपातनका औषध ॥

वचाजमोदा क्रिमिजित्पलाशबीजं शठी रामठकं त्रिविश्वाः ॥ उष्णो
दके तःपरिपिष्य पेयं पतन्ति शीघ्रं शतधार्त्तमलम् ॥ २७ ॥

वच, अजमोद, वायविडंग, केशूके बीज, कचूर, हींग, ये सब एक एक भाग और संठ
३ भाग इन्होंको गर्मपानीसे पीस पीवै यह सौ १०० प्रकारसे कृमियोंको निकासता है ॥२७॥

अथ कृमिनष्टकरनेके औषध ॥

शठीयवानीपिचुमन्दपुत्रान् विडङ्गकृष्णातिविषारसानाम् ॥ संपिष्य मूत्रे
ण त्रिवत्प्रयुक्तं विनाशनं सर्वकृमीरुजानाम् ॥ २८ ॥ मरिचं विष्पलि
मूलं विडङ्गशियुजवानिकात्रित्तः ॥ गोमूत्रेण तु पेयं पानं शीघ्रं क्रि
मीन् हन्ति ॥ २९ ॥ मुस्ताविशालात्रिफलासुपर्णशियूसुराहं सलिलेन
कल्कः ॥ पानं सकृष्णाक्रिमिशत्रुचूर्णं विनाशनं सर्वकृमीरुजां च ॥ ३० ॥
सुरसा च सुरदारु मागधी विडङ्गकम्पिहविडङ्गदन्तिनी ॥ त्रिवत्ताडकरसो
नकं क्रिमिहृद्रोगहृत्सलिलेन सेवितम् ॥ ३१ ॥ मातुलुङ्गस्य मूलानि र
सोनः क्रिमिजित्त्रित्त ॥ अजमोदानिम्बपत्रं गोमूत्रेण तु पेयेत् ॥ ३२ ॥
पानमेतत्प्रशंसन्ति क्रिमिदोषनिवारणम् ॥ ज्वरप्रोक्तानि पथ्यानि क्रि
मिदोषे प्रदापयेत् ॥ ३३ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने क्रि
मिचिकित्सा नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

कचूर, अजमान, निंबोली, वायविडंग, पीपल, अतीश, शोधापारा, निशोत, इन्होंको गो-
मूत्रमें पीस सेवनेसे सबप्रकारके कृमिरोग नष्ट होजाते हैं ॥ २८ ॥ मिरच, पीपलामूल,
वायविडंग, सहोंजना, अजमान, निशोत, इन्होंको गोमूत्रमें पीस पीवै यह कृमिरोगको शीघ्र
नाशता है ॥ २९ ॥ नागरमोथा, इंद्रायन, हरई, बहेडा, आंवला, सांतविण, सहोंजना, देव-
दार, इन्होंका कल्क अथवा पीपल, और वायविडंगका चूर्ण खानेसे सबप्रकारके कृमिरोगको
नाशता है ॥ ३० ॥ वनतुलशी, देवदार, पीपल, वायविडंग, कपिला औषध, जमालगोटाकी
जड़, निशोत, ताड, लहस्सन, इन्होंके चूर्णको पानीके साथ सेवै यह कृमिरोगको और हृद्रो-
गको नाशता है ॥ ३१ ॥ विजोराकी जड़, लहस्सन, निशोत, अजमोद, नींबके पत्ते इन्होंको
गोमूत्रसे पीसै ॥ ३२ ॥ कृमिदोषको दूर करनेवाले इस पानको वैद्य संहराते हैं ज्वरमें क-
हेहुये पथ्योंको कृमि दोषमें प्रयुक्त करें ॥ ३३ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्सुवैद्य-
रविदत्तशास्त्रयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने कृमिचिकित्सानाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अथ मंदाग्निआदि अग्नियोंके निदान और चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच॥अग्निश्चतुर्विधः प्रोक्तः समो विषमतीक्ष्णकः॥मन्दस्तदापरः
प्रोक्तः शृणु चिह्नानि साम्प्रतम्॥१॥वातपित्तकफसाम्यात्समः संजायते
ऽनलः ॥ तैरेवं विषमं प्राप्ते विषमो जायतेऽनलः ॥ २ ॥ तीक्ष्णपित्ता
धिकत्वेन जायते जठराग्निकः ॥

आत्रेयजी कहते हैं—सम विषम तीक्ष्ण मंद इन भेदोंसे अग्नि चारप्रकारका कहाहै अब
तिन्होंके लक्षणोंको सुन ॥ १ ॥ वात, पित्त, कफ, ये समान होवै तब सम अग्नि होता है
और येही वातआदिक दोष विषम होजावै तब विषम अग्नि होता है ॥ २ ॥ पित्त अधिक
होवे तब तीक्ष्ण अग्नि होता है.

अथ चारप्रकारके अग्निका लक्षण ॥

वातश्लेष्माधिकत्वेन जायते मन्दसंज्ञकः ॥ ३ ॥ यद्भुक्तं प्रकृतिस्थं तु
पाचयत्यन्नसंचयम् ॥ स समो नाम निर्दोषः सर्वधातुविवर्द्धनः ॥४॥ कि
ञ्चित्पाचयते भक्ष्यं कदाचिद्विषककः ॥ वातेन वा न विषमं करोत्य
पि विषूचिकाम् ॥ ५ ॥ प्रकृत्या चाधिकं स्नाति तृप्तिं न लभतेऽपि च्वा
सदाहपीतता नेत्रे तीक्ष्णो वै क्षयकृद्बले ॥ ६ ॥ यद्भुक्तं चैव शक्नोति
यत्तु श्लेष्मबलाधिकात् ॥ सोऽपि मन्दानलो नाम गुल्मोदरपरो मतः॥७॥

वात कफ ये अधिक होजावे तब मंदाग्नि होता है ॥ ३ ॥ और जो स्वभावके योग्य
अन्नका भोजन कियेहुएको पकादेता है वह सम अग्नि कहाता है, संबदोंसे रहित है और
सब धातुओंको बढ़ाता है ॥ ४ ॥ विषमअग्नि भोजन कियेहुएको कछुक पकाता है और
कभी नहीं पकाता है और वातसे विषमहुआ अग्नि विषूचिका अर्थात् हैजाविशेषको कर-
ता है ॥ ५ ॥ अपनी प्रकृतिसे अधिक भोजन करै तबभी तृप्ति नहीं होवै और सदा पीले
नेत्ररहें दाहहो, बलका नाशहो वह तीक्ष्ण अग्नि कहाता है ॥ ६ ॥ कफके अधिक बल होनेसे
जो भोजन करनेको समर्थ न रहे वह मंदाग्नि कहाता है और गुल्मोदररोगको करता है॥७॥

अथ चारप्रकारके अग्निका परिणामविशेष ॥

समेन समता देहे देहधातुबलेन्द्रियैः ॥ हृष्टः संपूर्णगात्रस्तु सचेष्टो वर्त्त
ते नरः ॥ ८ ॥ विषमे वानिलाद्याश्च ग्रहणी चातिसारकाः ॥ स्त्रीहा गु

ल्पो विषूची च शूलोदावर्त्तसंज्ञकः ॥ ९ ॥ आनाहो मन्दचेष्टत्वं जाय
ते विषमाग्निना ॥ वातकफाबुभौ क्षीणौ तीव्रो भवति पित्तकः ॥ १० ॥
भोजने लभते प्रीतिं भुक्त्वा चैव च जीर्ण्यते ॥ तेन भस्मकसंज्ञस्तु जा
यते जठरानलः ॥ ११ ॥ पाण्डुः पित्तातिसारस्तु राजयक्ष्मा हलीमकः ॥
भ्रमः कृमोऽतिवैकल्यं यकृद्वापि प्रमेहकाः ॥ १२ ॥ शूलमूर्च्छा रक्त
पित्तं पित्ताम्लं मूत्रकच्छूकम् ॥ तेन संक्षीयते गात्रं जायतेऽन्वस्य लौ
ल्यता ॥ १३ ॥ भक्षिताः काष्ठपाषाणा जीर्ण्यन्ते तस्य देहिनः ॥ इति
श्रोक्तं निदानं च नरस्याग्निप्रकोपनम् ॥ १४ ॥ बहुधापि न वोक्तं तु य
न्धविस्तारशङ्कया ॥ १५ ॥

समान अग्नि होवे तब शरीरमें धातु बल इंद्रिय इन्होंकी समानता रहै और सदा प्रसन्न
रहै शरीरकी सब चेष्टाओंसे युक्तहुआ विचरता रहै ॥ ८ ॥ विषमअग्नि होवे तब वातआदिक
रोग और ग्रहणीरोग, अतिसार, क्षीहा, गुल्मरोग, विपूचिका, शूल, उदावर्त्त ॥ ९ ॥ अफा-
रा, ये रोग होते हैं और मंद चेष्टा रहती है, और वात कफ ये दोनों क्षीणहों पित्त तीक्ष्णहो
॥ १० ॥ और भोजनमें प्रीति रहै भोजन कीयाहुआ जरजावे वह भस्माग्नि अर्थात् भस्मक
रोग कहाता है ॥ ११ ॥ तिस भस्मकरोगसे पांडुरोग, पित्तका अतिसार, राजयक्ष्मा, हलीमक,
भ्रम, ग्लानि, अतिविकल्पना, यकृतरोग प्रमेह ॥ १२ ॥ शूल, मूर्च्छा, रक्तपित्त, अम्लपित्त,
मूत्रकच्छू, ये उपद्रव होजाते हैं और शरीर क्षीण होजावे अन्नमें अत्यंत इच्छा रहै ॥ १३ ॥
और तिस भस्मरोगवाले मनुष्यके भक्षण कियेहुए काष्ठ, पत्थरभी जरजाते हैं इसप्रकार
मनुष्यके अग्निकोप होंके लक्षण कहे हैं ॥ १४ ॥ ग्रंथके विस्तार होंके शंकासे यहाँ
बहुतसा विस्तार नहीं कहा है ॥ १५ ॥

अथ जठराग्निकी चिकित्सा ॥

अतो वक्ष्ये समासेन भेषजानि पृथक्पृथक्के ॥

पाचनं शमनं चैव दीपनञ्च तथोपरि ॥ १६ ॥

अब विस्तारसे जुदा २ औषधोंको कहते हैं पाचन, अर्थात् पकानेवाली शमन दीपन
अर्थात् अग्निको दीप्तकरनेवाली ऐसी औषधोंको कहते हैं ॥ १६ ॥

अथ विषमाग्निकी चिकित्सा ॥

रास्ना शठी प्रतिविषा सुरसा च शुण्ठी सिन्धूत्थहिङ्गु मगधा च सुव

चर्चलं च ॥ चूर्णं कृतं सगुडमौदकभक्ष्यमाणं वातात्मकन्तु विषमार्गिं स
भीकरोति ॥ १७ ॥ शूलानजीर्णविषमार्गिविषूचिकासु वातादयःसक
लगुल्मविनाशनं स्यात् ॥ भुक्तोपरि कथितमेव पिवेत्सुखोष्णं श्रेष्ठं तथो
परि समस्तरसानुभोज्यम् ॥ १८ ॥

रास्ता, कचूर, कालाअतीश, सौंफ, स्रंठ, सेंधानमक, कालानमक हींग, पीपल इन्होंका
चूर्ण बना तिसमें गुड मिला गोली बना खानेसे वातसे उपजाहुआ विषमार्गिरोग दूर होता है
॥ १७ ॥ और शूल, अजीर्ण, विषमार्गि, विषूचिका, इन रोगोंको तथा वातसे उपजेहुए
रोगोंको और गुल्मरोगको नाशती है और इसके खानेके ऊपर औटायामुआ सुखसे सुहा-
ताहुआ गरम २ जलको पीवै और इसके ऊपर सबप्रकारके रस खाने श्रेष्ठ हैं ॥ १८ ॥

अथ तीक्ष्णाम्निकी चिकित्सा ॥

द्राक्षाअया तिक्तकरोहिणी च विदारिका चन्दनवासकं च ॥ मुस्ता पटो
लं च किरातकानां कृष्णा बला च विकचाविषाणा ॥ १९ ॥ पलाल
वङ्गालसपद्मकं च योज्या च शृङ्गी धनिका समांशा ॥ चूर्णं सखजूरसि
तासमेतं घृतेन तद्वाङ्गवल्प्रमाणम् ॥ २० ॥ भक्षेत्रजाते पयसा मनु
ष्यो निष्काश्य पानं सघृतं विधेयम् ॥ करोति तीव्राम्निसमं प्रकृष्टं कृशस्य
पुष्टिं तनुतेऽपि नूनम् ॥ २१ ॥ क्लमभ्रमशोषविनाशनं स्यात्तृष्णातिलौ
ल्यशमनं करोति ॥ सरक्तपित्तं क्षयपाण्डुरोगं हलीमकं कामलमाशु न
श्येत् ॥ २२ ॥

दाख, हरदैं, कुटकी, विदारीकंद, चंदन, वांसा, नागरमोथा, परवल, चिरायता, पीपल,
खरैहटी, गोरखमुंडी, अतीश, ॥ १९ ॥ वालछड, लौंग, पद्माक, भंगरा, धनियां, खजूरिया, इन्हों-
को समानभागसे चूर्णवना तिसमें मिसरी मिला पीछे घृतके संग इस चूर्णको आधी मात्रा प्रमाण
॥ २० ॥ प्रातःकालमें खावे और इसके ऊपर औटायामुआ दूधको घृतके संग पीवे. यह तीक्ष्ण
अम्लिको समान करता है और कृशशरीरको अत्यंत पुष्ट करता है ॥ २१ ॥ और ग्लानि
भ्रम शोष इन्होंको दूर करता है और अत्यंत दाहको शांत करता है रक्तपित्त, क्षयरोग,
पांडुरोग, हलीमक, कामल, इन्होंको शीघ्रही नाशता है ॥ २२ ॥

तण्डुलारक्तशालीनां भागद्वयेन धीमताम् ॥ शृङ्गा तिलांश्च संकुट्य तद
र्द्धेन विमिश्रितान् ॥ २३ ॥ शृङ्गा तत्सममुद्रांश्च चैकीकृत्य तु साधयेत् ॥

सिद्धां च कशरां सम्यग्घृतेन सह भोजयेत् ॥ २४ ॥ एकाहान्तरितो
यस्तु तीव्राग्निस्तस्य नश्यति ॥ २५ ॥

लाल चावल २ भाग, भूनेहुये तील १ भाग इन्होंको कूटि फिर इनके बराबर भूनेहुए मूंग
मिला ॥ २३ ॥ इन्होंको पकाके खिचडी बनावे पीछे तिसको घृतके संग भोजन करे ॥ २४ ॥
इसकों एकदिन खावे और एकदिन नहीं खावे इस क्रमसे खानेसे तीक्ष्ण अग्नि शांत होती है २५

अथ हरीतक्यादिवटी ॥

हरीतकी हरिहरतुल्यषड्गुणा चतुर्गुणा चतुर्विंशालपिप्पली ॥ ह्रताशनं हि
हुसैन्धवसंयुतं रसायनं कुरुनृपवह्निदीपनम् ॥ २६ ॥

हरदैं ६ भाग चारभाग पीपल चारभाग गजपीपल चीता, हींग, सेंधानमक इन्होंको
एक जगह पानीमें खरलकर गोली बांधलेवे यह अग्निको दीप्त करनेमें रसायन कहाता है ॥ २६ ॥

अथ यवानीखांडवचूर्ण ॥

दीप्यकाग्निर्हरीतकी विडङ्गो भागवृद्धि विनियोज्य चूर्णितम् ॥ अत्यम्ल
वेतश्च तथा च कोलं दाडिमं तथाच तिन्तिडीकम् ॥ २७ ॥ समानि चेमा
नि च कर्पमात्रं कर्णाद्विभागेष्वितरे बलानि ॥ जाजी वराङ्गं च सुवर्चलं
च कणाशतैकं मरिचं तदुद्धै ॥ २८ ॥ पलानि चत्वार्यपि शर्करायाः
समं विचूर्ण्यथोदरान् प्रमाटि ॥ अक्षेयदेदं रुचिकृद्विवन्धं सप्लीहशूलं
जयते सकासम् ॥ २९ ॥ श्वासं विनश्येद्दृढयामयघ्नं जिह्वाकण्ठामय
शोधनं भवेत् ॥ ग्राह्यहृण्यार्शविकारमन्दानलस्य सन्दीपनमेव चूर्णम्
॥ ३० ॥ यवानिकारखंडविकाभिधानमरोचकानां शमनं प्रशस्तम् ॥ ३१ ॥

अजमान १ भाग चीता, २ भाग हरदैं, ३ भाग ऐसे इन्होंको, यथोत्तर वृद्धि भाग लेके
चूर्ण बनावे और अम्लवेत, बेर, अनारदाना, अमली, ॥ २७ ॥ इन सब औषधोंको समान
भाग एक एक तोला प्रमाण लेवे और जीरा, दालचीनी, कालानमक, ये सब दो २ तोला
प्रमाण लेवे और पीपल १०० सो काली मिरच ५० ले ॥ २८ ॥ मिसरी १६ तोले ऐसे
इन सब औषधोंको ले एक जगह चूर्ण बनावे इस चूर्णके खानेसे उदररोगोंका नाश होता है
और यह रुचिको करनेवाला है मलका बंधा, तिळी, शूल, खांसी ॥ २९ ॥ श्वासरोग, हृदय-
रोग, जिह्वारोग, कंठरोग इन्होंको दूर करता है और संग्रहणी, ववासीर इन्होंको दूर करता
है. मृदाग्निको दीप्तकरता है ॥ ३० ॥ यह यवानीखांडवनामवाला चूर्ण अरोचकरोगके दूर
करनेमें श्रेष्ठ कहा है ॥ ३१ ॥

अथ अरोचकचिकित्सा ॥

यवागूः पञ्चकोलस्य कुलत्थाढक्यपूपकम् ॥ मुद्गयूपेण वा सम्यग्भ
क्तानां भोजनं हितम् ॥ ३२ ॥ सहिङ्गु च्यूपणाढ्यं च व्यञ्जनं संप्रश
स्यते ॥ अगस्तिघृतवच्छ्रेष्ठं भोजनारोचकेष्वपि ॥ ३३ ॥ कारवेहं पटोल
ञ्च पलाण्डुः सूरणं शठी ॥ लवणं धान्यकं श्रेष्ठं प्रलेहश्च कटुत्रिकम्
॥ ३४ ॥ शठी सर्षपवास्तुकं शतपुष्पा काञ्चनमाचिका ॥ तुण्डीरकस्य
मूलानां शाकं श्रेष्ठं प्रशस्यते ॥ ३५ ॥ गोधूमपोलिकाः श्रेष्ठा भृष्टा
ङ्गारैररोचके ॥ जाङ्गलानि च मांसानि भोजयेद्भिषगुत्तमः ॥ ३६ ॥ इ
त्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने मन्दाग्निचिकित्सा नाम षष्ठोऽ
ध्यायः ॥ ६ ॥

पञ्चकोल अर्थात् पीपली, पीपलामूल, चव्य, चीता, इन्होंकी यवागूको तथा कुलथी अरहरकी
दाल इन्होंके यूपको भोजन करै अथवा मूंगोंके यूपकेसंग चावलोंका भोजन करना हित है
॥ ३२ ॥ हींग, सेंट, मिरच पीपल इन्होंसे संयुक्त कियाहुआ शाक भोजनकी अरुचिमें
अगस्तिसंज्ञक घृतकी तरह श्रेष्ठ कहा है ॥ ३३ ॥ और करेला परवल, प्याज, जमीकंद,
कचूर, इन्होंका शाक श्रेष्ठ है और नमक धनियां, सेंट, मिरच, पीपल, इन्होंकी चटनी श्रेष्ठ
है ॥ ३४ ॥ और कचूर, सिरसम, वथुवा, सौंफ, मकोह, मीठीतोरी, मूली, इन्होंका शाक
अरोचक रोगमें श्रेष्ठ कहा है ॥ ३५ ॥ और अंगारोपे सेकीहुई गीहुंवाँकी रोटी जांगलदे-
शके जीवोंका मांस इन्होंको वैद्यजन अरोचकरोगवालेको भोजन करवावै ॥ ३६ ॥ इति
वेरीनिवासिबुधशिवसहायसुनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थानेमन्दा-
ग्निचिकित्सानाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अथ शूलनिदान ॥

आत्रेय उवाच ॥ व्याधामपाननिशिजागरणव्यवायशोकातिभारगतिधा
वनकश्रमेण ॥ वैषम्यपानशयनेन च भोजनेन शीतेन वायुः कुपितः प्र
करोति शूलम् ॥ १ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—कसरत, पान, रात्रिमें जागना, मैथुन करना, शोक, अतिवोश उठाना, गमन करना, भाजना इन्होंके श्रमसे और विषमपान, विपरीतशयन, विपरीत भोजन, शीतल वस्तुका सेवन इन्होंसे कुपितहुआ वायु शूलको करता है ॥१॥

अथ वातशूलकी उत्पत्ति ॥

विष्टम्भिरूक्षयवमाषकलायमुद्रनिष्पावकास्त्रिपुटक्रोद्रवका मसूरः ॥
गोधूमक्षुद्रकफरूक्षविभोजनेन चैतञ्च पानमलरोधनमूत्ररोधैः ॥ २॥ वा
युस्त्वधोगतपथं प्रविरुह्य मूलं वातात्मको भवति चान्तरवह्निभांश्च ॥
तस्मादिति प्रवल्ताकुपितः प्रकोष्ठे शूलं करोति गुदमार्गनिरोधितेऽपि ॥
॥ ३॥ गात्रेऽपि तोदविरतिर्मलिनातिदीना वातार्त्तिपीडितनरस्य महा
मते स्यात् ॥ ४ ॥

और विष्टम्भी अर्थात् मलको बंद करनेवाला, सूखा भोजन, जव, उडद, मोठ, मूंग, मटर, कोदूधान्य, चौला, मसूर, गेहूं, कफको पैदा करनेवाला, अन्न ऐसे भोजनोंसे और जलपान, मल, मूत्र, इन्होंके रोकनेसे ॥ २ ॥ वायु अधोमार्गके मूलमार्गको रोक देता है यह वातसे उत्पन्नहुआ शूल कहाता है और उदरके भीतर अग्निदाह करदेता है कोष्ठस्थानमें प्रवल्तहोके कुपितहुआ, शूलको उपजाता है और गुदाके मार्गको रोक देता है ॥ ३ ॥ और शरीरमें क्ष-भका, ग्लानि, मलीनता, दीनपना ये उपद्रव वातसे पीडितहुए मनुष्यके उत्पन्न होते हैं ॥४॥

अथ पित्तशूलनिदान ॥

क्रोधातपादनलसेवनहेतुना च शोकाद्रयार्त्तिगतिधावनधर्मयोगात् ॥
क्षाराम्लमद्यकटुकोष्णविदाहिरूक्षसौवीरशुष्कपललेखनराजिकाभिः ॥५॥
संकुप्यतेऽनिलसमीरितं तत्तु पित्तं शूलं करोति जठरे मनुजस्य तीव्र
म् ॥ तेनाङ्गदाहारतिघर्मतृषार्त्तिमूर्च्छा नाभ्यन्तरे दहति शोषः सपीततास्ये ६
क्रोधसे, घाम और अग्निके सेवनेसे शोक, भय, पीडा, गमनकरना, भाजना, पसीना, इन्हों-
के योगसे, खारा, खटा, मदिरा, चर्चरा, कछुकगर्म, विदाही, रूपा पदार्थ, कांजी, सूखा पदार्थ,
मांस, लेखन पदार्थ, राई, ॥ ५ ॥ इन्होंके खानेसे वायु कुपितहोके पित्तको कुपित करता है
फिर वह पित्त मनुष्यके उदरमें दारुणशूल उत्पन्न करता है तिस्से अंगमें दाह, ग्लानि, पसीना,
तृषा, मूर्च्छा ये उपद्रव होते हैं और नाभिकेसमीपमें दाहहो शोषहो और मुख पीला रहै ॥६॥

अथ कफशूलकी उत्पत्ति ॥

अन्यायामेऽस्त्रिग्धसंसेवनेन लौल्याहारे चेश्चुतैल्पयोभिः ॥ अल्पाहारे

निद्रया सेवनैस्तु योगैरेतैः क्रोपयेच्छ्लेष्मकस्तु ॥ ७ ॥ मापातिशीतलप
योदधिभिः सुशीतैर्मत्स्यैस्त्वनूपपल्लैरतिसेवितैस्तु ॥ श्लेष्मा भृशं शम
यतेऽनलमाशु शूलं कोष्ठे करोति मनुजस्य विकारमुग्रम् ॥ ८ ॥ हृत्सास
कासवमिजाड्यशिरोगुरुत्वं स्तैमित्यशीतलतनूरुचिवन्धनं च ॥ भुक्तप्रसे
कमधुरास्यं तथाभिरामं स्निग्धं मुखं भवति यस्य कफात्मकोऽसौ ॥ ९ ॥
श्लेष्मा भवत्येव भवन्ति यस्य चिह्नानि स भवति च सशूलः ॥ सपैत्ति
कानीव भवन्ति यस्य तमाहुरजीर्णोऽपि नराः सशूलम् ॥ १० ॥

कसरत नहीं करना, चिकना नहीं खाना, पिच्छल भोजन करना, ईखका रस, तेल, दूध, इन्होंका भोजन करना, अल्प भोजन करना, निद्राका सेवन करना, इन योगोंकरके कफ कुपित होता है ॥७॥ और उडद, अत्यंत शीतल पदार्थ, शीतल दूध, दही, मच्छी और अनूपदेशके जीवोंका मांस इन्होंके सेवन करनेसे कफ हो जठराग्निको शांत करदेता है और शीघ्रही शूलको उत्पन्न करदेता है मनुष्यके कोष्ठस्थानमें अतिउग्र विकार करता है ॥ ८ ॥ और हृत्सास अर्थात् थुकथुकी, खांसी, वमन, जडता, शिरभारा, गीलापन, शीतल-शरीर होना, रुचिवंधहोनी, भोजन करेंपीछे थूकआना, मीठामुख रहै, रमण करनेकी इच्छा रहे, चिकना मुख रहै, जिसके ये उपद्रवहों वह कफसे उपजा शूल जानना ॥ ९ ॥ जिसके ये लक्षणहों वह कफका शूल होता है और जिसके पित्तके लक्षण मिलतेहों उसको वैद्यजन अजीर्णसे उपजाहुआभी शूल कहते हैं ॥१०॥

अथ द्विदोषजशूलकी उत्पत्ति ॥

हृत्कण्ठपार्श्वे कफः पैत्तिकस्तु हृन्नाभिमध्ये कफपित्तशूलः ॥ वस्तौ

च नाभौ दधतः प्रदेशे विलोलमानः स तु वातपित्तात् ॥ ११ ॥

कफसे उपजा शूल, हृदय, कंठ, पशली, इन्होंमें पीडा करता है और पित्तसे उपजा शूल, हृदा नाभि इन्होंमें पीडा करता है और कफपित्तसे उपजाशूल वस्तिस्थान, नाभि इन्होंमें पीडा करता है और जो सब शरीरमें पीडाहो वह वातपित्तसे उपजा शूल जानना ॥ ११ ॥

अथ दशप्रकारके शूल ॥

अथ शूलोंकी साध्यासाध्य परीक्षा ॥

एकोऽपि सुखसाध्योऽसौ द्वन्द्वः कटेन सिध्यति ।

त्रिदोषजस्त्वसाध्यस्तु बहूपद्रवसंयुतः ॥ १२ ॥

एक दोषसे उत्पन्नहुआ शूल सुखसाध्य होता है, दो दोषोंसे उपजाहुआ शूल कष्टसाध्य कहाता है, त्रिदोषसे उपजाशूल असाध्य कहाता है और बहुतसे उपद्रवोंसे संयुक्त होता है १२

अथ शूलोंकी संख्या और पृथक्करण ॥

निदानैः कुपितो वायुर्वर्तते जठरान्तरे ॥ तेनेति संज्ञा दश स्युः शूलस्य परिगीयते ॥ १३ ॥ त्रयो वातादिका ज्ञेया द्वन्द्वजास्तु पुनस्त्रयः ॥ साम निरामकौ द्वौ च शूलाश्चाष्टाविमे स्मृताः ॥ १४ ॥ अजीर्णान्नवमः प्रोक्तो दशमः परिणामजः ॥ एवं दशप्रकारेण शूलं संभवते नृणाम् ॥ १५ ॥ शुक्तोपरि भवेद्यस्तु सोऽपि ज्ञेयः कफात्मकः ॥ जीर्णोऽन्ने च भवेद्यस्तु स ज्ञेयः परिणामजः ॥ १६ ॥

कारणोंसे कुपितहुआ वायु उदरके भीतर वर्तता है फिर तिसके कियेहुए दशप्रकारके शूल उत्पन्न होजाते हैं ॥ १३ ॥ तीन शूल वात आदिक दोषोंके और दो २ दोषोंसे मिलेहुए शूल और १ साम अर्थात् आमसहित शूल, और १ निरामशूल ऐसे आठ प्रकारके तो ये हैं ॥ १४ ॥ और नवमा ९ अजीर्णसे उपजाशूल और १० मा परिणामजशूल ऐसे मनुष्योंके दश प्रकारके शूल कहे हैं ॥ १५ ॥ जो भोजन करनेमें पीछे शूल होता है वह कफका शूल कहाता है और भोजन कियाहुआ अन्न जरजावे तब शूल उपजे वह परिणाम शूल कहाता है १६

अथ वातशूलका लक्षण ॥

आध्मानमूर्ध्वं च विवन्धनं च जृम्भा तथा वेपथुमार्जनं च ॥ उद्गीरणं स्निग्धमुरवातिजिह्वा वातेन शूलं भजते विधिज्ञाः ॥ १७ ॥

ऊपरले अंगोंमें अफाराहो, और मलका बंधाहो जंभाई आवे अत्यंत काँपे वमन आवे, मुख और जिह्वा चिकनीहो, ये लक्षण वातकी शूलके हैं ॥ १७ ॥

अथ पित्तशूलका लक्षण ॥

दाहो रतिर्मोहस्तथैव तृष्णा कृच्छ्रेण मूत्रं कटुकास्थता च ॥ स्वेदाति शोषो वदनं च पीतं पित्तात्मकोऽसौ प्रवदन्ति धीराः ॥ १८ ॥

और दाहहो, ग्लानिहो, मोहहो, तृषाहो, कष्टसे मूत्र उत्तरै, मुख कटुआ रहै, पसीना आवै, अत्यंत शोषहो, मुख पीला रहै ये लक्षणहों उसको वैद्यजन पित्तका शूल कहते हैं ॥ १८ ॥

अथ कफशूलका लक्षण ॥

छर्दिस्तथा कासबलासमोह आलस्यतन्द्रा जडतातिशैत्यम् ॥

छर्दिहो, खांसी, कफ, मोह, आलस्य, तंद्रा, जडपना, अत्यंत शीतलता, ये हैं उसको कफसे उपजा शूल कहते हैं.

अथ द्वंद्वजशूलका लक्षण ॥

कफात्मकं तद्भिषजां वरिष्ठं ! शूलं भवेद्वन्द्वजरोगसंज्ञम् ॥ १९ ॥
त्रिभिस्तु दोषैस्तु त्रिदोषजः स्याद्रक्तेन चैकादश एवमुक्तः ॥ पि
त्तात्मकानि प्रभवन्ति यस्य चिह्नानि यस्यास्तगल्लर्दनं च ॥ २० ॥ शो
षस्तृषा दाहस्तथैव कासः श्वासेन रक्तप्रभवोऽतिशूलः ॥२१॥ विना वा
तेन नो शूलं विना पित्तेन नो भ्रमः ॥ न कफेन विना छर्दिर्न रक्तेन
विना तमः ॥ २२ ॥

और जो दोदोषोंसे उपजाहो वह द्वंद्वजशूल कहाता है ॥ १९ ॥ तीनदोषोंसे उपजाहुआ त्रिदो-
षजशूल कहाता है और रक्तसे उत्पन्नहुआ ग्यारवां शूल होता है, जिसके पित्तके लक्षणहों
और रुधिरकी छर्दि करै ॥ २० ॥ शोषहो, तृषाहो, दाहहो, खांसीहो श्वासहो, वह रक्तसे
उपजाहुआ शूल कहाता है ॥ २१ ॥ वातके विना शूल नहीं होता है और पित्तके विना भ्रम
नहीं होता है कफके विना छर्दि नहीं होतीहै और रक्तके विना अंधेरी नहीं होती है ॥ २२ ॥

अथ सब प्रकारके शूलोंकी चिकित्सा ॥

इति शूलपरिज्ञानमतो वक्ष्यामि भेषजम् ॥ येन शूलार्त्तिशमनं शूली सं
पद्यते सुखम् ॥ २३ ॥ दृष्ट्वा शूलं लङ्घनं पाचनं च विरेचनं वान्तिसंस्वे
दनं वा ॥ क्षारं चूर्णं चार्पयेच्छूलशान्त्यै पानाभ्यङ्गान्कासमाने मनुष्ये ॥ २४ ॥

इसप्रकार शूलका निदान तो कहदिया है अब इन्होंकी औषधोंको कहेंगे जिस्से शूलकी
पीडा शांत होती है और शूलरोगवाला पुरुष सुखी होता है ॥ २३ ॥ वैद्यजन शूलको देखि
लंघन, पाचन, विरेचन, वमन, संस्वेदन इनकर्मोंको करवावै और शूलकी शांतिकेवास्ते
क्षारचूर्णको देवै और जो मनुष्यके खांसीसहित शूलहोवे तो पान, अभ्यंग अर्थात् मालिस,
इन्होंको करवावै ॥ २४ ॥

अथ शूल तथा गुल्मपर हिंग्वादिक्वाथ ॥

हिङ्गु नागरशठीसुवर्चलं दारुपौष्करघनापुनर्नवाः ॥ क्वाथपानमिति
शूलिनां हितं पाचनं जठरगुल्मिनामपि ॥ २५ ॥

और हींग, स्रंठ, कचूर, कालानमक, देवदार, पोहकरमूल, नागरमोथा, सांठी, इन्होंका
क्वाथ बनाके पान कराना शूलरोगवालोंको हित है और उदरगुल्मरोगवालोंको यह क्वाथ
पाचन है ॥ २५ ॥

अथ वातशूलपर हिंम्वादिक्वाथ ॥

हिङ्गु पौष्करशठीसुवर्चलं क्वाथमेवमपि शूलिनां हितम् ॥ वातशूलश
मनाय शस्यते पाचनं निगदितं च वर्त्तते ॥ २६ ॥

हींग, पोहकरमूल, कचूर, कालानमक, इन्होंका क्वाथभी शूलरोगवालोंको हित है यह
क्वाथ वातशूलको शांत करनेकेवास्ते श्रेष्ठ कहा है और यही क्वाथ पाचनभी कहा है ॥ २६ ॥

अथ सैधवादिचूर्ण ॥

सिन्धूत्थहिङ्गु रुचकं च शठी यवानी पश्यायवक्षारसमं विचूर्णम् ॥ देघं
सुरवोष्णेन निहन्ति शूलं वातात्मकं वाप्यचिरेण शूलम् ॥ २७ ॥

और सेंधानमक, हींग, कालानमक, कचूर, अजमान, हर्रैँ, जवखार, इन्होंको समान
भागले चूर्णबना सुखसे सुहाताहुआ गरम२ जलके संग देंसे वातसे उपजाहुआ शूल शीघ्रही
नष्ट होजाता है ॥ २७ ॥

अथ हिंम्वादिचूर्ण ॥

हिङ्गु सौवर्चलं पश्या यवानी सपुनर्नवा ॥ वालैरण्डो बृहत्स्यौ द्वे तुवरं
त्र्यूषणान्वितम् ॥ २८ ॥ क्षारसौवर्चलोपेतं क्वाथो वा चूर्णितस्तथा ॥
सद्यो वातात्मकं शूलं हन्ति सद्यो विषूचिकाम् ॥ २९ ॥

हींग, कालानमक, हर्रैँ, अजमायन, सांठी, नेत्रवाला अरंड, दोनों कटेहली, सफेद शि-
रस, स्रंठ, मिरच, पीपल, ॥ २८ ॥ जवाखार, कालानमक इन्होंका क्वाथ अथवा चूर्ण वातसे
उपजा शूलको और विषूचिकाको शीघ्रही नाशदेता है ॥ २९ ॥

अथ तुंवुरुआदि चूर्ण ॥

तुम्बुरुपौष्करहिङ्गु यवानी त्र्यूषश्च वा त्रिवृहतीगुणेन ॥

युक्तमिदं लवणाष्टकचूर्णं भवति शूलनिवारणक्षमम् ॥ ३० ॥

और धनियां, पोहकरमूल, हींग, अजमायन, स्रंठ, मिरच, पीपल, तीनोंप्रकारकी कटेह-
ली, नमक, इनसवोंको युक्तकर चूर्ण बनावे यह लवणाष्टकचूर्ण कहाता है शूलको शीघ्रही
निवारण करदेता है ॥ ३० ॥

अथ एरंडादिक्वाथ ॥

क्वाथो निहन्ति मरुतोद्भवशूलसंघानेरण्डनागरसुवर्चलरामठेन ॥

पश्यावचेन्द्रयवनागरतोययुक्तं हिङ्गु सुवर्चलयुतं च निहन्ति शूलम् ३१

अरंड, स्रंठ, कालानमक, हींग, हरडै, वच, इंद्रजव, स्रंठ, हींग, कालानमक इन्होंका काथ बना देनेसे वातसे उपजेशूलोंके समूहोंका नाश होता है ॥३१॥

अथ वृहद्विगुचूर्ण ॥

हिङ्गु नागरपड्यन्था यवानी अजया त्रिवृत् ॥ विडङ्गं दारु चव्यञ्च तुम्बु
रुकुष्ठमुस्तकाः ॥ ३२ ॥ हपुषा कलशी रास्ना वत्सका सदुरालभा ॥
सितारवी वृहत्यौ च लांगली पञ्चजीरकम् ॥ ३३ ॥ पुष्करं तिन्तिडीकं
च वक्षाम्लं चाम्लवेतसम् ॥ द्वौ क्षारौ पञ्चलवणं समं चैकत्र मिश्रयेत्
॥ ३४ ॥ मूत्रेण भावनाञ्चैकां दत्त्वा छायाविशेषिताम् ॥ वीजपूरक
तोयेन भावयेच्च दिनत्रयम् ॥ ३५ ॥ विडालपदिकां मात्रां युञ्जीत
शूलशान्तये ॥ वातेनोष्णोदकेनापि सितशर्करयान्वितः ॥ ३६ ॥ त्रिफला
काथो मध्येन श्लेष्मरोगे प्रशस्यते ॥ शूलानाहविवन्धानां मन्दाग्रौ गुल्म
विद्रधीन् ॥ ३७ ॥ स्त्रीहोदराणाञ्च पाण्डुज्वरिणां च विशेषतः ॥ निह
न्ति देहसङ्घातं मेघवृन्दं मरुद्यथा ॥ ३८ ॥

हींग, स्रंठ, वच, अजमान, हरडै, निशोत, वायविडंग, देवदार, चव्य, धनियां, कूट, नाग-
मोथा ॥ ३२ ॥ हाडवेर, पिठवण, रास्ना, कूडा, जवासा, सफेदगोकर्णी, दोनोंकटेहली, कलहा-
री, पांचोंजीरे, ॥ ३३ ॥ पोहकरमूल, विजौरा, अम्लवेत, जवाखार, साजीखार, पांचोंनमक
इनसवोंको समानभाग ले एक जगह चूर्ण बना ॥ ३४ ॥ गोमूत्रमें भावनादे छायामें सुखालेवे
पीछे विजौराके रसमें तीन दिनतक भावना देवै ॥ ३५ ॥ पीछे एक तोला प्रमाण इस चूर्णको
देनेसे शूलरोग शांत होता है वातसे उपजी शूलमें गरमजलके संग देवै ॥ ३६ ॥ और कफसे
उपजी शूलमें सफेद खांडमें अथवा त्रिफलाके काथके संग अथवा मदिराके संग देना हित है
और शूल, अफारा, मलका बंधा, मंदाग्रि, गुल्मरोग, विद्रधि ॥ ३७ ॥ तिल्ली, उदररोग, पांडुरोग,
ज्वर, देहकामुटाया इनसव रोगोंको यह चूर्ण नाशता है जैसें मेघोंके समूहको वायु तैसा ॥ ३८ ॥

अथ पित्तशूलचिकित्सा ॥

धात्रीफलं लोहरजश्च पथ्या च्युषं समांशेन विभाव्य तं तु ॥ रसे
न वा दाडिममातुलुङ्गान्याश्रूणीं सिताढ्यं च सपित्तशूले ॥ ३९ ॥

धात्रीफलादि चूर्ण आंवला, लोहका चूर्ण, हरडै, न्योप स्रंठ, मिरच, पीपली इन सवोंको
समानभागले अनारके रसमें अथवा विजौराके रसमें भावना देवै पीछे इसचूर्णमें मिसरी मिला-
देनेसे पित्तशूल शांत होता है ॥ ३९ ॥

अथ दाडिमादिचूर्ण ॥

विडालकं दाडिमपूतनां च धात्रीसमेतं विदधीत चूर्णम् ॥ तन्मा

तुलुङ्गस्य रसेन भावितं सपित्तशूलशामनाय भक्षेत् ॥ ४० ॥

अनारदाना, हरद्वै, आंवला, इनसबोंको एक २ तोला प्रमाणले चूर्ण बना फिर विजौराके रसमें भावना देवे यह चूर्ण पित्तशूलको शांत करता है ॥ ४० ॥

अथ जीवंत्यादि घृत ॥

जीवन्त्याद्यं घृतं पाने क्षीरं वापि सितान्वितम् ॥

कर्त्तव्यं रेचनं नित्यं पित्तशूलनिवारणम् ॥ ४१ ॥

जीवन्तीआदि औषधगणमें सिद्धकियाहुआ घृत अथवा मिसरोसे युक्त दूध इन्होंका पान करके जुलाव लेनेसे निश्चय पित्तशूलका निवारण होता है ॥ ४१ ॥

अथ पित्तशूलका दूसरा उपचार ॥

शिशिरसरसतोयागाहनं चन्दनानि विशदपुटितमध्ये स्थापनं वै निशासु ॥

कनकरजतकांस्याम्भोजहैमं तुषारं कृतमिति विधिना वै पैत्तिके शूल

हेतोः ॥ ४२ ॥

और सरोवरके ठंढाजलसे स्नान करना, चंदन लगाना, उत्तम चौगरदे घेरवाला मकानमें रात्रीमें शयन करना, और सुवर्ण, चांदी, कांशी, कमल, इन्होंकी ठंढकसे शीतलता करनी ये विधि पित्तशूलमें करनी चाहिये ॥ ४२ ॥

अथ पित्तशूलमें भोजन ॥

सितशाल्योद्भवा लाजाः सितामधुयुतं पयः ॥ दाहं पित्तज्वरं छर्दि सद्यः

शूलं निहन्ति च ॥ ४३ ॥ जाङ्गलानि च मांसानि भोजनार्थं प्रशस्यते ॥

घृतं क्षीरं समधुरं प्रशस्तं पित्तशूलिनाम् ॥ ४४ ॥

सपेद सांठी चावलोंकी खील, मिसरी, शहद इन्होंसे युक्त दूध ये दाहको और पित्तज्वरको छर्दिको और पित्तशूलको नाशती हैं ॥ ४३ ॥ और जांगलदेशके जोवोंका मांस भोजनके वास्ते श्रेष्ठ कहा है और घृत, दूध, शहद ये पित्तशूलवालोंका हित है ॥ ४४ ॥

अथ कफशूलचिकित्सा ॥

लङ्घनं वमनं चैव पाचनं श्लेष्मशूलिनाम् ॥

न घनातिमधुराणि शयनं च विधेयकम् ॥ ४५ ॥

कफशूलवालोंको लघन कराना वमन कराना पाचनऔषध देना हित है, और कर-
डापदार्थ, अत्यंतमीठा पदार्थ नहींदेवै और शयन नहीं करावे ॥ ४५ ॥

अथ विल्वादिक्वाथ ॥

विल्वाग्निमन्थवृषचिन्नकनांगराश्च एरण्डहिङ्गु सहसैन्धवकं समांशम् ॥

क्वाथो निहन्ति कफजोद्भवसद्यःशूलं सद्यो निहन्ति जठरानलवर्द्धनं च ४६

और बेलगिरी, अरणी, वांसा, चीता, संठ, अरंड, हींग, सेंधानमक इन्हेंको समानभाग-
ले क्वाथ बना देनेसे शीघ्रही कफसे उपजे शूलको दूर करता है और जठराग्निको
बढाता है ॥ ४६ ॥

अथ मातुलुंगादिरस ॥

मातुलुङ्गरसं धात्रीरसं सैन्धवसंयुतम् ॥ शोभाञ्जनकमूलस्य रसं च मरि
चान्वितम् ॥ ४७ ॥ सक्षारमधुनोपेतं श्लेष्मशूलनिवारणम् ॥ कृतक्षयो
द्भवं कासं नाशयत्याश्वसंशयम् ॥ ४८ ॥

विजौराका रस आंवलाका रस इन्होंमें सेंधानमक मिला और सहोंजनाकी जडके रसमें
काली मिरच मिला ॥ ४७ ॥ फिर जवाखार शहद इन्होंसे युक्तकर इनके देनेसे कफका शूल
दूर होता है और क्षयरोगसे उपजीहुई खांसीको शीघ्रही नाशता है ॥ ४८ ॥

अथ तुवरादिचूर्ण ॥

तुवरं ग्रन्थिकैरण्डा व्योषं पथ्याजमोदकम् ॥

सक्षारलवणोपेतं चूर्णं शूले कफात्मके ॥ ४९ ॥

सफेद शिरस, पीपलमूल, अरंड, संठ, मिरच, पीपल, हरडै, अजमोद, जवाखार, नमक,
इन्होंका चूर्ण कफसे उपजे शूलको दूर करता है ॥ ४९ ॥

अथ एरंडादिक्वाथ ॥

एरण्डविल्वबृहतीद्वयमातुलुङ्गं पाषाणभिन्निकटुमूलकृतः कषायः ॥ सक्षा

रहिङ्गुलवणोपेततैलमिश्रं श्रोण्यंसमेद्रहृदयस्तनकुक्षिदेयम् ॥ ५० ॥

अरंड, बेलगिरी, दोनोंकटेहली, विजौरा, पाषाणभेद, त्रिकटु, संठ, मिरच, पीपल, इन्होंसे
कियाहुआ क्वाथमें जवाखार, हींग, नमक, तेल इन्होंको मिला फिर कटि, कंधे, लिंग, हृदा,
कुक्षि, चूंची, इन स्थानोंमें इसकी मालिस करनी चाहिये ॥ ५० ॥

अथ वातपित्तशूलचिकित्सा ॥

पटोलारिष्टपत्राणि त्रिफलासंयुतानि च ॥ क्वाथमधुयुतं पानं शूले

वैत्ते समीरणे ॥ ५१ ॥ पित्तज्वरतृषादाहरक्तपित्तनिवारणम् ॥ ५२ ॥

पटोलादि काथ, परवल, नीव, इन्होंके पत्ते त्रिफला इन्होंका काथ बना तिसमें शहद-मिला पान कराना वातपित्तशूलको शांत करता है ॥ ५१ ॥ और पित्तज्वर, तृषा, दाह, रक्तपित्त इन्होंको निवारण करता है ॥ ५२ ॥

अथ दुरालभादिकल्क ॥

दुरालभा पर्पटकं च विश्वा पटोलनिम्बाम्बुदतिन्तिडीकम् ॥ सश
कैरं कल्कमिदं प्रयोज्यं सपित्तवातोद्भवशूलशान्त्यै ॥ ५३ ॥

और जवांसा, पित्तपापडा, सूंठ, परवल, नीव, नागरमोथा, अमली, इन्होंका कल्क बना तिसमें खांड मिला देंसे पित्तवातसे उपजा शूल शांत होता है ॥ ५३ ॥

अथ वातकफशूलचिकित्सा ॥

सौवर्चलं समशंठी सहनागरा च शुण्ठीयुतेन कथितेन जलेन चूर्णम् ॥
पीतं निहन्ति मरुतायुतश्लैष्मिकाणां पार्श्वतिशूलजठरानलहृत्प्रशस्तम् ५४

सौवर्चलादि चूर्ण, कालानमक, कचूर, नागरमोथा, सूंठ, इन्होंका चूर्ण बना औटयाहुआ जलके संग लेनेसे वात कफसे उपजाहुआ शूल शांत होता है और पशली, शूल, मंदाग्नि इन रोगोंके हरनेमें श्रेष्ठ कहा है ॥ ५४ ॥

अथ दावादिक्वाथ ॥

दारु नागरकं वासा हिङ्गु सौवर्चलान्वितम् ॥

क्वाथो वातकफे शूले आमे जीर्णे विबन्धके ॥ ५५ ॥

देवदार, सूंठ, वांसा, हींग, कालानमक, इन्होंसे उपजाहुआ काथ, वातकफसे उपजा शूल, आमरोग, अजीर्ण, मलका बंधा इन्होंमें देना श्रेष्ठ है ॥ ५५ ॥

अथ त्रिदोषशूल चिकित्सा ॥

पलाशकदलीवासापामार्गकोकिलाह्वयम् ॥ गोमूत्रेण श्रितं तत्तु हिङ्गु
नागरसंयुतम् ॥ ५६ ॥ हितं त्रिदोषजे शूले कामलाविड्विबन्धके ॥ गु
ल्मोदराणां शमनं मंदाग्नीनां नियच्छति ॥ ५७ ॥

पलाशादिघृत-केशू, केला, वांसा, ऊंगा, कोलिस्ता, हींग, सूंठ, इन्होंको गोमूत्रमें पका काथ बना देंसे ॥ ५६ ॥ त्रिदोषसे उपजा शूल, कामला, मलका बंधा, गुल्मरोग, उदररोग, मंदाग्नि, इन्होंको दूर करता है ॥ ५७ ॥

अथ सर्वशूलपर उपाय ॥

एक एव कुबेराक्षः सर्व शूलापहारकः ॥

किं पुनः स त्रिभिर्युक्तः पथ्यारुचिकरामठैः ॥ ५८ ॥

एक अंकेला सागरगोटाही सर्वशूलोंको दूर करता है, फिर उसके साथ हरदैं, संचलखार और हींग होवै तौ क्या कहना अर्थात् अवश्यही शूलको दूर करता है ॥ ५८ ॥

अथ शंखक्षार ॥

शङ्खक्षारं च लवणं हिङ्गुव्योषसमन्वितम् ॥

उष्णोदकेन तत्पीतं हन्ति शूलं त्रिदोषजम् ॥ ५९ ॥

और शंखका खार, नमक, हींग, व्योष, स्रंठ, मिरच, पीपल, इन्होंका चूर्ण गरमजलके संग पीनेसे त्रिदोषसे उपजा शूल नाश होता है ॥ ५९ ॥

अथ सामान्यसे सबशूलोंकी चिकित्सा ॥

लङ्घनं वमनं चैव विरेकश्चानुवासनम् ॥

निरूहो वस्तिकर्माणि परिणामे त्रिदोषजे ॥ ६० ॥

त्रिदोषसे उपजे परिणामशूलमें लघन, वमन, जुलाव, अनुवासनवस्ति, निरूहवस्ति, इन कर्मोंको करवावै ॥ ६० ॥

अथ चित्रकादिमोदक ॥

चित्रकं त्रिवृता दन्ती विडङ्गं कटुकत्रयम् ॥ समं चूर्णं गुडेनाथ कारयं

न्मोदकान् सुधीः ॥ ६१ ॥ भक्षयेत्प्रातरुत्थाय पश्चादुष्णोदकं पिवेत् ॥

परिणामोद्भवं शूलं हन्ति शूलं नरस्य च ॥ ६२ ॥

और चीता, निशोत, जमालगोटाकी जड़, वायविडंग, स्रंठ, मिरच, पीपल, इन्होंको समान भागले चूर्ण बना फिर वैद्यजन तिसकी गुडमें गोली बांधलेवे ॥ ६१ ॥ प्रातःकाल उठके इसका भक्षणकरे और ऊपरसे गरमजल पीवे यह परिणामशूलको नाशता है ॥ ६२ ॥

अथ यवान्यादिचूर्ण ॥

यवानी हिङ्गु सिन्धूत्यक्षारं सौवर्चलाभया ॥

सुराभाण्डेन पातव्या परिणामे त्रिदोषजे ॥ ६३ ॥

और अजमान, हींग, सेंधानमक, जवाखार, कालानमक, हरदैं, इन्होंको मदिराके संग पीनेसे त्रिदोषसे उपजा परिणामशूल, शांत होता है ॥ ६३ ॥

अथ हिङ्गवादिगुटी ॥

हिङ्गुव्योषवचाजमोदहपुषा पथ्या यवानी शठी जाजीपिप्पलीमूलदा
डिमटकीचव्याग्रिकं तिन्तिडी ॥ तस्माच्चाम्लसुवर्चलेपि च यवक्षारं त
था सर्जिका सिन्धूयं विडचूर्णकं समकृतं स्याद्वीजपूरे रसे ॥ ६४ ॥ कु
र्याच्चूर्णगुटीं समक्षफलदामक्षप्रमाणामिगाम्। कल्को वातविकारिणां प्र
ददतः शूलार्शसप्लीहकान् ॥ कासानाहविवन्धमेहहृदयशूलं निहन्त्याशु
वै ॥ ६५ ॥ एष हिङ्गवादिको नाम सर्वशूलान्तिनाशनः ॥ सर्ववातविका
रघ्नः सर्वक्षयनिवारणः ॥ ६६ ॥

और हींग, सठ मिरच, पीपल, वच, अजमोद, हाउवेर, हरडें, अजमान, कचूर, जीरा,
पीपलामूल, अनारदाना, कस्मीरीपाठा, चव्य, चीता, आमलकी, वूका, ब्राह्मी, जवाखार, साजी,
सैंधानमक मनियारीनमक इन्होंको समानभागले चूर्णवना विजौराके रसमें इसचूर्णकी तोला
प्रमाण गोली बनावे अथवा इन्होंका कल्क बना देनेसे ॥ ६४ ॥ वातके विकार, शूल, ववा-
सीर, तिळी, खांसी, अफारा, मलका बंधा, प्रमेह हृदयशूल इन्होंको शीघ्रही नाशता है ॥ ६५ ॥
यह हिङ्गु आदिक नामवाला औषध संपूर्णशूलकी पीडाओंका नाश करता है और सबप्रका-
रके वातविकारोंको नाशता है सबप्रकारके क्षयरोगोंको निवारण करता है ॥ ६६ ॥

अथ शूलरोगके उपद्रव ॥

अतीसारस्तृषा मूर्च्छा आनाहो गौरवोऽरुचिः ॥ श्वासकासौ वमिर्हिक्का
शूलस्योपद्रवा दश ॥ ६७ ॥ शूलं सोपद्रवं तृष्णां भिषग् दूरे परित्यजे
त् ॥ अनुपद्रवे क्रिया प्रोक्ता भिषजां सिद्धिमिच्छता ॥ ६८ ॥

और अतीसार, तृषा, मूर्च्छा, अफारा, भारापने, अरुचि, श्वास, खांसी, वमन, हिचकी,
ये दशशूलके उपद्रव हैं ॥ ६७ ॥ उपद्रवोंसे युक्त और तृषासे संयुक्त शूलको वैद्यजन दूरसे त्याग
दे और उपद्रवरहितशूलमें सिद्धिकी इच्छा करनेवाले वैद्यने चिकित्सा करनी कहीं है ॥ ६८ ॥

शूलमें पथ्यापथ्य ॥

वर्जयेद्विदलं शूली तथा सघनशीतलम् ॥ पिच्छलं च दधि चैव दि
वानिद्रां च वर्जयेत् ॥ ६९ ॥ शालिषट्ठिकसिन्धूयहिङ्गुसौवीरकं तथा ॥
सुरा वा गुडशुण्ठी वा पाने श्रेष्ठा भिषग्वर ! ॥ ७० ॥ शतपुष्पावोस्तुकं
च हितं प्रोक्तं प्रशस्यते ॥ ७१ ॥ एणतित्तिरिलावाश्च क्रौञ्चशश कसा

साः ॥ एषां मांसानि शस्तानि कथितानि भिषग्वर! ॥७२॥ इति आत्रेय
भाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने शूलचिकित्सा नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

शूलरोगवाला पुरुष दालको वर्ज देवै और करडा शीतल झागोंवाला ऐसा दहीको त्याग-
देवै 'और दिनमें सोना वर्ज देवै ॥ ६९ ॥ और शालीसंज्ञक चावल, साठी चावल, सेंधानम-
क, हींग, कांजी, इन्होंका सेवना हित है और मदिरां, अथवा गुड, स्रुठ, इन्होंका पान करना
वैद्यजनोंन हित कहा है ॥ ७० ॥ और सौंफ, वथुआका शाक, ये शूलरोगमें हित कहे हैं
॥७१॥ और मृग, तीतर, लावापक्षी, कूंजीपक्षी, शूसा, सारसपक्षी, इन्होंके मांस श्रेष्ठ कहे हैं
॥ ७२ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषार्या
तृतीयस्थाने शूलचिकित्सानामसप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अथ पांडुरोगचिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ शृणु पुत्र ! प्रवक्ष्यामि पाण्डुरोगमहागदम् ॥ पञ्चैव पा
ण्डुरोगास्ते सम्भवन्तीह मानुषे ॥१॥ वातिकः पित्तिकश्चैव श्लैष्मिकः सा
न्निपातिकः ॥ पञ्चमो रूक्षणः प्रोक्तो वक्ष्ये चैषां तु सम्भवम् ॥ २ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे पुत्र ! सुन पांडुरोगकी चिकित्साको कहते हैं मनुष्यकूं पांच-
प्रकारके पांडुरोग होते हैं. ॥१॥ वातसे उपजा १ पित्तसे उपजा २ कफसे उपजा ३ सन्निपा-
तसे उपजा ४ रूक्षणसंज्ञक ५ पांचवा ऐसे ५ हैं इन्होंकी उत्पत्तिको कहते हैं ॥ २ ॥

अथ पांडुरोगका निदान ॥

दीर्घाध्वना पीडितो वा ज्वरेण रक्तस्रावपीडितो वा व्रणेन ॥ चिन्तायासा
द्रोधनाद्धे मनुष्य ! अयं पाण्डुर्जायते सेवते यः ॥ ३ ॥ क्षारं चाम्लं क
ल्यमैरेयसेवा अव्यायामान्मैथनातिश्रमेण ॥ निद्रानाशेनातिनिद्रा दिवा
पि योगैश्चैतैर्धृत्तिकाभक्षणेन ॥ ४ ॥ पथि शिथिलशरीरे रोगसंपीडिते
वा लक्षणकटुकषायासेवनाम्लेन मृद्धिः ॥ अतिसुरतमजस्रं सेवनातिक्रमे
और नय्ज्मि रुधिरंशोषं तेन वै पाण्डुरोगम् ॥ ५ ॥

पीनेसे निदोपसे मार्गके चलनेसे अथवा ज्वरसे पीडित होनेसे रक्तस्रावसे और व्रणसे पीडित

शुण्ठ्यादिमिश्रितलोहचूर्णं ॥

च्यूपणं त्रिफला मुस्ता विडङ्ग चित्रकं समम् ॥ १६ ॥ भागमेकं लोह
चूर्णमपि वेक्षुरसेन भावयेत् ॥ सप्तकाहमलोपि खल्वितं पुनरपि प्रवरं
स्यात् ॥ १७ ॥ शीलितं तु मधुनापि घृतेन पाण्डुरोगहृदयामघापहम् ॥
कामलाशोहलीमकहारि कथितं सुमतिभिश्चपण्डितैः ॥ १८ ॥

संठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, नागरमोथा, वायविडंग, चीता, इन्होंको समान भागले
॥ १६ ॥ एकभाग लोहाका चूर्ण इन्होंको ईखके रसमें भावना देवे अथवा इससे लोहेका
मैलको सातदिनतक खरलकर मिलावे तो अतिश्रेष्ठ है ॥ १७ ॥ इस चूर्णको शहदमें अथवा
घृतमें मिला खानेसे पांडुरोग, हृदयरोग, कामला ववासीर, हलीमक रोगोंको नाशता है ऐसे
उत्तमबुद्धिवाले पंडितजनोंने कहा है ॥ १८ ॥

अथ मण्डूकवटी ॥

च्यूपणं त्रिफलाया सह चित्रकं मेघचव्यसुरदारुमाक्षिकम् ॥ ग्रन्थिकं
च शिखिभृङ्गराजकं योजयेत्पलिकभागिकानिमान् ॥ १९ ॥ चूर्णिता
द्विगुणमेव योजयेत्लोहचूर्णमपि कज्जलप्रभम् ॥ अष्टभागसममूत्रकल्पि
तं पाचितं पुनरहो बलप्रदम् ॥ २० ॥ सेवयेद्वलमुपक्रमं तथा तत्र सं
युतभिहास्ति शोभनम् ॥ नाशयेच्च कफकामलान्कमीन्पाण्डुकुष्ठगुदजा
हलीमकम् ॥ २१ ॥

संठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, चीता, नागरमोथा, देवदारु, सोनामाखी, पीपलामूल, मेथी,
भंगरा, इन्होंको चार चार तोला प्रमाण लेवे ॥ १९ ॥ और इस चूर्णसे दूना २ भाग कज्ज-
लके समान वारीक लोहेका चूर्ण मिलावे इस सब चूर्णसे आठ ८ भाग गोमूत्रमें इसचूर्णको
पकावे फिर पकायाहुआ यह चूर्ण बलको देनेवाला है ॥ २० ॥ पांडुरोगमें बलके अनुसार
सेवन कियाहुआ यह चूर्ण उत्तम है और कफरोग, कामला, किमिरोग, पांडु, कुष्ठ, गुदाके
रोग, हलीमक, इन्होंको नाशता है ॥ २१ ॥

अथ वज्रमंडूकवटक ॥

पुनर्नवाव्योषत्रिवृत्सुराह्वयं निशाह्वयं चव्यफलत्रयं तथा ॥ घना यवा
तिक्तकरोहिणी समा द्विभागिकं लोहरजो विमिश्रयेत् ॥ २२ ॥ गवां प
यो वा द्विगुणं विद्योज्यं दाव्यां प्रलेपं प्रणिधाय धीमान् ॥ छायाविशु
ष्का गुटिका विधेया क्षौद्रेण मूत्रेण गवां च भक्षयेत् ॥ २३ ॥ ज्ञात्वा

वलं रोगवलं नरस्य पाण्डुमये कामलसर्वमेहे ॥ गुल्मोदराजीर्णविषूचि
कानां शोफातिसारग्रहणीविवन्धान् ॥ शूलक्रिमीनर्शविकारहेतोः ॥२४॥

सांठी, स्रुंठ, मिरच, पीपल, निशोत, देवदार, हलदी, चव्य, त्रिफला, नागरमोथा, इंद्रजव, कुटकी, इन्होंको समानभागले और दोभाग लोहेका चूर्णमिला ॥२२॥ फिर इस सबचूर्णसे दूना गौका दूधमें इसचूर्णको पकावे जब चलानेकी कडछीमें चपकने लगजावे तब उतार छायामें सुखा गोली बनालेवे फिर शहदके संग अथवा गोमूत्रके संग भक्षणकरै ॥ २३॥ मनुष्यके बलको और रोगके बलको जानके पांडुरोगमें कामलामें संपूर्ण प्रमेहरोगोंमें इसको भक्षण करै और गुल्मोदर, अजीर्ण, विषूचिका, शोफा, अतीसार, ग्रहणी, मलका बंधा, शूल, क्रिमिरोग, ववासीरके विकार, इन्होंको नाशता है ॥ २४ ॥

अथ दूसरा वज्रमंडूकवटक ॥

पञ्चकोलककटुत्रिकं घना देवदारुकमिशत्रुकोलकम् ॥ एष भागसहितो
वियोजितो मिश्रयेत्तदनु चायसं रजः ॥ २५ ॥ तत्र चाष्टगुणमूत्रम
ध्यतः पाचयेद्भवति यावदलेपिका ॥ कारयेद्वदरमात्रया पुनश्चाय
या पिषितञ्च विशोषणम् ॥ २६ ॥ कारयेत्सुरभिमथितेन च पानक
ञ्च शमयेत्सकामलम् ॥ पाण्डुमर्शमतिसारमन्दभुक् शोषमेहेगुदजान् क्रि
मीनपि ॥ २७ ॥

(पंचकोल) पीपल १ पीपलामूल २ चव्य ३ चीता ४ स्रुंठ ५ कटुत्रिक अर्थात् स्रुंठ, मि-
रच, पीपल, नागरमोथा, देवदार, वायविडंग, कंकोल, इन्होंको समानभागले मिलावे पीछे
इन्होंके समान लोहेका चूर्ण मिलावे ॥ २५ ॥ फिर सबचूर्णसे आठगुने गोमूत्रमें इसचूर्णको
पकावे जब पकजावे कडछीमें नहींचपके तबतक उतार छायामें सुखा फिर पीसलेवे ॥२६॥
पीछे गायके नौनीघृतमें इसका पन्ना बना सेवनकरनेसे कामला, पांडुरोग, ववासीर, अतीसार,
मंदासि, शोफ, प्रमेह, गुदाके कृमि इन्होंको नाशता है ॥ २७ ॥

अथ अमृतवटक ॥

धात्रीफलानां रसप्रस्थमेकं प्रस्थं तथा चक्षुरसं विदध्यात् ॥ प्रस्थं तु
कूपमाण्डरसप्रदिष्टमार्कं रसं प्रस्थाविमिश्रमेकम् ॥ २८ ॥ एकीकृतं म
न्दहुताशनेन पाच्यं भवेद्द्यापदशेषमेति ॥ विमिश्रयेदौषधसंघमेतत्पलै
कमात्रं विपचेच्च पश्चात् ॥ २९ ॥ शृङ्गी सुराह्नं शतपुष्पधान्यं सुगन्धशु

धुकं विशाला ॥ सपिप्पलीकं सकटुत्रयं च विडङ्गमुस्ता हृषुषाद
 श्रमाद् ॥ ३० ॥ भूरिहरिद्राकटुरोहिणीनां दुरालभापौष्करवत्सकानाम् ॥
 रतयानमोदासुरसादलानि चूर्णी त्वमीषां विनियोजनीयम् ॥ ३१ ॥ गुडं
 प्पमा च द्विगुणं तु मध्ये गोघृतेन वटिकां विबन्धयेत् ॥ अक्षणाज्जयति
 न्दञ्ज्वलाशंसं पाण्डुरोगमतिदारुणज्वरान् ॥ ३२ ॥ शोफशोषग्रहणीं वि
 श्रम, ॥ वातातिसारक्षयकासगुल्मान् ॥ ३३ ॥

अतिरमण्डलीका रस ६४ तोले और ईखका रस ६४ तोले कोहलाका रस ६४ तोले आक-
 करना ६४ तोले ॥ २८ ॥ इन्होंको एक जगह मिला मंद २ अग्निसे पकावे जब चतुर्थांश
 करदेत रहे तब इनआगे कहीहुई औषधोंको चार २ तोले प्रमाण मिलाके फिर पकावे ॥ २९ ॥
 नगरा, देवदार, सौंफ, धनियां, रोहिसवृण, स्रंठ, मुलहटी, इंद्रायण, पीपली, कटुत्रय अर्थात्
 स्रंठ, मिरच, पीपल, वायविडंग, नागरमोथा, हाव्वेर, ॥ ३० ॥ और दारुहलदी, कुटकी, ज-
 वासा, पोहकरमूल, कूडा, इन्होंके पत्ते इनसबोंको पहले कहेहुये प्रमाणके अनुसार ले चूर्ण बना
 मिलादेवै ॥ ३१ ॥ और इस चूर्णसे दूना पुराना गुड मिलावे फिर घृतमें गोली बांधलेवे इं-
 सके अक्षण करनेसे कामला, ववासीर, पांडुरोग, अतिदारुणज्वर ॥ ३२ ॥ शोफ, शोष,
 श्चग्रहणी इन रोगोंका नाश होता है और वातरोग अतिसार, क्षयी, खांसी, गुल्मरोग इन्होंको
 नाशता है ॥ ३३ ॥

अथ पांडुरोगका पथ्यापथ्य ॥

गोधूमशालियवषष्टिकमुद्रकानां श्यामाढकीघृतयुतं पयसा सतक्रम् ॥
 गाण्डीववास्तुकमथो शतपुष्पवर्त्तापिथ्यं हितं निगदितं मनुजस्य पाण्डौ
 ॥ ३४ ॥ जाङ्गलानि च मांसानि भोजने च प्रशस्यते ॥ ३५ ॥ तिक्ता
 चि रूक्षाणि च कटुकानि तीव्राणि दाहान्यपि काञ्चिकानि ॥ सुराम्ल
 सौवीरकवीजपूरान् तैलानि वर्ज्यानि च पाण्डुरोगे ॥ ३६ ॥ इत्यात्रेयभाषि
 ते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने पाण्डुरोगचिकित्सा नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

और गेहूं, शालीसंज्ञक चावल, जव, सांठी चावल, मूंग, शामक, अरहड इनअन्नोंको
 घृतके संग, अथवा धके संग अथवा तक्रके संग भोजन करना हित है और अर्जुनवृक्षके
 पत्ते, वथुवा, सौंफा, तर्ताकु इन्होंका शाक पांडुरोगवाले मनुष्यको हित है पथ्य है ॥ ३४ ॥
 जांगलदेशके जीवोंका मांस भोजनमें हित है ॥ ३५ ॥ और पांडुरोगमें, कडुप, रूक्षे, चर्चरे

दाहकरनेवाले ऐसे कांजीके भेद, मदिरा, खटाई, कांजी, विजौरा, तेल, इन पदार्थोंको व-
जिंदेवै ॥ ३६ ॥ इति वेरीनिवासिविषयसहायसूनुवैधरवित्तशास्त्रयनुवादितहार-
भाषायां तृतीयस्थाने पांडुरोगचिकित्सानाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

अथ क्षयरोगकी चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ शृणु च त्रिषग्वरिष्ठ ! व्याधिर्घोरो नराणां भवति वि-
हितचेष्टो वातलप्राणिनां वै ॥ चिरनिचयकरोऽयं प्राकृतैः कर्मपाकैरेह
परिभवकरो मानुषस्य क्षयोऽयम् ॥ १ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे वैद्योंमें उत्तम! यह क्षयरोग मनुष्योंके घोर व्याधि होता है ति-
सको सुन वातके स्वभाववाले प्राणियोंके यह रोग होता है चेष्टाको हत करदेता है और पूर्व
जन्मके कर्मविपाकसे नरकको करनेवाला है और इस संसारमें दुःखको करनेवाला है ॥ १ ॥

अथ क्षयरोगमें पापरूपी कारण ॥

देवानां प्रकरोति भङ्गमथवा भ्रूणस्य सन्तापनं गोपृथ्वीधरविप्रवालहनन
मारामविध्वंसनम् ॥ सोऽयं स्थानविनाशनं च कुरुते स्त्रीणां वधं चो न
रस्तस्यैतैर्गुरुकर्मभिः क्षयगदो देहार्थहारी महान् ॥ २ ॥ देवानां दहतो
धनं च दहतो भ्रूणप्रपातेऽपि च देवत्वं हरतो विषं च ददत आरामके नि-
घ्नतः ॥ तेनासौ नियमेन सम्भवति वै नृणां च तीव्रा रुजा धातूनां क्षय
कारिणी च अनुजस्यात्मापहा दारुणा ॥ ३ ॥ क्षयो दशविधश्चैव विज्ञा-
तव्यो त्रिषग्वरैः ॥ ४ ॥

जो पुरुष देवताओंकी मूर्तिको तोड़देता है और जीवको संतापदेता है गौ, राजा, ब्राह्मण,
बालक, इन्होंकी हत्या करता है, और बगीचाका विध्वंस करता है किसीके स्थानका विनाश
करता है और जो स्त्रियोंका वध करता है तिसके इनकर्मोंसे देहको नाशकरनेवाला महान्
क्षयरोग होता है ॥ २ ॥ जो पुरुष देवताओंको दग्धकरै किसीके धनको दग्धकरै और गर्भ-
को गिरावै देवताके द्रव्यको हरै, विषदेवै वाग बगीचेका नाशकरै इन विपरीतकर्मोंसे मनुष्य-
के अतितीव्र पीडाहोती है धातुओंको क्षय करनेवाली और आत्माको नाश करनेवाली दारु-
णक्षयव्याधि होजाती है ॥ ३ ॥ वैद्यजनोंने दशप्रकारका क्षयरोग जानना ॥ ४ ॥

अथ क्षयरोगके हेतु ॥

श्रमाद्वाभाराद्वाविषमशयनैर्दीर्घचलनैरजीर्णैर्भोज्याद्वा सुरतरतिसे वाप
रतया ॥ ज्वरेणातिक्रान्ताद्विषमशयनाच्छीतलतरैः क्षयं याति श्ले
ष्मा पवनमथ पित्तञ्च तनुषु ॥ ५ ॥ रोगाक्रान्ताद्विषमशयनात्तस्य म
न्दज्वराद्वा श्लेष्मपित्तञ्च मरुदथवा याति देहक्षयं वा ॥

श्रम, भार, विषमशयन, दीर्घमार्गमें गमनकरना, अजीर्णमें भोजन करना मैथुनमें
अतिरमण करना, ज्वरसे आक्रांतहोना, विषमशयन करना अतिशीतलपदार्थका सेवन
करना, इन्होंने कफ कोपको प्राप्तहोता है फिर शरीरमें वायुको और पित्तकोभी कुपित
करदेता है ॥ ५ ॥ और रोगसे आक्रांत होनेसे अथवा विषमशयनकरनेमें अथवा मंद
ज्वरसे यह क्षयरोग होजाता है और कफसे पित्तसे अथवा वायुसे इन तीनप्रकारोंसे देहमें
क्षयरोग होता है.

अथ क्षयरोगके प्रकार ॥

रसरक्तमांसमेदश्वास्थि मज्जा च शुक्रमिति सप्त ॥ एवं दशवि
धा ज्ञेयाः क्षया भवन्ति नृणां शरीरेषु ॥ ६ ॥ पुनरपि लक्षणमे
षां वक्ष्यते ते शृणु त्वम् ॥ ७ ॥

और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, इनसातधातुओंमें होता है ऐसे मनुष्योंके
शरीरमें दशप्रकारके क्षयरोग कहे हैं ॥ ६ ॥ अब फिरभी इन्होंने लक्षणोंको कहते हैं सुनो ॥ ७ ॥

अथ वातक्षयका निदान ॥

अतिस्वेदातिघर्मेण चिन्ताशोषभयादिना ॥

वाताद्यैः सेवितैश्चापि जायते मारुतक्षयः ॥ ८ ॥

अत्यंत पसीना, अति घाम, चिन्ता, शोष, भय इत्यादिकोंसे औ वायुको करनेवाले पदा-
र्थोंको सेवनेसे वायुसे उपजाहुआ क्षयरोग होता है ॥ ८ ॥

अथ वातक्षयका लक्षण ॥

तेन तन्द्राङ्गदाहश्च पिपासारुचिवेपथुः ॥

तमः कृमो भ्रमश्चैव भवेच्च मारुतक्षये ॥ ९ ॥

तिस्से तन्द्रा, अंगमें दाह, तृषा, अरुचि, कंपना, अंधेरी, ग्लानि, भ्रम, ये उपद्रव वातके
क्षयरोगमें होते हैं ॥ ९ ॥

वातक्षयमे सेव्यपदार्थ ॥

तस्मादनूपानि सेव्यानि रसानि पल्लानि च ॥

रसोनादिककल्कञ्च सेवयेद्वातनाशनम् ॥ १० ॥

तहां वातको नाशकरनेवाले रसं और अनूपदेशके मांसोंका सेवनकरै और लस्सनआदिक औषधोंका कल्कके सेवनेसेभी वातका नाश होता है ॥ १० ॥

अथ पित्तक्षयके हेतु ॥

पित्तक्षयेऽग्निमान्द्यं च जायतेऽरुचिजाड्यता ॥

कासहृत्तासशोफश्च जायते मन्दचेष्टता ॥ ११ ॥

पित्तके क्षयरोगमें मंदाग्नि, अरुचि, जडता, ये रोग होते हैं और खांसी, श्वास, थुकथुकी, शोफ, मंदचेष्टा, ये उपद्रव होते हैं ॥ ११ ॥

अथ पित्तक्षयकी चिकित्सा ॥

स्वेदाभ्यङ्गान्नपानानि दीपनानि प्रयोजयेत् ॥

जाङ्गलानि रसान्नानि सेवयेत्पित्तकक्षये ॥ १२ ॥

तहां स्वेद, मालिस, दीपन अर्थात् जठराग्निको दीप्तकरनेवाले अन्नपान, इन्होंको प्रयुक्त करै और पित्तसे उपजे क्षयरोगमें जांगलदेशके जीवोंके मांसका रस हित है ॥ १२ ॥

अथ कफक्षयका लक्षण ॥

व्यायामे च व्यवाये च रूक्षान्नाहारसेवनैः ॥

सन्तापक्रोधनैश्चैव जायते कफसम्भवः ॥ १३ ॥

और कसरत करना, मैथुन, रूपा अन्नका भोजन, संतापक्रोध, इन्होंके सेवनेसे कफका क्षयरोग बढ़ता है ॥ १३ ॥

अथ कफक्षयका लक्षण ॥

तेन दाहोऽथवा पाण्डुः शोफो निःश्वसनं भ्रमः ॥

विनिद्रता क्षुत्तृषा च स्त्रीसङ्गेनापि नन्दति ॥ १४ ॥

तिस्से दाह अथवा पांडुरोग, शोजा, श्वासरोग, भ्रम, निद्राका नाश, क्षुधा, स्त्रीसंगसे प्रसन्नता ये लक्षण होते हैं ॥ १४ ॥

अथ कफक्षयकी चिकित्सा ॥

तस्य शीतान्नपानानि कन्दशाकादिकै रसैः ॥

अनूपैर्दधिदुग्धैर्वा सेवनं न समीहितम् ॥ १५ ॥

तिसको शीतल अन्नपान, कंदशाकआदिकोंके रस, अनूपदेशके जीवोंका मांस दहीदूध, इन्होंका सेवन हित नहीं है ॥ १५ ॥

अथ त्रिदोषक्षयकी चिकित्सा ॥

त्रिभिर्दोषैः क्षयं प्राप्तेस्तदा हि मरणं ध्रुवम् ॥

तस्य क्रिया प्रयोक्तव्या साधारणा महामते ! ॥ १६ ॥

और जब त्रिदोषसे उपजाहुआ क्षयरोग होता है तब निश्चय मरण होजाता है हे हारी-
त ! महामते ! तिसकी साधारण चिकित्सा कही है ॥ १६ ॥

अथ धातु-रस-आदिसात ७ प्रकारके क्षयरोगके लक्षण ॥

अथ धातुक्षयं वक्ष्ये हारीत ! शृणु साम्प्रतम् ॥

रसरक्तमांसमेदाः प्रत्येकं क्षयलक्षणम् ॥ १७ ॥

हे हारीत ! अब धातुके क्षयरोगको कहते हैं सुन. रस, रक्त, मांस, मेद, इनसबोंके
एक २ के लक्षणको कहते हैं ॥ १७ ॥

अथ रसक्षयका लक्षण ॥

रसक्षयेऽतिशोषश्च मन्दाग्नित्वं च वेपथुः ॥ शिरोरुग्मन्दचेष्टत्वं जाय

ते च कृमभ्रमौ ॥ १८ ॥ रक्तक्षये क्षयः पाण्डुर्मन्दचेष्टो भवेन्द्ररः ॥ श्वासो

निष्ठीवनं शोषो मन्दाग्नित्वं च जायते ॥ १९ ॥

रसके क्षय होनेमें अत्यंत शोषहो, मंद अग्निहो, कंपनाहो, शिरमें पीडाहो, मंदचेष्टाहो, रुग्-
निहो, भ्रमहो ॥ १८ ॥ और रक्तक्षय होनेमें क्षयरोग होने तो पांडुरोग होजावे, मंदचेष्टा हो-
जावे, श्वासहो, थुकथुकीहो, शोषहो, मंदाग्निहो ॥ १९ ॥

मांसक्षयका लक्षण ॥

मांसक्षयेऽतिकशताचेष्टनं चाङ्गभङ्गता ॥

निद्रानाशोऽतिनिद्रास्य विसंज्ञो लघुविक्रमः ॥ २० ॥

मांसके क्षय होनेमें माडापनहो, चेष्टा नहींहो, अंगभंगहो, निद्राका नाशहो अथवा इसको
अत्यंत निद्रा आवे और संज्ञा नहीं रहै अल्पबल रहै ॥ २० ॥

अथ मेदःक्षयका लक्षण ॥

मेदःक्षये मन्दबलो विसंज्ञता चाङ्गभङ्गो गमनं परुषता ॥ श्वासा

निकासारुचिताग्निमान्द्यं विशोषस्तेन तनुशोषो जायते ॥ २१ ॥

न, इन्हेंके कायका जल हित है ॥ २७ ॥ और मिरचोंमें पकायाहुआ दूध रात्रीमें पीना हित है' तिससे रसोंकी वृद्धि होती है शीमही तिसके क्षयरोग छुटजाते है ॥ २८ ॥ और गेहूं, जव, शालीसंज्ञक चावल, जांगलदेशके जीवोंका मांस, ये वैद्यजनोंने श्रेष्ठ कहे हैं ॥ २९ ॥

अथ रक्तवृद्धिकारक औषध ॥

घृतदुग्धसिताक्षौद्रमरीचानि च पिप्पली ॥

पानं शस्तं मनुष्याणां रक्तवृद्धिकरं पशुम् ॥ ३० ॥

और घृत, दूध, मिसर, शहद, मिरच, इन्होंका पन्ना बना पीना हित है मनुष्योंके रक्तकी वृद्धि करनेवाला है ॥ ३० ॥

अथ मेदोवृद्धिकारक औषध ॥

आनूपानि च धान्यानि लघुनामानि कल्पयेत् ॥ कल्यांश्च घृतदुग्धादी
न्सेवयेन्मधुराणि च ॥ ३१ ॥ रसाश्च जाङ्गलानि स्युः सेवनार्थे भिषग्व
र ! ॥ ३२ ॥ सितोपलादिकं चूर्णमजाक्षीरं सकोलकम् ॥ हितं पानं क्ष
ये चैव कल्यमप्रातराशने ॥ ३३ ॥

अनूपदेशके जीवोंका मांस, हलकेअन्न, घृत, दूध, कल्पसंज्ञक मदिरा, मधुरपदार्थ. इन्हों-
का सेवन हित है ॥ ३१ ॥ और हे वैद्योंमें श्रेष्ठ ! जांगलदेशके जीवोंका रस सेवना हित है
॥ ३२ ॥ और सितोपला आदि चूर्ण, पीपलीसे संयुक्त कियाहुआ बकरीका दूध, पीना हित
है सायंकालमें भोजनके समय और कल्पकहिये प्रभातकालमें करै ॥ ३३ ॥

अथ अस्थिवृद्धिकारक औषध ॥

पक्वानि घृतशस्तानि क्षीराणि विविधानि च ॥ चन्दनानि च द्राक्षादिवू
र्णानि च भिषग्वर ! ॥ ३४ ॥ जाङ्गलानि च सर्वाणि सेवनीयानि पुत्र
क ! ॥ अन्नानि च मधुराणि सर्वाणि च प्रयोजयेत् ॥ ३५ ॥

पकेहुए घृत और अनेकप्रकारके दूध ये श्रेष्ठ हैं और हे उत्तमवैद्य ! चंदन, और द्राक्षा-
दिक चूर्ण हित हैं ॥ ३४ ॥ और हेपुत्र ! सबप्रकारके जांगलदेशके जीवोंके मांस सेवने हित हैं
और सबप्रकारके मीठे अन्न सेवने हित है ॥ ३५ ॥

अथ शुक्रवृद्धिकारक औषध ॥

शुक्रक्षये प्रपाकानि रसानि च विशेषतः ॥ नवनीतं तथा क्षीरं मधुराणि
च सेवयेत् ॥ ३६ ॥ कर्कटीमूलपयसा विदारीकन्दशाल्मली ॥ सिता.

द्वयपानं च हितं शस्यन्ते मधुराणि च ॥ ३७ ॥ शुक्रक्षयवृद्धिकरणमि
दानीं चूर्णानि वक्ष्यन्ते ॥ ३८ ॥

शुक्रके क्षयमें अच्छीतरह पकायेहुए रस देनें हित हैं और नौनीघृत दूध, मधुरपदार्थ, इन्होंका सेवनकरै ॥ ३६ ॥ और काकडीकी जड़, विदारीकंद, शालवन, इन्होंको दूधके संग मिसरी मिला पान करना हित है और मीठे पदार्थ हित है ॥ ३७ ॥ अब आगे वीर्यकी वृद्धिको करनेवाले चूर्णोंको कहै ॥ ३८ ॥

अथ बलादि चूर्ण ॥

बला विदारी लघुपञ्चमूली पञ्चैव क्षीरद्रुमत्वक् प्रयोज्या ॥ पुनर्नवामेघतु
गायुतं स्यात्सञ्जीवनीयैर्मधुकैः समांशैः ॥ ३९ ॥ अक्षप्रमाणानि समानि
तानि सर्वाणि चैतानि विचूर्णयित्वा ॥ विमिश्रयेत्तत्र कणाशतानि यवान्
गोधूमयवांश्च पिष्ट्वा ॥ ४० ॥ तुगासमांशं सिततण्डुलानां सेयं सुशुद्धार
कमिश्रितं तु ॥ प्राकर्णकाद्धेन विद्योजनीयं सर्वांशकेनापिसिता प्रयो
ज्या ॥ ४१ ॥ विभावयेच्चाभलकीरसेन वारत्रयं गोपयसा विभाव्य ॥
ततोऽस्य सर्वैश्च सशर्करैर्वा घृतेन चैवं पुनरेव भाव्यम् ॥ ४२ ॥ तं भक्षये
त्क्षौद्रयुतं पलाद्धं जीर्णं च भोज्यं कटुकाम्लवर्जम् ॥ क्षीरं घृतं वा सि
तशर्करां वा यवान्गोधूमकशालिभक्ष्यान् ॥ ४३ ॥ ज्ञात्वाग्निपाकं
जठरे नरस्य देयो विधिज्ञैः क्षयरोगशान्त्यै ॥ पथ्यक्षये श्रान्तचिराभिता
पसंपीडितानां च तथा शिरोऽर्त्तौ ॥ ४४ ॥ पित्तातुराणां रुधिरक्षयाणां
श्रमाध्वसंपीडितकामलानाम् ॥ श्वासातुराणां मधुमेहिनां च क्षीणेन्द्रिया
णां बलकारि शस्तम् ॥ ४५ ॥ गर्भो गृहीतश्च यया स्त्रिया च तस्याः
प्रशस्तं तु बलादिचूर्णम् ॥ ४६ ॥ इति बलादिचूर्णम् ॥

खरैहटी, विदारीकंद, लघुपंचमूल अर्थात् शालवन, पिठवन, कटेहली, बडीकटेहली, गो-
खरू, और पीपल, बड़, गूलर, पिलखन, आंव, इन पांचवृक्षोंकी छाल प्रयुक्त करनी चाहिये
और स्रंठ, नागरमोथा, वंशलोचन, और जीवनीआदिक गण औषध मुलहटी इनसर्वोंको
समानभाग ॥ ३९ ॥ एक २ तोला प्रमाणले फिर इनसर्वोंका चूर्ण बना तिसमें सौ १०० पी-
पली मिला और जव, गेहूं, जव ॥ ४० ॥ उच्चम सफेद चावल, इन्होंको वंशलोचनके समान
भागले पीसके मिलादेवै और पीछे कहीहुई प्रकरणकी सब औषधोंसे आधाभाग भंगरा और

इनसबोंके समान मिसरी मिला ॥ ४१ ॥ फिर इसचूर्णको आंवलेके रसमें भावनादे पीछे तीनवार गौके दूधमें भावनादे फिर इस सबचूर्णके समान खांड मिला फिर घृतमें भावनादे ॥ ४२ ॥ फिर २ तोला प्रमाण तिसचूर्णको शहदके संग खवै और यह चूर्ण जरजावे तब भोजनकरै और चर्चरा तथा खटा भोजन नहींकरै और दूध, घृत, सफेदखांड, जव, गेहूं, शालिसंज्ञकचावल इन्होंका भोजनकरै ॥ ४३ ॥ और मनुष्यके जठराग्निपाकको जानके विधिसे जाननेवाले वैद्योंने क्षयरोगकी शांतिकेवास्ते देना कहा है और मार्गमें क्षीणहुआ, हाराहुआ, बहुतकालसे संतापवाला इन्होंसे पीडितहृण पुरुषोंको और शिरकी पीडामें ॥ ४४ ॥ और पित्तसे आतुर, रंधर क्षयवाले, श्रम, मार्ग, इन्होंसे पीडित, कामलारोगवाले, श्वासवाले, मधुप्रमेहवाले, क्षीणइंद्रियवाले इन पुरुषोंको यह चूर्ण श्रेष्ठ कहा है ॥ ४५ ॥ और स स्त्रीके गर्भ ठहररहाहो तिसको यह बलादिचूर्ण श्रेष्ठ कहा है ॥ ४६ ॥

अथ च्यवनप्राशननामक अवलेह ॥

विल्वाम्निमन्थशोणाकाः काश्मरी पाटली तथा ॥ शालिपर्णी पृश्निपर्णी
श्वदंष्ट्रा बृहतीद्वयम् ॥ ४७ ॥ ऋद्धी शीता चामलकी जयन्ती पुष्कराह
यम् ॥ द्राक्षाभयान्मृता मेदा चन्दनागुरुपद्मकम् ॥ ४८ ॥ बलाहयास्तु क
र्णे द्वे जीवकऋषभाबुधौ ॥ काकोली क्षीरकाकोली विदार्याः कन्दमां
सकम् ॥ ४९ ॥ सर्वेषां पलिका मात्रा योजयेद्विषजां वरः ॥ धात्री
फलं पञ्चशतं सुपुष्करसंयुतम् ॥ ५० ॥ जलद्रोणे विपक्तव्यं चतुर्भागे
च शोषितम् ॥ तथा निर्वाप्य मतिमान् कलकानि समुद्धरेत् ॥ ५१ ॥
तत्कार्थं कल्कयेत्तावद्यावद्वर्षप्रलेपकः ॥ पुनस्तैलेन वाज्येन पक्त्वा चा
मलकीफलान् ॥ ५२ ॥ पाचिताशूर्णितान्सर्वान्समशकरयायुता
न् ॥ चतुष्पलातुगाक्षीरैर्योजयेद्विषजांवरः ॥ ५३ ॥ पिप्पली
नां सहस्रैकं त्वगेलापत्रकं तथा ॥ एषां द्विपलिकां मात्रां विदध्यात्तत्र
सत्तमः ॥ ५४ ॥ सर्वं प्राक्कथिते लेहे योजयेच्च विचूर्णितम् ॥ आद
रेण समं लिह्यान्नराणां च रसायनम् ॥ ५५ ॥ श्वासकासक्षयपाण्डुका
मलानां विशोषणम् ॥ क्षीणक्षतानां बालानां वृद्धानां देहरक्षणम्
॥ ५६ ॥ स्त्रभङ्गपिपासानां हृद्रोगे पित्तशोणितम् ॥ शुक्रदोषं शिरोरो
गं पीनसं चापकर्षति ॥ ५७ ॥ जीर्णज्वरञ्च मन्दाग्निं कुष्ठं दुष्टं भगन्दर

म ॥ मेहं कृच्छ्राशमरीं हन्ति तथा रोचनवारणम् ॥ ५८ ॥ हृद्रोगशूलमा
नाहं नाशयत्यविसंशयम् ॥ वन्ध्यानां पुत्रजननं वृद्धानामल्परेतसाम् ॥ ५९
षण्डोऽपि जायते चैव सदा ऋतुकरः परः ॥ मेधास्मृती तथा तेजो वृद्धं
यत्याशु निश्चितम् ॥ ६० ॥ सौख्यसौभाग्यदर्शी च वृद्धोऽपि तरुणाय
ते ॥ क्षयरोगविनाशाय कथितं चात्रिणा महत् ॥ ६१ ॥ च्यवनप्राशनं
नाम कृष्णात्रेयविभाषितम् ॥ ६२ ॥ इति च्यवनप्राशनं नामावलेहः ॥

बेलगिरी, अरणी, सोनापाठा, खंभारी, शालवन, पिठवन, गोखरू, छोटी कटेहली, बडी-
कटेहली ॥ ४७ ॥ ग्रांग, गंगेरन, भूमि आंवला, जयंती अर्थात् अरणीभेद, बडीअरणी, पोह-
करमूल, दाख, हरडें, गिलोय, मैदा, चंदन, अगर, पद्माक, ॥ ४८ ॥ खरैहटी, दोभाग दाल-
चीनी, जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीरकाकोली, विदारीकंद, ॥ ४९ ॥ इनसबोंको वैद्यजन
चार २ तोला प्रमाणलेवें और पकेहुए रसके आंवले पांचसौं लेवे ॥ ५० ॥ पीछे इनसब
औषधोंको एकहजार चौसठ १०६४ तोले जलमें पकावे फिर चतुर्थांश वाकी रहे तब बु-
द्धिमान् पुरुष तिन औषधोंको निकाल कल्कबना ॥ ५१ ॥ काथ बनावे फिर कडछी चपक-
नेमें लगे तब उतारै और तेलमें अथवा घृतमें तिन आंवलोंको पकावे ॥ ५२ ॥ पीछे पकाये
हुए तिस चूर्णमें बराबरकी खांड मिलावे और १६ सोलह तोले वंशलोचन मिलावै ॥ ५३ ॥
और उत्तम वैद्य इसीकहेहुए अवलेहमें हजारपीपली, दालचीनी ८ तोले, तेजपात ८ तोले
इन्होंका चूर्ण मिलादेवै ॥ ५४ ॥ पीछे यह लेह मनुष्योंको आदरसे चाटना चाहिये यह म-
नुष्योंको रसायन कहा है ॥ ५५ ॥ और श्वास, खांसी, पांडुरोग, कामला, इन रोगोंको ना-
शता है और क्षीणरोगसे क्षतहुए बालक, वृद्धजन, इन्होंके देहकी रक्षा करनेवाला है
॥ ५६ ॥ स्वरभंग, पिपासा, हृदयरोग, पित्तरक्त, शुक्रदोष, शिरोरोग, पीनस, इनरोगोंको दूर
करता है ॥ ५७ ॥ जीर्णज्वर, मंदाग्नि, दुष्टकुष्ठ, भगंदर, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, अरुचि, इन-
रोगोंको दूर करता है ॥ ५८ ॥ और हृदयरोग, शूल, अफारा, इन्होंको नाशता है इसमें
सिंदूर नहीं यह चूर्ण बंध्यास्त्रियोंको पुत्रको देनेवाला है और अल्पवीर्यवाले, वृद्ध, ॥ ५९ ॥
नर्पुंसक इन्होंके वीर्यको बढ़ानेवाला है और बुद्धि, स्मृति, तेज, इन्होंको शीघ्रही निश्चय ब-
ढाता है ॥ ६० ॥ इसके खानेसे वृद्धपुरुषभी सुख सौभाग्यको देखता है और जवानकीतरह
आचरण करता है यह महान् चूर्ण क्षयरोगोंके विनाशके वास्ते कृष्णात्रेयजी महाराजने
कहा है ॥ ६१ ॥ यह कृष्णात्रेयमुनिने च्यवनप्राशननामक अवलेह कहा है ॥ ६२ ॥

अथ अगस्तिहरीतकीपाक ॥

भाङ्गीपुष्करमूलचित्रककणामूलं गजाह्वा शठी शङ्खाह्वाद्दशमूलचित्रकव

लायासात्मगुतास्तथा ॥ एतेषां द्विपलांशकी त्रिषग्वर!प्रोक्ता च पञ्चाढ
के पथ्यानां शतकं विपाच्य बहुधा मन्दाग्निना संततम् ॥ ६३ ॥ निर्वा
प्य पुनरेव पूतसरसं चोद्धृत्य पथ्याशतं संशुष्यामातिशीतले सुभवनका
थः प्रशस्तः पुनः ॥ दत्त्वा जीर्णगुडस्य चैकतुल्या कुडवश्च क्षौद्रं घृतं
स्नेहस्यार्द्धमथाक्षकेण मगधा योज्यं शतं पञ्चकम् ॥ ६४ ॥ चूर्णं तत्र
निधापयेत्पुनरपि संघट्टयेदुच्चकं पथ्ये द्वे मधुना सह हितकृत्सर्वामय
च्छेदनः ॥ पाण्डुकासहलीमकगुदरुजो हृद्रोगहिक्काभ्रमान् हन्यात्पीन
समेहपित्तरक्तकुष्ठं च ग्रहण्यामयम् ॥ ६५ ॥ पुष्पं चैव तनोति शोफ
मरुचिगुल्मार्तिराजक्षयमेहानाहविबन्धरोगशमनं क्षीणेन्द्रियाणां हि
तम् ॥ मन्दाग्नेः प्रशमं करोति वडवातुल्योऽरुचिवन्धको नाशं वा विदधाति
देहसुरबदागस्तिप्रणीताभ्या ॥ ६६ ॥

भारंगी, पोहकरमूल, चीता, पीपलामूल, गजपीपली, कचूर, शंखपुष्पी, दशमूल, चीता,
खरैहटी, जवांसां, कौंच, इन्होंको आठ आठ तोला प्रमाण लेवे और सौ १०० हरडें लेवे
पीछे इन्होंको १२८० तोले जलमें मंद २ अग्निसे अच्छे प्रकारसे पकावे ॥ ६३ ॥ फिर
पकजावे तब पूर्णरसवाली पहले कहीहुई सौ १०० हरडोंको निकासलेवे और शीतलहुआ
काथमाहसे तिनहरडोंको निकास फिर ४०० चारसौ तोले पुराना गुड १६ तोले शहद और
१६ तोले अथवा ८ तोले घृत मिलावे और चतुरवैद्यको पांचसौ ५०० पीपली मिलानी
चाहिये ॥ ६४ ॥ इन सबऔषधोंका चूर्णको एकजगह कूटके मिलादेवे फिर शहदके संग
दोहरडें खानेसे सवरोगोंका नाशहोताहै. पांडुरोग, खांसी, हलीमक, गुदाका रोग, हृदयरोग,
हिचकी, भ्रम, इनरोगोंका नाश होता है और पीनस, प्रमेह, रक्तपित्त, कुष्ठ, संग्रहणी, इनरो-
गोंको नाशता है ॥ ६५ ॥ और स्त्रीके पुष्पको बढ़ाता है, शोजा, अरुचि, गुल्म, राजयक्ष्मा,
मूत्ररोग, आनाह, मलका बंधा इनरोगोंको नाशता है और क्षीणइंद्रियवालोंको यह हरीतकी-
पाक हित है और मन्दाग्निको शांत करता है और अरुचिरोगके नाशके वास्ते अग्निके समान
कहा है और अगस्तिऋषिसे कहाहुआ यह हरीतकीपाक देहको सुख देनेवाला है ॥ ६६ ॥

अथ बलाकाथ ॥

बलाह्वयं गोकुशुरको बृहत्स्यौ निष्काथ्य दुग्धेन कणासमेतम् ॥ पानं हितं
स्यान्मधुना सिताढ्यं विनाशनं कामलकं क्षयं वा ॥ मेहस्य तृष्णाशय-
नाशकारि क्षीणेन्द्रियाणां बलमातनोति ॥ ६७ ॥ करानेसे

और खैरहटी, गोखरू, छोटी कंटेहली, बड़ीकंटेहली, पीपली, इन्होंको दुग्धमें काथवना फिर शहद और मिसरी मिला पीना पथ्य है कामला, क्षयरोग, प्रमेह, तृषा, इनरोगोंका नाश होता है और क्षीणइंद्रियवाले पुरुषोंके बलको बढ़ानेवाला है ॥ ६७ ॥

अथ पिप्पलीवर्द्धमानम् ॥

पिप्पलीं वर्द्धमानं वा कारयेद्दुग्धसर्पिषा ॥ आद्यः पञ्च पुनः सप्त पुनरेव
नव क्रमात् ॥ ६८ ॥ एकादशस्रयोदशः पञ्चदशस्तथा सप्तदशः स्मृतः ॥
एकोनविंश एकविंशः पृथक्पृथग्यथाक्रमम् ॥ ६९ ॥ एवं क्रमेण वृद्धिः
स्यात्कारयेच्छतमात्रया ॥ ततः क्रमेण पुनः पश्चाद्यावच्छेषं च पञ्च
कम् ॥ ७० ॥ भोजयेत्पटिकान्नं तु मुद्गेन सर्पिषा युतम् ॥ एवं बालश्च वृ
द्धश्च नरो नागवलो भवेत् ॥ ७१ ॥ पिप्पली वर्द्धमाना तु ज्वरे जीर्णप्र
शस्यते ॥ मन्दाग्रौ पीतमेवाथ गुदजे वा तथा पुनः ॥ ७२ ॥ ॥ इति
पिप्पलीवर्द्धमानम् ॥

दुग्ध और घृतके संग पिप्पली वर्द्धमान बनाया जाता है जिसको कहते हैं क्रमसे पहले पांच फिर सात फिर नव पीपलीको दूधमें पका घृत मिला पानकरना चाहिये ॥ ६८ ॥ और पीछले दिन ग्यारह, फिर १३ पीछे १५ पीछे १७ पीछे १९ पीछे २१ ऐसे बढ़तीहुई ॥ ६९ ॥ ऐसे दिन २ प्रति दो बढ़तीहुई सौ पीपलीतक बढ़ानेनी चाहिये ॥ ६९ ॥ पीछे क्रमसे घटतीहुई जबतक पांच शेष रहें तबतक सेवनकरै ॥ ७० ॥ और इसपै सांठी चावलोंको मूग और घृतके संग भोजन करै बालक अथवा वृद्धजन इसप्रकार इसका पान करताहुआ हस्तीके समान पराक्रमवाला होजाता है ॥ ७१ ॥ और यह पीपली वर्द्धमान जीर्णज्वरमें श्रेष्ठ कहा है और मंदाग्रिमें तथा गुदाके रोगमें पीना हित है ॥ ७२ ॥

अथ शिलाजतुचूर्ण ॥

द्वे पले मार्कवं धातु माक्षिकं च पुनर्नवा ॥ तुगा पृक्का शालिपर्णी वास
कं च दुरालभा ॥ ७३ ॥ चूर्णाद्धैन समं योज्यं त्रिगन्धं मरिचानि च ॥
तालीसं मगधा चैव तदद्धैन शिलोद्भवम् ॥ ७४ ॥ शिलाभेदं तदद्धैन स
र्वं चैकत्र मिश्रयेत् ॥ समेन तिलचूर्णं तु शर्करायाः समायुतम् ॥ ७५ ॥
भक्षयेत्क्षीरपानं वा शस्यते घृतसंयुतम् ॥ तेन क्षयो राजयक्ष्मा कामला
भन्विनश्यति ॥ ७६ ॥ अपस्मारो जयत्याशु बलवीर्याधिको भवेत् ॥

शाम्यन्ति च महारोगाः शुक्राढ्यो जायते नरः ॥ ७७ ॥ ॥ इति शि
लाजतुचूर्णम् ॥

भंगरा ५ तोले, सोनामांसी ५ तोले, सांठी ५ तोले, वंशलोचन ५ तोले, पृष्ठासंज्ञकवृ-
क्षकी छाल ८ तोले, वांसा, ८ तोले शालवण ८ तोले, जवासा ८ तोले ॥ ७३ ॥
और ४ तोले विगंध, अर्थात् इलायची, दालचीनी, तेजपात, मिरच ४ तोले और तालीसपत्र;
पीपली, शिलाजीत ये दोदो तोले ॥ ७४ ॥ पापाणभेद १ तोला ऐसे इन औषधोंको मिला
चूर्ण बनालेवे और इसचूर्णके समान तिलोंका चूर्ण और खांड मिलावे ॥ ७५ ॥ पीछे इसचूर्ण-
को घृतके संग भोजन करै अथवा इसके ऊपर दूधको पीवे इसचूर्णसे क्षयीका रोग, राजय-
क्ष्मा, कामला इनरोगोंका नाश होता है ॥ ७६ ॥ और मृगीरोगको शीघ्रही दूर करता है वल,
वीर्य, इन्हेंको बढ़ाता है और महारोग शांत होजाते हैं और इसके खानेसे मनुष्यवीर्यसे युक्त
होजाता है ॥ ७७ ॥

अथ जीवंत्यादिघृत ॥

जीवन्तिकावत्सकयष्टिकानांसपौष्करं गोक्षुरकं वले द्वे ॥ नीलोत्पलं चा
मलकी यवासं सत्रायमाणा मगधा च कुष्ठम् ॥ ७८ ॥ द्राक्षामलक्या
रसप्रस्थमेकं प्रस्थद्वयं लागलकं पयश्च ॥ प्रस्थं दधिषु पचेद्धृतं वह्नि
वातं पाने प्रशस्तमेव भोज्ये ॥ ७९ ॥ नस्ये च वस्तावपि योजयेत्तं
विनाशमेत्याशु च राजयक्ष्मा ॥ हलीमकः कामलपाण्डुरोगो मूर्च्छा भ्र
मः कम्पशिरोऽर्क्षिशूलम् ॥ ८० ॥ महाश्मरी वा गुदकीलकुष्ठं शिरोगतो
नाशमुपैति रोगः ॥ तस्य प्रदानेन विद्योजितेन पानेन पाण्डुमयराजय
क्ष्मा ॥ ८१ ॥ नाशं शमं याति हलीमको वा वस्तिप्रदानेन गुदोद्भवाश्च ॥
रोगो विनाशं समुपैति पुंसां विसर्पविस्फोटकप्रोक्षणेन ॥ ८२ ॥

गिलोय, कूडाकी छाल, मुलहटी, पोहकरमूल, गोखरू, छोटीकटेहली, बड़ीकटेहली, नी-
लाकमल, भूमिआंवला, जवांसा, त्रायमाण, पीपली, कूट, ॥ ७८ ॥ दाख, इन्हेंको समान-
भागले फिर आंवलोंका रस ६४ तोले बकरी दूध १२८ तोले, दही ६४ तोले, घृत ६४
तोले इन्हेंमें मिला अग्निसे पकावे यह घृत पानमें और भोजनमें हित कहा है ॥ ७९ ॥ और
नस्यमें तथा वस्तिकर्ममेंभी युक्त करना हित कहा है और राजयक्ष्मा, हलीमक, कामला,
पांडुरोग, मूर्च्छा, भ्रम, कंपरोग, शिरकी पीडा, शूल इनरोगोंको नाशता है ॥ ८० ॥ महाप-
थरी, गुदकील, कुष्ठ, शिरका रोग इन्हेंका नाश होता है और इस घृतका पान करानेसे

पांडुरोग, राजयक्ष्मा, ॥ ८१ ॥ हलीमक, इनरोगोंका नाश होता है और इस घृतको वस्तिकर्ममें वर्चनेसे गुदाके रोग दूर होते हैं और इस घृतके मोक्षण अर्थात् शरीरपै छिडकनेसे विसर्प, विस्फोटक, इनरोगोंका नाश होता है ॥ ८२ ॥

अथ पिप्पलीआदि घृत ॥

कणा पलाशः पञ्चगुणं पयश्च आयं घृतं वै विपचेत्समांशम् ॥ पा

नेऽथवा भोजनके प्रशस्तं देयं च राजक्षयनाशहेतोः ॥ ८३ ॥

पीपली, केशू, इन्होंको समानभागले इन्होंसे पांचगुना दूधमें इन औषधोंके समानभाग गौके घृतको और इन औषधोंको पकावे यह घृत पानमें और भोजनमें श्रेष्ठ है और राजयक्ष्मा, क्षयरोग, इन्होंका नाश करता है ॥ ८३ ॥

अथ पंचकोलआदि घृत ॥

पञ्चकोलं यवायञ्च क्षीरं दध्ना घृतं पुनः ॥ समांशेन तु योज्यानि भार्ग्वी
कुष्ठं तु पौष्करम् ॥ ८४ ॥ शतं तत्र हरीतक्या जले चैव चतुर्गुणे ॥ का
थं चैकत्रयं योज्यं काथयेन्मृदुवह्निना ॥ ८५ ॥ मृदुपाकं घृतं सिद्धं पा
ने नस्ये च वस्तिषु ॥ गुणाधिक्यं भवेन्मृणां पाण्डुरोगे हलीमके ॥ ८६ ॥
राजयक्ष्मणि क्षये चैव शस्तं चोक्तं भिषग्वर ! ॥ ८७ ॥

पंचकोल अर्थात् पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, स्रंठ, जवाखार, दूध, दही, घृत, भारंगी, कूठ, पोहकरमूल ॥ ८४ ॥ इनसबोंको समानभागले और सौ १०० हरद्वैले फिर इन औषधोंसे चौगुनेजलमें मंदरअग्निसे काथ बनावे मंदरअग्निसे पकायाहुआ ॥ ८५ ॥ यह घृत पानमें, नस्यमें, और वस्तिकर्ममें युक्त करना श्रेष्ठ है और पांडुरोग, हलीमक ॥ ८६ ॥ इनरोगोंमें मनुष्योंके अधिक गुण करनेवाला है और हेउत्तमवैद्य ! राजयक्ष्मारोगमें यह घृत श्रेष्ठ है ॥ ८७ ॥

अथ पाराशर घृत ॥

यष्टी वला गुडूची च पञ्चमूलं समांशकम् ॥ काथेन सदृशं धात्रीरसं
चैक्षुरसं तथा ॥ ८८ ॥ विदार्याश्च रसं चैव घृतञ्च समभागिकम् ॥
क्षीरं दधिसमं चात्र नवनीतं तु तत्समम् ॥ ८९ ॥ द्राक्षातालीससंयुक्तं
यथालाभेन योजयेत् ॥ सिद्धं घृतं च पानाय नस्ये वस्तौ प्रदापयेत् ॥

॥९०॥ जयति राजयक्ष्माणं पाण्डुरोगं सुदारुणम् ॥ हलीमकं चार्शं सं
च रक्तपित्तनिवारणम् ॥९१॥ लेपेन दुष्टवैसर्पपित्तदग्धव्रणापहम् ॥९२॥

मुलहटी, खरैहटी, गिलोय, पंचमूल, इन्होंको समानभागले काथ बनावे और काथके समान आंवलाका रस, और ईखका रस ॥ ८८ ॥ और विदारीकंदका रस मिलावे इन औषधोंके समानभाग घृत और दूध, दही, नौनीघृत इनसबोंको समानभागले ॥ ८९ ॥ और दाख, तालीसपत्र इन्होंको अनुमानमुवाफिक मिला फिर इस घृतको सिद्धकरि पानमें और नस्यमें वस्तिकर्ममें देना श्रेष्ठ है ॥ ९० ॥ और राजयक्ष्मा, पांडुरोग, हलीमक, ववासीर, रक्तपित्त, इन्होंका नाशहोता है ॥ ९१ ॥ और इसघृतका लेप करनेसे दुष्टवैसर्पेण, पित्त-रोग, दग्ध, व्रण, इन्होंका नाशहोता है ॥ ९२ ॥

अथ बलाआदि घृत ॥

बला श्वदंष्ट्रा बृहतीद्वयं च पर्णीद्वयं गोक्षुरकं स्थिरा च ॥ पटोलनिम्ब
स्य दलानि मुस्तं सत्रायमाणा च दुरालभा च ॥ ९३ ॥ कृत्वा कषा
यं च यदावशेषं पूतीकृतेचूर्णइदं प्रयुज्यात् ॥ द्राक्षा शठी पुष्करमूल
धात्री तमालकी दुग्धसमं कषायम् ॥ ९४ ॥ सर्पिःप्रयुक्तं नवनीतकं
च सर्पिसदृद्धेन नियोजनीयम् ॥ सिद्धं घृतं पानमथैव बरतौ नस्ये तथाभ्य
जनभोजनेन ॥ ९५ ॥ जघन्यकासक्षयकामलानां राजक्षये क्षीणबले
न्द्रियाणाम् ॥ क्षतेषु शोफेषु व्रणेषु शस्तं शिरोऽर्त्तिपाश्वर्त्तिगुदामयम् ॥ ९६

खरैहटी, गोखरू, छोटी कटेहली, बड़ी कटेहली, माषपर्णी, मूंगपर्णी, गोखरू, शालपर्णी परवल, नींबूके पत्ते, नागरमोथा, त्रायमाण, जवासा ॥ ९३ ॥ इन्होंका काथ बना जब चतुर्थीश वाकीरहै तब उतारि बख्खाहके छानि पीछे दाख, कचूर, पोहकरमूल, आंवला, भूमि-आवला, इन्होंका चूर्ण मिलावे और इस काथके समान दूधमिला ॥ ९४ ॥ और नूनीघृत नूनीघृतसे आधा और घृत मिला पीछे इसघृतको तिस काथमें पकावे फिर यह घृत पीनेमें वस्तिकर्ममें नस्यमें मालिसमें भोजनमें वर्त्तना श्रेष्ठ कहा है ॥ ९५ ॥ अत्यंत खांसी, क्षयरोग, कामला, राजयक्ष्मा, इनरोगोंको नाशता है और क्षीणइंद्रियोंवाले तथा क्षीणबलवाले पुरुषोंको हित कहा है क्षतरोग, शोजा, व्रण, शिरकी पीडा, पशलीपीडा, गुदाका रोग इन्होंका नाश करता है इस जगह गोखरू दोवार लिखा है सो दोभागलेना इसीतरह अन्यजगहभी जानलेना ॥ ९६ ॥

अथ चंदनादि तेल ॥

चन्दनं सरलं दारु यष्ट्येला वालकं शठी ॥ नलशैलेयकं पृक्का पद्मकं
वनकेसरम् ॥ ९७ ॥ कङ्कोलकं मुरामांसी शैरियं द्विहरीतकी ॥ रेणुका
त्वक्कुङ्कुमश्च सारिवे द्वे तिक्तांगुरुः ॥ ९८ ॥ नलिकावले तथा द्राक्षा
कषायं सुपरिस्रुतम् ॥ तैलमस्तु तथा लाजा रसेन समभागिकम् ॥ ९९ ॥
मन्दाग्निना पचेत्तैलं सिद्धं पाने च वस्तुषु ॥ नस्ये चाभ्यञ्जने चैव यो
जयेत्तं भिषग्वरः ॥ १०० ॥ हन्ति पाण्डुक्षयं कासं ग्रहघ्नं बलवर्णं
कृत् ॥ मन्दज्वरमपस्मारकुष्ठपामाहरं पुनः ॥ १०१ ॥ करोति बलपुष्टयो
जो मेधाप्रज्ञायुर्वर्द्धनम् ॥ रूपसौभाग्यदं प्रोक्तं सर्वभूतयशस्करम् ॥ १०२ ॥

चंदन, सरल, देवदार, मूलहटी, नेत्रवाला, कचूर, नड, शिलाजीत, पृक्का संज्ञकवृक्ष, पद्माक,
वनकेशर, ॥ ९७ ॥ कंकोल, मुरामांसी, लोघान, दोनोंप्रकारकी हरद्वै, रेणुका, दालचीनी,
केशर, दोनों प्रकारकी सारिवा अनंतमूल, कुटकी, अगर ॥ ९८ ॥ नाडीशाक, खरहटी, दा-
ख, इन्होंका काथ वनावे और पीछे तिसकाथमें तेल, दहीका मस्तु, धानकी खीलोंका रस,
इन्होंको समान भागले मिलावे ॥ ९९ ॥ इसतेलको मंद २ अग्निसे पकावे सिद्ध कियाहुआ
यह घृत वैद्यजनको पीनेमें, वस्तिकर्ममें नस्यमें तथा मालिसमें वरताना चाहिये ॥ १०० ॥ यह
घृत पांडुरोग, क्षयरोग, खांसी, ग्रहदोष, इन्होंको नाशता है और बल, वर्ण इन्होंको करता
है मंदज्वर, अपस्मार, कुष्ठ, पामा, इनरोगोंको नाशता है ॥ १०१ ॥ और बल, पुष्टि, पराक्रम,
मेधा, बुद्धि वायु, इन्होंको बढ़ाता है रूपसौभाग्य इन्होंको करता है संपूर्ण भूतपीडाको दूर
करता है ॥ १०२ ॥

अथ राजयक्ष्मारोगका निदान ॥

त्वामिभार्य्याभिगमने गुरुपत्न्यभिलाषणात् ॥ राजस्वहेमचौर्य्याद्वा रा
जयक्ष्मा भवेद्भद्रः ॥ १०३ ॥ अथवा दुष्टरोगेण जायते शृणु पुत्रक ! ॥
चतुर्भिर्हेतुभिर्यक्ष्मा जायते शृणु साम्प्रतम् ॥ १०४ ॥ व्यायामयानसु
रतागतिपीडिताङ्गुरोगेण वा व्रणनिपीडितक्षीणदेहात् ॥ क्रोधातिशोकान
शानादिभयोपवासैः संजायते च मनुजस्य महागदोऽयम् ॥ १०५ ॥ वा
र्थं भवति हननोत्पात

बन्धेन युद्धात् ॥ दूराध्मानात्कदशनवशाच्चिन्तयातिव्यवायात्सम्भूतिः
स्यान्मनुजवलहद्राजयक्ष्मेतिसंज्ञः ॥ १०६ ॥

स्वामीकी स्त्रीसे संग करनेसे और गुरुकी स्त्रीकी अभिलाषा करनेसे राजाका द्रव्य और सुवर्णकी चोरी करनेसे राजयक्ष्मा रोग होता है ॥ १०३ ॥ अथवा दुष्टरोगसे होता है सो हे पुत्र ! चारहेतुओंकरके यह राजयक्ष्मा रोग होता है सो सुन ॥ १०४ ॥ कसरत, अस-वारी, मैथुन, गमन, इन्होंने पीडित अंग होनेसे रोगसे व्रणसे पीडित होनेसे क्षीण देह होनेसे क्रोध, अतिशोक, लंघन करना, भय, व्रत, इन्होंने मनुष्यके यह महान् रोग होता है ॥ १०५ ॥ निरंतर धनुष्यके खीचनेसे बुढापा होजाता है तिससे और अत्यंत भार उठानेसे चोर आदिके उत्पातसे युद्धसे दूरसे अग्निको धमानेसे बुरा भोजन करनेसे चिंता करनेसे अतिमैथु-नसे मनुष्यके धलको हरनेवाला राजयक्ष्मासंज्ञकरोग होजाता है ॥ १०६ ॥

अथ राजयक्ष्माके लक्षण ॥

क्षतक्षयाच्छ्रमाद्वापि सहसोपप्लवाद्पि ॥ व्यवायातिप्रसङ्गेन तथा रूक्षा
तिसेवनात् ॥ १०७ ॥ तेन संक्षीयते गात्रं ज्वरो मन्दश्च जायते ॥ ज्वरा
न्ते जायते शोफो मलविट् चातिमूत्रता ॥ १०८ ॥ अतिसारश्च भवति
भक्षणोनातिशेषते ॥ कासते ष्ठीवतेऽत्यर्थं शोषश्च कुरुते भृशम् ॥ १०९ ॥
स्त्रियोऽभिलाषतात्यर्थं वार्त्त्याद्विषता पुनः ॥ राजयक्ष्मेति विज्ञेयो गदः
साध्यो न विद्यते ॥ ११० ॥ सुप्तौ पादौ भवेतां तु ग्रासश्च बहु मन्यते ॥
शब्दे च पट्टता यस्य राजयक्ष्मा न जीर्यति ॥ १११ ॥

और उरःक्षतसे, क्षयहोनेसे अथवा श्रमसे एकवार जोरसे कूदनेसे अत्यंत स्त्रीसंग करनेसे रूपा भोजनके सेवनेसे ॥ १०७ ॥ शरीर क्षीण होजाता है और मंदज्वर होजाता है और ज्वर-के अंतमें शोफा होजाता है और विषा मूत्र अत्यंत उतरता है ॥ १०८ ॥ और अतिसार होता है भोजन कियाहुआ जरता नहीं है अत्यंत खांसता है और अत्यंत थूकता है बहुत-सा शोष होजाता है ॥ १०९ ॥ स्त्रीकी अभिलाषा अत्यंत रहती है और वार्त्ता नहीं सुनी जा-ती है ऐसा यह राजयक्ष्मा रोग कहाता है यह साध्य नहीं कहा है ॥ ११० ॥ जिसके पैर-शून्य होजावें और एकग्रास भोजनकोभी बहुत माने और जिसकी बोली नम्रहो ऐसे पुरुषका राजयक्ष्मा रोग शांत नहीं होता है ॥ १११ ॥

अथ राजयक्ष्माका इलाज ॥

यदन्तं यत्समाहारं यादृशं प्रतियाचते ॥ तत्तस्य च प्रदातव्यं मधुरं घ

नमेव च ॥ ११२ ॥ यद्यदाहारमिच्छेद्वा नरं वा राजयक्षिमणम् ॥ त
स्य तस्यास्य लाभेन क्षीयन्ते तस्य धातवः ॥ ११३ ॥ यदा सरक्ताः शो
फाः स्युः पाकतां याति मानवो॥तदा पुनर्नवाक्काथः सलेशः प्रविधीयते ११४

और जो अन्न अथवा जो पदार्थ राजयक्ष्मारोगवालेको देवे वही उसको मधुर और क-
रडा देना चाहिये ॥ ११२ ॥ और राजयक्ष्मारोगवालेको जिस २ भोजनकी इच्छा होती है
उसी २ भोजनसे इसकी धातु क्षीण होती है ॥ ११३ ॥ जो यदि राजयक्ष्मारोगवाले पुरुषके
रक्तसहित शोजा होवे और पकजावे तो सांठीका काथ किंचित्मान देना चाहिये ॥ ११४ ॥

अथ राजयक्ष्मावालेकी आयुष्यमर्घादा ॥

सर्त्रीवेच्चतुरो मासान्घण्मासं वा बलाधिकः ॥ उत्कृष्टैश्च प्रतीकारैः स
हस्राहं तु जीवति ॥ ११५ ॥ सहस्रात्परतो नास्ति जीवितं राजयक्षिम
णः ॥ गतप्राणौजोवीर्यश्च क्षीणश्च विकलेन्द्रियः ॥ ११६ ॥ न भवे
त्पुनरुच्छ्रायो याप्यरोगश्च मुञ्चति ॥ यस्तदायाससम्पन्नो भूयोऽपि कास
ना भवेत् ॥ ११७ ॥ तस्य प्राणापहारी स्याद्राजयक्ष्मा निदारुणः ॥ त्रि
भिर्मासैश्च षण्मासैर्वर्षैश्चापि त्रिभिः पुनः ॥ ११८ ॥

राजयक्ष्मारोगवाला पुरुष चारमहीनोंतक जीवता है और बल अधिकहोवे तो छहही-
नोंतक जीवता है और अत्यंतइलाज होतैरहैं तो हजारदिनोंतक जीवता है ॥ ११५ ॥
राजयक्ष्मारोगवाले पुरुषका जीवना हजारदिनोंसे उपरांत नहीं होता है और प्राण, बल वीर्य
इन्होंने हीनहोजाता है क्षीण होजाता है इंद्रियविकल होजाती है ॥ ११६ ॥ और जो रोग
फिर नहीं बढ़ता है वह याप्यरोग छुटजाता है और जो तिसरोगके परिश्रमसे युक्तहुआ
फिर खांसीसे युक्त होजाता है ॥ ११७ ॥ तिसपुरुषका तीनमहीनोंमें अथवा छहमहीनोंमें
प्राणोंका नाश होता है ॥ ११८ ॥

अथ अमृतप्राशनघृत ॥

शतमूलीरसे प्रस्थं गुडूचीकल्कप्रस्थकम् ॥ हरीतकीशतानां च कुट
जस्य त्वचा तुलाम् ॥ ११९ ॥ निष्काथ्य च पृथक्त्वेन पूतनाञ्चैकत्र
मिश्रयेत् ॥ दावीप्रलेपनं कृत्वा गुडानां शतपञ्चकम् ॥ १२० ॥ सिता चा
मलकीचूर्णं त्वगेला चित्रकं शठी ॥ द्राक्षा कुष्ठं शिलाजिच्च शिलाभेद
स्तु तालकम् ॥ १२१ ॥ योज्यं तत्राक्षमानेन भक्षयेच्छुद्धसर्पिषा ॥

तस्योपरि पिवेत्क्षीरं भोजनञ्च ततः परम् ॥ १२२ ॥ राजयक्ष्मी लभे
त्सौख्यं पाण्डुकामलकाञ्जयेत् ॥ अतीसारं विनश्यति बले नागबलो
भवेत् ॥ १२३ ॥

शतावरीका रस ६४ तोले गिलोयका कल्क ६४ तोले, बडी सौ १०० हरडोंकी छाल
और कूडाकी छाल ४०० तोले ॥ ११९ ॥ इन्होंका जुदा २ काढा बना फिर छानिके एकज-
गह मिलावे पीछे अग्निपे पकावे जब कडछीके चपकनें लगजावे तब ५०० पानसौ मुनका
दाख ॥ १२० ॥ मिसरी, आंबलाका चूर्ण, दालचीनी, इलायची, चीता, कचूर, दाख, कूट शिला-
जीत, शिलाभेद, हरताल ॥ १२१ ॥ इन्होंको एक २ तोला प्रमाण गैरे पीछे इसको अच्छे
घृतके संग खावे इसके ऊपर दूध पीवे पीछे भोजनकरै ॥ १२२ ॥ इसके खानेसे राजयक्ष्मारो-
गवाला पुरुष सुखको प्राप्त होताहै और पांडुरोग, कामला अतीसार इन्होंका नाश होता है
हस्तीके समान बल होजाता है ॥ १२३ ॥

अथ तालकाम्नातक ॥

तालकं च शिलाभेदस्तथा चैव शिलाजतुः ॥ क्षीरके द्वे समङ्गा च कु
ष्ठं नागबला बला ॥ १२४ ॥ एलापत्रकतालीसं तमालं हरिचन्दनम् ॥
मुस्ता द्राक्षा च रास्ना च मुण्डी शैलेयकं पुरः ॥ १२५ ॥ सुरसा चैव संयो
ज्या तिलाः कृष्णा द्विजागिकाः ॥ चूर्णं सूक्ष्मं प्रयुञ्जीत गुडेन मधुना
युतम् ॥ १२६ ॥ पश्चाद्भोक्षीरपानं स्यात्क्षीरेण सह भोजनम् ॥ राज
यक्ष्मादिभिः क्षीणा ग्रहणीपीडिताश्च ये ॥ १२७ ॥ धातुक्षीणबला ये
च तेषां संयोजयेद्भृशम् ॥ दृढोपि तरुणो भूत्वा नरो नार्थ्याभिनन्दति
॥ १२८ ॥ बन्ध्यापि लभते पुत्रं षण्डोऽपि पुरुषायते ॥ तालकाम्नातकं नाम
कृष्णात्रे यविभाषितम् ॥ १२९ ॥

हरताल, पाषाणभेद, शिलाजीत, काकोली, क्षीरकाकोली, मंजीठ, कूट, बडीखरैहटी, खरै-
हटी, ॥ १२४ ॥ इलायची, तेजपात, तालीसपत्र, तमालपत्र, लालचंदन, नागरमोथा, दाख, रा-
स्ना, गोरखमुंडी, लोवान, गूगल, ॥ १२५ ॥ तुलसी, और कालेतिल, दो भाग, इन्होंका सूक्ष्म
चूर्ण बना विसमें गुड और शहद मिला भक्षण करे ॥ १२६ ॥ और पीछे गौका दूधको
पीवे और दूधके संगही भोजन करै, जो पुरुष राजयक्ष्माआदि रोगोंसे पीडित है और जो
ग्रहणी रोगसे पीडित है ॥ १२७ ॥ और धातुक्षीणरोगवाले इन्होंको यह चूर्ण देना चाहिये

और इसके खानेसे वृद्धपुरुषभी जवान होके स्त्रीके संग रमण करता है ॥ १२८ ॥ बंध्या स्त्री पुत्रको प्राप्त होजाती है और नपुंसकभी पुरुषकी तरह आचरण करता है यह तालका व्रातकनामवाला औषध कृष्णात्रेयजीने कहा है ॥ १२९ ॥

अथं गुडूच्यादिचूर्णं ॥

गुडूची च बले द्वे च धात्री च मरिचानि च ॥

चूर्णं गुडेन संयुक्तं राजयक्ष्मापहं नृणाम् ॥ १३० ॥

और गिलोय दोनों प्रकारकी खरैहटी, आंवला, मिरच, इन्होंका चूर्ण गुडमें मिला खानेसे राजयक्ष्मारोगका नाश होता है ॥ १३० ॥

अथ क्षयरोगपर पथ्यापथ्य ॥

शालिपटिकगोधूमवास्तुकं जाङ्गलानि च ॥ मुद्गांश्च गोपयश्चैव शशकैण
कुरङ्गिणाम् ॥ १३१ ॥ तित्तिरक्रौञ्चलावानां वार्त्ताकपिच्छकच्छागला
नां हि ॥ कथितानि मांसादीनि प्रलेपकानि जगति च ॥ १३२ ॥
विभोजयेत्क्षीरसर्पिः क्षये वा राजयक्ष्मिणः ॥ क्षाराम्लकटुकं तीक्ष्णं
तैलं सौवीरकं सुरा ॥ राजिकावर्जिताश्चैते क्षये वा राजयक्ष्मिणः ॥ १३३ ॥
इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने क्षयरोगचिकित्सा नाम
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

और शालीसंज्ञक तथा सांठीचावल, गेहूं, वथुवाका शाक, जांगलदेशके जीर्वाका मांस, मूंग, गौका दूध, और शूसा, कालाहिरन, हिरन ॥ १३१ ॥ तीतर, कूंजि, लावा, वत्तक, मोर, वकरा, इन्होंका मांस, इनसवोंका भोजन करना श्रेष्ठ कहा है ॥ १३२ ॥ और राजयक्ष्मा रोगमें तथा क्षयरोगमें दूध और घृतका भोजन करना श्रेष्ठ कहा है और स्वार्ता, खट्टा, चर्चरा, तीक्ष्ण, ऐसा पदार्थ, तेल, कांजी, मदिरा राई ये क्षयमें तथा राजयक्ष्मा रोगमें वर्ज्य देने चाहिये ॥ १३३ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्नुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने क्षयरोगचिकित्सानाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

अथ दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

। त्वथ रक्तपित्तका निदान और चिकित्सा ॥
अतिघर्मवक्रम् ॥ १ नीक्ष्णोष्णकटुसेवनात् ॥ क्षाराम्

पानादिसेवनात् ॥ १ ॥ अतिव्यवायाच्छीतेन शुष्कशाकादिसेवनात् ॥
 एतैस्तु कुपितं पित्तं रक्तेन सह मूर्च्छितम् ॥ २ ॥ पुत्रस्तु संशयापन्नः
 प्रच्छ पितरं पुनः ॥ ३ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—अत्यंत घामसे और तीक्ष्ण तथा गरमवस्तुके सेवनेसे और खारा खटा पदार्थके सेवनेसे तथा मदिराके सेवनेसे ॥ १ ॥ अत्यंत मैथुनके सेवनेसे, शीतलपदार्थके सेवनेसे कुपितहुआ पित्तरक्तके संग मूर्च्छाको प्राप्तहोजाता है ॥ २ ॥ ऐसे सुन संशयमें युक्तहुआ हारीत आत्रेयजीसे पूछता है ॥ ३ ॥

हारीत उवाच ॥ कथं पित्तं प्रकुपितं केन वापि प्रचाल्यते ॥ तद्वद्व
 क्तं प्रकुपितं जायते केन हेतुना ॥ ४ ॥ युगपद्दृश्यते केन कथं वापि
 प्रवर्त्तते ॥ एवं पृष्टो महाचार्य्यः प्रोवाच मुनिपुङ्गवः ॥ ५ ॥

हारीत कहते हैं— पित्त कैसे कुपित होता है और किससे चलायमान होता है और तै-
 से रक्तका कोप किस कारणसे होता है ॥ ४ ॥ एकवार किसहेतुसे दीखते है और कैसे प्रवृत्त
 होते है ऐसे पूछेहुए महाचार्य उत्तममुनि कहते भये ॥ ५ ॥

आत्रेय उवाच ॥ शृणु प्राज्ञ ! महातेजश्चिकित्सागमपारग ! ॥ येनैव
 कुप्यते पित्तं तेनैव कुप्यते तथा ॥ ६ ॥ तावत्प्रकुपिते कोष्ठे वायुर्दा
 रयते भृशम् ॥ ऊर्ध्वं च नयते प्राणश्चापानोऽपानमीरति ॥ ७ ॥ मध्ये
 समानः कुरुते रक्तपित्तस्य कोपनम् ॥ एवं युगपपित्तञ्च रक्तेन सह कु
 प्यति ॥ ८ ॥ चतुर्द्धा दृश्यते कोपो गतिश्चास्य द्विधा मता ॥ ऊर्ध्वश्ले
 ष्मणि संसृष्टं नासास्ये कर्णरन्ध्रयोः ॥ ९ ॥ रक्तं प्रवर्त्तते यस्य साध्या
 स्तु विजिगीषुणा ॥ अधोयातेन संसृष्टं गुदेनापि प्रवर्त्तते ॥ १० ॥ स
 ज्ञेयो रक्तपित्तस्तु कृच्छ्रेण सिद्धिमिच्छति ॥ उभाभ्यामधऊर्ध्वाभ्यां वात
 श्लेष्मणि वर्त्तते ॥ ११ ॥ तमसाध्यं विजानीयात्कृच्छ्रेण यदि सिध्यति
 ॥ १२ ॥ एकमार्गवलयो वा नात्रिवेगेन चोत्थितः ॥ रक्तपित्तः सुखेनापि
 साध्यः स्यान्निरुपद्रवः ॥ १३ ॥ एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उ
 च्यते ॥ असाध्यस्तु त्रिदोषेषु रक्तपित्तः प्रवर्त्तते ॥ १४ ॥ ऊर्ध्वगरक्तपित्तेषु
 विरैकं कारयेत्सुधीः ॥ अधोभागगते रक्ते तदास्य वमनं हितम् ॥ १५ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे प्राज्ञ! महातेजवाला! वैद्यकशास्त्रके पारको जाननेवाला! तू सुन जिसकारणसे पित्त कुपित होता है तिसीकारणसे रक्त कुपित होता है ॥ ६ ॥ पहले कोष्ठस्थानमें पित्त कुपितहोके वायुको अत्यंत फाड़देता है प्राण वायु ऊपरको प्राप्त होजाता है और अपानवायु गुदाके स्थानमें कुपित होजाता है ॥ ७ ॥ और मध्यनाभिमें स्थितहुआ समान वायु रक्तपित्तको कोपकरदेता है इसीतरह एकहीवार पित्त रक्तके संग कुपित होजाता है ॥ ८ ॥ रक्तपित्तका कोप चारप्रकारसे दीखता है और इसकी गति दोप्रकारकी कही है जिसके कफ ऊर्ध्वभागमें प्राप्तहो और नासिकाके आगे तथा कानोंके छिद्रोंमें ॥ ९ ॥ रक्त प्रवृत्त होजावे वह साध्य कहा है. और जिसके अधोमार्गमें रक्तकोप होजाता है उसके गुदाके द्वारा रक्त निकसता है ॥ १० ॥ वह रक्तपित्त कष्टसाध्य कहा है और जो ऊर्ध्वमार्गमें प्राप्तहो अथवा अधोमार्गमें प्राप्तहो और वात कफ अधिक वर्तते हों ॥ ११ ॥ वह असाध्य जानना अथवा कष्टसे सिद्ध होता है ॥ १२ ॥ एक मार्गसे उठाहुआ अथवा नाभिके देशसे उठाहुआ रक्त पित्त साध्य है और उपद्रवोंसे रहित है ॥ १३ ॥ और एकदोपसे उत्पन्नहुआ साध्य होता है दोदोपोंसे उत्पन्नहुआ याप्यरोग होता है और तीनदोपोंसे उत्पन्न हुआ रक्तपित्त असाध्य कहाता है ॥ १४ ॥ और जब रक्तपित्त ऊर्ध्वभागमें प्राप्तहोवे तब जुलाव दिवावे और जब रक्त अधोभागमें स्थितहो तब वमन कराना चाहिये ॥ १५ ॥

अथ रक्तपित्तके उपद्रव ॥

रोगक्षीणे छविरविकले हीनदौर्वल्यकाये मन्दाग्निर्वा क्षवथुरथवा पाण्डु
ता दाहशोषः ॥ नृणा छर्दिः श्वसनमधृतिर्भक्तविद्वेषमोहो हृत्पीडा स्या
द्भ्रममथ भवेद्रक्तपित्तोपसर्गात् ॥ १६ ॥ अष्टादश इते प्रोक्ता रक्तपित्त
उपद्रवाः ॥ उपद्रवैर्विना साध्योऽसाध्यः सोपद्रवस्तथा ॥ १७ ॥ रक्तनिष्ठी
वनोपेतो रक्तनेत्रो भ्रमातुरः ॥ रक्तमूत्रश्च वमते रक्तमूत्री न जीवति ॥ १८ ॥

रोगसे क्षीण होजावे और कांतिसे रहित होजावे, शरीर हीन होजावे और दुर्बल होजावे, मंद अग्नि होजावे, छीकहो, पांडुरोगहो, दाहहो, शोषहो, तृपाहो, छर्दिहो, श्वासहो, धीरज नहीं रहै, भोजनसे वैर रहै, मोह रहै, हृदयमें पीडा रहै भ्रमहो, ऐसे ये ॥ १६ ॥ अठारह रक्तपित्तके उपद्रव कहे हैं उपद्रवोंसे रहित रक्तपित्त रोग साध्य कहा है और उपद्रवोंसे संयुक्त रक्तपित्त असाध्य कहा है ॥ १७ ॥ और रक्तके थूकनेसे युक्तहो रक्तनेत्रहो भ्रमसे आतुरहो और रक्तमूत्रवाला पुरुष वमन करता है, वह जीवता नहीं है ॥ १८ ॥

अथ रक्तपित्तका लक्षण ॥

एवं प्रोक्तो निदानार्थस्ततो वक्ष्यामि भेषजम् ॥ सुलक्षणसमायुक्तं रक्तपि

त्तंसुरावहम् ॥ १९ ॥ यस्वारुणं पवनफेनयुतं च तावत्पित्ताति
कृष्णमथ पीतकुसुम्भकाजम् ॥ पित्तेन पित्तमिति तं प्रवदन्ति धीराः सा
न्द्रं सपाण्डु रतिजं सघनं कफेन ॥ २० ॥

इस प्रकार निदान तो कह दिया है अब औषध कहेंगे सुंदरलक्षणोंसे युक्त रक्तपित्त
सुखसाध्य कहा है ॥ १९ ॥ जो ज्ञागों सहित थूकै वह वातसे उपजा रक्तपित्त जानना और
पित्त अधिक होवे तो काला और कसुंभाके डहलके समान थूकै, तिसको पित्तसे उपजा र-
क्तपित्त कहते है और कफसे होवे तो करडा और पीला सफेद चिकना ऐसा थूकै ॥ २० ॥

अथ रक्तपित्तकी चिकित्सा ॥

क्षीणमांसं कृशं दृढं बालं वा ज्वरपीडितम् ॥

शोषमूर्च्छाभ्रमापन्नमतिरेचनमाचरेत् ॥ २१ ॥

क्षीणमांसवाला, कृश, दृढ, बालक, ज्वरसे पीडित शोष, मूर्च्छा भ्रम, इन्होंसे पीडित
पुरुषको जुलाव दिवावे ॥ २१ ॥

अथ ऊर्ध्वरक्तका उपाय ॥

निष्पीड्य वासारसमाददीत क्षौद्रेण खण्डेन युतं च पानम् ॥ ना

सास्यकर्णे नयनप्रवृत्तं रक्तं तु शीघ्रं शमतां प्रयान्ति ॥ २२ ॥

अथवा वांसाके पचोंका रसको निचोर्ड तिसमें शूहद और खांड मिला पीना चाहिये तिस्से
नासिका, मुख कान इन्होंमें प्रवृत्तहुआ रक्त शीघ्रही शांत होजाता है ॥ २२ ॥

अथ वासादि काथ ॥

वासाकषायोत्पलमृत्प्रियङ्गुरोघ्राञ्जनाम्भोरुहकेसराणि ॥ पीत्वा

समध्वा ससिता प्रयोज्या पित्ताश्रयं चैवमुदीर्णमाशु ॥ २३ ॥

और वांसाका काथ, कमलकी जडकी मांटी, मालकांगनी, लोह, कालासहौंजना, कमल-
केशर, इन्होंमें शहद और मिसरी मिला पीनेसे रक्तपित्त शांत होता है ॥ २३ ॥

अथ निवकाथ अथवा अडूसाका काथ ॥

प्रविद्यमानं पिचुवासकेन कथं नरः सीदति रक्तपित्ते ॥ क्षये

च कासे श्वसनेऽपि यक्ष्मे वैद्याः कथं नातुरमादरन्ति ॥ २४ ॥

अथवा नींव और वांसाका काथ देनेसे रक्तपित्तवाला मनुष्य दुःख नहीं पाता है और

क्षयरोग, खांसी, श्वास, राजयक्ष्मा, इनरोगोंमें भी वेद्यजनोंको यही काथ देना चाहिये ॥२४॥

अथ वासाकी प्रशंसा ॥

भिषग्भिषजां माता या पुरा कृत्यक्रिया यदि ॥ क्रियायत्ते रक्तपित्ते क्ष
ये कासे च सिद्धिदा ॥२५॥ वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य
च ॥ रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीदति ॥ २६ ॥

जो यह पहले कहीहुई चिकित्सा है यह सबवैद्योंकी माता है रक्तपित्तमें क्षयरोगमें खां-
सीमें यह चिकित्सा सिद्धिको देनेवाली है ॥ २५ ॥ जबतक वांसा औषध है तबतक इस रो-
गवालेकी जीवनेकी आसा है सो रक्तपित्तरोगवाला और क्षयरोगवाला तथा खांसीवाला
पुरुष किसवास्ते दुःख पाता है ॥ २६ ॥

अथ तालीसचूर्ण ॥

तालीसचूर्णं वृषपत्ररसेन युक्तं पेयं समारभ्य पुनः कफपित्तकासे ॥

हन्ति भ्रमं श्वसनकासतासङ्करोत्थं भङ्गस्वरे त्वरितमाशु सुखं ददाति २७

और कफपित्तसे उपजीहुई खांसीमें वांसाके पत्तोंका रसमें तालीसपत्रका चूर्ण मिला पीना
चाहिये, भ्रम, श्वास, खांसी, इन्होंसे उत्पन्नहुआ भ्रम, स्वरभंग, इनरोगोंमें शीमही सुखहोता है

अथ अडूसाका काथ और कल्क ॥

आटरूपकमृद्धीकापथ्याकाथः, सशर्करः ॥ क्षौद्राढ्यः श्वसनकासरक्त

पित्तनिवारणः ॥ २८ ॥ लामं पयो वा सुरभीपयो वा चतुर्गुणश्चापि ज

लेन कल्कः ॥ सशर्करं पानमिदं प्रशस्तं सरक्तपित्तं विनिहन्ति चाशु २९।

और वांसा, मुनकादाख इन्होंका काथमें खांड मिला और शहद मिलादेनेसे श्वास, खांसी,
रक्तपित्त इन्होंका निवारण होता है ॥ २८॥ और बकरीका दूध अथवा गौका दूध और चौ-
गुना जल इन्होंमें वांसाका कल्कमिला सिद्धकर फिर खांडके संग इसका पीना श्रेष्ठ है यह
रक्तपित्तको नाशता है ॥ २९॥

बलाश्वदंष्ट्रामलकीफलानि द्राक्षा मधुकं मधुयष्टिकानाम् ॥ सिद्धं पयः

पानमिदं हितं स्यात्पित्ते सरक्ते मनुजस्य शान्त्यै ॥ ३० ॥ खदिरस्य

प्रियङ्गूनां कोविदारस्य शाल्मलेः ॥ पुष्पं चूर्णं तु मधुना लिह्यादरोगम

स्तु ते ॥ ३१ ॥ आटरूपकरसेन सप्तधा भाविता च पुनरेव शोपिता ॥

विप्पलीमधुसमन्विताभया रक्तपित्तमतिदुर्जयं जयेत् ॥ ३२ ॥ एलाफ
लानि सपद्मकनागकेशरं द्राक्षा घना मधुकपिप्पलिका समांशा ॥ एषां
समांशसितशर्करयुक्तलेहःखर्जूरिका समभिहन्ति च रक्तपित्तम् ॥ ३३ ॥
दाहं ज्वरान्ति श्वसनं च विमोहत्तृष्णां मूर्च्छां निहन्ति रुधिरवमि
जित्तथैव ॥ ३४ ॥

और खैरहटी, गोखरू, आंवला, दाख, महुआवृक्षकी छाल, मुलहटी, इन्हेंको दूधमें मि-
ला पकाके पीनेसे रक्तपित्तकी शांति होती है ॥ ३० ॥ और खैर, मालकांगनी, शालवन,
इन्हेंके पुष्पोंका चूर्ण शहदके संग चाटनेसे इसरोगसे छुटजाता है ॥ ३१ ॥ पीपली और
हरदके सातदिनतक वांसाका रसमें भावनादे फिर खुवाके शहदमें युक्तकर खानेसे अत्यंत
दुर्जय रक्तपित्तका नाश होता है ॥ ३२ ॥ इलायची, पद्माक, नागकेशर, दाख रुद्रजटा,
मुलहटी, पीपली, इन्हेंको समानभागले और इनसबोंके समान मिसरी मिला फिर लेह बना
लेवे इसके खानेसे शरीरकी खाज, रक्तपित्त ॥ ३३ ॥ दाह, ज्वरकी पीडा, श्वास, मोह,
तृषा, मूर्च्छा, वमन इन्हेंका नाश होता है ॥ ३४ ॥

अथ नासाप्रवृत्तरुधिरचिकित्सा ॥

ब्राणे प्रवृत्तं रुधिरं यदि स्यात्तदा घृतेनामलकीफलानि ॥

तोयेन स्पृष्ट्वा शिरसि प्रलेपः सरक्तपित्तं सहसा रुणद्धि ॥ ३५ ॥

जो नासिकामें रुधिर प्रवृत्त होजावे तो घृत और जलमें आंवलोंको पीस शिरसे लेप
करना चाहिये यह रक्तपित्तकी शीघ्रही दूर करता है ॥ ३५ ॥

द्राक्षारसं वा घृतशर्कराढ्यं जलं सिताढ्यं च सरक्तपित्तं ॥

यवान्न चैवैक्षुरसं सिताढ्यं क्षयं च कासं क्षतजं निहन्ति ॥ ३६ ॥

और दाखोंका रसमें घृत और खांड मिला देनेसे और मिसरी जलके संग पीनेसे रक्तपित्त
दूर होता है और जवका अन्न मिसरीके संग खानेसे क्षय क्षतरोगसे उत्पन्नहुई खांसी इन्हों-
का नाश होता है ॥ ३६ ॥

अथ हरितालिकादिनस्य ॥

नस्यं विदध्याद्धरितालिकाया रसेन बालक्तरसेन वापि ॥

स्याद्वाडिमस्य प्रसवोद्भवेन रसेन नस्यं रुधिरस्रुतेऽपि ॥ ३७ ॥

और कानमें रक्त प्राप्त होजावे तब आलके रसमें अथवा अनारके रसमें हरताल मिला
तिसकी नस्य बनाके देनी चाहिये ॥ ३७ ॥

ह परिपीतं दाडिमस्य प्रसूतम् ॥ मलयजसितकुष्ठं पद्मकं चैव वालं म
धु मधुकवालकौ कोद्रवौ द्वौ समन्तात् ॥ ४३ ॥ समसुरभिपयो वा धा
वनं तण्डुलानां परिकलितसमग्रं तुर्घ्यभागेन योज्यम् ॥ लघुतरमपि व
ह्नौ धावितं सिद्धमेव भवति वदनवृत्ते लोहिते पानमस्य ॥ ४४ ॥ श्रुति
पथमपि रक्ते वा प्रवृत्ते तु नासं विहितमपि तदा स्यात्पूरणं कर्ण
नासे ॥ रुधिरमग्निरुणद्धि श्वासमाशु क्षतं वा श्वसितरुधिरच्छर्दि
मेहमुन्मादरोगम् ॥ ४५ ॥ नासाप्रवृत्ते नस्यं स्यान्मुखे पानं विधे
यकम् ॥ कर्णेनेत्रे पूरणं च गुदमार्गे निरूहणम् ॥ ४६ ॥ दा
डिमफलत्वचं वा चूर्णं लिह्यात्सितायुतम् ॥ पद्मकिञ्जल्कचूर्णं वा लि
ह्याद्वा सितया पुनः ॥ ४७ ॥ मुखप्रवृत्तरुधिरं रुणद्ध्याशु वामिं क्लमम् ॥
श्वासशोषौ भ्रमं तृष्णां नाशयत्याशु निश्चयः ॥ ४८ ॥ जम्ब्वाम्नपल्ल
वानि स्युर्हरीतक्या युतानि तु ॥ मधुशर्करया युक्तमास्यलोहितवारण
म् ॥ ४९ ॥ वटप्रवालार्जुनवृक्षकदम्बजम्ब्वाम्नकाणां खदिरस्य वापि ॥
यथाप्रपन्नो मधुनावलेह आस्थास्रजं वारयते क्षणेन ॥ ५० ॥

जो यदि मनुष्यके मुखमें रुधिर प्रवृत्त होजावे तब उसकी विधिको कहते हैं मनुष्योंके
रुधिरका विकार सुखसाध्य नहीं है और तैसही जवान स्त्रीकी योनिमेंभी प्रवृत्त हुआ वहता
हुआ रुधिर असाध्य कहा है ॥ ४२ ॥ और शहद, मुलहटी, रत्न, कमलकेशर, दूब, अना-
रदाना इन्होंका रस पीना श्रेष्ठ कहा है और चंदन, कूट, पद्मास्र, नेत्रवाला, शहद, मुलहटी,
नेत्रवाला, दोनों प्रकारके कोद्रु धान्य ॥ ४३ ॥ गौका दूध इन्होंको समान भागले और
चतुर्थांश चावलोंका धोवनका पानी लेवे फिर इन औषधोंका कल्क बना तिसमें मिला मंद २
अग्निसे पकावे पीले मुखमें प्रवृत्तहुए रुधिरमें इसका पीना श्रेष्ठ है ॥ ४४ ॥ और कानमें
प्रवृत्तहुआ रुधिरमें अथवा नासिकामें प्रवृत्तहुए रुधिरमें कानमें तथा नासिकामें इसको पूरण
करै यह रुधिरको शीघ्रही नाशता है और श्वास, चोट, श्वासमें प्रवृत्तहुआ रुधिर, प्रमेह,
उन्माद, इनरोगोंका नाश होता है ॥ ४५ ॥ जो नासिकामें रुधिर प्रवृत्त होजावे तो नस्य देनी
चाहिये मुखमें प्रवृत्तहोवे तो पीना चाहिये और कानमें तथा नासिकामें प्रवृत्तहोवे तो पूरण
करै गुदामें प्रवृत्तहो तो निरूहवस्ति देनी चाहिये ॥ ४६ ॥ अथवा अनारके फलकी छाम्के-
चूर्णको मिसरीमें युक्तकर भक्षण करना चाहिये तथा कमलकेशरके चूर्णको मिरुकरकी तरह
भक्षणकरै ॥ ४७ ॥ इस्से मुखमें प्रवृत्तहुआ रुधिर और वमन, ग्लानि इन्होंका दृक्षतक्षय, दृगी-

इसका पीना मनुष्योंको तथा स्त्रियोंको भी हित है और रक्तरोगको नाशता है और पित्तसे प्राप्तहुआ गुदाका रक्त और लिंग, रोम इन्होंमे प्राप्तहुआ रक्त, इन्होंका नाश होता है ॥५३॥ यह द्राक्षाआदिनामक घृत रक्तपित्तमें और ज्वरमें हित है और वातरक्त, योनिशूल, भ्रम, मद्, शिरोरोग, उन्माद, रक्तप्रमोह, पित्ताम्ल, अतिकुष्ठरोग, क्षयी, क्षतरक्त, राजयक्ष्मा, पांडुरोग, इन सवरोगोंको नाशता है और अत्रिक्रमिसे कहाहुआ यह घृत पानमें तथा वस्ति-कर्ममें मनुष्योंको हित कहा है ॥ ५४ ॥

अथ कूष्मांडावलेह ॥

छलिं निष्कष्य कूष्माण्डखण्डानि प्रतिकल्पयेत् ॥ काञ्जिकेनाशु धौ
तानि पुनरेव जलेन तु ॥ ५५॥ पश्चात्क्षीररसप्रस्थे कल्कयेत्पुनरेव च ॥
घृतेन पुनरेवैतत्पाचयेत्सुविधानतः ॥ ५६ ॥ यदा मधुनिभानि स्युस्तदा
शर्करया सह ॥ निधाय तत्र चेमानि भेषजानि प्रकल्पयेत् ॥ ५७॥ पि
प्पलीशूङ्गवेराभ्यां द्वे पले मरिचानि च ॥ जीरके द्वे तथा धात्री त्वगेला
पत्रकं तथा ॥ ५८ ॥ पलाद्धेन वियुञ्जीयाच्चूर्णं तत्र विनिक्षिपेत् ॥ दा
व्यां विदधयेत्तावत्लेहीभूतं यदा भवेत् ॥ ५९ ॥ तदा मधुघृतेनापि
लिङ्गाज्जात्वा बलावलम् ॥ रक्तपित्तं क्षयं कासं कामलं नैमिकं भ्रम
म् ॥ ६० ॥ छर्दितृष्णाज्वरश्वासपाण्डुरोगान् क्षतक्षयम् ॥ अपस्मारं शि
रोत्तिष्ठ योनिशूलं च दारुणम् ॥ ६१ ॥ चिरं योनौ रक्तवाहं मन्दज्वर
निपीडनम् ॥ वृद्धोऽपि च युवा कामी बन्ध्या भवति पुत्रिणी ॥ ६२ ॥
अवीर्यो वीर्यमामोति भवेत्स्त्रीणां प्रियो नरः ॥ एष कूष्माण्डको ले
हः सर्वरोगनिवारणः ॥ ६३ ॥

कोहलेको छील तिसको टुकडे बनाके कांजीसे धोवै पीछे जलसे धोवै ॥ ५५ ॥ फिर
तिसका कल्क बना ६४ तोले दूध मिला पीछे ६४ तोले घृत मिला अच्छे विधानसे
पकालेवे ॥ ५६ ॥ जब वे कोहलाके टुकडे शहदके समान वर्णवाले होजावे तब खांड मिला
इन आगे कहीहुई औषधोंको मिलावे ॥ ५७ ॥ पीपल, अदरक, मिरच ये आठ आठ
तोले और दोनोंजीरे, दालचीनी, इलायची, तेजपात ॥ ५८ ॥ ये दो २ तोला मिला चूर्ण
बनाके गैरे फिर कडछीसे चलावे जब लेह बनजावे ॥ ५९ ॥ तब बलावलको विचार शहद
और घृतके संग इसको खावे यह अवलेह रक्तपित्त, क्षयी, खांसी, कामला, चक्रकी तरह
भ्रम इनरोगोंको नाशता है ॥ ६० ॥ और छर्दि, तृषा, ज्वर, श्वास, पांडुरोग, क्षतक्षय, भ्रगी-

रोगः शिरकी पीडा, दारुण योनिशूल ॥ ६१ ॥ और बहुतसा बहताहुआ योनिकारक, मंज्वरकी पीडा, इन्होंका नाश होता है और वृद्धपुरुषभी जवान और कामी होता है वंध्या स्त्री पुत्रवाली होजाती है ॥ ६२ ॥ और जिसके वीर्य नहीं हो वह वीर्यवाला होजाता है और स्त्रियोंको मिय होता है यह कूष्माण्डकावलेह संपूर्णरोगोंको निवारण करता है ॥ ६३ ॥

अथ अन्यकूष्माण्डका अवलेह ॥

सुस्निग्धकूष्माण्डकरवण्डकानि पलानि पञ्चाशदथो सितायाः ॥ यु
ञ्ज्यात्सतोयं प्रणिधाय धीमान् घृतेन प्रस्थं परिपक्वमेव ॥ ६४ ॥
विज्ञाय पक्वं पुनरेव तत्र वासाकषायश्च विमिश्रयेच्च ॥ पश्चात्पचेद्यावत्तु
दर्वीलेपो ज्ञात्वा तु चेमानि पुनर्वियुञ्ज्यात् ॥ ६५ ॥ धात्री घना च
भाङ्गी च सुगन्धत्रयं च युञ्ज्यात्समस्तानि तानि कर्षमात्रम् ॥ तस्मात्पु
नर्नवा च नागरधोन्यकानि एषां पलस्य तुलिता कथितानुमात्रा ॥ ६६ ॥
श्यामापलाष्टकमिदं विदधीत चूर्णं संघट्टयेत्सकलमेव पुनस्तु दर्व्या ॥
युञ्ज्यात्समं मधुयुतं सकलामयमं कासं ज्वरं क्षतजमाशु निहन्ति हिक्काम्
॥ ६७ ॥ हृद्रोगपित्तरुधिरं क्षयपीनसं च पित्ताम्लकं विजयते श्वसनं
च सूच्छाम् ॥ स्त्रीणां हितं भवति बालकवृद्धकेषु श्रेष्ठं समस्तरुजना
शबलप्रदं च ॥ ६८ ॥

अच्छे सुंदर कोहलाके चिकने २ टुकड़े बना फिर तिसमें २०० तोले मिसरी मिलावे पीछे
तिसमें जल मिला और ६४ तोले घृत मिला तिसको पकावे ॥ ६४ ॥ जब पकजावे तब उतारि
तिसमें वांसाका काथ मिलाके फिर पकावे जब कडछीके त्रपकने लगजावे तब इनऔषधोंको
गेरै ॥ ६५ ॥ आंवला, रुद्रजटा, भारंगी, सुगंधत्रय, दालचीनी, तेजपात, इलायची, इन्हों
को एक २ तोलाप्रमाण लेवे सांठी, सेंठ, धनियां, इन्होंको चार २ तोले गेरै और निशोतका
चूर्ण ३२ तोले मिलावे पीछे इनसबोंको मिला ॥ ६६ ॥ कडछीसे चाटै फिर इसको बरा-
बरके शहदमें मिलाके खावे यह अवलेह, खांसी, ज्वर, क्षतरोग, हिचकी ॥ ६७ ॥ हृदयरोग,
पित्तरक्त, क्षयी, पीनस, पित्ताम्ल श्वास, सूच्छां, इनरोगोंको नाशता है और स्त्री बालक
वृद्ध, इन्होंको श्रेष्ठ है बलको देनेवाला है ॥ ६८ ॥

अथ खंडकाथरसायन ॥

शतावरी मुण्डितिकामृता च फलात्वक् च पुष्करमूलभाङ्गी ॥ दृशो बृ

हत्या खदिरं च मांशली पृथक् पृथक् पञ्चपलैकमात्रया ॥ ६९ ॥ उत्तार्य
 पक्वं जलमाशु पश्चाद्यावद्भवेच्छेषमथैव पूतम् ॥ विमूर्च्छितं तत्र निधाय
 धीमान्पलं तथा द्वादशमाक्षिकस्य ॥ ७० ॥ तथाशु चूर्णस्य च लो
 हकस्य विघटितं खण्डघृतेन तुल्यम् ॥ देयं पलं षोडशकं विधिज्ञो
 विपाचयेत्सोहमये च पात्रे ॥ ७१ ॥ गुडेन तुल्योऽपि विभातियाव
 न्तुगा विडङ्गं मगधा च शुण्ठी ॥ द्वे जीरके कण्टकं त्रिफलानां शृङ्गं
 धान्यमरिचं सकेसरम् ॥ ७२ ॥ पलेन मात्रां विदधीत पृथक् सुघटितं चूर्
 णमिदं घृतस्य ॥ स्निग्धे कटाहे प्रणिधाय युञ्ज्यात्कर्षप्रमाणं विदधीत
 चूर्णम् ॥ ७३ ॥ प्रभातकाले सरोवारिपानं गुरूणि चाम्लानि च वातला
 नि ॥ भगन्दरादिश्वयथून्निहन्ति रक्ताम्लकं वा श्वसनञ्च यद्विमणम्
 ॥ ७४ ॥ विशोषणं कुष्ठरुजां च गुल्मान्वलप्रदं वृष्यतमं प्रदिष्टम् ॥ स
 रक्तपित्तं सहसा निहन्ति योनिप्रभावं च सरक्तशूलम् ॥ ७५ ॥ रक्ताति
 सारं रुधिरप्रमेहं समेद्वस्तौ निहितं नराणाम् ॥ सौभाग्यदं कान्तिकरं प्र
 दिष्टं तेजौजःपुष्टिं बलमातनोति ॥ ७६ ॥

शतावरी, गोरखमुंडी, गिलोय, त्रिफला, दालचीनी, पौहकरमूल, भारंगी, वांसा, कटेहली,
 खैर, मूसली, इन्होंको जुदे २ बीस बीस तोला प्रमाण लेवे ॥ ६९ ॥ फिर इन्होंको जलमें
 पकावे जब चतुर्थांश काथ बाकी रहे तब उतारि तिसको बख्खमांहके छानी पीछे इनआगे
 कहीहुई औषधोंको गैरे ४८ तोले प्रमाण शहद मिलावे ॥ ७० ॥ और ४८ तोला प्रमाण
 लोहाका चूर्ण गैरे और खांड तथा घृत इन्होंको समानभाग ६४ तोले प्रमाण गैरे फिर
 लोहेके पात्रमें पकावे ॥ ७१ ॥ पीछे पकके गुडके समान होजावे तब वंशलोचन, वायविडंग,
 पीपली, सूँठि, दोनोंजीरे, गोखरू, त्रिफला, भंगरा, धनियां, मिरच, केशर ॥ ७२ ॥ इनस-
 बोंको चार २ तोला प्रमाण लेवे पीछे इनसबोंका चूर्ण मिला अच्छीतरह घोटि घृतके चीक-
 ने कडाहमें घाल धरे पीछे इसको एक तोला प्रमाण हमेशै खावे ॥ ७३ ॥ और प्रातःकाल
 सरोवरके जलका अनुपान करै और भारे तथा खदे और वातवाले पदार्थ खावे चाहिये
 और भगंदर, शोजा, रक्ताम्ल, श्वास, राजयक्ष्मा ॥ ७४ ॥ विशोष, कुष्ठरोग, गुल्म, इनरोगों-
 का नाश करता है और बलको देनेवाला है और वीर्यमें हित है और रक्तपित्तरोगको
 शीघ्रही नाशता है और योनिमें बहताहुआ रक्त, योनिका शूल, ॥ ७५ ॥ रक्तानिसार, रुधिर
 प्रमेह, लिंगका रोग, और वस्तिस्थानका रोग इन्होंको नाशता है और कान्तिको करनेवाला
 है और तेज, पुष्टि, बल, इन्होंको बढ़ाता है ॥ ७६ ॥

अथ रक्तातिसारचिकित्सा ॥

रक्तातिसारे च प्रयोजनीयं रक्तप्रवाहे संरुजे सदाहे ॥ फलत्रिकञ्च स
विषा समङ्गा सपर्वटं दाडिमधातकीनाम् ॥ ७७ ॥ चूर्णं मधुशर्करया स
मेतं तथैव दध्ना सघृतं सलेहम् ॥ रक्तातिसारं रुधिरप्रवाहं योनिप्रवाहं स
ततं स्त्रियश्च ॥ ७८ ॥ निवारयत्याशु हितं नराणां बालेऽतिसारे प्रशमाय
योग्यम् ॥ ७९ ॥

और रक्तातिसार तथा पीडासहित और दाहसहित रक्तप्रवाह, इन रोगोंमें त्रिफला, अतीश, मंजीठ, पिचपापडा, अनारदाना, धवके फूल, ॥७७॥ इन्होंका चूर्ण बना तिसमें खांड और शहद मिला और दही, घृत ये मिला फिर अवलेह बनाके देना चाहिये यह अवलेह रक्तातिसार रुधिरप्रवाह, स्त्रीके निरंतर योनिका प्रवाह ॥ ७८ ॥ इन्होंका निवारण करता है और मनुष्योंको हित है बालकके अतिसारको शांत करता है ॥ ७९ ॥

अथ योनिप्रवाहचिकित्सा ॥

योनिप्रवाहे मधुकं समङ्गा एलादलं निम्बदलानि पथ्या ॥ मुस्ता विशा
ला कटुरोहिणी च कल्को हितः शर्करया युतोऽयम् ॥ ८० ॥ योनिप्र
वाहं विनिवारयेच्च सयोनिशूलं सरुजां तृषान्तिम् ॥ एला समङ्गा सहशा
ल्मलीनां हरीतकी मागधिका समांशा ॥ ८१ ॥ काथोदितः शर्करया स
माच्छया योनिप्रवाहं विनिवारयेच्च ॥ ८२ ॥

योनिके प्रवाहमें मुलहटी, मंजीठ, इलायचीके पत्ते नींबूके पत्ते हरडै नागरमोथा, इंद्रायण कुटकी, इन औषधोंका कल्क बना तिसमें खांड मिला खाना चाहिये ॥ ८० ॥ यह विशेष करिके योनिके प्रवाहको दूर करता है और पीट्यसहित योनिशूल तृषाकी पीडा इन्होंको दूर करता है और इलायची, मंजीठ, शालवन, हरडै, पीपली, इन्होंको समान भागले ॥ ८१ ॥ काथ बना तिसमें खांड और शहद मिला पीनेसे रक्तप्रवाह दूर होता है ॥ ८२ ॥

घर्मातपान्ते च विदाहि चाम्लं सौवीरकं वा कटुकं कषायम् ॥ क्षारं
सुरा वा परिवर्जनीयं सरक्तपित्ते मनुजे हिताय ॥ ८३ ॥ वास्तूकचि
ल्ली सुनिषणकश्च जीवन्तिका वा शतपुष्पिका वा ॥ शाका हिता र
लो तितण्डलाश्च ॥ ८४ ॥ यवगोधमच्च

॥ ८५ ॥ हरिणशशकलावास्तित्तिरास्ते कुलिङ्गः ककेरा अपि मयूराः
कौञ्चपारावतानाम् ॥ पल्लमनिलपित्तवर्हणं वै हितञ्चेद्भवति बलम
मोघं सत्त्वतेजश्च कान्तिः ॥ ८६ ॥ इत्यात्रेयजापिते हारीतोत्तरे तृती
यस्थाने रक्तपित्तचिकित्सा नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

और रक्तपित्तरोगमें मनुष्यके हितकेवास्ते घाम, अग्निकी गरमाई, विदाही, खट्टा
पदार्थ कांजी चर्चरा कसैला पदार्थ खारा और मदिरा इन्होंको वर्ज देवै ॥ ८३ ॥ और
बथुआ, चिल्ली बथुवाका भेद, कुरड्ड, जीर्वतिकाशाक, सौंफ, इन्होंके शाक ये सब रक्तपित्त-
में हित कहे है और मूंग लाल चावल ये हित कहे है ॥ ८४ ॥ और जव, गेहूं, चणे,
तूरीधान्य, परवल, मूंग, उडद, ये अन्न रक्तपित्तको निवारण करनेमें हित कहे है ॥ ८५ ॥
और हिरन, शूशा, लवा, तीवर, चिमणापक्षी, ककेरा, मयूर, कुंजि, परेवापक्षी, इन्होंका मांस
खानेसे और वातपित्तके नाशक मांसके खानेसे अमोघ बल होता है और सत्वगुण, तेज,
कांति, इन्होंको बढ़ाता है ॥ ८६ ॥ इति, वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्सुनूवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवा-
दित्तहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने रक्तपित्तचिकित्सानाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

अथ एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

अथ अर्शाचिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ अथातो वक्ष्यते पुत्र ! अर्शस्य च चिकित्सितम् ॥
पट्प्रकारेण ये प्रोक्तास्तेषां च शृणु लक्षणम् ॥ १ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे पुत्र ! अन्न अर्श अर्थात् ववासीर रोगकी चिकित्साको कहते हैं
जो छह प्रकारके ववासीररोग कहते हैं तिन्होंके लक्षणको सुन ॥ १ ॥

अथ अर्शके प्रकार ॥

जाता दोषैस्त्रिभिरपि वातपित्तकफादिकैः ॥ सन्निपाते चतुर्थः स्यात्पञ्च
मो रक्तसम्भवः ॥ २ ॥ पष्ठकः सहजो ज्ञेयश्चार्शासां पङ्क्तिर्भवः ॥ एवं
च पट्प्रकारेण जायन्ते गुदजा रुजः ॥ ३ ॥

वात आदिक तीनदोषोंसे होता है वातसे १ पित्तसे २ कफसे ३ और सन्निपातसे उपजा
चौथा होता है और पांचवा रक्तसे उपजाहुआ ववासीर रोग होता है ॥ २ ॥ और छठा सह-
ज अर्थात् स्वभावसेही उपजाहुआ होता है इसप्रकारसे गुदाके रोग छहतरहसे होते हैं ॥ ३ ॥

अथ वातार्शके हेतु और संप्रान्ति ॥

अनशनलघुर्लूक्षाहारसंसेवनेन कटुलवणविदाहिसेवया वातरोधात् ॥
भवति सततवीप्सा विष्टरेणैव हीना कुपितमरुतवेगादर्शां भूतिरासीत्
॥ ४ ॥ अनशनोपविष्टस्य मलमूत्रावधारणे ॥ शीतसंसेवनेनापि गुदजः
संप्रकुप्यति ॥ ५ ॥ लवणकटुकषाघातिसंसेवनेन अमितलघुतरभो
ज्याच्छीतलेनातिरोधात् ॥ कुपितमलिननामापानमार्गेष्वपाने वितरति
रुधिरवातापानमार्गे मरुत्सु ॥ ६ ॥

अनशन अर्थात् भोजन नहीं करनेसे हलका और रूपाभोजन करनेसे और चर्चरा, नमक, विदाही, ऐसे पदार्थके खानेसे और वातके रोकनेसे और आसनपे निरंतर नहीं बैठनेसे वायु कुपित होजाता है तिससे ववासीर रोग होजाता है ॥ ४ ॥ जो भोजनकिये बिना बैठारहे और मलमूत्रके वेगको रोकै और शीतल वस्तुका सेवन करै उसके गुदाका वायु कुपित होजाता है ॥ ५ ॥ और नमक, चर्चरा, कसैला, कडुआ, इनवस्तुओंके सेवनेसे अत्यंत ज्यादै हलका भोजनसे वायुकुपित होके मलिननामवाला अपानवायुको गुदामें रहनेवालाको विगाड देता है फिर वह अपानवायु गुदामें रक्तका रोग होजाता है ॥ ६ ॥

अथ पित्तार्शका हेतु ॥

कटुम्ललवणोष्णानि विदाहीनि गुरूणि च ॥ सेवनानिलतोयेन श्रमा
द्व्यायामपीडया ॥ यानव्यवायदोषाद्वा दुर्नामा पित्तसम्भवः ॥ ७ ॥

और चर्चरा, खट्टा, नमक, गरम, विदाही, भारा, ऐसे पदार्थके सेवनेसे वायु, जल, इन्होंनेके सेवनेसे भ्रमसे, कसरतकी पीडासे, असवारी और मैथुनके दोषसे पित्तसे उपजा ववासीर होता है ॥ ७ ॥

अथ कफार्शका हेतु ॥

अव्यायामान्नस्य शीलादजस्रं शीताद्धान्याद्वातसंसेवनाच्च ॥

लौल्यात्यम्लात्तैलसंपिच्छलेन दुर्नामा संजायते श्लेष्मरोगात् ॥ ८ ॥

और कसरत नहीं करनेसे अथवा निरंतर कसरत करनेसे शीतल वस्तुके सेवनेसे और वायुके सेवनसे और जिसकी गुल्ली बंधवीहो ऐसे पदार्थसे तथा अत्यंत खट्टा पदार्थके सेवनेसे कफसे उपजाहूआ ववासीर होजाता है ॥ ८ ॥

अथ वातार्शका लक्षण ॥

शोफावुभौ कृष्णनखस्य नेत्रे लिङ्गानि वातप्रभवाशंसानाम् ॥ ९ ॥

और शीतलता रहै चभकाहो कठोरताहो निद्राही आवे और गुल्मोदर, अछीला, विपू-
चिका, शोजा, ये उपद्रवहो और नख मुख नेत्र ये काले रहै ये वायुसे उपजेहुए ववासीरों-
गके लक्षण है ॥ ९ ॥

अथ पित्तार्शका लक्षण ॥

दाहभ्रमौ ज्वरपिपासिशरीरतो वा मूर्च्छारुचिर्नयनदन्तमुखानि यस्य ॥
पीतच्छविर्भवति वा विटभेदनं च पित्तेन जातगुदजस्य च लक्षणानि ॥ १० ॥

दाहहो भ्रमहो ज्वरहो टपाहो, शरीरमें मूर्च्छाहो अरुचिहो और नेत्र दांत, मुख, ये जि-
सके पीले होजावे विष्ठा ढीला हो पित्तसे उपजा ववासीरके लक्षण है ॥ १० ॥

अथ कफार्शका लक्षण ॥

निद्रा च जाड्यघनमन्दरुजा च शोफा शूलानिगुल्मगुदभङ्गुरकास्त
था स्युः ॥ विड्वन्धतोदमरुचिर्गतिमन्दता च श्लेष्मोद्भवा गुदरुजः
खलु भेषजज्ञ ! ॥ ११ ॥

निद्राहो, जडताहो, भारापनहो, मंद पीडाहो, शोजाहो, शूल, अत्यंत गुल्म, गुदाका भंग,
विड्वन्ध, चभका, अरुचि, मंदगति, ये लक्षणहो वह कफसे उपजा ववासीर जानना ॥ ११ ॥

अथ त्रिदोषार्शका लक्षण ॥

शूलानाहारुचिः कासो हृल्लासो रुचिनोदता ॥

स्कन्धयोज्ज्वलता सर्वाश्वार्शसि संभवन्ति हि ॥ १२ ॥

शूलहो, अफाराहो, अरुचिहो, खांसीहो, थुकथुकीहो, अरुचिकी पीडाहो, कंधोंमें जडता
हो, ये सब दोषोंसे उपजे ववासीरके लक्षण है ॥ १२ ॥

अथ गुदरोगलक्षण ॥

गुदजलक्षणं वक्ष्ये गुदे कण्डूरस्तदस्रवः ॥ परुषा विषमा दीर्घा वातेन
गुदजा मताः ॥ १३ ॥ सदाहाश्च विचित्राश्च पीता नीलावभासिकाः ॥
लोहितं स्रवते सोष्णं पित्तेन गुदजा मताः ॥ १४ ॥ सदाहाः कठिना ये
तु तत्र पाको विड्वन्धता ॥ शीतकण्डूसमस्थूलाः कफेन गुदजा म
ताः ॥ १५ ॥ सदाहाः सरुजः श्यावाः कण्डूः शोषश्च जायते ॥ स्रवते

सततं रक्तं ते कण्ठासृग्भवाशरीसाः ॥ १६ ॥ धान्याङ्गुरसमाकाराः क्रिमयः
संभवन्ति च ॥ वातवर्चःसमा लिङ्गा गुदजाः संभवन्ति हि ॥ १७ ॥
वक्रास्तीक्ष्णाः स्फुटितवदना दीर्घविम्बीफलाभाः केचित्सिद्धार्थकक्रण
निभाः कालखर्जूरकाभाः ॥ कर्कन्ध्वाभाः कलम्बकसमाः केचिदम्भोज
बीजा वायोश्वासौ मनुज! विहितःसम्भवश्चाशरीसां च ॥ १८ ॥

अब गुदाके रोगका लक्षणको कहते हैं गुदामें खाजिहो, रक्त प्रवृत्तहो, कठोरहो, विषमहो, दीर्घहो ये वातसे उपजे गुदाके ववासीरोंके लक्षण है ॥ १३ ॥ दाहवालीहैं, विचित्रहैं, नीलावर्णवालीहैं, गरम रुधिर गिरताहो ये पित्तसे उपजे ववासीरके गुमडियोंके लक्षण है ॥ १४ ॥ और दाहवालीहैं कठिणहैं पकी हुईहो विष्टाबंधहो '५.और', और खाजिहो, समानहो, और स्थूलहो ये कफसे उपजी ववासीरकी गुमडियोंके लक्षण है ॥ १५ ॥ और जो दाहसहितहो, पीडासहितहैं, कपिशवर्णवालीहो, खाजिहो, शोषहो और निरंतर रक्त क्षिरै ये खाजिसहित रक्तसे उपजे ववासीरके लक्षण है ॥ १६ ॥ और धान्यके अंकुरके समान चिन्हवाला क्रिमि होजाते हैं और वायुके विष्टाके समान लिंगवाले होते हैं ॥ १७ ॥ और टेढे, खुलेहुए मुखवाले, तीक्ष्ण, बडे, गुलरके फलके समान तेजवाले, कईक सिरसमके समान आकारवाले और कईक काली खजूरीके समान आकारवाले और कईक घेरके समान आकारवाले अथवा सिरसमके फलके समान आकारवाले तथा कमलगटाके समान आकारवाले ऐसे मस्ते वायुसे उत्पन्न हुए ववासीरके होते हैं ॥ १८ ॥

अथ अशक्रे स्थान ॥

गुदे नासाकर्णरन्ध्रे मुखे वा तथावर्त्तनेत्रान्तरयोनिमध्ये ॥ नराणां सका
शे भवन्ति रोगा न साध्याः सुखेन क्रिया यत्नतः स्यात् ॥ १९ ॥

और गुदा, नासिका, कान, मुख, नेत्रोंके कोणमें योनिका मध्य, इन्होंने मनुष्योंके अशरीरोग होते हैं सो साध्य नहीं है तहां यत्नसे क्रिया करनी चाहिये ॥ १९ ॥

अथ गुदामें अशका स्थान ॥

त्रिवलीगुदमध्ये तु वायतोऽभ्यन्तरेषु च ॥ अशरीसां तु विजानीयात्री
णि स्थानानि चैव हि ॥ २० ॥ वायतः सुखसाध्यः स्यान्मध्ये कक्षेन
ध्योऽन्तर्वलीजातो गदजो जिपजां वर! ॥ २१ ॥

वाहिरके स्थानकी ववासीर सुखसाध्य है और जो मध्यमें हो वह कष्टसाध्य होता है और जो गुदाके अंतर्वलीहो वह असाध्य रोग कहा है ॥ २१ ॥

अथ अर्शकी चिकित्साका प्रकार ॥

प्रलेपवर्त्तिभिः स्वदैर्घ्याः सिध्यन्ति चोत्तमाः ॥ यन्त्रशस्त्रेण मध्यास्तु
अन्तर्जाश्वान्तरौषधैः ॥२२॥ तस्मात्पुत्र ! प्रयत्नेन क्रिया कार्या विज्ञान
ता ॥ येनातुरस्य रक्षा स्याद्येन रोगो निवर्त्तते ॥ २३ ॥

और प्रलेप, वत्ती लगाना, स्वेद, इन्होंने वाहिरकी पिंडिका सिद्ध होती है और गुदाके मध्यके मस्तोंको यंत्र शस्त्रसे सिद्ध करै और अंतर भीतरकी ववासीरको औषधोंसे सिद्ध करै ॥ २२ ॥ हे पुत्र! इसवास्ते जानते हुए वैद्यमें ऐसी क्रिया करनी चाहिये कि जिस्से रोगीकी रक्षा होजावे और रोग निवृत्त होवे ॥ २३ ॥

अथ अर्शरोगके उपद्रव ॥

करचरणमुरवे वा नाभिमेद्रे गुदे वा भवति हि यदि पुंसां शोफशोषो ज्वर
श्व ॥ श्वंसनतमकच्छर्दिर्मोहहृत्पाश्वशूलं क्लशमरुचिविवन्धश्चातिसारो
पसर्गाः ॥ २४ ॥ इत्येवं द्वादशार्शासां संभवन्ति द्युपद्रवाः ॥ उपद्रवैर्विना
साध्या न साध्या बहूपद्रवाः ॥ २५ ॥

जो यदि मनुष्योंके हाथ पैर, मुख, नाभि, लिंग, गुदा इन्होंने शोजा और शोषहो तथा ज्वरहो श्वासहो अंधेरी आवै छर्दिहो मोहहो हृदामें पशलीमें शूलहो. माडाहोना, अरुचि, मलका बंधा अतिसार ये होवे तो ॥ २४ ॥ ये बारह प्रकारके ववासीरके उपद्रव जानने उपद्रवोंके विना तो ववासीर रोग साध्य है और उपद्रवों सहित ववासीर असाध्य है ॥ २५ ॥

अथ असाध्यअर्श ॥

शूलारोचकतृष्णार्त्तश्चातिरक्तप्रवाहवान् ॥

शूलशोफातिसारात्तौ ध्रुवं न जीवतेऽर्शासः ॥ २६ ॥

शूल, अरुचि, तृषा, इन्होंने पीडावाला और रक्तके प्रवाहवाला, शोजा अतिसार इन्होंने पीडासे युक्त ऐसा अर्श रोगवाला पुरुष नहीं जीवता है ॥ २६ ॥

अथ पाचनकाथ ॥

अतोर्शासां प्रवक्ष्यामि क्रियां चैव भिषग्वर ! वटकाक्षारशस्त्राणि येन संप
द्यते सुखम् ॥ २७ ॥ अर्शासां च क्रियाः प्रोक्ताश्चार्शाघ्ना बलवर्द्धनाः ॥

पित्तशोणितशमना न च वातप्रकोपनाः ॥२८॥ तस्यादौ पचनं श्रेष्ठं ततो
 भेषजमाहरेत् ॥ पथ्यान्वृता च धनिका पाने काथो गुडान्वितः ॥ २९ ॥

हे उत्तम वैद्य ! अब ववासीरोगोंकी क्रियाको कहते हैं गोली, क्षार, शक्तक्रिया इन इलाजोंसे सुख होता है ॥ २७ ॥ अर्शरोगोंको नाशनेवाली और बलको बढ़ानेवाली अर्श रोगकी क्रिया कही है जो क्रिया रक्तपित्तको शांत करनेवाली और वातको कोप नहीं करनेवालीहो सो करनी चाहिये ॥ २८ ॥ ववासीरकी आदिमें पाचन औषध करै पीछे अन्य औषध करै और हरडै, गिलोय, धनियां इन्होंका काथ बना तिसमें गुड मिला पीना चाहिये यह पाचन औषध कहा है ॥ २९ ॥

अथ कल्कयोग ॥

दन्ती विडङ्गमगधा धान्या भल्लातकगुडं तिलकुष्ठयुक्तम् ॥

संसिच्य पयसातिकल्को निहन्तिपाने गुदजांश्च रोगान् ॥ ३० ॥

जमालगोटाकी जड, वायविडंग, पीपली, धनियां, भिलावा, गुड, तिल, कूठ, इन्होंका कल्कबना दूधसे युक्तकर तिलका भक्षण करनेसे गुदाके रोगोंका नाशहोता है ॥ ३० ॥

नागरपिप्पलीविल्वविडङ्गं दन्ती च शठ्यभया त्रिवृता च ॥ कल्क

मिदं सगुडं प्रतिपाने वार्शसि नाशनकारि नराणाम् ॥ ३१ ॥

और संठ, पीपली, बेलगिरी, वायविडंग, जमालगोटाकी जड, कचूर, हरडै, निशोत, इन्होंका कल्क बना गुडमिला खानेसे मनुष्योंके ववासीरोगोंका नाश होता है ॥ ३१ ॥

अथ पत्रकादिकाथ ॥

पत्रककेसरशुण्ठीसमैलातुम्बुरुधान्यविडङ्गतिलानाम् ॥ काथो

हरीतकीसर्पिर्गुडेन पीतो निहन्ति गुदे गदजानि ॥ ३२ ॥

और तेजपात, केशर, संठ, इलायची, धनियां, वायविडंग, तिल, हरडै इन्होंको समानले और धनियांको दो भागले फिर काथ बना गुड मिलाके पीनेसे गुदाके रोगोंका नाशहोता है ॥

अथ पिप्पल्यादियोग ॥

पिप्पलिकामभयां गुडयुक्तां प्रातर्भवे नरो भक्षति चैताम् ॥

तस्य गुदकीलकमाशु हन्ति सकामलपाण्डुजरीगवर्गान् ॥ ३३ ॥

और पीपल, हरडै इन्होंको गुडमें मिला प्रातःकाल जो मनुष्य भक्षण करता है उसका गुदकीलकरोग शीघ्रही नष्ट होताहै और कामला, पांडु इनरोगोंके समूहोंका नाशहोता है ॥ ३३ ॥

अथ वार्ताकयोग ॥

सुखिन्मवात्ताकफलस्य तोयं दध्ना सिताह्वा सलिलान्मतेन ॥ पाने विधे
यं गुदकीलकानां क्रिमीन्निहन्यात्क्रिमिजांश्च रोगान् ॥ ३४ ॥

और बथुआका शाक, बैंगन, इन्होंका जलमें दही और मिसरी मिलाके और अन्य जल
नहीं मिलावे पीछे इसके पीनेसे गुदकीलकरोगका नाश होता है ॥ ३४ ॥

अथ भल्लातकचतुष्टय ॥

भल्लातकाः कृष्णतिलाश्च पथ्या चूर्णा गुडेनापि नरस्य सेव्यम् ॥ हन्याच्च
पाने गुदकीलमेहशूलार्शकासान् विनिहन्ति तस्य ॥ ३५ ॥

भिलावे, कालेतिल, हरई, इन्होंका चूर्णको गुडके संग खानेसे गुदकीलक रोग दूर होता है
और प्रमेह, शूल, ववासीर, खांसी इन्होंका नाश होता है ॥ ३५ ॥

सूरणकन्दकमर्कदलेस्तु वेष्टितमेव हि कर्दमलिप्तम् ॥ तप्तमनलवर्णकस
मानं तत्पयः सैन्धवतैलविमिश्रम् ॥ ३६ ॥ भक्षति चार्शविनाशहेतोर्वा
तविकारहितोऽपि नरस्य ॥ ३७ ॥

और जमीकंदको आकके पत्तोंसे लपेट तिसपैं गारां लीप फिर अग्निमें स्थापित करदेवै जब
तपके अग्निके समान होजावे तब तेल और सेंधानमक मिला और दूध मिला ॥ ३६ ॥ भ-
क्षण करनेसे ववासीर दूर होती है और वायुके विकारभी दूर होजाते है ॥ ३७ ॥

अथ कल्याणनामकलवण ॥

चित्रकपुष्करमूलशठीनां तेषु समांशास्तिला विनियोज्याः ॥ सूरणकन्द
करवण्डसमेतं तेषु समोऽग्निकफलानि दध्यात् ॥ ३८ ॥ सैन्धवं तस्य
चतुर्गुणकञ्च भावितमर्कदलेन समस्तम् ॥ तञ्च घृतस्य घटे विनिधाय
अरण्यगोमयवह्निविपकम् ॥ ३९ ॥ क्षीरमिदं लवणघृतपक्वं तक्रयुतं प्र
तिपानमतोऽपि ॥ नाशयति गुदकीलककीलान्हन्ति विषूचिभगन्दरान
पि ॥ ४० ॥ कामलपाण्ड्वानाहविबन्धान्गुल्ममरोचकनाशनकारी ॥
मूत्रगदगलकण्डुक्रिमीणां नाशनभद्रकसैन्धवो नाम ॥ ४१ ॥

और चीता, पौहकरमूल, कचूर, इन्होंके समान तिल और जमीकंदके टुकड़े और इन्हों-
के समान मालकांगनी ॥ ३८ ॥ और इनसबोंसे चारभाग सेंधानमक इनसबोंको आकके पत्तों-
का रसमें भावनादे पीछे इसको घृतके चीकने घडेमें घालके आरनोंकी अग्निमें पकावे ॥ ३९ ॥

पीछे इसको दूधमें पकावे फिर नमक, घृत इन्होंमें पका तकके संग पीनेसे गुदकीलकरोगोंका नाश होता है और विपूचिका, भगंदर ॥४०॥ कामला, पांडुरोग, आनाह, मलका बंधा, गुल्म, अरुचि इन्होंका नाश होता है और मूत्ररोग, गलरोग, क्रिमिरोग, इन्होंको यह कल्याण-लवण सैधव औषध नाशता है ॥ ४१ ॥

अथ जल्लातकवटक ॥

त्रिकटुकमगधानां मूलचित्रं त्रिगन्धं समतुलितममीषां तुल्यजल्लातका
नि ॥ सकलमिह समन्तादेकतः संप्रचूर्ण्यं द्विगुणतुलितमात्रं योजनीयो
गुडस्तु ॥ ४२ ॥ सकलमपि विकुट्य स्निग्धभाण्डे निधाय प्रतिदिनम
पि सेव्यं चाक्षमात्रं सुधीरैः ॥ गुदजजठररोगं शूलगुल्मान्क्रिमीस्तु जनय
ति वडवाग्निं हन्ति पाण्डुं क्षयं वा ॥ ४३ ॥

त्रिकटु अर्थात् सूंड, मिरच, पीपल, सहैजना, चीता, त्रिगंध अर्थात् दालचीनी ते-
जपात इलायची इन्होंको समान भाग लेवे और इनसवोंके समान भिन्नाये लेवे पीछे इनस-
वोंका एक जगह चूर्ण बना इन्होंसे दूनी मात्रा गुड गरै ॥ ४२ ॥ पीछे इन सवोंको कूटि
चिकने वरतनेमें घाल धरै फिर धीरे पुरुषोंको दिन २ प्रति एक २ तोला प्रमाण खाना चाहि-
ये यह गुदाके रोग, उदररोग, शूल, गुल्मरोग, क्रिमि, पांडु, क्षयरोग, इन्होंको नाशता है
और जठराग्निको दीप्त करता है ॥ ४३ ॥

अथ प्राण देनेवाला मोदक ॥

नागरं त्रिफलां चैव पलांछ्नींश्च प्रयोजयेत् ॥ चतुष्पलानि मरिचानां
पिप्पलीनां पलद्वयम् ॥ ४४ ॥ पलमेकं त चव्यस्य योज्यं तत्र त्रिषग्व
रैः ॥ तालीसाद्धं पलं देयं पलाद्धं पद्मकस्य च ॥ ४५ ॥ जीरकस्य
सप्तं मात्रा समेन तुलितो गुडः ॥ सुपक्वा सुघना श्यामा पिप्पलीनां शत
त्रयम् ॥ ४६ ॥ उलूखले क्षौदयित्वा स्निग्धभाण्डेन धारयेत् ॥ ४७ ॥
अक्षप्रमाणा गुटिका नराणां प्रातः प्रदेया सकलामयघ्नी ॥ निहन्ति चा
शींसि च पाण्डुरोगं हलीमकं कामलकं भ्रमं वा ॥ ४८ ॥ गुल्मातिसारं
च सरक्तपित्तं क्षयं क्षतं चाक्षयमस्य यक्ष्मा ॥ जीर्णज्वरारोचकपीनसा
नां हितो भवेत्प्राणदमोदकोऽयम् ॥ ४९ ॥

संठ, त्रिफला, इन्होंको बारह २ तोले प्रमाण लेवे मिरच १६ तोले लेवे, पीपल ८ तोले ॥ ४४ ॥ चव्य ४ तोले ऐसे वैद्यजन लेवे और तालीसपत्र दो तोले पद्माक २ तोले ॥ ४५ ॥ इन सबोंके समान जीरा और जीराके समान गुड लेवे और सुंदर पकीहुई सुंदर करडी और श्यामवर्णवाली ऐसी ३०० सौ पीपल ॥ ४६ ॥ इन सबोंको ऊखलमें कूट फिर चिकनें बरतनेमें घाल धरै ॥ ४७ ॥ यह एक तोला प्रमाणकी गोली मनुष्योंको प्रातःकाल देनी चाहिये सब रोगोंको नाशनेवाली है और ववासीर, पांडुरोग, हलीमक, कामला, भ्रम, इनरोगोंका नाश होता है ॥ ४८ ॥ और गुल्म, अतिसार, रक्तपित्त, दारुण राजयक्ष्मा, जीर्णज्वर, अरुचि, पीनस, इनरोगोंमें यह प्राणद मोदक हित है ॥ ४९ ॥

अथ कांकायनगुटिका ॥

जाजीपिप्पलिमूलकोलमगधापथ्याग्रिकं नागराः सूक्ष्मैला च पलद्वयेऽपि क्रमशः कृत्वा पलैः सैन्धवम् ॥ भल्लातक्यफलानि पञ्चशतकं तेन समस्तेन तु द्वैगुण्येपि पुराणसूरणस्ततः सर्वस्य तुल्यो गुडः ॥ ५० ॥ क्षौद्रित्वा वटकाक्षमात्रमुपरि जातो विशेषो गुणः कुर्वत्यर्शनिवारणं क्षयमपि पुष्टं तथा सुप्रज्ञम् ॥ मन्दाग्निर्वडवासमो भ्रमहरो हृद्रोगपाण्ड्वामयं शूला नाहभगन्द्रो भयहरो दुष्टान्तिनिर्वासनः ॥ ५१ ॥ कृतोऽप्यर्थे विकारोऽपि ऋषिणा योगयुक्तिना ॥ काङ्गायनेन मतिमान् तेन सौख्यमग्नीप्सति ५२

जीरा, पीपलामूल, वेर, पीपल, हरद, चीता, संठ, छोटी इलायची इन्होंको आठ २ तोला प्रमाण लेवे और इन्होंके समान सेंधानमक लेवे और पानसों भिलावे लेवे और पीछे कहीं इन सब औषधोंसे दूनाप्रमाण पुराना जमीकंद लेवे और इन सब औषधोंके समान गुड लेवे ॥ ५० ॥ फिर इनसबोंको कूटके मिलाकरे पीछे १ तोला प्रमाण गोली बांधलेवे यह गोली अतिविशेष गुण है ववासीररोगोंको निवारण करती है और क्षयरोगवाला, सुंदर कांतिसे युक्त पुष्ट होजाता है मंदाग्नि अत्यंत तेज हेम्ली है भ्रमका नाश होता है और हृदयरोग, पांडु, शूल, अफारा, भ्रगंदर इन्होंके भयको हरनेवाली है दुष्ट पीडा, ववासीरको नाशती है ॥ ५१ ॥ योगकी युक्तिवाले कांकायनमुनिने उत्तम औषध कहा है बुद्धिमान् पुरुष इस्से सुखको प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥

अथ लवणोत्तमादिः ॥

लवणोत्तमं वह्निकलिङ्गवचा चिरविल्वमहत्पिचुसन्दयुतम् ॥

पिव सप्तदिनं समस्तु लुलितं यदि मर्दितुमिच्छसि चायुरुजाम् ॥ ५३ ॥

संधानमक, चीता, इंद्रजव, वच, करंजुवा, वंकायन, इन्हेंको सातदिनतक पीवे जो यदि आयुके रोगोंको नाशनेकी इच्छा हो तो ॥ ५३ ॥

अथ एलादिगुटिका ॥

विश्वोपकुल्यामरिचानि केसरं पत्रं लवङ्गैलकटुद्विमाह्वयाः ॥

चूर्णं हितञ्च शर्करयुक्तमेतद्गुदामयानामुदरार्तिशान्तये ॥ ५४ ॥

सूठ, १ भाग पीपल, २ भाग मिरच, ३ भाग केशर, ४. तेजपात, ५ लोंग, ६ इलायची, ७ इन्हेंको एकोत्तरवृद्धिभागसे लेवे पीछे इन्हेंको चूर्णमें खांड मिला खाना गुदाके रोग और उदरके रोगकी शांतिकेवास्ते हित है ॥ ५४ ॥

अथ अर्शनाशक चतुःसममोदक ॥

सनागरं पुष्करद्वद्धदांसकं गुडो नवो मोदकमम्बुदारुकम् ॥

अर्शेषु दुर्नामकरोगदारकं करोति दृढं सहसैव दारुकम् ॥ ५५ ॥

सूठ, पौहकरमूल, भिदारा, नवीनगुड, नेत्रवाला, देवदार, इन्हेंको मोदक खानेसे ववासीर रोगोंका नाश होता है और वृद्ध पुरुष तत्काल बालकसरीखा निरोग होता है ॥ ५५ ॥

अथ त्रिकटुकाद्यमोदक ॥

त्रिकटुकमभयानां पुष्करं चित्रकाणां कृमिरिपुतिलचूर्णं कारयेत्संगुडे

न ॥ उषसि वटकमेकं भक्षयेद्यो मनुष्यो विनिहितगुदरोगश्चाग्निदृष्टिं

करोति ॥ ५६ ॥

सूठ, मिरच, पीपल, हरडै, पौहकरमूल, चीता, वायविडंग, तिल इन्हेंको चूर्ण बना तिसमें गुड मिला जो मनुष्य प्रातःकाल इस मोदकको भक्षण करता है उसके गुदाके रोग दूर होते हैं और जठराग्निकी वृद्धि होती है ॥ ५६ ॥

अथ मरिचाद्यमोदक ॥

मरिचं नागरचित्रं सूरणभागोत्तरेण संकुट्य ॥ सर्वसमो गुडयुक्तो मोदको

द्विल्वप्रमाणं सेवेत् ॥ विनिहितपित्तविकारं क्षयति मनुजानां करोति

तनुपुष्टिम् ॥ ५७ ॥

मिरच, १ भाग सूठ, २ चीता, ३ जमीकंद ४ इन्हेंको एकोत्तरवृद्धिभागसे लेवै फिर कूटके इनसबोंके समान गुड मिला मोदक बांध लेवै फिर चार तोला इस मोदकको भक्षण करे यह मोदक मनुष्योंके पित्तके विकारको नाशता है और मनुष्योंके शरीरकी पुष्टि होती है ॥ ५७ ॥

अथ सूरणपिंडा।

त्रिसमगतसूरणकन्दो लोहितवर्णेन यो भवेन्मनिमान् ॥ षट्खण्डीकृतवा
नपि संशुष्कान्बोडशान्भागान् ॥ ५८ ॥ तस्यार्द्धेन तुलितश्वित्रकशुण्ठ्यौ
च तत्र संयोज्या ॥ मरिचस्य चैकभागो गुडेन वद्धस्तु मोदको मनुजैः
॥ ५९ ॥ अक्षित एव हि गुणवान्निहन्ति सकलान्गुदामयान् ॥ त्वरित
मग्नेर्दीपनमुक्तं गुल्मानां जठररुजाम् ॥ ६० ॥

तीनोंतर्फसे समान और लाल वर्णवाला ऐसे जमीकंदको लेके तिसके छह टुकड़े बना
तिन्होंको सुखा लेवे यह जमीकंद सोलहभाग लेना चाहिये ॥ ५८ ॥ और चीता, सेंठ, इन्हों-
को आठ भाग लेवे मिरच १ भाग लेवे पीछे इन्होंको गुडमें मिला मोदक बांधलेवे यह मोदक
गुणवाला है ॥ ५९ ॥ और भक्षण कियाहुआ गुदाके सब रोगोंको नाशता है जठराक्षिको
शीघ्रही दीप्त करता है और गुल्मरोग, जठररोग, इन्होंको शीघ्रही नाशता है ॥ ६० ॥

अथ भीमवटक ॥

त्रिफलमगधजानां मूलतालीसपत्रं क्रिमिरिपुमगधानां पुष्करं चेत्समां
शः ॥ मरिचदहनभागश्चैकभागेन शुण्ठी सकलतुलिततुल्यः सूरणस्यैक
भागः ॥ ६१ ॥ मदनचपलयुक्तं दृढदारैलभृङ्गं कृतमिह परिचूर्णं द्विगुणो
जीर्णरवण्डः ॥ कृतवटकमुखस्तु प्राश्रुते यो मनुष्यो हरति जठररोगं तस्य
चाशु प्रकर्षम् ॥ ६२ ॥ गुदजरुधिरपित्तं कासमन्दाग्निशूलान् क्षयतमक
हलीमान् कामलाश्च क्रिमीश्च ॥ विदधति बलपुष्टिं दापयेच्चाशु मार्गं प्रव
लयति हुताशं योगराजः प्रसिद्धः ॥ ६३ ॥ योगराजेन युञ्जीत स्मरणेनाप्य
गस्तिनः ॥ अस्य योगस्य योगेन भीमोऽपि बहुभक्षकः ॥ ६४ ॥

त्रिफलां, पीपलामूल, तालीसपत्र, वायविडंग, पीपल, पौहकरमूल, इन्होंको समानभाग
लेवे और मिरच, चीता ये दोनों एक भाग, सेंठ १ भाग और इनसबोंके समान जमीकंद
॥ ६१ ॥ और मैनफल, गठोना, भिदारा, इलायची, भंगरा, इन्होंका चूर्ण और दूनी पुरानी-
खांड इन्होंका वटक अर्थात् गोली बना जो मनुष्य खाता है तिसके जठररोग शीघ्रही दूर
होजाता है ॥ ६२ ॥ और गुदाका रक्तपित्त, खांसी, मंदाग्नि, शूल, क्षयरोग, तमक, श्वास,
हलीमक, कामला, क्रिमि, इनरोगोंको नाशता है और बल पुष्टि इन्होंको बढ़ाता है जठराक्षि-
को तेज करता है यह सब योगोंका प्रसिद्ध राजा है ॥ ६३ ॥ इसयोगराजको अगस्तिसुनिका
स्मरण करके प्रयुक्तकरै इसयोगके प्रतापसे भीमभी बहुतसे भोजनको भक्षण किया करता ॥ ६४ ॥

अथ चव्याद्यघृत ॥

चव्यं पाठा त्रिकटु मगधा मूलकस्तुम्बुरूपां विल्वाजाजीरजनिसुरसा
पथ्यया सैन्धवं च ॥ पिष्ट्वा चैतत्समगविघृतं पाचयेत्सुप्रयुक्तं पाना
भ्यङ्गे हरति गुदजान्वातरोगाश्मरीं च ॥ ६५ ॥

चव्य, पाठा, त्रिकटु, सूँठ, मिरच, पीपल, पीपलामूल, धनियाँ, बेलगिरी, जीरा, हलदी, तुल-
सी, हरद्वै, सेंधानमक, इन्होंको बराबरके गौके घृतमें पीस और पकावे यह घृत पीनेसे और
मालिस करनेसे गुदाके रोग, वातरोग, पथरी, इन्होंको नाशता है ॥ ६५ ॥

अथ पिप्पल्याद्यतैल ॥

श्यामा कुष्ठं मधुकमदनं पुष्पकं चित्रकञ्च विल्वं दारु प्रतिविषशताह्वा
कलिङ्गशठीनाम् ॥ पिष्ट्वा तैलं द्विगुणपयसा पाचितं चानुवासे चाभ्यङ्गे
वा हितमपि गुदव्याधिनिर्णाशहेतोः ॥ ६६ ॥ वातव्याधिश्चवणरुधिरे क
र्णशूलेश्मरीणां जङ्घापृष्ठे कटिशिरःशिरावेक्षणे वाततोदे ॥ विष्ठाबन्ध
ग्रहणियहनिःसारके मूढगर्भे श्रेष्ठं तैलं सकलनिचयव्याधिसंधारणे ॥ ६७ ॥

पीपली, कूठ, मुलहटी, मैनफल, मैनफलका पुष्प, चीता, बेलगिरी, देवदार, अतीश,
शतावरी, इंद्रजव, कचूर, इन्होंको तेलमें पीस फिर दूनें दूधमें पका इसको अनुवासन
वस्तिमें और मालिसमें वरतै यह गुदाकी व्याधिके नाशके हेतुमें हित है ॥ ६६ ॥ और
वातव्याधि, कानका रुधिररोग, कर्णशूल, पथरी, जाँघ, पीठ, कटि, शिर, इन्होंका रोग
नाडियोंका फुरणा, वातका चभका, मलका बंधा, इन्होंको नाशता है ग्रहदोषको दूर करता है
मूढगर्भको दूर करता है यह तैल संपूर्णव्याधियोंको नाशता है ॥ ६७ ॥

अथ भीमसेननामकवटक ॥

मुस्ता विश्वविडङ्गचव्यकशठी पथ्या च तेजोवती दन्तीन्द्रात्रिवृता समांश
कपली मात्रा च प्रत्येकशः ॥ तस्माञ्चाष्टपलान् पुरुष्करमपि षड् दृढ
दारोपलान् युञ्ज्यात्पोडशासूरणाख्यसलिलद्रोणेऽखिलं कल्कितम् ॥ ६८ ॥
भूतं भूयः पचेद्द्वुडत्रिगुणितं युञ्ज्याद्भवेद्वादिनमुद्धृत्य पुनरेव चित्र
कत्रिवृत्तेजोवती सूरणम् ॥ एलापत्रकनागकेशरलवङ्गानां समं चूर्णि
तमेपां षोडशभागयोग्यविहितं सर्वञ्च तं चैकतः ॥ ६९ ॥ स्थाप्यं स्नि
ग्धघटे प्रभातसमये भक्षेदक्षमात्रं वटं जीर्णं क्षीरमपि प्रभूतमतिमान् पा

ने तथा भोजने ॥ अशौगुल्मभगन्दरान् ग्रहणीपाण्डुरोगं च कामलां शूल
लञ्चाथ विबन्धकासक्षतजराजयक्ष्मान्निहन्ति ॥ ७० ॥

नागरमोथा, स्रंठ, वायविडंग, चञ्च, कचूर, हरडै, तेजवल, जमालगोटाकी जड, इंद्रायण, निशोव, इनसर्वोको समान भाग चार २ तोला प्रमाण लेवे और पौहकरमूल ३२ तोले लेवे भिदारा २४ तोले प्रमाण लेवे जमीकंद ६४ तोला प्रमाण लेवे फिर इन्होंका कल्क बना १०२४ तोले प्रमाण जलमें पकावे ॥ ६८ ॥ पीछे करडा होजावे तब तिगुना जल मिला फिर पकावे पीछे इसको नीचे उतारि इलायची, तेजपात, नागकेशर, लैंग, इन्होंको समान भागले चूर्ण बनाके तिसमें मिला देवे और इन्होंका चूर्ण इन औषधोंसे सोलहमां भाग मिला ना चाहिये ॥ ६९ ॥ पीछे इसको चीकनें बरतनमें घाल धरै फिर इसको प्रातःकाल एक तोला प्रमाण भक्षण करै पीछे यह चूर्ण जरजावे तब दूध पीवे और भोजनमेंभी दूधको वरतै और ववासीर, गुल्म, भगंदर, संग्रहणी, पांडुरोग, कामला, शूल, मलका बंधा, खांसी, क्षतजरोग, राजयक्ष्मा, इनरोगोंको नाशता है ॥ ७० ॥

अथ भल्लातकगुड ॥

भल्लातकानां द्विसहस्रकाणां द्रोणे जले पाच्यपदावशेषम् ॥ काथे तु त
स्मिन् विपचेद्गुडस्य तुलाप्रमाणं पुनरेव तत्र ॥ ७१ ॥ भल्लातकानां श
तपञ्चकानि तत्रैव संयोज्य पलत्रिकं वा ॥ व्योषं जवानीघनसैन्धवाना
मेलालवङ्गं दलनागकेशरम् ॥ प्रत्येककर्षं तुलितं नियोज्यम् ॥ ७२ ॥
संकुट्य तैले घृतभाजने वा स्थाप्यं प्रभाते वटकप्रमाणम् ॥ भक्षेद्गुडं
स तु निहन्ति रोगान्भगन्दरार्शःक्रिमियक्ष्मपाण्डून् ॥ ७३ ॥ गुल्माशमरी
मेहहलीमकं वा सरक्तपित्तं ग्रहर्णां निहन्ति ॥ करोति पुष्टिं बलमातनो
ति वर्णप्रकर्षं सुखमादधाति ॥ ७४ ॥

दोहजार भिल्लावोंको १०२४ तोले जलमें पकावे जब चतुर्थांश बाकी रहे तब उतारि तिसक्काथमें ४०० तोले गुडको पकावे ॥ ७१ ॥ पीछे तिसमें पानसौ भिलावे मिलावे और विफला, स्रंठ, मिरच, पीपल, जमान, नागरमोथा, सेंधानमक, इलायची, लैंग, तेजपात, नागकेशर, इन्होंको एक २ तोला प्रमाण गरै ॥ ७२ ॥ पीछे इन्होंको अच्छी तरह कूटके मिला तेलके अथवा घृतके चीकनें पात्रमें घाल धरै पीछे प्रभातसमय इसको बडाके प्रमाणे भक्षण करै यह गुड भगंदर, ववासीर, क्रिमि, राजयक्ष्मा, पांडु, ॥ ७३ ॥ गुल्म, पथरी, प्रमेह, हलीमक, रक्तपित्त, संग्रहणी, इनरोगोंको नाशता है और पुष्टि करता है बलको बढ़ाता है वर्णको सुंदर करता है सुख करता है ॥ ७४ ॥

अथ अन्यभल्लातकगुड ॥

दशमूलकगुडूचिसठीक्षुरकं सहचित्रकभाङ्गीफलासहितम् ॥ भल्लातकंषं
चशतं प्रदिशेद्विपचेज्जलद्रोणमितेन तच्च ॥ ७५ ॥ गुडजीर्णशतं प्रददे
त्कथितमवतार्य्य सुशीतलमेलसमम् ॥ दलंकेसरभृङ्गलवङ्गयुतं कृतचूर्णं
मिदं सकलैकमिति ॥ ७६ ॥ घृतभावितमेकदिनं विदधीद्वृतभाजनके
दिनसप्तमिदम् ॥ स्निग्धघटे च विदधीत मनुष्यो दत्तमिदञ्च गुदजाम
यसङ्घे ॥ ७७ ॥ मोदकमेकमुषस्सु यसेत्तथा विनिहन्ति गुदामयमेह
रुजः ॥ हन्ति कासहलीमककामलकं हितमेव हुताशनदीप्तिकरम्
॥ ७८ ॥ यस्तु शीतजले क्षिप्तो जलेनैव विलीयते ॥ लोहितो लोहि
तां याति चैकपाको गुडस्य च ॥ ७९ ॥

दशमूल, गिलोय, कचूर, गोखरू, चीता, भारंगी, त्रिफला, पानसौ, भिलवे,
इन्होंको १०२४ तोले जलमें पकावे॥७५॥ पीछे इस काथमें बराबर पुरानागुड मिला पकाके
नीचे उतारी शीतलहो जावे तब तेजपात, केशर, भंगरा, लौंग, इन्होंका चूर्ण बना तिसमें मि
ला ॥ ७६ ॥ फिर एकदिनतक घृतमें भावनादे पीछे सातदिनतक घृतके पात्रमें घाल रक्खे
पीछे चीकने पात्रमें इसको घालधरे इसमोदकको गुदाके रोगोंके समूहोंमें खावै ॥ ७७ ॥
एक मोदक, प्रातःकाल खावै गुदाके रोग, प्रमेह, खांसी, हलीमक, कामला, इन रोगोंको ना-
शता है और जठराधिको दीप्त करता है ॥ ७८ ॥ और जो जलमें गेरा हुआ डूब जावे
और लाल लाल वर्णवाला हो जावे यह गुडका पाकका लक्षण है ॥ ७९॥

अथ भल्लातकावलेह ॥

यन्थिकं चित्रकं मुस्तं चविकं त्रिफलानृता ॥ सहदेवी गजकणापामा
र्गश्च कुठेरकम् ॥८०॥ प्रत्येकं चतुष्पालिकं कल्के द्रोणाम्भसा सुधीः॥
द्वे सहस्रे समे पिष्टे भल्लातक्याः फलानि तु ॥ ८१ ॥ पादावशेषे कल्के
च लोहचूर्णं तुलाद्धकम् ॥ क्षिपेत्कुडद्वयं सर्पिः सर्वं चैकत्र घट्टयेत्
॥ ८२ ॥ फलत्रिकं तथा व्योषं चित्रकं लवणाष्टकम् ॥ विडङ्गानि समां
शानि सर्वाणि पलमात्रया ॥ ८३ ॥ चतुष्पलं दृढदारोर्मूर्वाख्या तु च
तुष्पला ॥ संशुष्कसूरणं कन्दं चूर्णं चाष्टपलोन्मितम् ॥ ८४ ॥ संक्षिप्य

स्वादयेच्चूर्णमवतार्य सुशीतले ॥ स्थापितं मधु संयोज्यं कुडवद्वयमात्र
या ॥ ८५ ॥ देयं गुदामये चादौ कल्कमप्रातराशने ॥ अशींसि ग्रहणी
रोगं कामलाराजयक्ष्मणः ॥ ८६ ॥ गुल्मकिमीनश्मरीं च मन्दा
ग्निमेहशोणितम् ॥ नाशयत्याशु यक्ष्माणं करोति बलमाकृतेः ॥ ८७ ॥
आशु वृद्धिं प्रकुरुते वलीपलितनाशनम् ॥ रसायनस्य योगेन नरो ना
गवलो भवेत् ॥ ८८ ॥

गठोना, चीता, नागरमोथा, चव्य, त्रिफला, गिलोय, सहदेवी, गजपीपली, ऊंगा, आजव-
ला, ॥ ८० ॥ इन सबोंको १६ सोलह २ तोला प्रमाणलेवे पीछे कल्क बना एक हजार चौ-
वीस १०२४ तोले प्रमाण जलमें पकावे और दो हजार भिलावोंका कल्क बना तिसका क्वाथ
बनावे ॥ ८१ ॥ जव चतुर्थांश बाकी रहे तब उत्तारि २०० तोले प्रमाण लोहाका चूर्ण मिलावे और
३२ तोला प्रमाण घृत मिला पीछे एक जगह घोटि ॥ ८२ ॥ पीछे त्रिफला, सूँठ, मिरच,
पीपल, चीता, आठ प्रकारके नमक, वायविडंग, इनसबोंको चार २ तोला प्रमाण लेवे ॥ ८३ ॥
और भिदार १६ तोले, मूर्वा, १६ तोले और सूखाहुआ जमीकंद ३२ तोले प्रमाण लेवे
इन्होंका चूर्ण बना तिस पाकमें गेरदेवै ॥ ८४ ॥ पीछे शीतल होजावे तब ३२ तोला प्रमाण
शहद मिलावे ॥ ८५ ॥ पीछे गुदाके रोगकी निवृत्तिके वास्ते इस कल्कको प्रातःकाल खावै,
ववासीर, संग्रहणी, कामला, राजयक्ष्मा इन रोगोंको नाशता है ॥ ८६ ॥ और गुल्म, कि-
मि, पथरी, मंदाग्नि, ममेह, रक्तरोग, इनरोगोंको नाशता है और बल आकृति, इन्होंको ब-
ढाता है ॥ ८७ ॥ धातुओंकी वृद्धि करता है बुढापाके सफेद बालोंको दूर करता है इस
रसायनके योगसे मनुष्य हस्तीके समान बलवाला होता है ॥ ८८ ॥

अथ रक्तकी ववासीरकी चिकित्सा ॥

रक्तार्शिसामुपचारं वक्ष्यामि शृणु पुत्रक ! ॥ प्रातस्तिलान्भक्षयेच्च नवनी
तविमिश्रितान् ॥ ८९ ॥ सितानागरकयुक्तं नवनीतं सशर्करम् ॥ केसरं
मातुलुङ्गस्य विडङ्गशर्करायुतम् ॥ ९० ॥ भक्षोत्कूष्माण्डकालेहं नवनीते
न शर्कराम् ॥ एतेन रक्तगुदजाञ्छमयन्ति विचक्षणाः ॥ ९१ ॥ समङ्गा
शात्मलीपुष्पं चन्दनं ककुभत्वचम् ॥ नीलोत्पलमजाक्षीरं पिष्ट्वा पानम
स्रग्गदान् ॥ ९२ ॥ कुटजमूलसकेसरमुत्पलं खदिरधातुकिमूलशृतं प
यः ॥ पिवन्ति ऋक्षणयोगमसृग्भवं गुदजनाशनकारिविकारणम् ॥ ९३ ॥

अत्र रक्तके ववासीरकी चिकित्साको कहते हैं पुत्र! सुन तिलोंको नौनीघृतमें मिला प्रातः भक्षण करै ॥ ८९ ॥ और मिसरी, स्रंठ, नौनीघृत, खांड, इन्हेंको मिला खावे और विजौराकी केशर, वायविडंग, खांड, इन्हेंको खावे ॥ ९० ॥ अथवा कोहलेके अवलेहको नौनीघृत और खांडके संग खावे, इन इलाजोंसे वैद्यजन रक्तकी ववासीरोंको शांत करै ॥ ९१ ॥ और मंजीठ, सालवणका पुष्प, चंदन, अर्जुनवृक्षकी छाल, नीलाकमल, इन्हेंको बकरीके दूधमें पीस पीनेसे रक्तके रोगोंका नाश होता है ॥ ९२ ॥ कूडाकी छाल, और जड, कमलकेशर, खैरकी जड, धवकी जड, इन्हेंमें दूधको पका काथ बना जो मनुष्य पीवता है तिसकी गुदाके रक्तके रोगोंका नाश होता है ॥ ९३ ॥

अथ वर्त्तियोग ॥

कुक्कुटस्य पुरीषश्च तथा पाराव्रतस्य च ॥ यहधूमं च सिद्धार्थं धत्तूरक
दलानि च ॥ काञ्जिकेन च संपिष्य वर्त्ति सञ्चारयेद्गुदे ॥ ९४ ॥ सूर
पां कन्दकवर्त्तिर्विधेया मल्लीरसेन घृतेन च लिप्त्वा ॥ रोगगुदे गुदकीलक
माशु नाशयते गुदजांश्च क्रिमांश्च ॥ ९५ ॥ हरिद्रा मार्कवं कुष्ठं गृहधू
मं सुवर्चलम् ॥ सिद्धार्थकरसश्चैव काञ्जिकेन च पिष्यते ॥ ९६ ॥ मधु
ना सह वर्त्तिः स्याद्गुदे सञ्चारिता यदि ॥ अर्शासां नाशनं चैव करोति
सहसा नृणाम् ॥ ९७ ॥

मुरगाकी वीट, कबूतरकी वीट, धरका धूवां, सिरसम, धतुराके पत्ते, इन्हेंको कांजीमें पीस गुदामें बत्ती चढानी चाहिये ॥ ९४ ॥ और जमीकंदकी बत्ती बना मोगरीके रससे और घृतसे लीपि गुदामें चढानेसे गुदकीलक, गुदाके क्रिमि, इन रोगोंका नाश होता है ॥ ९५ ॥ और हलदी, भंगरा, कूट, धरका धूवां, कालानमक, इन्हेंको सिरसमके रसमें और कांजीमें पीस ॥ ९६ ॥ पीछे शहद मिला बत्ती बना गुदामें चढानेसे शीघ्रही ववासीररोगोंका नाश होता है ॥ ९७ ॥

अथ देवदाल्यादि लेप ॥

देवदालीपलसम्मितञ्च द्रुतभुग्व्योषै रसानां गणान्ब्रह्मन्थापिचुमन्दवारि
ककणाभाङ्गीशिलानैलकम् ॥ पिष्ट्वा श्लक्ष्णसमस्तकाञ्जिकयुतं दत्त्वा शि
लालेपनं दुर्नामानि हन्ति तथैव गुदजान्सर्वानिसारामयान् ॥ ९८ ॥

ताइका मस्तक, चीता, व्योष अर्थात् स्रंठ, मिरच, पीपल, इन्हेंको चार २ तोला प्रमाण

लेवे पीछे इन्होंका रस निकास लेवे और वच, नींबू, नेत्रवाला, पीपली, भारंगी, शिलाजीत, इन्होंको समान भागले पीछे, तेलमें और कांजीमें तथा पूर्वोक्त औषधोंके रसमें इन्होंको बारीक पीस शिलापे लीप देवे पीछे शिला ऊपरसे उतार गुदापे लगानेसे बवासीर, सब प्रकारके अतिसार इन्होंका नाश होता है ॥ ९८ ॥

अथ अशरीरोगपरशस्त्रादिकर्म ॥

यन्त्रं शस्त्राग्निकार्यञ्च कथितं तत्तु शल्यके ॥ यथा यन्त्रेण छिद्यन्ते दाहस्तत्र विधेयकः ॥ ९९ ॥ चर्मकीलं तथा छित्त्वा दग्धं क्षारेण धीमता ॥ पक्कजम्बूसमो वर्णो क्षारदग्धे प्रशस्यते ॥ १०० ॥ दग्धं वा सूरणक्षारं कदलीजीवमुद्रकैः ॥ पलाशकोकिलाक्षारमपामार्गघृतान्वितम् ॥ १०१ ॥ क्षारदाहे प्रशस्येत नवनीतघृतेन वा ॥ कुष्ठं पथ्या तथा निम्बपत्राणि च मनःशिला ॥ १०२ ॥ तस्मान्मधुघृतमिश्रं निर्धूमाङ्गारके क्षिपेत् ॥ धूपयेद्बुद्धजातेन यथा सम्पद्यते सुखम् ॥ १०३ ॥ मनःशिलानागरकं सगुग्गुलं ससार्षपम् ॥ देवदारु सपौष्करं, विशल्यासर्जिकारसम् ॥ १०४ ॥ घृतेन धूपयेद्बुद्धजं गुदामयं भगन्दरम् ॥ निहन्ति दुष्टपीनसं व्रणं सपूयगन्धिकम् ॥ १०५ ॥ निर्गुण्डीदलपत्रहरितालं तथा सार्षपचूर्णकं देवाहं घृतशर्करामधुयुतं धूपं गुदजादिके ॥ दुर्नामे सरुजे व्रणे च विषमे दुष्टे विसर्पेषु च पामापीनसकासनाशनकरो धूपो ग्रहोच्छेदनः ॥ १०६ ॥

और यंत्र, शस्त्र, तथा अग्निकर्म कहा है वह शल्यरोगमें करै और जो यंत्रसे छेदन किया जाये तहां दाह करना चाहिये ॥ ९९ ॥ और चर्मकीलको छेदन करके क्षारसे दग्ध करै और जो पक्काहुआ जामनके फलके समान वर्णवालाहो वह क्षारसे दग्ध करना श्रेष्ठ कहा है ॥ १०० ॥ और जमीकंदका खार, केला जीवक, मूंग इन्होंका खारसे दग्ध करना श्रेष्ठ कहा है और केशू, कोलिस्ता, उंगा इन्होंका खारको घृतमें युक्तकर अथवा नौनीघृतमें युक्तकर ॥ १०१ ॥ क्षारदाह करना श्रेष्ठ कहा है और कूठ, हरद्वै, नींबूके पत्ते, मनसिल ॥ १०२ ॥ इन्होंको शहदमें कमिला धूवांसे रहितहुआ अंगारपे गेरै पीछे तिससे गुदाके मस्तीके धूमनी देवे तब रोगीको सुख प्राप्त होता है ॥ १०३ ॥ और मर्मसिल,

संठ, गूगल, सिरसम, देवदार, पौहकरमूल, कलहारी, साजीखार, ॥ १०४ ॥ इन्हेंको घृतमें मिला धूप देनेसे ववासीरका मस्ता, गुदाके रोग, भगंदर, दुष्टपीनस, रादिकी गंधसे युक्त व्रण, इन्हेंको नाशता है ॥ १०५ ॥ संभालूके पत्ते, तेजपात, हरताल, सिरसमका चूर्ण, देवदार, इन्हेंको घृत, खांड, शहद इन्हेंमें मिला धूप देनेसे गुदाके रोग दूर होते हैं पीडासहित ववासीर, विषम और दुष्ट विसर्प रोग, पाम, पीनस, खांसी, इनरोगोंको नाशता है और यह धूप ग्रहदोषको दूर करता है ॥ १०६ ॥

अथ अशरोगमें पथ्य ॥

एवं क्रियाविधिः प्रोक्तश्चातः पथ्यानि मे शृणु ॥ शालिषट्पिकमुद्गाश्च कुलत्थाढक्यवास्तुकम् ॥ १०७ ॥ चिल्ली च शतपुष्पा च कूष्माण्डक पटोलकम् ॥ कारवेळं च तुण्डीरं सूरणो राजिकार्जकम् ॥ १०८ ॥ गुडस्तक्रं घृतं चैतत्प्रशस्यन्तेऽर्शां सदा ॥ सूकरः शल्लकी गोधा मूषको वा सरीसृपः ॥ १०९ ॥ लावतिन्तिरवात्तार्कमांसानि कथितानि च ॥ ११० ॥ बहूरमत्स्यदधिपिच्छलतैलविल्ववार्त्तार्कभोजनमतिप्रतिवर्जनीयम् ॥ निप्राकृति निशि दिवा शयनञ्च शीतं शीतान्तमेव परिवर्जितमादरेण ॥ १११ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने अश्विक्रित्सा नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

इस प्रकारसे क्रियाओंकी विधि कही है अब पथ्यवस्तुओंको कहते हैं शालिसंज्ञक चावल, सांठी चावल, मूंग, कुलथी, तुरीधान्य, वथुवा ॥ १०७ ॥ चिल्लीशाक अर्थात् वथुवाका भेद, सौंफ, कोहला, परवल, करेला, तोरी, जमीकंद, सिरसमकी डांकल, इन्हेंका भोजन और शाक हित कहा है ॥ १०८ ॥ और गुड, तक्र, घृत, ये ववासीरवालोंको हित है और शूर, शोह, गोह, मूसा, सर्प, आदि ॥ १०९ ॥ लावा, तीतर, वत्तक, इन्हेंके मांस पथ्य कहे हैं ॥ ११० ॥ और शूरवामांस, मत्स्यका मांस, दही, झागोंवाला पदार्थ, तेल, बेलगिरी, वत्तकका मांस, इन्हेंका ज्यादा भोजन नहीं करै और रात्रिमें प्रकृतिके अनुसार शयन करै दिनमें नहीं सोवै और शीतल पदार्थोंको वर्ज देवै ॥ १११ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसंनूवैद्यरचितशास्त्रनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

अथ द्वादशोऽध्यायः ॥

अथ खांसीकी चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ अथ वक्ष्यामि कासानां निदानं सच्चिकित्सितम् ॥ का
सांश्वाटविधांश्चैव शृणु पुत्र ! महामते ! ॥ १ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—इस्से अनंतर कास अर्थात् खांसीरोगोंका चिकित्सासहित निदा-
नको कहते है खांसी आठ ८ प्रकारसे होती है सो हे पुत्र ! हे महामते ! सुन ॥ १ ॥

अथ कासरोगके हेतु ॥

हास्यात्प्रहास्यरजसानिलसंनिरोधाद्धिमार्गगत्वाच्च हि भोजनस्य ॥ वेगावरो
धात्क्षवथोस्तथैव संजायतेऽपि मनुजां प्रतिधाम कासः ॥ २ ॥ संसेवनांम
धुरपिच्छलजागरेण स्वभैर्दिवातिदधिगौल्यहिमाशनेन ॥ संजायते मदनै
लमथाल्पकन्दी मध्येन वा भावि जनुः कफस्य ॥ ३ ॥

हास्यसे हासाके और वायुके रोकनेसे मार्गमें विशेष गमन करनेसे भोजनका वेग रोकने-
से छाँकके रोकनेसे, मनुष्योंको खांसी रोग होता है ॥ २ ॥ और मधुर तथा झागोंवाला
पदार्थके सेवनेसे जागनेसे दिनमें सोनेसे और अत्यंत दही, गुली बंधनेवाला पदार्थ, ठंडा
पदार्थ इन्होंके भोजन करनेसे तथा भैरफल, तेल, अल्प कंद, इन्होंके भक्षण करनेसे मदि-
रा पीनेसे खांसीमें कफ उत्पन्न होता है ॥ ३ ॥

अथ कासरोगकी संप्राप्ति ॥

उदान ऊर्ध्वगतिवैपरीत्यात्कफेन प्राणानुगतेन दीर्घः ॥ ह्रदं

निरेत्य कफकासकण्ठे करोति तेनापि च काससंज्ञाम् ॥ ४ ॥

नाभिमें रहनेवाला उदानवायु ऊपरको विपरीत होजानेसे कफके संग प्राणवायुके दी-
र्घ संग होनेसे ह्रदमें प्राप्तहुआ कफ खांसीके संग कंठमें प्राप्त होजाता है तिससे खांसी
रोग होता है ॥ ४ ॥

अथ कासरोगके प्रकार ॥

कासाश्वाद्यौ समुद्दिष्टाः क्षतजोऽन्यः प्रकीर्तितः ॥ वातिकः पैत्तिकश्चैव
श्लैष्मिकः सान्निपातिकः ॥ ५ ॥ वातपित्तसमुद्भूतः श्लेष्मपित्तसमुद्भू-
वः ॥ सप्तमो लोहितेनात्र चाटमो जायते क्षयात् ॥ ६ ॥ न वातेन विना

श्वासः कासो न श्लेष्मणा विना ॥ न रक्तेन विना पित्तं न पित्तरहितः
क्षयः ॥ ७ ॥ कथितः सम्भवश्वासश्चातो वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ येन संल
क्ष्यते नृणां कासश्चाटविधः परः ॥ ८ ॥

खांसी आठ प्रकारसेभी होती है एक खांसी क्षतज होती है वातसे १ पित्तसे २ कफसे
३ सन्निपातसे ४ वातपित्तसे ५ कफपित्तसे ६ और सातमी रक्तसे और अठमी क्षयसे होती
है ॥ ५ ॥ ६ ॥ वातके विना श्वास नहीं होता कफके विना खांसी नहीं होती रक्तके विना
पित्त नहीं होता पित्तके विना क्षयरोग नहीं होता यह सिद्धांत है ॥ ७ ॥ श्वासकी उत्पत्ति तो
कहदी है अब लक्षण कहते हैं जिसे मनुष्योंकी आठप्रकारकी खांसी जानी जावेगी ॥ ८ ॥

अथ वातसे उपजी खांसीका लक्षण ॥

क्षीणेन्द्रियः पार्श्वरुजोऽतिवेगः शूलावृतो वा गलके च वद्धः ॥ नि
द्राकृतिभिन्नरवो मनुष्यो वातेन कासस्य भवेत्प्रकाशः ॥ ९ ॥

इंद्रिय क्षीणहों पशलीमें पीडाहो अत्यंत वेगहो शूलहो गलबंधा रहै निद्रा आवे स्वर फटा
रहै तो वातसे उपजी खांसी जाननी ॥ ९ ॥

अथ पित्तसे उपजी खांसीके लक्षण ॥

कण्ठे विदाहो ज्वरशोपमूर्च्छातृष्णाभ्रमः पित्तज्वे च कासे ॥ आ
स्ये कटुत्वं च शिरोऽत्तिपित्तं निष्ठीवते पीतनखानि नेत्रे ॥ १० ॥

कंठमें दाहहो ज्वर, शोप, मूर्च्छा, तृष्णा, भ्रम ये हो तब पित्तसे उपजी खांसी जाननी और
मुखमें कडुआपनहो पित्त थूके शिरमें पीडाहो नख, नेत्र, ये मिले रहै ॥ १० ॥

अथ कफकी खांसीके लक्षण ॥

जाद्वं वमिः पाण्डुज्वं च कासं निष्ठीवते यः सघनं कफं वा ॥

भक्त्तारुचिर्वा कफपूर्णदेहे घनः स्वरः श्लेष्मभवे च कासे ॥ ११ ॥

जडताहो, वमनहो पीलिया रोगकी खांसीके लक्षणहो और चीकना करडा कफको थूके
भोजनमें अरुचिहो कफसे पूर्ण शरीरहो भारा स्वरहो ये कफसे उत्पन्न हुई खांसीके
लक्षण है ॥ ११ ॥

अथ त्रिदोषकी खांसीके लक्षण ॥

कण्ठूदाहश्वासच्छर्दिशोषारोचकपीडिताः ॥ शिरोऽत्तिशोफहृल्लासः कासे
त्रिदोषसम्भवे ॥ १२ ॥ कासः कण्ठूः पिपासा च कुक्षिशूलो विनिद्रता ॥

शुष्ककासः पिपासा च वातपित्तोज्ज्वः कफः ॥ १३ ॥ धूमगन्धः पीतवर्णोऽक्षिप्रपाकी सरक्तकः ॥ रक्तनेत्रः पिपासाद्यः पित्तश्लेष्मान्वितः कफः ॥ १४ ॥

खाजिहो, दाहहो, श्वासहो, छर्दिहो, शोषहो, अरुचिकी पीडाहो, शिरमें पीडाहो, शोभा हो, थुकथुकीहो, ये त्रिदोषो उपजी खांसीके लक्षण हैं ॥ १२ ॥ और खांसीकी धसकहो खाजिहो तृपाहो कुक्षिमें शूलहो निद्रा नहीं आवे, सूखी खांसीहो, तो वातपित्तसे उपजा कफ, अर्थात् खांसी जाननी ॥ १३ ॥ धूवां सरीखी गंधहो, पीला वर्णहो आंखि पकजावें कफमें रक्त अति उल नेत्रहों तो पित्तकफसे उपजी खांसी जाननी ॥ १४ ॥

अथ क्षतजखांसीके लक्षण ॥

व्यवायातिप्रसङ्गेन वेगरुद्धाभिघातकः ॥ आरोद्धरणयातेन जायते क्षतजः कफः ॥ १५ ॥ तेन हृदि व्यथा रूक्षं कासते च सशोणितम् ॥ श्वासः संक्षीयते गात्रं दीनो मन्दज्वरातुरः ॥ १६ ॥ वेपते पर्वभेदश्च मोहभ्रमनि पीडितः ॥ एवं क्षतजनिर्दिष्टो नृणां प्राणापहारकः ॥ १७ ॥

मैथुनके अत्यंत प्रसंगसे वेगके रोकमेंसे अभिघातसे और चोझाके उठानेसे क्षतसे उपजाहुआ कफ जानना ॥ १५ ॥ तिस करके हृदमें पीडाहो रूपी खांसी आवे अथवा खांसीमें रक्त आवे श्वासहो गात्र क्षीण हुआजावे गरीब रहै मंदज्वरकी पीडा रहै कंपना रहै हडफूटगोहो, मोह, भ्रम, इन्होंकी पीडाहो ऐसे मनुष्योंके क्षतज अर्थात् चोटसे उपजीहुई खांसी जाननी यह प्राणको हरनेवाली खांसी है ॥ १६ ॥ १७ ॥

अथ रक्तकी खांसीके लक्षण ॥

अल्पायासाः क्षताक्षीणाः संपाताः क्षणभोजनात् ॥ पातनाघातयोगेन जायते रक्तजः कफः ॥ १८ ॥ विस्रगन्धास्यहृच्छूलदीनो वै विकलेन्द्रियः ॥ रक्तनिष्ठीवनोपेतः श्वासो वापि मदातुरः ॥ १९ ॥ क्षीयते सततं गात्रं मोहस्तृष्णा च जायते ॥ इत्येतैर्लक्षणैर्युक्तं रक्तकासं विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

कछुक परिश्रम करनेसे चोटसे क्षीण होनेसे गिरनेसे और दुष्टभोजनसे गिरनेके घातके योगसे रक्तसे उपजाहुआ कफ होजाता है ॥ १८ ॥ मुखमें बुरी गंधआवे हृदमें शूलहो गरीब रहै इंद्रिय विकल रहै रक्तके थूकनेसे युक्तहो श्वासहो मदसे पीडितहो ॥ १९ ॥ शरीर निरंतर क्षीणहुआ जावे मोहहो, तृपाहो, इन लक्षणोंसे युक्त जो हो वह रक्तसे उपजी खांसी जाननी ॥ २० ॥

अथ सबप्रकारकी खांसियोंके लक्षण ॥

अथ क्षयानुमानेन लक्ष्यते कासलक्षणम् ॥ पाण्डुरोगे तथा यक्ष्मे गुल्मे
वापि क्षतक्षये ॥ २१ ॥ शोफार्शासां प्रतिश्याये चावश्यं काससम्भवः ॥
एतेषां चानुमानेन कासं संलक्षयेद्द्रुशम् ॥ २२ ॥ स्थविराणां रक्त
कासः सोऽपि व्याप्यः प्रकीर्तितः ॥ बालानां जायते कासो धात्रीवैकं
ल्ययोगतः ॥ २३ ॥ एते कासाः समुद्दिष्टा दशभिर्भिषगुत्तमैः ॥ तेषां
क्रियाप्रतीकारः पथ्यभेषजमेव च ॥ २४ ॥

इस्से अनंतर क्षयके अनुमान करके खांसीका लक्षण कहते है पांडुरोग, राजयक्ष्मा, गुल्म,
क्षतक्षय, शोजा, ववासीर, पीनस, इन्होंमें अवश्य खांसी होजाती है इन्होंके और अनुमानसे
अत्यंत खांसीका लक्षण जानना ॥ २१ ॥ २२ ॥ और वृद्ध पुरुषोंके जो रक्तसहित खांसी
होती है वह व्याप्यरोग कहाता है और धायके विकलताके योगसे बालकोंके खांसी उत्पन्न
होती है इन दशप्रकारके लक्षणोंकरके वैद्यजनोंने खांसी कही है सो तिन्होंको बंध करने-
वाली क्रियाओंको कहते है और पथ्य औषधोंको कहते है ॥ २३ ॥ २४ ॥

अथ वातकी खांसीकी चिकित्सा ॥

शतमूलिकाकथितः कषायः पीतः कणाचूर्णयुतः सुखोष्णः ॥ तृणां
निहन्यान्मरुतोद्भवं तु कासं सशूलं च विपाचनं स्यात् ॥ २५ ॥ भाङ्गी
शठीगोस्तनीशृङ्गवेरभृङ्गीकणाचूर्णयुतोऽवलेहः ॥ गुडेन तैलेन हितो नरा
णां मरुद्भवकासविकारनाशनः ॥ २६ ॥ विश्वा दुःस्पर्शभृङ्गी शठी पुष्क
रं दारु भाङ्गी कणा मुस्तं रास्नायुतम् ॥ शर्करायुक्तमनुदिनञ्च चूर्णं का
सं निःश्वासवातोद्भवं हन्ति वै ॥ २७ ॥

महाशतावरीका काथ वना तिसमें पीपलीका चूर्ण मिला सुखसे सुहाता हुआ गरम २ पी-
नेसे मनुष्योंके वातसे उपजी हुई शूलसहित खांसी दूर होती है और पकजाती है ॥ २५ ॥
और भारंगी, कचूर, दाख, अदरक, भांग, पीपल, इन्होंका चूर्ण वना गुडमें और तेलमें अ-
वलेह बना चाटनेसे वातसे उपजी हुई खांसी दूर होती है ॥ २६ ॥ और सूँठ, धमांसा,
भांग, कचूर, पौहकरमूल, देवदार, भारंगी, पीपल, नागरमोथा, रास्ना, इन्होंका चूर्ण बना
खांड मिला खानेसे श्वाससहित वातकी खांसी दूर होती है ॥ २७ ॥

अथ कट्फलआदि औषध ॥

कट्फलं कटुतृणं भाङ्गी मुस्ता वचा धान्यकम् ॥ पर्पटं देवदारुस्तथा-

दुर्वी विश्वायुतककटम् ॥ २८ ॥ कल्कयेत्पानमेतन्मधुसंयुतं मानवम् ॥
कासिनां कासप्रतीकारकासीत्तथा श्लेष्मसम्भूताय ॥ २९ ॥ क्षयं पीनसं
कण्ठग्रहं शोषवातात्मकम् ॥ कफं नाशयत्याशुहिक्काज्वरं श्लेष्मकम् ॥ ३० ॥

कायफल, रोहिषतृण, भारंगी, नागरमोथा, वच, धनियां, पित्तपापडा, देवदार, दारुहलदी,
सूँठ, काकडासींगी ॥ २८ ॥ इन्होंका कल्क बना शहद मिला पीना हित है इस औषधसे
खांसी रोगवालोंकी खांसी दूर होती है और कफ दूर होता है ॥ २९ ॥ क्षय, पीनस, कंठग्रह,
वातसे उपजा शोष, कफ, हिचकी, कफसे उपजा ज्वर इन्होंको नाशता है ॥ ३० ॥

अथ द्राक्षादि औषध ॥

द्राक्षामलक्याः फलपिप्पलीनां कोलं सखर्जूरयुतोऽवलेहः ॥

रक्तपित्तकासक्षयनाशकारी सकामलं पाण्डु हलीमकञ्च ॥ ३१ ॥

और दाख, आंवला, पीपल, चव्य, खिजूर इन्होंका अवलेह बना चाटनेसे रक्तपित्त, खां-
सी, क्षयरोग, इन्होंका नाश होता है कामला, पांडुरोग, हलीमक, इन्होंको नाशता है ॥ ३१ ॥

अथ वालकादि कल्क ॥

वालावृहत्यौ मधुकं वृषं च तथैव कुष्ठं पिचुमन्दकञ्च ॥ गवा

स्तनीसंयुतकल्कमेतत्पानं हितं पित्तकफात्मके च ॥ ३२ ॥

और नेत्रवाला, छोटी कटेहली, बड़ी कटेहली, मुलहदी, वांसा, कूठ, नींब, दाख इन्होंका
कल्क बना पिचकफसे उपजी हुई खांसीमें पीना हित है ॥ ३२ ॥

अथ मुस्तादि चूर्ण ॥

मुस्ताटरूषकफलत्रिकदारुभाङ्गी व्याघ्रीसपुष्पफलमूलदलैरुपेता ॥ रास्ना

विषा च मधुरसादलानि चूर्णं निहन्ति कथितेन जलेन कासम् ॥ ३३ ॥

वद्धाथवा च गुटिका मधुना गुडेन सिन्धूद्भवेन मगधासमहौषधेन ॥ आ

स्ये धृता निशि विशालगुणा भवन्ति श्वासं क्षयं क्षतजकासमिदं निहन्ति ३४

नागरमोथा, वांसा, त्रिफला, देवदार, भारंगी, और पुष्प, फल, मूल, पत्ते इन पंचांगोंसहि-
त कटेहली, रास्ना, अतीश, श्रेष्ठ तुलसीके पत्ते, इन्होंका चूर्ण बना, जलमें क्वाथ बना पीनेसे
खांसी दूर होती है ॥ ३३ ॥ अथवा इसचूर्णको शहद तथा गुडमें मिला और संधानमक,
पीपल, सूँठ ये मिला गोली बांध मुखमें धरे रात्रीकी समयमें यह उत्तम गुणवाली कही है
और श्वास, क्षय, क्षतसे उपजी खांसी इन्होंको नाशती है ॥ ३४ ॥

अथ पित्तकी खांसीकी चिकित्सा ॥

शर्करा चैव खर्जूरं द्राक्षा लाजा कणा मधु ॥ सर्पिर्युतो हितो लेहः पि
त्तकासनिवारणः ॥ ३५ ॥ आटरूपकपत्राणि पिचुमन्ददलानि च ॥ तु
लसीत्वरसश्चैव शठी भृङ्गी मरीचकम् ॥ ३६ ॥ शुण्ठीचूर्णं गुडे युक्तं लि
द्यात्कासे कफात्मके ॥ भाईग्याश्च नागपिप्पल्याः पिवेत्क्राथं सुखो
ष्णकम् ॥ ३७ ॥ आर्द्रकस्य रसं नीत्वा मधुना च पिवेत्सुधीः ॥ का
से श्वासे प्रतिश्याये ज्वरे श्लेष्मसमुद्भवे ॥ ३८ ॥ कट्फलं भूतृणं भाईर्नी
शुण्ठी पर्पटकं वचा ॥ सुराहं च जलशृतमुक्तञ्च पण्डितैस्तथा ॥ ३९ ॥
मधुना संयुतं पानं कासे वातकफात्मके ॥ श्वासे हिक्काज्वरे शोषे महा
कासे च दारुणे ॥ ४० ॥ .

खांड, विषूर, दास, धानकी खील, पीपल, शहद, इनऔषधोंका चूर्णमें घृत मिला लेह बना चाटनेसे पित्तकी खांसी दूर होती है ॥ ३५ ॥ वांसाके पत्ते, निंबके पत्ते, तुलसी, इन्होंका रस और कचूर, भांग, मिरच, ॥ ३६ ॥ स्रंठ, इन्होंका चूर्ण बना गुडमें मिला चाटनेसे कफसे उपजी खांसी दूर होती है और भारंगी, गजपीपली, इन्होंका काथ सुखसे सुहाता हुआ गरम २ पीवे ॥ ३७ ॥ और अदरकका रस निकाल शहदके संग पीना, खांसी, श्वास, पीनस, कफसे उपजा ज्वर इन्होंमें श्रेष्ठ है ॥ ३८ ॥ और कायफल रोहिपतृण, भारंगी, स्रंठ, पित्तपापडा, वच, देवदार इन्होंको जलमें पकावे ऐसे पंडितोंने कहा है ॥ ३९ ॥ पीछे शहद मिला पीनेसे वात कफसे उपजी खांसी दूर होती है और श्वास, हिचकी, ज्वर, शोष, महादारुण खांसी इन्होंमें श्रेष्ठ है ॥ ४० ॥

अथ लघुतालीसआदि औषध ॥

तालीसपत्रं मरिचञ्च विश्वाश्यामायुतं चोत्तरभागवृद्ध्या ॥ त्वक्पत्रके
णापि लवङ्गमेलां पिप्पल्या चाष्टौ गुणितां सिताञ्च ॥ ४१ ॥ लिह्या
त्प्रभाते श्वसने च कासे घ्नीहारुचौ पीनसच्छर्दिहिक्काम् ॥ शोफातिसारं
ग्रहर्णां च पाण्डुं क्षयं निहन्यात् क्षतजञ्च यक्ष्मम् ॥ ४२ ॥

तालीसपत्र, १ मिरच, २ स्रंठ, ३ पीपल, ४ इन्होंको यथोत्तर वृद्धि भागसे ले और दालचीनी, तेजपात, लौंग, इलायची, इन्होंको मिला और पीपलसे आठगुनी मिसरी मिला ॥ ४१ ॥ फिर प्रभातसमयमें खानेसे श्वास, खांसी, घ्नीह अर्थात् तिछी, अरुचि, पीनस, छर्दि, हिचकी, शोफा अतिसार, संग्रहणी, पांडुरोग, इनरोगोंका नाश होता है और चोटसे उपजा क्षय, राजयक्ष्मा इन्होंको नाशता है ॥ ४२ ॥

अथ बृहत्तालीसाद्य औषध ॥

तालीसं त्रिफलाप्रियङ्गुमंगधामूलञ्च मुस्ता शठी दाव्यैलादलनागकेसर
लवङ्गानां तथा नागराः॥ कृष्णाकोलकबालकं सचविका मूर्वा विषा क
र्कटं द्राक्षा कुष्ठनिशाग्रिवत्सकवृषं गोकण्टतित्ता तथा ॥ ४३ ॥ वृक्षा
म्लं च सदाडिमाम्लकरसं पक्कवदराणि च एतेषां समभागचूर्णविहितं यो
य्या समा शर्करा ॥ योज्यं चार्द्धपलं निहन्ति क्षतजं कासं तथा श्वास
कं पाण्डूकामलमेदशोषगुदजे शस्तं सदा यक्ष्मिणाम् ॥ ४४ ॥

तालीसपत्र, विफला, मालकांगनी, पीपलामूल, नागरमोथा, कचूर, देवदार, इलायची, तेजपात, नागकेशर, इलायची, लौंग, स्रंठ, पीपली, कंकोल, नेत्रवाला, चव्य, मूर्वा, अतीश, काकडासींगी, दास, कूठ, दारुहलदी, चीता, कूडाकीछाल, वांसा, गोखरू, कुटकी, ॥ ४३ ॥ विजौरा, अनारदाना, पकेहुए बेर, इन्होंको समान भागले चूर्ण बनावे और सब चूर्णके समान खांड मिलावे, इस चूर्णको आधा तोला प्रमाण खावे यह क्षतसे उपजी खांसी, श्वास, पांडुरोग, कामला, मेद, शोष, गुदाके रोग, राजयक्ष्मा, इनरोगोंको नाशता है ॥ ४४ ॥

क्षयकासे मधुयष्टिकया त्रिदोषजाः ॥

क्षयसे उपजीहुई खांसीमें और त्रिदोषसे उपजीहुई खांसीमें मुलहटीका सेवन करना हित है

आमजे शूलरोगार्तिः पर्वभेदो भ्रमः क्लमः ॥

शोषः शिरोव्यथा क्लेदो नेत्रे गम्भीरमिच्छति ॥ ४५ ॥

और आमसे उपजीहुई खांसीमें शूलरोगकी पीडा, संधियोंका भेद, भ्रम, ग्लानि ये होते हैं और शोषहो, शिरमें पीडाहो, ग्लानिहो, नेत्र गंभीरहो ये लक्षण होजाते हैं ॥ ४५ ॥

अथ छर्दिलक्षण ॥

खल्ली वा चेतनं वापि अजीर्णाज्जायते वमिः ॥ सापि स्निग्धा च रूक्षा
च द्विविधा जायते वमिः ॥ ४६ ॥ गम्भीरनेत्रो वमते विड्वन्धो वाति
साध्यते ॥ गात्रे खल्लीकरं शूलं तथा शोथानिमूर्च्छना ॥ ४७ ॥ विक
लाङ्गो भ्रमार्त्तश्च भ्रमन्तं पश्यते जगत् ॥ शिरोऽर्त्तवैपतेऽत्यर्थं करपादौ
हिमोपमौ ॥ ४८ ॥ एतैर्लिङ्गैस्तु संयुक्तां छर्दिं दूरे परित्यजेत् ॥ असाक्ष्या
सर्वयोगैस्तु साप्यजीर्णा सुधीमता ॥ ४९ ॥

अजीर्णसे वमन होनेसे खल्लीरोग होजावे मूर्च्छा होजावे और वह वमनभी स्निग्ध, रूक्ष ऐसे दोषकारकी होती है ॥ ४६ ॥ जिसके गंभीर नेत्रहों और वमन करै विद्या बंधहो अ-

तिसारहो और शरीरमें खली रोगहो शूलहो शोकाहो अतिमूर्च्छाहो ॥ ४७ ॥ अंग विकलहो
 भ्रमकी पीडाहो जगवको भ्रमताहुआ देखै शिरमें पीडाहो कांपनाहो हाथपैर ठंढेहों ॥ ४८ ॥
 इन लक्षणोंसे युक्त जो वमनहो तिसको दूरसेही त्याग देवै और सब योगोंकरके यह असाध्य
 है अजीर्णसे उपजा कहाती है ॥ ४९ ॥

अथ वातच्छर्दिकी चिकित्सा ॥

सपञ्चमूलीकथितः कषायः ससैन्धवं चामलकञ्च कल्कः ॥ क्वाथं पि
 वेन्मिश्रितपिप्पलीकं सवातच्छर्दिविनिवारणं च ॥ ५० ॥ दद्यात्क्षीरं श
 र्करया नरस्य पित्तोद्भूतां वातिशीघ्रं निहन्ति ॥ द्राक्षा वापि क्षीरदाव्या
 विचूर्णं लेहो हन्ति सारघाणां पिवन्ति ॥ ५१ ॥ फलत्रिकं पुष्करकं व
 चां च तथाभयासैन्धवकं गुडेन ॥ चूर्णं विलिख्यात्कफवान्ति हन्ति नर
 स्य मूत्रेण युतस्य पानम् ॥ ५२ ॥ शठी दाव्याजिया शुण्ठी मागधी घृ
 तसंयुता ॥ चूर्णं तन्नेन संयुक्तं हन्ति छर्दि त्रिदोषजाम् ॥ ५३ ॥ रक्त
 शाल्युद्भवा लाजा मधुशर्करयान्विता ॥ ज्वरान्ति युवतेः शीघ्रं नाशय
 त्येव मे मतम् ॥ ५४ ॥ आमलक्या रसेनाथ घृष्टं चन्दनकं मधु ॥ गुटिका
 पलमानेन लेहो हन्ति वमिं ध्रुवम् ॥ ५५ ॥ आर्द्रदाडिमनिर्घ्यासश्वाजा
 जी शर्करान्विता ॥ सतैलमाक्षिकं वापि चत्वारः कवलग्रहाः ॥ ५६ ॥
 चतुररोचकान् हति वाताद्यान्द्द्वजान्स्त्रियः ॥ ५७ ॥ त्रिकटुकरजनीद्वयं
 च फलत्रिकं मध्वा च यावशूकञ्च ॥ समकृतमिति चूर्णमेतन्मधुना यु
 तं वमिं निवारयति ॥ ५८ ॥ सगुडं दाडिमं द्राक्षा पथ्या वा नागरगुडयु
 क्ता ॥ त्रिवृता नागरमथर्वा गुडेन युक्तं वमिं दधति ॥ ५९ ॥

लघुपंचमूलका क्वाथ वना तिसमें सैधानमक, आंवला इन्होंका कल्क वना और पीपल मिला
 इसक्वाथके पीनेसे वातसे उपजी छर्दि दूर होती है ॥ ५० ॥ और दूधमें खांड मिला पीनेसे
 पित्तसे उपजी खांसी शीघ्रही नष्ट होती है और दाख क्षीरविदारी इन्होंका चूर्णका लेह वना
 नासिकासे पीनेसे खांसीका नाश होता है ॥ ५१ ॥ और त्रिफला, पौहकरमुल, वच, हरद, सैधा-
 मक इन्होंका चूर्ण वना गुडमें मिला चाटनेसे कफकी छर्दि दूर होती है और जिसके ज्यादै
 मूत्र उतरताहो उसकोभी इसीका पीना श्रेष्ठ है ॥ ५२ ॥ और कचूर, देवदार, हरद, सेंट, पीपल,
 इन्होंका चूर्णको घृतमें अथवा तक्रमें मिला खानेसे त्रिदोषसे उपजी छर्दि दूर होती है ॥ ५३ ॥

और शाली चावलोंकी खीलोंमें शहद और खांड मिला खानेसे शीघ्रही ज्वरकी पीडाका नाश होता है ॥ ५४ ॥ और आंवलाके रसमें चंदनको घिस तिसमें शहद मिला आंवलाके प्रमाण गोली बांधलेवे यह लेह वमनको निश्चय नाशता है ॥ ५५ ॥ अदरकका रस अनारदानाका रस, जीरा, खांड, तेल, शहद इन्होंने कवलग्रह अर्थात् ग्रास बनाके मुखमें धारण करै ॥ ५६ ॥ इन ग्रासोंके धारण करनेसे वात आदिक दोषोंसे उपजीहुई तथा दोषोंसे उपजीहुई और तीन दोषोंसे उपजीहुई वमन दूर होती है ॥ ५७ ॥ और सूंठ, मिरच, पीपल, हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, मदिरा, जवाखार, इन्होंने समान भागले चूर्ण बना शहद खानेसे छर्दिका निवारण होता है ॥ ५८ ॥ और अनारदाना, दाख, इन्होंने मिला अथवा हरडै, सूंठ, इन्होंने, गुड मिला अथवा निशोत, सूंठ, इन्होंने गुडमें मिला खानेसे वमन दूर होती है ॥ ५९ ॥

अथ पित्तकी छर्दिकी चिकित्सा ॥

पर्पटं सगुडं काथं शीतलं पायथेनृणाम् ॥ हन्ति वमिं महाघोरां सपित्तां
भ्रमसंयुताम् ॥ ६० ॥ काकोली काकमाची च काथं शर्करया युतम् ॥
लाजाशर्करसंयुक्तं हन्ति पित्तवमिं नृणाम् ॥ ६१ ॥ मातुलुङ्गरसश्चैव पथ्या
शर्करया युतः ॥ हन्ति कासं पित्तभवं वमिं शीघ्रं नियच्छति ॥ ६२ ॥
दृष्ट्वा पित्तवमिं घोरां सदाहभ्रमदायिनीम् ॥ तस्यारग्वधपत्राणि मधु श
र्करयान्वितम् ॥ ६३ ॥ क्षीरपानं प्रशस्तं वा मुस्ताशर्करयान्वितम् ॥ ६४ ॥

पित्तपापडा गुड इन्होंने काथ बना शीतल कर मनुष्योंको पीनेसे पित्तसहित और भ्रमसहित महाघोर वमन दूर होती है ॥ ६० ॥ और काकोली, मकोह, इन्होंने काथ बना तिसमें खांड मिला पीनेसे अथवा धानकी खीलोंका रसमें खांड मिला पीनेसे पित्तकी छर्दि दूर होती है ॥ ६१ ॥ और विजौराका रसमें हरडैका चूर्ण और खांड मिला पीनेसे पित्तसे उपजी खांसी और वमन दूर होती है ॥ ६२ ॥ और दाह तथा भ्रमवाली घोर पित्तकी छर्दिकी देखि तहां अमलतासके पर्चोंका रसमें शहद और खांड मिला पीना ॥ ६३ ॥ तथा नागरमोथा, खांड, ये मिला दूधका पीना श्रेष्ठ कहा है ॥ ६४ ॥

अथ कफकी छर्दिकी चिकित्सा ॥

जम्बवान्नकप्रवालानि दाडिमामलकं तथा ॥ मस्तुनोपोषितं पानं हन्या
च्छ्लेष्मवमिं नृणाम् ॥ ६५ ॥ सर्जार्जुनधवकदम्बकलोलचूर्णं शुण्ठीधान्या
कसहितं सगुडं प्रदद्यात् ॥ श्लेष्मोद्भवं वमनमाशु निहन्ति पुंसां शठीकणा
मधुविडङ्गयुतोऽपि लेहः ॥ ६६ ॥

जामन, आंब, इन्होंके कोमल पत्ते, अनारदाना, आंवला, इन्होंको दहीके मस्तुमें पीस पीनेसे मनुष्योंके कफसे उत्पन्न हुई छर्दि दूर होती है ॥ ६५ ॥ और रालवृक्ष, अर्जुनवृक्ष, धव, कदंब, कंकोल, स्रंठ, धनियां इन्होंका काथ बना गुड मिला पीनेसे कफसे उपजी छर्दि दूर होती है और कचूर, पीपल, शहद, वायविडंग, इन्होंका अवलेह बना चाटना हित है ॥ ६६ ॥

अथ एलादिचूर्णं ॥

एलालवङ्गजकेसरकोलसर्जालाजाप्रियङ्गुघनचन्दनपिप्पलीनाम् ॥ चूर्णा
नि मार्कवसितासहितानि लीढ्वा छर्दि निहन्ति कफमारुतपित्तजाश्च ॥ ६७ ॥
एलादलानि गजकेसरकत्वगेलालामज्जकं दहकं घनं प्रियङ्गुम् ॥ सचन्द
नं मगधजासमचूर्णितश्च लीढ्वा सितासमन्निदोषवर्षि जघान ॥ ६८ ॥

इलायची, लौंग, इलायची, चव्य, रालवृक्ष, धानकी खील, मालकांगनी, नागरमोथा, चंदन, पीपल, भंगरा, इन्होंका चूर्णमें मिसरी मिला चाटनेसे कफ वात पित्त इनदोषोंसे उप-
जीहुई छर्दि दूर होती है ॥ ६७ ॥ और इलायचीके पत्ते, नागकेशर, दालचीनी, इलायची, रोहिपट्टण, चीत, नागरमोथा, मालकांगनी, चंदन, पीपल, इन्होंको समान भागले चूर्ण
बना मिसरी मिला खानेसे त्रिदोषसे उपजी छर्दिका निवारण होता है ॥ ६८ ॥

अथ छर्दिकी शमनक्रिया ॥

ऊर्ध्वभागगते दोषे विरेचनं प्रशस्यते ॥ तस्मिञ्जातेऽप्यधोभागं वमनं
शाम्यति ध्रुवम् ॥ ६९ ॥ अथवा द्विभागगते तदा देयाभया मधु ॥ क्रि
मिजं वमनं ज्ञात्वा क्रिमीणां शमनक्रिया ॥ ७० ॥

और खांसीमें जो दोष ऊर्ध्वभागमें स्थितहो तो जुलाब दिवानी चाहिये और जो
अधोभागमें अर्थात् नीचाके स्थानोंमें दोष प्राप्तहोवे तो वमन कराना श्रेष्ठ है ॥ ६९ ॥
और जो नीचे तथा ऊपर दोनों भागोंमें दोष स्थित हों तो हरद्वै, शहद, ये देने चाहिये और
क्रिमियोंसे उपजे वमनको जानके क्रिमियोंको शांत करनेवाली क्रिया करनी चाहिये ॥ ७० ॥

अथ छर्दिरोगमें पथ्यापथ्य ॥

न चोष्णं नातिचाम्लं च न तीक्ष्णं न तथा लघु ॥ तन्दुलीयकशाकं
वा न मद्यं काञ्जिकं न तु ॥ ७१ ॥ वमिदोषे च कथितं पथ्यं चात्र
शृणुष्व मे ॥ अनूपं शालिभक्तं च शतपुष्पा च वास्तुकम् ॥ ७२ ॥ आ
ढकी मुद्गयूषश्च दधि गुडघृतान्वितम् ॥ अङ्गारमण्डका चाथ वमौ पथ्यं

प्रशास्यते ॥ ७३ ॥ यथावलं यथाकालं यथारोगं यथानलम् ॥ तथा
दृष्ट्वा प्रकुर्वन्ति पथ्यानां समुपक्रमम् ॥ ७४ ॥ दिवा निद्रां प्रयुञ्जीयाद्
मौ श्वासेऽतिसारके ॥ हिक्काशोषे तथाजीर्णे वमिक्लेदेऽथवा पुनः ॥ ७५ ॥
न चोष्णतोयपानञ्च नातिभोजनमेव च ॥ न धावनं न कर्त्तव्यं वर्जयेद्
मनार्दिने ॥ ७६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने छर्दिचि
कित्सा नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

और गरम, अत्यंत खटा, तीक्ष्ण तथा हलका, चौलाईका शाक, मदिरा, कांजी, इन्होंको
वमन रोगमें नहीं खावे ॥ ७१ ॥ अब वमनमें पथ्य कहते है सुन अनूपदेशके जीवोंका मांस,
शालिसंज्ञक चावल, सौंफ, वथुवा, ॥ ७२ ॥ तुरीधान्य, मूंगोंका सूप, दही, गुड, घृत
अंगारोंपे सेके हुए मांटे ये वमनमें भोजन करने श्रेष्ठ है ॥ ७३ ॥ और जैसा बलहो जैसा
समयहो जैसा रोगहो जैसी जठराग्निहो तैसेही पथ्य भोजनोंको विचारके देवै ॥ ७४ ॥ और
वमन, श्वास, अतिसार इनरोगोंवाले पुरुषोंको दिनमें सुवाधै, और हिचकी, शोष, अजीर्ण
वमन ग्लानि इनरोगोंमेंभी दिनमें सोना श्रेष्ठ है ॥ ७५ ॥ और गरमजल नहीं पीवे ज्यादै भो-
जन नहीं करै और वमनसे पीडित पुरुषको दांतून नहीं करनी चाहिये ॥ ७६ ॥ इति वेरी-
निवासिबुधशिवसहायस्तनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थानेछर्दिचि
कित्सानाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

अथ तृषा और तालुशोषकी संप्रप्ति ॥

आत्रेय उवाच ॥ अथश्रमाद्बलहीनाद्विदलरूक्षसेवनात् ॥ आतपे वा
ज्वरे जीर्णे क्षयाच्च क्षतजात्तथा ॥ १ ॥ एतैः संकुपिता दोषा वात
पित्तकफास्त्रयः ॥ चतुर्थी क्षतजा प्रोक्ता पञ्चमी क्षयजा स्मृता ॥ २ ॥
अजीर्णात्पत्री संप्रोक्ता सप्तमी रूक्षसेवनात् ॥ अष्टमी स्याज्ज्वरोत्पन्ना
लक्षणानि शृणुष्व मे ॥ ३ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—अथ, श्रम, बलकी हीनता, इन्होंसे विदलसंज्ञक अर्थात् कुलथी
आदिअन्नको सेवनेसे घामसे और ज्वरसे अजीर्ण और क्षतसे उपजे क्षयसे ॥१॥ इन्होंसे
कुपित हुये वातपित्त कफसे तीन प्रकारकी तृषा होती है और घावके होनेसे त्रौथी और क्ष-

यसे उपजी पांचमी तृषा होती है ॥२॥ अजीर्णसे छठी और रूक्षपदार्थको सेवनेसे सातमी और ज्वरसे उपजी आठमी ऐसे तृषा कही है तिन्होंके लक्षणोंको मुझसे सुन ॥ ३ ॥

अथ वातआदिदोषोंसे उपजी तृषाके क्रमसे लक्षण ॥

क्षामः श्यावास्यता चाथ वैरस्यं वेपथुस्तथा ॥ वातेन सा जवेत्तृष्णा
विज्ञेया भिषजां वरैः ॥ ४ ॥ शीततोयाभिलाषश्च भ्रमदाहप्रलापतः ॥
मूर्च्छा च लोहिते नेत्रे तृष्णा पित्तोद्भवा मता ॥ ५ ॥ निद्रा श्यावा
स्यतालस्यं बलासोष्णाभिलाषताः ॥ घनश्यावाङ्गशैत्यं च श्लेष्मणो
जायते तृषा ॥ ६ ॥

रूक्षशरीर होजावै और मुख काला होजावै मुखमें स्वाद आवै नहीं और कंप उपजै ये ल-
क्षण होवे तब वातकी तृषा जाननी ॥ ४ ॥ शीतल पानीकी इच्छा रहै भ्रम, दाह, मलाप,
ये उपजै मूर्च्छाहो नेत्र लाल होजावै तब पित्तकी तृषा जाननी ॥ ५ ॥ नींदहो मुख कालाहो
कफ पड़े गर्मचीजकी इच्छा रहै कठिन और काला और शीतल ऐसा अंग होजावै तब क-
फकी तृषा जाननी ॥ ६ ॥

अथ त्रिदोषकी तृषाका लक्षण ॥

दृक्शूलं वमते दाहो भ्रमो वा शिरसो व्यथा ॥
वेपथुश्चाङ्गशैत्यञ्च त्रिदोषप्रभवा तृषा ॥ ७ ॥

नेत्रोंमें शूल चलै छर्दि आवै दाह और भ्रमहो शिरमें पीडा रहै कंपहो अंगोंमें शीतलता हो
तब त्रिदोषकी तृषा जाननी ॥ ७ ॥

अथ अन्यतृषाओंके लक्षण ॥

वक्रशोषो भवेज्जृम्भा शिरोऽर्त्तिर्गुरुतोदरे ॥ अजीर्णेनाथ मनुजे तृष्णा
संलक्ष्यते गदः॥८॥रसक्षये यदा तृष्णा तथाक्षमक्षुधातुरः॥ ग्लानिः शोषो
भ्रमः श्वासो दैन्यमाशु प्रवर्त्तते ॥ ९ ॥ क्षतक्षयेषु या तृष्णा तस्यां ना
न्नाभिनन्दनम् ॥ अन्या ज्वरातुरे प्रोक्ता तृष्णा सा ज्वरवेगजा ॥ १० ॥
अन्यातिसारे शूले वा तृष्णा ज्ञेया भिषग्वरैः ॥ ११ ॥

मुखमें शोष हो और जंभाई आवै शिरमें पीडाहो पेट भारारहै तब अजीर्णकी तृषा जाननी
॥८॥ शरीर रूक्षहो भूखसे पीडित रहै ग्लानि, शोष, भ्रम, श्वास, दीनपना ये शीघ्र उपजै तब
रसके क्षयसे उपजी तृषा जाननी ॥९॥ घावसे उपजी तृषामें अनेक प्रकारके पदार्थोंमें इच्छा

रहा करती है ऐसा लक्षण है प्वरोगवालेके ज्वरके वेगसे उपजी तृषा होती है ॥ १० ॥
अतिसारसे और शूलसेभी उपजी तृषा जाननी ॥ ११ ॥

अथ असाध्यतृष्णाका लक्षण ॥

तृष्णातिसारवमनदाहमूर्च्छाभ्रमशोषोद्भवा ॥

तोयेन न याति तृप्तिमसाध्यां तां विजानीहि ॥ १२ ॥

अतिसार, छर्दि, दाह, मूर्च्छा, भ्रम, शोष, इन्होंसे उपजी जो तृषा पानीसे शांत नहीं होवै तब वह असाध्य जाननी ॥ १२ ॥

अथ वातकी तृषाकी चिकित्सा ॥

तृष्णां वातोद्भवां दृष्ट्वा शस्यते सगुडं दधि ॥ सगुडं वाम्बुताक्वाथं पीतं वा
ततृषापहम् ॥ १३ ॥ शुण्ठी च जाज्या सह शृङ्गवेरं जलेन सौवर्चलयु
क्तकल्कः ॥ पिवेत्कषायं च सुशीतलं वा वातोद्भवां चाशु निहन्ति
तृष्णाम् ॥ १४ ॥

वातकी तृषाको देख गुडसहित दही हित है अथवा गिलोयके काथमें गुड मिला पीवै यह वातकी तृषा शांत होती है ॥ १३ ॥ सूंठ, जीरा, अदरक, कालानमक इन्होंको पानीसे पीस करक बनावै अथवा काथ बनावै इन्होंमांसे एक कोईसेको पीनेसे वातकी तृषा शांत होजाती है ॥ १४ ॥

अथ पित्तकी तृषाकी चिकित्सा ॥

काश्मर्यं पद्मकोशीरं द्राक्षा मधुकचन्दनम् ॥ वालकं शर्करायुक्तं काथं
पित्ततृषापहम् ॥ १५ ॥ वटद्रुमो रोध्रसिता च चन्दनं सदाडिमं तण्डुल
धावनेन ॥ पिष्टञ्च सुशीतजलेन वापि पीतं च पित्तोत्थतृषापहञ्च ॥ १६ ॥
कुष्ठमुत्पललाजां च न्यग्रोधस्य प्ररोहकान् ॥ संचूर्ण्य शर्करायुक्ता गुटिका
तृष्णावारणी ॥ १७ ॥ द्राक्षोत्पलं सयष्टीकं शस्तं चेशुरस सेवनात् ॥ पीतं
पित्तोद्भवां तृष्णां हन्ति दाहञ्च पित्तजम् ॥ १८ ॥ आकण्ठं शर्करायुक्तं
क्षीरं तथा पिवेन्नरः ॥ वमनञ्च तदा कुष्ठ्याद्भन्ति तृष्णां सपैत्तिकीम्
॥ १९ ॥ लोटप्रतप्ततोयञ्च निर्व्याप्य शीतलं कृतम् ॥ पिवेत्तृष्णा विना
शाय जलं वा चन्दनान्वितम् ॥ २० ॥

कंभारी, कमल, खस, दाख, गुलहटी, चंदन, नेत्रवाला, इन्होंके काथमें खांड मिला पीवै यह पित्तकी तृपाको हरता है ॥ १५ ॥ वडके कोंपल, लोध, मिसरी, चंदन, अनारदाना, इन्होंको चावलके पानीसे अथवा शीतल पानीसे पीस पीवै यह पित्तकी तृपाको हरता है ॥ १६ ॥ कूठ, नीलाकमल, धानकी खील, वडकी कोंपल इन्होंके चूर्णमें खांडमिला गोली बांधे ये गोली पित्तकी तृपाको हरती है ॥ १७ ॥ दाख, नीलाकमल, इन्होंका चूर्ण अथवा ईखका रस सेवनेसे पित्तकी तृपा और पित्तका दाह शांत होता है ॥ १८ ॥ खांडसे युक्त किये दूधको कंठक पीवै पीछे वमन करै तब पित्तकी तृपा शांत होती है ॥ १९ ॥ जली-हुई माटीको या राखको, या वालूरेतको गर्म कर पानीमें बुझावै पीछे शीतल कर पीवै अथवा चंदनसे युक्तकिये पानीको पीवै तब पित्तकी तृपा शांत होती है ॥ २० ॥

अथ कफकी तृपाकी चिकित्सा ॥

जम्बवान्मकप्रवालानि तथा लाजा च चन्दनम् ॥ धातकीकुसुमानि स्युः
पिटवासारसंयुतः ॥ २१ ॥ श्लेष्मतृणापहो लेहो दाहमूर्च्छाभ्रमापहः॥
पिवेच्चाढकीयूपश्च लाजाशर्करयान्वितम् ॥ २२ ॥ क्षीरपानं समरिचं
जलं वा मरिचान्वितम् ॥ श्लेष्मतृणाविनाशाय पिवेद्वा कोलकं पयः २३

जापन और आंवकी कोंपल, धानकी खील, चंदन, धवके फूल इन्होंको वांसाके रसमें पीस चाटै यह अवलेह कफकी तृपा, दाह, मूर्च्छा, भ्रम, इन्होंको नाशता है ॥ २१ ॥ धानकी खीलोंसे संयुक्त लिये अरहरके यूपमें खांड मिला पीवै अथवा मिरचोंसहित दूधको पीवै ॥ २२ ॥ अथवा मिरचोंसहित पानीको पीवै अथवा वडवेरीको पत्तोंके रसको पीवै तब कफकी तृपा नष्ट होजाती है ॥ २३ ॥

अथ त्रिदोषली तृपाकी चिकित्सा ॥

दुरालभा पर्पटकं प्रियङ्गु लोध्रद्रुमं त्र्युषणकं सकुठम् ॥ काथः सुशी
तो मधुशर्करायास्तृणां त्रिदोषप्रभवां निहन्ति ॥ २४ ॥ कालदाडिम
वृक्षाम्लाः सारिवा समशंकरा ॥ पथ्या दाडिमचूर्णं वा मातुलुङ्गरसा
न्वितम् ॥ २५ ॥

जवासा, पित्तपापडा, कांगनी, लोध, स्रंठ, मिरच, पीपल, कूठ, इन्होंके काथको शीतल वना तिसमें शहद और खांड मिला पीवै यह त्रिदोषकी तृपाको नष्ट करता है ॥ २४ ॥ काला अनार, वृक्षाम्लं, और सारिवा इन्होंके समान भाग शर्करा इन्होंका चूर्ण खावै, अथवा स्रंठ और अनारका चूर्ण विजौराके रसके साथ खावै ॥ २५ ॥

अथ तालुशोषकी चिकित्सा ॥

काष्ठपात्रे शृतं सम्यक्छीतलं सलिलं तथा ॥ मर्दितं बहुवेलां तु तस्या
नीयं च पाययेत् ॥ २६ ॥ तालुशोषे घृतं तच्च दापयेच्च भिषग्वरः ॥
तृष्णादाहभ्रमच्छर्दिशोषमूर्च्छां व्यपोहति ॥ २७ ॥ क्षतजां क्षयजां तृ
ष्णां वारयत्याशु निश्चितम् ॥ २८ ॥

गर्म किये पानीको काष्ठके पात्रमें घाल बहुत देरतक मर्दितकर पीवै ॥ २६ ॥ और
तिसीपानीमें घृतको सिद्धकर वैद्य तालुशोषमें देवै यह तृषा, दाह, भ्रम, छर्दि, शोष, मूर्च्छा,
इन्होंको नाशता है ॥ २७ ॥ क्षतसे और क्षयसे उपजी तृषाको शीघ्र दूर करता है ॥ २८ ॥

अथ दाडिमकोल ॥

दाडिमं कोलचुक्रिका वृक्षाम्लं चाम्लवेतसम् ॥

रसं चैव तथा पथ्यायुक्तं तालुप्रलेपनम् ॥ २९ ॥

अनार, वेर, चूका, विजोरा, अम्लवेतस इन्होंके रसमें हरडैका चूर्ण मिला तालूपर
लेप करै ॥ २९ ॥

अथ तृष्णाआदिकोंकी साधारण चिकित्सा ॥

वारयत्याशु शोषं च तृष्णां हन्ति च सज्वराम् ॥ केसरं मातुलुङ्गस्य पि
ष्टं तण्डुलवारिणा ॥ ३० ॥ शतप्रमधुना तालुलेपो मुखशोषापहः ॥ मधु
शर्करया तालुलेपो मुखशोषनिवारणः ॥ ३१ ॥ पद्मकन्दशृतालेपः शीतः
शीतलवारिणा ॥ तालुशोषं निहन्त्याशु जम्बवान्पल्लवानि च ॥ ३२ ॥ निम्बा
वृ वा मातुलुङ्गान् वा सौवीरं नागराणि च ॥ तृषार्त्तः पुरतो भक्षेन्न देयं त
स्य धीमता ॥ ३३ ॥ दर्शनात्तस्य चास्ये च लाला प्रस्रवते भृशम् ॥ तेनास्य
शोषं हरति तृष्णामपि नियच्छति ॥ ३४ ॥ रक्तशाल्योदनं शस्तं दधिशर्क
रयान्वितम् ॥ भोजनञ्च प्रशस्तं च न क्षारं कटुकं पुनः ॥ ३५ ॥ शोषे
च्च छर्दितृष्णायां श्रमे पानात्ययेऽपि च ॥ अतीसारे च शोषे च दिवानिद्रा
सुखावहा ॥ ३६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने तृष्णातालु
शोषचिकित्सा नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

विजोराकी केशरको चावलेंके पानीसे पीस पीनेसे तालुशोप और ज्वरसहित तृपा शांत होती है ॥ ३० ॥ गर्म किये शहदसे तालुपर लेप करै यह मुखशोपको नाशता है शहद और खांडसे तालुपर लेप करै यह मुखके शोपको दूर करता है ॥ ३१ ॥ कमलकंदको शीतल पानीसे पीस लेप करै अथवा जामन और आंवके पत्तोंको पीस लेप करै तब तालुशोप शांत होता है ॥ ३२ ॥ नीचू, विजोरा, कांजी, सेंट, इन्होंको इसरोगवालेके आंगै खावै परंतु तिसरोगीको नहीं देना ॥ ३३ ॥ इन्होंके देखनेसे रोगीके मुखमें अत्यंत लाल सिरनें लगती है विस्से तृपा और शोप दूर होता है ॥ ३४ ॥ दही और खांडसे संयुक्त किये लाल शालि चावल इसरोगमें भोजन करनें श्रेष्ठ है खारा और चर्चराको फिर नहीं खावै ॥ ३५ ॥ शोप, छर्दी, तृपा, परिश्रम, पानात्यय, इनरोगोंमें दिनकी नींद सुखको देती है ॥ ३६ ॥ इतिवेरीनिवासिबुधशिवसहायस्त्रुवैद्यरविदत्तशास्त्रपुनवादिहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने तृपातालुशोपचिकित्सानाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

चतुर्दशोध्यायः ॥ १४ ॥

अथ मूर्च्छाकी संप्राप्ति ॥

आत्रेय उवाच ॥ वेगाभिघातातिनिरोधकेन क्षीणक्षताच्च तृपितेन वा पि ॥ विरुद्धयुक्तान्त्रविभक्षणेन दोषः प्रदुष्टः प्रकरोति मूर्च्छाम् ॥ १ ॥ पञ्चेन्द्रियाणां संलग्नाः प्रत्येके द्वादशादयः ॥ पञ्चेन्द्रियाणां सहिता नाडिकाः षट्संख्यया ॥ २ ॥ सून्धति नाडिकाद्वारं तेन चेतो विमूर्च्छति ॥ संज्ञानाशाद्भवेच्छीघ्रं निश्चेताश्च सदा नरः ॥ ३ ॥ पतति काष्ठवत्तूर्णं सोहमूर्च्छा निगद्यते ॥ सा प्रड्विधा समुद्दिष्टा वातपित्तकफान्तथा ॥ ४ ॥ शोणितादभिघातेन मद्येनाथ विषेण वा ॥ एतेषां कोपयेत्पित्तं मरुद्रक्तं समीरितम् ॥ ५ ॥ संख्यादौर्वल्यकं तेन मूर्च्छा मोहः प्रकथ्यते ॥ कथयामि समासेन लक्षणानि पृथक्पृथक् ॥ ६ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—विषयआदि वेगके अभिघातसे मूत्रआदिको रोकनेसे क्षीण क्षतसे तृपाकी पीडासे विरुद्ध अन्नको सेवनेसे दुष्टहुआ वातआदि दोष मूर्च्छाको करता है ॥ १ ॥ अलग २ बारहनाडी, पांचों इंद्रियोंमें लगीहुई है ऐसे साठ नाडी जाननी॥२॥ जब दुष्टहुए

दोप नडियोंके द्वारको रोकते हैं तब मनुष्य मूर्च्छाको प्राप्त होतेहैं संज्ञाके नाश होनेसे शीघ्रही जडरूप मनुष्य होजाता है ॥ ३ ॥ और काष्ठकी तरह मनुष्य शीघ्र गिर पडता है, तिसको मोहमूर्च्छा कहते है वह छःप्रकारकी कही है ॥ ४ ॥ वातकी, पित्तकी, कफकी, रक्तकी, चोटकी, मदिराकी अथवा विषकी, ऐसे मूर्च्छा है वायु और रक्तसे प्रेरित किया पित्त इनमूर्च्छाओंको कोपित करता है ॥ ५ ॥ ऐसे गिनती है अब इस मोहमूर्च्छाके लक्षणोंको विस्तारसे पृथक् २ कहताहूँ ॥ ६ ॥

अथ मूर्च्छाका लक्षण ॥

नीलं कृष्णारुणं पश्येत्तमः प्रविशति क्षणात् ॥

कम्पो मार्दवमेतासां क्षणेन प्रतिबुध्यति ॥ ७ ॥

नीला काला लाल ऐसे रंगको देखै और क्षणभरमें आधिरीको प्राप्त होवै कंफहो और शरीर शिथिल होजावै और क्षणभरमें जागै ये मूर्च्छाके लक्षण है ॥ ७ ॥

अथ वातजआदिमूर्च्छा लक्षण ॥

वातेन मूर्च्छा भवति कृशता विकृतास्यता ॥

नेत्रप्लावश्च मृष्टिश्च आघ्मानश्च भवेत्क्षणम् ॥ ८ ॥

शरीर कृश होवै मुख विकारको प्राप्तहो नेत्रोंमें पानी क्षिरै और शरीरमें हडफुटन होवै और क्षणभरमें पेटपर अफाराहो तब वातकी मूर्च्छा जाननी ॥ ८ ॥

अथ पित्तजमूर्च्छा ॥

पीतश्च नीलहरितं तमः प्रविशते भृशम् ॥ सन्तापश्च पिपासा च रक्ते

पीते च लोचने ॥ ९ ॥ सत्वेदं शरीरं चापि श्रमः संमिन्धवर्चसाम् ॥

पित्ताद्भवति मूर्च्छात्वं जायते च शिरोव्यथा ॥ १० ॥

पीला नीला हरा ऐसे अंधेरेमें प्राप्त होवै संताप और पिपासाहो लाल और पीले नेत्र होजावै ॥ ९ ॥ और पसीने आवै श्रमहो पतला मल उतरै और शिरमें पीडाहो तब पित्तकी मूर्च्छा जाननी ॥ १० ॥

अथ कफजमूर्च्छा ॥

धूमाकुलां दिशं पश्येत्तमः पश्यति यः पुरः ॥ नेत्राकुलत्वं मन्दाग्निस्त

मोऽङ्गेषु च शीतता ॥ ११ ॥ चिरात्प्रबुध्यतेऽत्यर्थं कण्ठश्च घूर्घुराय

ते ॥ ह्लासमूर्च्छा भवति कफजा च विलक्षणैः ॥ १२ ॥

धूमासे व्याप्त हुई दिशाको देखै और आगे अंधेरीको देखै नेत्र व्याकुल होवै मंदाग्निहो अंगोमेंभी मंदपना और शीतलपनाहो ॥ ११ ॥ बहुत देरमें जागै कंठमें घुर्घुर शब्द होवै थुकथुकी होवै तब कफकी मूर्च्छा जाननी ॥ १२ ॥

अथ सन्निपातजमूर्च्छा ॥

सन्निपातादपस्मारो दृश्यते त्रिषंजांवर ! ॥

स प्राणिनां घातयति रक्तेन सहितो यदि ॥ १३ ॥

हे वैद्यवर ! सन्निपातसे मृगी रोग दीखता है वह रक्तसे मिलकै जीवोंको नाशता है ॥ १३ ॥

अथ रक्तगन्धजमूर्च्छा

रक्तगन्धेन मूर्च्छन्ति तेन मूर्च्छा शिरोव्यथा ॥ १४ ॥

कम्पते नष्टचेष्टत्वं जल्पते वमते पुनः ॥

रक्तकी गंधसे उपजी मूर्च्छामें शिरावधैं पीडा होती है रोगी कांपता है चेष्टा नष्ट होजाती है ज्यादै बोलता है और वमन करता है ॥ १४ ॥

अथ मद्यादिजन्यमूर्च्छा ॥

विभ्रान्तचेता रक्ताक्षः स्वमशीलः सुरावशः ॥ १५ ॥ क्षतक्ष

याद्भवेच्चान्या कोद्रवान्निषेवणात् ॥ जायते मोहमूर्च्छा

च तेन निद्राति दुर्म्नाः ॥ १६ ॥

मदिरासे उपजी मूर्च्छामें भ्रमतेहुये पित्तवाला और लालनेत्रोंवाला और शयन करनेको चाहनेवाला ऐसा मनुष्य होजाता है ॥ १५ ॥ क्षतक्षयसे और कोदूआदि अन्नसे उपजी मूर्च्छामें अत्यंत नींद आती है और मन विगड जाता है ॥ १६ ॥

मूर्च्छा, भ्रम, निद्रा और तंद्रा इन्होंका हेतु ॥

पित्तोत्तमाद्भवति वै मनुजस्य मूर्च्छा पित्तप्रभञ्जनभवं भ्रममेव पुं

साम् ॥ वातात्कफान्तमयुता मनुजस्य तन्द्रा निद्रा कफानिलतमा

भजते नरस्य ॥ १७ ॥

मनुष्यको पित्तके अत्यंतपनेसे मूर्च्छा होती है और मनुष्योंके पित्त और वातसे उपजा भ्रम होता है वात और कफसे अंधेरीकरकै युक्तहुई तंद्रा होती है और कफ वात अंधेरी इन्होंसेही नींद होती है ॥ १७ ॥

अथ मूर्च्छाकी चिकित्सा ॥

स्वेदान्निषङ्गविधिमर्दनवातशान्त्यै शीतान्नपानव्यजनानिलपित्तशान्त्यै ॥
 कषायपानमवितथैव सदा प्रशस्तं श्लेष्मोद्भवा विनिहिता भ्रममूर्च्छना
 वा ॥ १८ ॥ पायथेत्रिफलाक्वाथं शीतं शर्करया युतम् ॥ दुरालभायाः
 क्वाथञ्च पायथेच्छर्करान्वितम् ॥ १९ ॥

पसीना, मालिस, मर्दन ये वातकी मूर्च्छामें हित है शीतल अन्न और पान, वीजनाकी
 पवन ये सब पित्तकी मूर्च्छामें हित है कसैला पदार्थका पान कफकी मूर्च्छामें हित है
 ॥ १८ ॥ त्रिफलाके शीतलक्वाथमें खांड मिला पीवै अथवा जवासोक क्वाथमें खांड मिला-
 पीवै ये दोनों क्वाथ मूर्च्छाको हरते है ॥ १९ ॥

अथ रक्तमूर्च्छाआदिकोंको उपाय ॥

कणां क्लोलस्य मज्जाञ्च केसरोशीरचन्दनम् ॥ पिष्ट्वा शीताम्बुना खण्ड
 पानं हन्ति विमूर्च्छितम् ॥ २० ॥ रक्तजां मूर्च्छनां दृष्ट्वा विधेयः शीतलो
 विधिः ॥ क्षयजे दुर्बले क्षीणे मूर्च्छापोषणकारणम् ॥ २१ ॥ नष्टचेष्टत्व
 मापन्ने नरे संचेतनक्रिया ॥ संपीड्य च नवाङ्गुष्ठं नासिकां च प्रपीडयेत्
 ॥ २२ ॥ दन्तैर्वा सन्दर्शैर्वापि शनैर्गात्रं प्रपीडयेत् ॥ दाहयेद्वा ललाटे तुपृष्ठ
 देशे च भालके ॥ २३ ॥ एवं न सिध्यते वापि तदा चान्दोलनं हितम् ॥ २४ ॥

पीपल, बेरकी मज्जा, केसर, खस, चंदन, इन्होंको शीतल पानीसे पीस और खांड मिला-
 पीवै यह मूर्च्छाको नाशवा है ॥ २० ॥ रक्तसे उपजी मूर्च्छाको देखकै शीतल विधि करनी
 चाहिये क्षयवाला, दुर्बल, क्षीण, इन्होंकै मूर्च्छाकी रक्षाका कारण करना ॥ २१ ॥ जब
 मूर्च्छासे मनुष्यकी संज्ञा जाती रहै तब मनुष्यको चेतन करानेकी क्रिया करै अंगुठेको पीडित
 कर पीछे नासिकाको पीडित करना ॥ २२ ॥ दंतोंसे अथवा नखआदिसे होंलें शरीरको
 पीडित करना अथवा मस्तकमें और पृष्ठभागमें दाग देवै ॥ २३ ॥ जो ऐसेभी सिद्धि नहीं
 होवै तो आंदोलन क्रिया करनी हित है ॥ २४ ॥

अथ नष्टसंज्ञमूर्च्छितकी चिकित्सा ॥

मूर्च्छातुरं सकलशीतजलेन सिञ्चेत्संवीजयेच्च शिखिपिच्छकवीजनै
 स्तु ॥ दोलायनं हि विहितं मनुजस्य मूर्च्छामोहं भ्रमञ्च हरते च मदारय
 यं वा ॥ २५ ॥

मूर्च्छासे पीडित हुये मनुष्यको शीतल पानीसे सींचै और मोरकी पांखोंके बीजनेसे

हवाकरै और दोलायन अर्थात् हिंडोलाके द्वारा झुलनेसें मूर्च्छा मोह भ्रम मदात्यय इन्होंका नाश होता है ॥ २५ ॥

अथ मूर्च्छामदभ्रमइन्होंकी चिकित्सा ॥

करञ्जबीजं सह सैन्धवेन रसोनपत्रस्य रसं च यत्र ॥ मार्कं च पथ्यञ्च
वचां जलेन पिप्लाञ्जनं हन्ति दिनस्य तन्द्राम् ॥ २६ ॥ घोटकलालामरिचं
लवणयुतं नेत्रयोरञ्जनंशस्तम् ॥ विनिहन्ति दिनशतं तन्द्रां निद्रां वा मानु
षस्य ॥ २७ ॥ सुगन्धं सुकषायोपयुक्ता रसस्त्रिफला गुडार्द्रकं प्रातः ॥
सप्ताहान्मधुरजलं हन्ति मदमूर्च्छाकरानुन्मादान् ॥ २८ ॥ रक्तकर्षणमिच्छ
न्ति मोहमूर्च्छाप्रशान्तये ॥ तस्मादवहितः कुप्यर्थात्तासु रक्तावसेचनम् ॥ २९ ॥

करंजुआके बीज, सैन्धानमक, लहसनका पत्ताका रस, भंगरा, हरडै, वच, इन्होंको पानीसें पीस अंजन करनेसें तंद्रा दूर होती है ॥ २६ ॥ घोडाकी छालोसे काली मिरच और सैधानमकको पीस नेत्रोंमें अंजनेसें सौ १०० दिनोंतक मनुष्यकी तंद्रा और नींद दूर होजाती है ॥ २७ ॥ चंदन, हरडै, बहेडा, आंवठा, गुड, अदरक इन्होंको प्रभातमें खाके ऊपर मधुर जलको पीनेसें ५२ और मूर्च्छाको करनेवाले उन्माद दूर होते है ॥ २८ ॥ कुशलवैद्य मोह और मूर्च्छाकी शांतिके लिये रक्तको घटाना चाहते है इसवास्ते मोह मूर्च्छारोगमें सावधान मनुष्य रक्तको निकसावे ॥ २९ ॥

अथ मूर्च्छादिकोंके साधारण उपाय ॥

शीतसेकावगाहाद्यान् श्रीरवण्डं व्यजनानिलान् ॥ शीतानि चान्नपानानि
सर्वमूर्च्छासु योजयेत् ॥ ३० ॥ शर्करेक्षुरसद्राक्षावातमूर्च्छाप्रपानकैः ॥
काशमर्द्यमधुकैरेव पित्तमूर्च्छां जयेन्नरः ॥ ३१ ॥ यष्ट्याः काथं शृतं स
र्पिः शृतं वामलक्रीरसम् ॥ पिवेद्रसं सितालाजायुक्तं चोष्णं च शीतल
म् ॥ ३२ ॥ मधुना हन्ति च मूर्च्छामालेषैश्च प्रबोधयेत् ॥ ३३ ॥ इत्या
त्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने मूर्च्छाचिकित्सा नाम चतुर्द-
शोऽध्यायः ॥ १४ ॥

शीतल पानीकी सेक शीतल पानीमें स्नान करना सफेद चंदन, बीजनाकी पवन, शीतल अन्न और पान ये सब प्रकारकी मूर्च्छामें योजित करने ॥ ३० ॥ खांड, ईखका रस, दाख, इन्होंसें वायुकी मूर्च्छाको दूर करै कंभारी और मुलहटीसे पित्तकी मूर्च्छाको दूर करै ॥ ३१ ॥

मुलहंटीके काथमें पकाया हुआ घृत अथवा आंवलाके रसमें धानकी खीलोंका चूर्ण और मिसरी मिला पीवै ॥३२॥ अथवा शहद मिला पीवै मूर्च्छा दूर होती है और मूर्च्छा-रोगीको सुंदर आलापोंसे जगाना श्रेष्ठ है ॥ ३३ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायमनुवैद्यर-विदत्तशास्त्रनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

अथ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

—:०:—

अथ निद्राचिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ धुरिणां गीतैर्नृत्यैर्हास्यैस्तन्द्रां निद्रां दिवा हन्ति ॥ यदा रात्रौ न निद्रा स्यात्तदा कुर्व्यादिमां क्रियाम् ॥ १ ॥ काकमाच्यास्तु मूलञ्च शिखां बद्धा भिषग्वरः ॥ अधोमुखीं शिखां बद्धा निद्रां जनयति निशि ॥ २ ॥ मस्तुना पादतलकौ मर्दयेन्निद्रयार्थिनाम् ॥ यस्य नो दिवसे निद्रा तस्य निद्रा निशासु च ॥ ३ ॥ भयचिन्तया लोभेन या निद्रा न भवेन्निशि ॥ तां चिन्तां च परित्यज्य निद्रा संजायते क्षणात् ॥ ४ ॥ सिंही व्याघ्री सिंहमुखी काकमाची पुनर्नवा ॥ वार्त्ताकानां च मूलानां काथो निद्राकरो नृणाम् ॥ ५ ॥ काकजङ्घा चापामार्गः को किलाक्षः सुपर्णिका ॥ काथो निद्राकरः शीघ्रं मूलं वा बन्धयेच्छिरवाम् ॥ ६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने निद्राचिकित्सा नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥

आत्रेयजी कहते हैं—बैल और घोडाआदिके बोलनेसे, नाचनेसे, हास्य करनेसे दिनकी नींद और तंद्रा दूर होती है और जो रात्रिमें नींद नहीं आवै तब इसक्रियाको करना ॥ १ ॥ काकमाचीकी जड़को चोटीपर बंधनेसे अथवा चोटीके मुखको नीचेकी तर्फकर बांधनेसे रात्रिको नींद आजाती है ॥ २ ॥ नींदकी इच्छावालोंके पैरोंके तलुवोंको दहीके पानीसे मर्दित करै और जिसको दिनमें नींद नहीं आती है तिसको रात्रिमें नींद आजाती है ॥ ३ ॥ भय, चिंता, लोभ, इन्होंने जो रात्रिमें नींद नहीं आवै तब भय, चिंता, लोभ, इन्होंनेको त्यागनेसे नींद आती है ॥ ४ ॥ कटेहली, बड़ी कटेहली, वांसा, मकोहविशेष, सांठी, वार्ताकुनामक कटेलीका भेद इन्होंनेकी जड़ोंका काथ मनुष्योंके नींदको प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ काकजं-

घा, अंगा, कोलिस्ता, सालवण, इन्होंका काथ बना पीवै अथवा इन्होंकी जड़ोंको शिस्ता अर्थात् चोटीपर बंधावै ॥ ६ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायस्त्रुवैधरविदत्तशास्त्रयनुवादित-हारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने निद्राचिकित्सानाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

अथ षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

अथ मदात्ययचिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ हालाहलाहलसमं भजते वियोगात्सेवधानां शिष्या
नुजानां कथितं मुनीन्द्र ! ॥ तृष्णा वमिः श्वसनमोहनदाहृतृष्णा संजाय
तेऽतिशरणं विकलेन्द्रियत्वम् ॥ १ ॥ ये नित्यं सेवनाद्दृष्टा मद्यस्य मनु
जां भृशम् ॥ विषमाहारसदृशी सुरा मोहनकारिणी ॥ २ ॥ यथा
विषं प्राणहरं वियोगाद्योगेन तं चाप्यमृतं वदन्ति ॥ तथा सुरा
योगयुता हिता स्यादयोगतश्चारभेतेऽतिकष्टम् ॥ ३ ॥ क्षुधातुरे तृषा
क्रान्ते सुरा वा भोजनं विना ॥ न च क्षीणैर्विना भक्ता विनाहारातिपा
नकम् ॥ ४ ॥ अत्यशनेऽप्यजीर्णोऽपि सुरा पीता रुजाकरी ॥ ५ ॥

विशेषयोगसे मदिरा हलाहलविषके समान फलको देती है और मदिराको अत्यं-
व पीनेसे तृषा, छर्दी, श्वास, मोह, दाह, अतिशरणपना, इंद्रियोंका विकल्पना ये
उपजते है ॥ १ ॥ जो नित्य मदिराको पीते है तिन्होंको जो समयपर नहीं मिलै तब
वह मदिरा विषमभोजनके समानहोजाती है और मोहको करती है ॥ २ ॥ जैसे
दुरे योगसे विष प्राणोंको हरता है और अच्छे योगसे विष अमृतके समान होजाता है तैसेही
योगसे युक्तकरी मदिरा हित है और अयोगसे युक्तकरी मदिरा अत्यंत कष्टको करती है
॥ ३ ॥ क्षुधासे पीडितको, तृषासे पीडितको, भोजनसे रहितको, क्षीणको, आहार और पान-
से वर्जितको ॥ ४ ॥ भोजनपर भोजन करनेवालेको और अजीर्णवालेको पानकरी मदिरा
रोगको करती है ॥ ५ ॥

अथ वातादिदोषजन्य मदात्यय ॥

यस्य प्रलपनं चापि नच वातमदात्ययः ॥ दाहमूर्च्छातिसारश्च ज्वरः
पित्तमदात्यये ॥ ६ ॥ छर्द्यरोचक हृल्लासतन्द्रास्तैमित्यगौरवम् ॥ शीतता
च प्रतिश्यायः कफजे च मदात्यये ॥ ७ ॥ त्रिषु दोषेषु समतालिङ्गैर्येषा
मुपक्रमः ॥ स त्रिदोषसमुद्भूतो मदात्ययो त्रिष्वग्वर ! ॥ ८ ॥

जिसके बहुत प्रलाप उपजै तिसके वातका मदात्यय जानना और जिसके दाह, मूर्च्छा, अतिसार, ज्वर, ये उपजै तिसके पित्तका मदात्यय जानना॥६॥जिसके छर्दि, अरोचक, थुक-थुकी, तंद्रा, शरीरका गीलापन, भारीपन, शीतलपना, जुस्वाम, ये उपजै तिसके कफका मदात्यय जानना॥७॥जिसके तीन दोषोंके लक्षण मिलै तिसकेसन्निपातका मदात्यय जानना॥८॥

मदात्ययकी चिकित्सा ॥

वमनं च प्रशस्तं च निद्रासंसेवनं पुनः॥स्नानं हितं पयःपानं भोजने सगुडं दधि ॥ ९ ॥ मस्तुरवण्डं सरवर्जूरं मृद्धीका मारिवाग्लिका ॥ आमला च परूषं च लेहो हन्ति मदात्ययम् ॥ १० ॥ द्राक्षामलकरवर्जूरपरूषकरसेन वा ॥ कल्कयेत्पयसा तत्तु पानं सर्वमदात्यये ॥ ११ ॥ पश्याक्वाथेन संयुक्तं पयःपानं मदात्यये ॥ १२ ॥

वमन, नींदको सेवना, स्नान, दूधका पीना, भोजनमें गुड सहित दही ये मदात्ययमें हित है ॥ ९ ॥ देहीका पानी, खांड, छुहारा, मुनक्का मेढासिंगी, अमली, आंवला, फालसा, इन्होंकी चटनी मदात्ययको नाशती है ॥ १० ॥ दाख, आंवला, खजूरका फल अथवा छुहारा, फालसा, इन्होंके रस करके बनायी चटनी मदात्ययको नाशती है ॥ ११ ॥सब प्रकारके मदात्ययमें दूधसे कल्क बना पीवै और मदात्ययरोगमें हरडैकेक्वाथसे संयुक्त किये दूधको पीना हित है ॥ १२ ॥

अथ सुपारीके मदकी निदान और चिकित्सा ॥

पूगीफलमदे कम्पो मोहो मूर्च्छा कृमस्तमः॥प्रस्वेदो विधुरत्वं च लाला स्रावश्च जायते ॥ १३ ॥ भ्रमकृमपरीतत्वं विज्ञेयं पूगमूर्च्छिते ॥ मानवो लक्षणै रेभिज्ञैयः पूगविमूर्च्छितः ॥ १४ ॥ तस्य शीतं जलं पीतं वस्ति वास्तुहितं भवेत् ॥ शर्कराभक्षणे देया मुस्ता वा शर्करान्विता ॥ १५ ॥

सुपारीके मदमें कंप, मोह, मूर्च्छा, ग्लानि, अंधेरी, पसीना, छालोंका पडना ये उपजते है ॥ १३ ॥ इन लक्षणोंके होँसे मनुष्य सुपारीसे मूर्च्छितहुआ जानना तिसको शीतल पानीका पीना और वस्तिकर्म हित कहा है ॥ १४ ॥ इसरोगीको खानेवास्तै अकेली खांड अथवा नागरमोथासहित खांडका देना हित है ॥ १५ ॥

अथ कोदूआदिसे उपजे मदात्ययकी चिकित्सा ॥

कोदूवाणां भवेन्मूर्च्छा देयं क्षीरं सुशीतलम् ॥ धत्तूरकमदे देयं शर्करास हितं दधि ॥ १६ ॥ हलिनी करवीरं च मोहिनी मदयन्तिका ॥ अन्येषा मपि कन्दानां वमनं चाशु कारयेत् ॥ १७ ॥ पाययेच्छर्करायुक्तं क्षी

रं वा दधि शर्कराम् ॥ १८ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने
मदात्ययचिकित्सा नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

कोदूसे उपजी मूच्छामिं अच्छीतरह शीतल किया दूध हित है धतूराके मदमें खांडसहित
दही हित है ॥ १६ ॥ कलहारी, कनरे, भांग, मोगरी, अन्य प्रकारके सबकंद, इन्होंके मदोंमें
शीघ्र वमनको करवावै ॥ १७ ॥ अथवा खांडसे युक्तकिये दूधको अथवा खांडसे युक्तकरी
दहीको पान करावै ॥ १८ ॥ इति वेरी निवासिबुधशिवसहायस्त्रुवैधरविदत्तशास्त्र्यनुवादित
हारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अथ दाहकी संप्राप्ति आदिक ॥

आत्रेय उवाच ॥ समानः संक्रुद्धो रुधिरमपि पित्तं त्वचिगते नरस्याङ्गे
दाहं भवति नितरां घोरमपि च ॥ कदाचिद्धन्तोद्धर्षो भवति मनुजां दा
होदये भवेच्छीतस्यार्तिः श्वसनमपि वा शोषमरतिः ॥ १ ॥ पित्तज्वरसमा
नानि लक्षणानि त्रिषग्वर ! ॥ पित्तज्वरवदारभ्य क्रिया दोषोपशान्तये ॥ २ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—जब समान वायु और रक्त कुपित होता है और पित्त त्वचामें प्राप्त
होता है तब मनुष्यके अंगोंमें घोर दाह उपजता है और दाहके उदयमें कभीकं दंतोंको
घसता है और शीतलकीभी पीडा होती है शोष और ग्लानि उपजती है ॥ १ ॥ हे वैधवर !
दाहरोगके लक्षण पित्तज्वरके समान होते हैं इसकारणसे दोषकी शांतिके लिये पित्तज्वरकी
तरह क्रिया करनी चाहिये ॥ २ ॥

अथ दाहकी चिकित्सा ॥

कुशकासेक्षुमूलानामुशीरं घनवालुकौ ॥ काथः शर्करया युक्तः शीत
दाहं नियच्छति ॥ ३ ॥ पर्पटः सघनोशीरः कथितः शर्करान्वितः ॥ शी
तपानं निहन्त्याशु दाहं पित्तज्वरं नृणाम् ॥ ४ ॥ लामज्जचन्दनोशीरैर्लेपनं
दाहशान्तये ॥ वीजयेत्तालवृत्तैश्च कदल्यम्भोजसंस्तेरो ॥ ५ ॥ कालीयकरसो
पेतं दाहे शस्तं प्रलेपनम् ॥ शस्यते शीतलं वारि दाहतृणानिवारणम् ॥ ६ ॥ उ
त्तानस्य प्रसुप्तस्य नाभेरुपरि संदधेत् ॥ कांस्यपात्रमये सौख्यं धाराभिः शीत
वारिणा ॥ ७ ॥ पूर्येत्सुरतं यत्नात्तेन सौख्यं समामुते ॥ शतधौतं घृतमपि तद्दा

हो परि धारयेत् ॥८॥ मतिर्धात्रीफलं वापि शीतजले प्रलेपनम् ॥ दाहशो
षातुरस्यापि लेखं वा सुखकारकम् ॥ ९॥ जम्बूाजपल्लुवांनिम्बं बीजपू
रसेन तु ॥ पिष्ट्वा प्रलेपनं दाहे शीघ्रं सुखमभीप्सते ॥ १० ॥ धारांगारं
तथा सुशीतलशशी ज्योत्स्ना तु पानानि च वातः शीतलचन्दनं च कम
लं प्रेमानुबन्धस्तथा ॥ रामागूहनमर्दनं स्तनयुगे शुद्धार्द्रवस्त्राणि च क्षीरं
शर्कराशुद्धलोहरजतं दाहप्रशान्त्यै हितम् ॥ ११ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हा
रीतोत्तरे तृतीयस्थाने दाहचिकित्सा नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

डाभकी जड़, कांसकी जड़, ईखकी जड़, खस, नागरमोथा, नेत्रवाला, इन्होंके क्वाथमें
खांड मिला पाँवे यह शीतसहित दाहको नाशता है ॥ ३ ॥ पित्तपापडा, नागरमोथा, खस,
इन्होंके क्वाथमें खांड मिलापाँवे परंतु यह शीतकषाय बनाके पीना चाहिये यह मनुष्योंके
दाहको और पित्तज्वरको नाशता है ॥ ४ ॥ रोहिषतृण, चंदन, खस, इन्होंका लेप दाहकी
शांतिके लिये हित है और दाहवालेको केंलाके पत्तोंकी सेजपर शयन करा तांडके बीजने
से हवा करवावै ॥ ५ ॥ दारुहलदीके रससे लेप करना दाहरोगमें हित है और शीतल
पानीभी श्रेष्ठ है यह तृषाको और दाहको निवारण करता है ॥ ६ ॥ दाहवाले मनुष्यको
सीधा शयन करा तिसकी नाभीके ऊपर कांसके पात्रको धर तिसमें शीतल पानीकी धारा
देनेसे सुख उपजता है ॥ ७ ॥ सुंदर स्त्रीसे मिलाप होनेसेभी दाह दूर होता है और सौ
१०० वार धोयेहुई घृतकी मालिस करनेसेभी दाह दूर होता है ॥ ८ ॥ मचकनको अथवा
आंवलाको शीतल पानीसे पीस लेप करावै अथवा चटावै तब दाहमें सुख होता है ॥ ९ ॥
जामन, आंव, नींब इन्होंके पत्तोंको विजोराके रससे पीस लेप करनेसे दाहरोगीको सुख
मिलता है ॥ १० ॥ फुहाराका स्थान, चंद्रमाकी शीतल चांदनी, शीतलपत्रे, शीतलवायु,
सफेद चंदन, कमल, प्रेमका होना, स्त्रीका मिलाप और स्त्रीकी चूचियोंको मसलना, सफेद
वस्त्रको गीला बना धारण करना, दूध, खांड, शंख, लोहा, चांदी, ये सब दाहकी शां
तिकेलिये हित हैं ॥ ११ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्त्रुषेधरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहा
रीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने दाहचिकित्सानामसप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

अथ मृगीरोगकी संप्राप्ति आदिक ॥

आत्रेय उवाच ॥ पित्तं मरुच्च श्लेष्मा च उदानः कुपितो भृशम् ॥ प्रा

णः शिरसि संकुप्य कुरुते नष्टचेष्टताम् ॥ १ ॥ प्राणान्नयत्यचेतन्यं ना
डीं चेन्द्रियरोधनम् ॥ पतते काष्ठवल्लोको मुखे लालां विमुञ्चति ॥ २ ॥
कण्ठश्च घुर्घुरायेत फेनमुद्गिरतेऽथवा ॥ कम्पते हस्तपादौ च रक्तव्यावृ
त्तिं लोचनम् ॥ ३ ॥ अपस्मारे च लिङ्गानि जायन्ते भ्रिषजां वर! ॥
व्यावृत्तं लोचनं क्षामं तमो दाहः शिरोव्यथा ॥ ४ ॥ हतप्रभेन्द्रियसंज्ञ
श्चापस्मारी विनश्यति ॥ ५ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—पित्त, वात, कफ, उदानवायु, ये अत्यंत कुपित होकै और प्राण-
वायु शिरमें कुपित होकै चेष्टाको नष्ट करते है ॥ १ ॥ तब चेतन नहीं रहता और नाडीभी अ-
चेतन होजाती है और इंद्रियों रुकजाती है और काष्ठकीतरह मनुष्य गिरजाता है और मु-
खसे लाल पडती है ॥ २ ॥ कंठमें घुर्घुर शब्द होता है अथवा ज्ञागको मुखसे गेरता है हाथ
और पैर कंपते है और रक्तसे विशेषकरकै आवृतहुये नेत्र होजाते है ॥ ३ ॥ हे वैद्यवर!
मृगीरोगमें ये रक्षण होते हैं ॥ ४ ॥ जिसके नेत्र पलट जावै और शरीर रुश होजावै और
अंधेरी, दाह, शिरमें पीडा, ये उपजै इंद्रियोंको कांति और संज्ञा जातीरहै ऐसा अपस्मारी
अर्थात् मृगीरोगी मरजाता है ॥ ५ ॥

अथ मृगीरोगकी चिकित्सा ॥

तस्य पानाञ्जनालेपमर्दनं पांनमेव च ॥ अपस्मारे चोपचार्य्यं घृतं तैलं
च धीमता ॥ ६ ॥ अगस्तिपत्रं मरिचं मूत्रेण परिपेषितम् ॥ नस्ये शस्त
मपस्मारं हन्ति शीघ्रं नरस्य तु ॥ ७ ॥ वन्ध्याकर्कोटिकामूलं घृतं शर्
रयान्वितम् ॥ नस्ये वापि प्रयोक्तव्यमपस्मारप्रशान्तये ॥ ८ ॥

इसरोगवालेके लिये कुशलवैद्यनें पान करनेके पदार्थ, अंजन, आलेप, मर्दन, घृत,
तेल, इन्होंसे इलाज करना ॥ ६ ॥ अगस्तिवृक्षके पत्तेको और काली मिरचको गोमूत्रमें पी-
स नासिकामें चढानेसे मृगीरोग शीघ्र नष्ट होजाता है ॥ ७ ॥ वांझककोडीकी जडके रसमें
घृत और खांड मिला नासिकामें चढानेसे मृगीरोग शांत होता है ॥ ८ ॥

अथ कूष्माण्डलेह ॥

कूष्माण्डखण्डाश्च पकरसाश्च सञ्चूषणैलादलनागकेशरम् ॥ कुमेथिका
ग्रन्थकधान्यकानां समांशकेनापि सिताप्रयोज्या ॥ ९ ॥ प्रत्यूषसे भक्षणकं
विधेयंतस्योपरि क्षीरमितं प्रशस्तम् ॥ निहन्त्यपस्मारविकारमाशु विनाशये
च्छीघ्रमसृग्विकारम् ॥ १० ॥

पकेहुये कोहलेके टुकड़े ले तिसमें स्रंठ, मिरच, पीपल, इलायची, तेजपात, नागकेसर, रामीमेथी, पीपलामूल, धनियां, इनसबोंके चूर्ण मिला और सबोंके समान मिश्री मिलावै पीछे प्रभातमें खावै और तिसकेऊपर प्रमाणसे दूधको पीवै यह मृगीरोगको और रक्तके विकारको शीघ्र हरता है ॥ १० ॥

अथ कूपमांडघृत ॥

कूपमाण्डब्राह्मी षड्यन्था शङ्खपुष्पी पुनर्नवा ॥ सुरसासहितं चूर्णं शर्करा
सधुसंयुतम् ॥ ११ ॥ अपस्मारविनाशाय भक्षणे हितमेव च ॥ उन्मादे
पित्तरक्ते तु वन्ध्याया गर्भदायकम् ॥ १२ ॥

कोहला, ब्राह्मी, वच, शंखपुष्पी, सांठी, तुलसी, इन्होंके चूर्णमें खांड और शहद मिला ॥ ११ ॥ खानेसे मृगीरोग, उन्माद, रक्तपित्त इन्होंका नाश होता है और वंध्याके गर्भ
रहरता है ॥ १२ ॥

अथ दीपघृत ॥

रास्त्रामागधिका मूलं दशमूलं शतावरी ॥ शणत्रिवृत्तथैरण्डो भागान्द्वि
पलिकांक्षिपेत् ॥ १३ ॥ यष्टीमधुकन्द्वीका शङ्खपुष्पी शतावरी ॥ रा
स्त्रा समङ्गा शृतकं त्रिसुगन्धञ्च भीरुकम् ॥ १४ ॥ कुष्ठं वैतदीपकं च घृतं
योज्यं क्षिपग्वरैः ॥ हन्यपस्मारमुन्मादं रक्तपित्तं गुदामयम् ॥ १५ ॥

रास्त्रा, पीपलामूल, दशमूल, शतावरी, शण, निशोत, अरंड, ये सब आठ २ तोले लेनें
॥ १३ ॥ मुलहदी, मुनक्का, शंखपुष्पी, शतावरी, रायशन, मजीठ, दालचीनी, इलायची, तेज-
पात, शतावरीका श्रेद, ॥ १४ ॥ कूठ इन्होंमें घृतको पकावै यह घृत मृगीरोग, उन्माद, रक्त-
पित्त, गुदाका रोग, इन्होंको नाशता है ॥ १५ ॥

अथ ब्राह्मीघृत ॥

ब्राह्मीरसवचाकुष्ठशङ्खपुष्पीभिरेव च ॥

पचेद्धृतं पुराणं च अपस्मारं नियच्छति ॥ १६ ॥

ब्राह्मीका रस, वच, कूठ, शंखपुष्पी, इन्होंमें पुराने घृतको पकावै यह मृगीरोगको
नाशता है ॥ १६ ॥

अथ अन्य उपाय ॥

महावलायं तैलं च वस्तौ नस्ये प्रशस्यते ॥ शतावर्ग्यादिकं चापि सू

द्वैव च हितं भवेत् ॥ १७ ॥ चन्दनाद्यं घृतं चैव प्रयोज्यं चात्र चोत्त-
मैः ॥ अपस्मारे वाप्युन्मादे वातरोगेऽथवा हितम् ॥ १८ ॥

महावलादि-तेल और शतावर्यादि तेल नस्यकर्ममें और वस्तिकर्ममें सदा हित है
॥ १७ ॥ शृगीरोग, उन्माद, वातरोग, इन्होंने चंदनादि घृत युक्त करना ॥ १८ ॥

अथ त्र्यूषणादि गुटिका ॥

त्र्यूषणं त्रिफला हिङ्गु सैन्धवं कटुका वचा ॥ नक्तमालकवीजानि तथाच
गौरसर्षपाः ॥ १९ ॥ वस्तमूत्रेण पिष्टैस्तु गुटिका छायाशोषिता ॥ अञ्जनं
हन्त्यपस्मारमुन्मादं चैव दारुणम् ॥ २० ॥ सृष्टिभ्रंशभ्रमीदोषभूतदोषविना
शनम् ॥ ऐकाहिकं द्वयाहिकञ्च चातुर्थिकं ज्वरं हरेत् ॥ २१ ॥ हन्ति
तिमिरपटलं रात्र्यान्ध्यं च शिरोरुजम् ॥ सन्निपातविस्मरणं चेतयत्याशु
मानवम् ॥ २२ ॥

सूँठ, मिरच, पीपल, हरद्वै, बहेंडा, आंवला, हींग, सेंधान, गों, वच, करजुवाक
बीज, सपेद सरसों ॥ १९ ॥ इन्होंने बकराके मूत्रमें पीस गोलियां बना छायामें सुखावै
पीछे गोलियोंके घिस नेत्रोंमें आंजनेसे शृगीरोग, दारुणरूप उन्माद ॥ २० ॥ सृष्टिभ्रंश भ्रम,
भूतदोष, ऐकाहिकज्वर, द्वाहिकज्वर, चातुर्थिकज्वर, ॥ २१ ॥ तिमिर, पटलगतरोग, रात्रौघा,
शिरकी पीडा, इन्होंने नाश होता है और सन्निपातसे मूर्च्छितहुआ रोगी जागता है ॥ २२ ॥

चंदनादि चूर्ण ॥

चन्दनं तगरं कुष्ठं यष्टीत्रिसुगन्धवासकम् ॥ मञ्जिष्ठाभीरुन्द्वीकापांठा
श्यामाप्रियङ्गुभिः ॥ २३ ॥ स्वयंगुप्ता पीलुपर्णी विषा रास्ना गवांदनी ॥
काकोल्यौ जीरकं मेदे पुष्करं घनवालुकम् ॥ २४ ॥ विदारी वासुमन्ती
च दृद्धदन्ती विडङ्गकम् ॥ पद्मकं चैन्द्रवक्षश्च तथारग्वधचित्रकम्
॥ २५ ॥ धान्यकं पञ्चजीरेण तथा तालीसपत्रकम् ॥ खदिरं निर्यासतग-
रं कालीयकं च कैकतम् ॥ २६ ॥ नागकेसरं परूषञ्च खजूरं
चैकत्र मर्दयेत् ॥ भावितं पुनरेवं च मधुना सघृतेन च ॥ २७ ॥ लेहोऽ-
यञ्च सदा शस्तश्चापस्मारेतिदारुणे ॥ उन्मादे कामलारोगे पाण्डुरोगे ह-
लीमके ॥ २८ ॥ राजयक्ष्मे रक्तपित्ते पित्तातिसारपीडिते ॥ रक्तातिसारे शोषे
च शिरोरोगे सदाज्वरे ॥ २९ ॥ तमकभ्रमके छर्दिदाहे च समदात्यये ॥

अश्वत्थश्च प्रमेहेषु कासे श्वासे च पीनसे ॥ ३० ॥ एतेषां च प्रयो
क्तव्यः सर्वरोगनिवारणः ॥ बन्ध्यानां च प्रयोक्तव्यो दृढानां च विशे
षतः ॥ ३१ ॥ बालानां च हितश्चैव शृणु चात्र प्रमाणकम् ॥ एवं प्र
योजितो रोगे महाकल्को मतो बुधैः ॥ ३२ ॥ बलवान्गुणवांश्चैव भवं
तीह फलप्रदः ॥ त्रिषग्भिः कथ्यते लेहः कृष्णात्रेयेण पूजितः ॥ ३३ ॥

चंदन, तगर, कूठ, मुलहट्टी, दालचीनी, इलायची, तेजपात, वांसा, मजीठ, शतावरी, गुन-
का, स्योनापाठा, कालीनिशेत, मालकांगनी ॥ २३ ॥ कौंचके बीज, मीठी तोरी, अर्त्तिश, रास्ता,
इंद्रायन, काकोली, क्षीरकाकोली, जीरा, मेदा, महामेदा, पौहकरमूल, नागरमोथा, नेत्रवाला,
॥ २४ ॥ विदारीकंद, शालवण, भिदारा, जमालगोटाकी जड, वायविडंग, पद्माक, इंद्रायणविशे
ष, अमलताश, चीता, ॥ २५ ॥ धनियां, पांचों तरहके जीरे, तालीशपत्र, खैर, तगर, दारुह-
लदी, कैथ, ॥ २६ ॥ नागकेशर, फालसा, छुहारा, ये सब समान भागलेकें मर्दित करनें
पीछे घृत और शहदमें मिला खावै ॥ २७ ॥ यह लेह भयंकररूपी शृगीरोग, उन्माद, का-
मला, पांडुरोग, हलीमक, ॥ २८ ॥ राजरोग, रक्तपित्त, पित्तका अतिसार, शोष, शिरका
रोग, सबकालमें रहनेवाला ज्वर, ॥ २९ ॥ तमक, श्वास, भ्रम, छर्दि, दाह, मदात्मय,
पथरीरोग, प्रमेह, खांसी, श्वासरोग, पीनस, ॥ ३० ॥ इन्होंमें प्रयुक्त करना चाहिये यह सब
रोगोंको निवारण करता है बंध्यास्त्रियोंको और वृद्ध मनुष्योंके विशेषकरके हित है ॥ ३१ ॥
और बालकोंको हित है ऐसे यह कल्क बुद्धिमानोंने माना है ॥ ३२ ॥ यह चूर्ण बलको
देता है गुणोंको प्रकाशित करता है यह चूर्ण अथवा कल्क वृद्ध वैद्योंने कहा है और कृष्णा-
त्रेयजोंने पूजित किया है ॥ ३३ ॥

अथ द्राक्षावलेह ॥

द्राक्षा दारु तथा निशा च मधुकं कृष्णा कलिङ्गा त्रिवृद्यष्टीका त्रि
फला विडङ्गकटुकास्तृक्चन्दनं दाडिमम् ॥ चातुर्जातिकनिम्बका च तुर
गीतालीसपत्रं घना मेदे द्वे सुरदारु कुष्ठकमलं रोध्रं समङ्गा वरी ॥ ३४ ॥
भाङ्गीकोलकदाडिमाम्लसहितं काशमर्द्यशूङ्गाटकं काम्बोजा शणघण्टि
का लघुतरा क्षुद्रा च रास्नायुतम् ॥ चूर्णं शर्करया समं मधु घृतं खर्जूर
के संयुतं लिप्तात्कर्पमिदं समस्तवलकृद्धन्त्याश्वपस्मारकम् ॥ ३५ ॥ उ
न्मादश्च सुदारुणं क्षयमथो यक्ष्मा च पाण्डुश्वसन् कासास्त्युधिरप्रमेहगु
दजं स्त्रीणां हितं शस्यते ॥ ३६ ॥

मुनक्का, देवदार, हलदी, मुलहठी, पीपल, सपेद निशोत, कालीनिशोत, महुवा, हरद्वै, बहेडा, आंवला, वायविडंग, कुटकी, रक्तचंदन, अनार, दालचीनी, इलायची, नागकेशर, तेजपात, नींबकी छाल, कालानमक, आसगंध, तालीशपत्र, नागरमोथा, मेदा, महामेदा, देवदार, कूठ, कमल, लोध, मजीठ, शतावरी, ॥ ३४ ॥ भारंगी, बेर, अनार, अमली, कंभारी, सिंगाडा, पदमाख, तानीवेल, छोटी कटेहली, रास्ता, खिजूरि ये अथवा छुहारे इन्होंके चूर्णमें खांड, घृत, शहद, इन्होंको मिला १ तोलाभरको चाँटे यह बरुको करता है मृगी रोगको हरता है ॥ ३५ ॥ और उन्माद, दारुणरूपी क्षय, राजरोग, पांडु, श्वासरोग, खाँसी रक्तके रोग प्रमेहरोग, गुदाके रोग, इन्होंकोभी नाशता है और स्त्रियोंको हित कहा है ॥ ३६ ॥

अथ अन्यउपाय ॥

एतैर्यदि न सौख्यं स्याद्दहेल्लोहशलाकया ॥ ललाटे च भ्रुवोर्मध्ये दहे
द्वा मूर्ध्नि मानवम् ॥ ३७ ॥ वर्जयेत्कटुकं चाम्लं रक्तपित्तविकारिणाम् ॥
विशेषेण वर्जनीयं सुरापूगकषायकम् ॥ ३८ ॥ न सेव्यानि श्वपस्मारे
मोहमूर्च्छाकिराणि वा ॥ ३९ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने
ने अपस्मारचिकित्सा नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

जो इनयोगोंसे सुख नहीं होवै तब लोहाकी सलाईको गर्भकर मस्तक, भ्रुकुदियोंका बीच, शिर, इन्होंमें दाग देवै ॥ ३७ ॥ चर्चरा, खट्टा, रक्तपित्तविकारवालोंको वर्जित किये, मदिरा, सुपारी, ॥ ३८ ॥ मोह और मूर्च्छाको करनेवाले पदार्थ, इन्होंको मृगीरोगमें त्यागै ॥ ३९ ॥ इतिवेरीनिवासिबुधशिवसहायसनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थानेऽपस्मारचिकित्सा नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

ऊनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

अथ उन्मादनिदान ॥

आत्रेय उवाच ॥ अयं मानसको व्याधिरुन्माद इति कीर्तितः ॥ प्रसत्ता ऊर्ध्वगा दोषा ऊर्ध्वं गच्छन्त्यमार्गताम् ॥ १ ॥ उन्मादो नाम दोषोऽयं कष्टसाध्यो निषग्वरैः ॥ सोऽपि पृथग्विधैर्दोषैर्द्वन्द्वजोऽन्यः प्रकीर्तितः ॥ तथा अन्यः सन्निपातेन विषाद्भवति चापरः ॥ २ ॥ अशुचिविपथशून्यागार

केऽरण्यमध्ये सभयगहनवीथीदेवतागारके च ॥ अथ कथमपि भीत्या
शङ्कया खिन्नचेतःक्षुभितमनसमार्गत्याज्यमुन्मार्गयेति ॥ ३ ॥ चिन्ताव्य
थासुभयहर्षविमर्षलोभाद्देवातिथिद्विजनरेन्द्रगुरुपमानात् ॥ प्रेमाधिका
युवतीजनस्य विप्रयोगाहुन्मादेहतु च नृणां कथितं वरिष्ठैः ॥ ४ ॥ तेन
गायति वा रौति विरूपं पठते यदा ॥ लोलयेच्छर्दिं वापि कम्पते हस
ते तथा ॥ ५ ॥ धावते हनने चैव जिह्वा तथा विनश्यति ॥ जवे भासय
तेऽस्त्यर्थं पश्येह्नमथातुरः ॥ ६ ॥ तस्यापस्मारकं कर्म कर्त्तव्यं भिषजां
वरैः ॥ विशेषेण भूतविद्यामध्ये वक्ष्यामि चागतः ॥ ७ ॥ इत्यात्रेयभा
षिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने मूर्च्छानिदानं नामोन्विंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

आत्रेयजी कहते हैं.—मनमें होनेवाली व्याधि उन्मादसंज्ञक कहाती है ममत्त अर्थात्
विगडके बडे हुए दोष ऊपरके मार्गमें प्राप्त होजाते है ॥१॥ तब यह उन्माद रोग होता है यह
वैद्योंने कष्टसाध्य कहा है वह उन्माद वात, पित्त, कफ इन्हींसे और द्वंद्वज होता है और एक
सन्निपातसे उन्माद होता है एक विपसे होता है ॥२॥ और अशुद्ध होके भयंकर मार्गमें शून्य
मकानमें, वनमें, तथा भयवाले गह्वर मार्गमें देवताके मंदिरमें, किसीक प्रकारसे भयकी शंका
से खिन्न मन होनेसे मनक्षोभको प्राप्तहो अपने मार्गको त्याग उन्मादको प्राप्त होजाता है
॥ ३ ॥ और चिन्ता, व्यथा, भय, हर्ष, क्रोध, लोभ, इन्हींसे और देवता, अतिथि, ब्राह्मण, राजा,
गुरु, इन्हींके अपमान करनेसे और अधिक प्रेमवाले जनका तथा स्त्रीका वियोग होनेसे बुद्धि-
मात्र, पुरुषोंने उन्मादका हेतु कहा है ॥ ४ ॥ तिस उन्मादके होनेसे कभी गाँव कभी रोवे
विरूप होजावे कभी पढे चंचलपनाहो छर्दि करै काँपै हँसै ॥ ५॥ और मारनेके समय भ्रम-
जावे जिह्वाको छिपा लेवे और वेगसमय अत्यंत तेज होजावे और पीडित होके वनको
देखै ॥ ६ ॥ ऐसे पुरुषके वैद्यजनोंने मृगीरोगमें कहे हुए कर्म करने चाहिये और विशेष
करके मध्यमें भूतविद्याको कहेंगे ॥ ७ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्नुवैद्यरविदत्तशा
स्त्रनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने मूर्च्छानिदानं नाम ऊनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

अथ वातव्याधिचिकित्सा तहां सोलह प्रकारकी शिरोगत ।

प्राणवायुका प्रकोप ॥

आत्रेय उवाच ॥ चतुरशीतिर्विख्याता वाता नृणां रुजाकराः ॥ तेषां

निदानं वक्ष्यामि समासेन पृथक्पृथक् ॥ १ ॥ विरुद्धचिन्ताशनजागर
व्यायामतश्चातितमोऽभिषङ्गात् ॥ असृग्विरेकाद्विषमासनेन प्राणांपानंसं
मानसंधारणात् ॥ अध्वाश्रमे क्षीणबलेन्द्रियाणामासन्नतो धातुगतोऽ
पि वायुः ॥ २ ॥ प्राणोपानःसमानश्च उदानो व्यान एव च ॥ एषां दोषा
द्भवन्त्येते वातदोषाः पृथक्पृथक् ॥ ३ ॥ शिरःशूलं कर्णशूलं शङ्खशूलमसृ
ग्दः ॥ अर्द्धशीर्षविकारश्च दिनद्विसमुद्भवः ॥ ४ ॥ नासिकोपद्रवो वापि
मन्यास्तम्भो हनुग्रहः ॥ जिह्वास्तम्भस्तालुशूलं तथा च तमकं भ्रमः
॥ ५ ॥ तन्द्राश्वासगलाद्याश्च षोडशैते शिरोगताः ॥ प्राणप्रकोपतो यान्ति
पित्तेन सममीरिताः ॥ ६ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—वातसे उत्पन्न होनेवाले विकार मनुष्योंके ८४ होते हैं सो संक्षेप करके जुदे २ तिन्होंके निदानोंको कहेंगे ॥ १ ॥ विरुद्ध भोजन, चिन्ता, जागरण, कसरत, अत्यंत तमोगुणके अभिषंगसे रुधिरके विरेकसे अर्थात् फस्तसे, विषमभोजनसे, प्राण, अपान, समान, इनवायुओंके रोकनेसे मार्गके भ्रमसे क्षीणबल इंद्रियवाले पुरुषोंके धातुके समीपमें वायु प्राप्तहो ॥ २ ॥ प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान इनवायुओंके दोषसे जुदे २ वातदोष होजाती है ॥ ३ ॥ शिरमें शूलहो कानमें शूलहो कनपटियोंमें शूलहो रुधिरकी पीडाहो, दिनके चढ़नेके समय आधा शिरमें पीडाहो, ॥ ४ ॥ नासिकोंमें उपद्रवहो मन्यास्तम्भ, हनुग्रह अर्थात् ठोड़ी बंध रहै, जिह्वास्तम्भ, तालुवामें शूल, तमकश्वास, भ्रम, ॥ ५ ॥ तन्द्रा, श्वास गलकें रोग ये सोलह शिरमें प्राप्त होनेवाले वायुके रोग हैं और प्राण वायुके कोपसे पित्तके संग वायुकोष होजाते हैं ॥ ६ ॥ ८

अथ सोलह प्रकारके उदानवायुके कोषा।

हिक्का श्वासः परिश्वासः कासः शोषान्तिर्घण्टिका ॥ हृष्टासो हृदि शू
लश्च यरुद्धातादिका वमिः ॥ ७ ॥ क्ष्वथुर्जम्भणं चैव तथा वैस्वर्च्यपी
नसः ॥ अरुचिश्च प्रतिश्याय एते प्रोक्ता उदानतः ॥ ८ ॥ उदानः श्ले
ष्मसंयुक्तो दोषाद्भृदि प्रकुप्यति ॥ ९ ॥

हिचकी, श्वास, अत्यंत श्वास, खांसी, शोषकी पीडा, गलघंटिका रोग, शुकथुकी, हृदयमें शूल, यरुद्ध, वात आदिकोंकी छर्दि ॥ ७ ॥ छींक आना, जंभाई आना, स्वर विगडना पीनस, अरुचि, खेहर, ये रोग उदानवायुके कोपसे होते हैं ॥ ८ ॥ यह उदान वायु कफसे साथ दोष करके हृदयमें कुपित होता है ॥ ९ ॥

अथ व्यानवायुके कोपके लक्षण ॥

वक्ष्यामो व्यानको नाम मारुतस्य प्रकोपनम् ॥ वातः सर्वाङ्गको धातुवि
कारं कुरुते ऋशम् ॥ १० ॥ स च धातुमतो ज्ञेयस्तथा प्रोक्तः पृथक्
पृथक् ॥ त्वग्वाते रोमहर्षश्च मन्या चांसाभूरेव च ॥ ११ ॥ मांसगे शो
थतोदश्च मेदःत्वस्थे च कम्पता ॥ भङ्गतास्थिगते वाते पतनं मज्जगे
भवेत् ॥ १२ ॥ शुक्रगे सन्धिशोथश्च तस्मात्त्वग्वातलक्षणम् ॥ एतैर्धा
तुगतान्वातान्साध्यासाध्यान्निरोधयेत् ॥ १३ ॥ संत्यक्तमांसमेदःस्थो वा
युः सिध्यति भेषजैः ॥ अन्ये कष्टेन सिध्यन्ति न सिध्यन्त्यथवा पुनः ॥ १४ ॥

अब व्याननामवाले वायुके कोपके लक्षणोंको कहते हैं सब अंगमें रहनेवाला यह वायु
अत्यंत धातुविकारको करता है ॥ १० ॥ सो वह धातुमें प्राप्त हुआ पृथक् २ जानना यह
वात त्वचामें कोप होजावे तब रोम खड़ेहैं मन्यासंज्ञक नसोंका फुरणाहो ॥ ११ ॥ और
मांसमें प्राप्त होजावे तब शोजाहो चभकाहो मेदमें कंपनाहो ॥ १२ ॥ और अस्थियोंमें प्राप्त
होवे तब हाड टूटजावे मज्जामें कुपित होवे तब गिरना होवे वीर्यमें होवे तब संधियोंमें शोजा
होवे ऐसे त्वचा आदिकोंमें वायु प्राप्त होता है इत्यादिक धातुओंमें प्राप्तहुए वायुओंको सां-
ध्य और असाध्योंको रोकै ॥ १३ ॥ जो वायु मांससे रहित मेदमें प्राप्त होवे वह औषधोंसे
सिद्ध होता है और अन्यथाय कष्टसे सिद्ध होते हैं ॥ १४ ॥

अथ समानवायुका प्रकोप ॥

लोमहर्षो भवेत्तोदो निद्रानाशोऽरुचिस्तमः ॥ गात्रं सूची च विध्येत भ्र
मन्त्येव पिपीलिकाः ॥ १५ ॥ रूक्षत्वं त्वग्रसे नेत्रे कृशत्वं जायते पुनः ॥
गर्जरजसः शुक्रस्य नाशो भवति वेपथुः ॥ १६ ॥ मन्दाग्नित्वं च भवति
स्वप्नानि च स पश्यति ॥ निद्रानाशः क्षोभयति सामान्यं वातलक्षणम् ॥ १७ ॥

और रोमहर्ष अर्थात् रोम खड़े होजावे, शरीरमें चभकाहो, निद्राका नाशहो, अरुचिहो,
अंधेरीहो, शरीरमें कीड़ीसी चलै ॥ १५ ॥ त्वचा, नेत्र, ये रूपे रहै और माडा शरीर होजावे
और स्त्रीके गर्भ, रजस्वला, इन्होंका नाश होजावे वीर्य नष्ट होजावे, कंपनाहो ॥ १६ ॥ मंद-
अग्नि होजावे अनेक सुपने आवे, निद्राका नाश होजावे शरीरमें लोभ होवे ये सामान्य वातके
लक्षण हैं ॥ १७ ॥

अथ आक्षेपकवायुका लक्षण अथ तन्त्रकवायुका लक्षण ॥

मुहुराक्षेपयेद्गात्रं भेदस्तोदो बहुस्वरः ॥ स चैवाक्षेपको नाम जातो व्या

नप्रकोपतः ॥ १८ ॥ धनुर्वन्नाम्यते गात्रमाक्षिपेच्च मुहुर्मुहुः ॥ प्रच्छिन्न
नेत्रस्तब्धाक्षः कपोत इव कूजति ॥ तमाहुर्भिषजां श्रेष्ठा अपतन्त्रकना
मतः ॥ १९ ॥

और जो वारंवार शरीर कापै भेदमें चभका ही ज्वर बहुत होजावे ऐसा आक्षेपकनामवाला वायु होता है यह व्यानवायुके कोपसे होता है ॥ १८ ॥ शरीर वारंवार धनुषकी तरह न-
वै गीले और गर्वसरीखे नेत्र रहै कपोतकी तरह कूजे ये लक्षण हो तिस वायुको वैद्यजन
अपतन्त्रकनामवाला कहते है ॥ १९ ॥

अथ अप्रतानकवायुप्रकोप ॥

मतान्तरे वदन्त्यन्ये प्रह्वप्रतानको मतः ॥

गृहीताद्धीं ततो वायुरप्रतानकः संसृतः ॥ २० ॥

और कईक मतोंमें इसवायुको अप्रतानक कहते है अथवा जो आधा शरीरको बंधकर
देवै उसको अप्रतानक वायु कहते हैं ॥ २० ॥

सोऽपि कफाश्रितो वायुः संपीडयति दण्डवत् ॥ स्तम्भयन्त्याशु गात्राणि
सोऽपि दण्डप्रतानकः ॥ २१ ॥ हृद्वक्षोजकराङ्गुलौगुल्फसन्धौ समाश्रितः ॥ स्ना
युं प्रतानयेद्यस्तु सोऽपि स्नायुप्रतानकः ॥ २२ ॥ बाह्यानामथ नाडी
नां प्रतानयति मारुतः ॥ कट्याश्रितो वा भवति सशल्यमिव कुर्वते
॥ २३ ॥ तमसाध्यं बुधाः प्राहुस्तच्च वातं प्रतानकम् ॥ अन्धं चतुर्थमा
क्षेपमभिघातसमुद्भवम् ॥ २४ ॥ अभिघातेन यो जातो न स साध्यः
प्रतानकः ॥ ऊर्ध्वं तानयते यस्तु विशोषयति गात्रकम् ॥ २५ ॥ मोहतमः
कृते वास्थिसन्धिसंशुष्कको मतः ॥

और वही वायु कफके आश्रय होके लाठीकी चोट सरीखी पीडा करता है गात्रोंको बंध
कर देता है वह दंडप्रतानक वायु कहाता है ॥ २१ ॥ और हृदा, छाती, हाथोंके
अंगुली, टंकने इन्होंकी संधियोंके आश्रय होके जो नसोंको विस्तारित करदेता है वह स्ना-
युप्रतानक वायु कहाता है ॥ २२ ॥ और जो वायु बाहिरकी नसोंमें विस्तारित होजातीहै
अथवा कटिके आश्रय होजाती है और शल्य चोटलगी सरीखी पीडाहो ॥ २३ ॥ तिसको
बुद्धिमान् मनुष्य असाध्य प्रतानक वात कहते है और चोटसे उत्पन्न होनेवाला चौथा आक्षे-
पक वात कहाता है ॥ २४ ॥ वह ऊपरले अंगोंमें फैलताहै और शरीरमें शोष कर देता है ॥ २५ ॥
और मोहहो, तम अर्थात् अंधेरी हो वह अस्थिसंधि इन्होंको सुखानेवाला वायु कहाता है ॥

अथ एकाङ्गवायु ॥

रुच्छार्द्धकर्षं भवति शुष्कतां च प्रकुञ्चति ॥ २६ ॥

पृष्ठं प्रतानार्द्धं यो वै स तथैकाङ्गिको मतः ॥ २७ ॥

तिस्से आधा शरीरमें कष्ट रहै खिंचाहुआ रहै और शोषका कोपहो ॥ २६ ॥ और जो पीठको तथा आधा शरीरको बंधकर देता है वह एकांगिक वायु कहाता है ॥ २७ ॥

अथ एकांगपक्षघातवायु ॥

एकाङ्गपक्षघातश्च भवत्यन्यतमो यदि ॥

वातघ्नैरौषधैः सर्वैर्वायुः कष्टेन सिध्यति ॥ २८ ॥

और जो यदि अन्य पक्षघातसंज्ञक वायु एकतर्फके अंगमें प्राप्त होजाता है वह संपूर्ण वातनाशक औषधोंकरके कष्टसे सिद्ध होता है ॥ २८ ॥

अथ तूनी तथा प्रतितूनी वायु ॥

तोदमूर्च्छां वेपनं स्याद्वेष्टता स्पर्शनाज्ञता ॥ यस्तु नश्यति गात्राणि वायु

स्तूनीतिशब्दितः ॥ २९ ॥ वेपनं तोदवेष्टत्वं स्पर्शानं वेत्ति यः पुनः ॥ प्रतू

नयति गात्राणि प्रतितूनीति गद्यते ॥ ३० ॥

शरीरमें चभकाहो, मूर्च्छाहो, कंपनाहो, शरीर बंधा रहे, स्पर्श नहीं जना जावे और अंगों-को मष्ट कर देवै वह तूनीसंज्ञक वायु कहाता है ॥ २९ ॥ और शरीर कापै चभकाहो शरीर बंध रहे और स्पर्शको सह लेवै शरीरको पीने अर्थात् पीननें सरीखी पीडाहो वह प्रतितूनी वात कहाता है ॥ ३० ॥

अथ व्यानवायुके कोपका लक्षण ॥

हृदिस्तम्भः पृष्ठस्तम्भ ऊरुस्तम्भश्च गृध्रसी ॥ पृथक्त्वेन च कथितमग्रे

शृणुष्व कोविद ! ॥ ३१ ॥ एते व्यानप्रकोपेन द्विषोडश प्रकीर्त्तिताः ॥ ३२ ॥

हृदाबंध रहे पीठ बंध, रहे जांघ बंध रहे गृध्रसी रोग होजावे सो जुदे २ वत्तीस प्रकार के रोग पहले व्यान वायुके कोपसे कहे है अब आगे कहेहुए अन्यवायुओंके लक्षणोंको सुन ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

अथ सोलह प्रकारके उदानवायुके कोप ॥

शूलं गुल्म उदावर्त्त आघ्मानोदावर्त्तमेव च ॥ परिणामो विषमाग्निरजी

र्ण वातिगुल्मकः ॥ ३३ ॥ परिक्लेदी रसशोषो रसश्च मलवालकः ॥ बन्धी

भेदी विलासी च षोडशैते समानतः ॥ ३४ ॥

शूलहो, गुल्म, उदावर्त्त, ॥ ३३ ॥ अफारा, परिणाम शूल, विषमाम्नि, अजीर्ण, वात
गोला, परिक्लेद पीडा, रसशोष, रस नहीं पकना, मल कच्चा रहना, मलका बंधा, तथा त.
मल होना, भोग करनेकी इच्छा रहे ये सोलह विकार समान वायुके कोपसे होता है ॥३४॥

अथ सोलहप्रकारके अपानवायुके लक्षण ॥

भगन्दरो वस्तिशूलो मेहार्शश्चातिकोठकः ॥ लिङ्गदोषो गुदभ्रंशस्तथान्यो
गुदशूलकः ॥ ३५ ॥ मूत्ररोधो विड्रोधश्च पोडशैते विज्ञानता ॥ अपान
स्य प्रकोपेन विज्ञेयास्तु प्रधानतः ॥ ३६ ॥ एते विकाराः कथिताः वि
स्ताराश्च प्रकीर्त्तिताः ॥ दाहः सन्तापः शोषश्च मूर्च्छा पित्तान्वितो मरुत्
॥ ३७ ॥ शैत्यं शोफारुचिर्जाड्यं वातश्लेष्मसमन्वितम् ॥ यो द्वन्द्वजाश्चि
तो धीर ! तं साध्यं मारुतं विदुः ॥ ३८ ॥ केवलोऽपि समीरोऽपि सोऽपि
साध्यतमः स्मृतः ॥ वक्रं भवति वक्राद्धं ग्रीवा चाप्युपवर्त्तते ॥ ३९ ॥

भगन्दर रोगहो, वस्तिमें शूल, प्रमेह, ववासीर, शीत पित्त, लिङ्गदोष, गुदभ्रंश, गुदमें शूल,
॥ ३५ ॥ मूत्रबंध होना, मलबंध होना, ये सोलह विकार वैद्योंने अपानवायुके कोपसे जा-
नने ॥ ३६ ॥ ये विकार विस्तार करके यहां कहदिये हैं, और दाह, संताप, शोष, मूर्च्छा,
ये पित्तवातसे होते हैं ॥ ३७ ॥ और शीतलता, शोभा, अरुचि, जडपना, ये वात कफसे
होते हैं और जो दो दोपोंसे मिलाहुआ, वायु है उसको साध्य कहते हैं ॥ ३८ ॥ तथा एक
दोपवालाभी वायु सुखसाध्य कहा है मुख टेढा होजावे अथवा ग्रीवा ऊपरको होजावे ॥३९ ॥

अथ अर्दित अर्थात् लकुआके लक्षण ॥

वैकृत्यं नयनानाञ्च विसङ्गो वेदनातुरः ॥ ग्रीवायां गण्डयोर्दन्तपार्श्वे य
स्यातिवेदना ॥ ४० ॥ तमर्दितमिति प्राहुर्वातव्याधिविचक्षणाः ॥ ४१ ॥

नेत्र विगडजावे वायु बंध होजावे पीडा रहै और ग्रीवा, कपोल, दाँतोंके मसूढे इन्होंने ज्येदै-
पीडाहो ॥ ४० ॥ तिसको व्याधिको जाननेवाले वैद्य अर्दित अर्थात् लकुआ कहते हैं ॥४१॥

अथ द्वंद्वजअर्दितका लक्षण ॥

लालास्रावोऽथ शोषश्च हनग्रहो विरस्यता ॥ दन्तशूलं भवेद्यस्य वा
तेनार्दितमेव च ॥ ४२ ॥ पीताङ्गं सज्वरं तृष्णा पित्तजो मोह एव च ॥
शोफस्तम्भोऽस्य भवति कफोद्भूतेऽथवार्दिते ॥ ४३ ॥

और लाल गिरें, शोषहो, ठोडी बंध रहे, मुखका रस विगडा रहे, दाँतोंमें शूलहो ये अर्दित वातके लक्षण है ॥ ४२ ॥ और पीला शरीरहो, ज्वरहो, तृषाहो, मोहहो, ये पित्तसे उपजे अर्दित वायुके लक्षण हैं और शोजाहो मात्र बंध रहै ये कफसे उपजे वायुके लक्षण हैं ॥ ४३ ॥

अथ असाध्यअर्दित ॥

जावना लक्षणं यस्य वेपथुर्नेत्रमाविलम् ॥ क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रस-
क्ताव्यक्तभाषिणः ॥ ४४ ॥ न सिध्यत्यर्दितं गाढं विषमं चापि तस्य
च ॥ कण्ठो घोरो भक्षणार्थं जृम्भा प्रस्तारिते मुखे ॥ ४५ ॥ हनुस्त-
म्भो भवत्येते कच्छसाध्या भवन्ति हि ॥ विषमे वा दिवास्वप्ने विवर्त्ति-
तनिरीक्षणे ॥ ४६ ॥ मन्यास्तम्भं जनयति कच्छात्पाश्वं विलोकते ॥
वाग्वादिनीं शिरां रुद्धा स्तम्भयेद्वसनानिलः ॥ ४७ ॥ रक्ताश्रितोऽपि प-
वनः शिरोनाड्यां समाश्रितः ॥ शिरोऽर्त्तिं कुरुते यस्तु सोऽप्यसाध्यः
शिरोग्रहः ॥ ४८ ॥

और जिसके कंफनाहो नेत्र गड जावे आंखोंकी पलक क्षीण होजावे और अव्यक्त अम-
कट बोलै उसके जानना की अब अर्दित वात होवेगा ॥ ४४ ॥ और जिसके विषम तथा अत्यंत
लकुवा वात होजाता है उसके अच्छा नहीं होता है और जिसका कंठ घोरहो भक्षण करनेके-
वास्ते तथा जंभाई लेनेकेवास्ते फाडाहुआ मुखसरीखा मुख रहजावे ॥ ४५ ॥ ठोडी बंध
होजावे ये कष्टसाध्य लकुआके लक्षण है और जिसके दिनमें विषम सोनेसे उलटे देखनेके
समय ॥ ४६ ॥ ठोडीकी न संबंध रहै और पांशुकी तर्फ बडे कष्टसे देखा जावे और वाणी-
को बोलनेवाली नाडीको श्वासवायु बंधकर देवे यहभी कष्टसाध्य वात है ॥ ४७ ॥ और
रक्तके आश्रयहुआ वायु शिरकी नाडियोंके आश्रय हो जो शिरमें पीडा करदेता है वहभी
शिरोग्रह वायु असाध्य कहाता है ॥ ४८ ॥

अथ अपान आदिकवातोंकी चिकित्सा ॥

अतः प्रतिक्रियां वक्ष्ये यथा सिध्यति मारुतः ॥ स्नेहनं रूक्षणं कार्य्यं
पाचनं शमनानि च ॥ ४९ ॥ स्वेदनं मर्दनाभ्यङ्गो बस्तिस्नेहो निरूह-
णम् ॥ स्नायुसन्ध्यस्थिसंप्राप्ते भेदनं कारयेत्सुधीः ॥ ५० ॥ माणिम-
न्थेन यन्त्रेण ततः संभूषयानिलम् ॥ असाध्ये शुक्रगे व्याने बीजव-
समुपाचरेत् ॥ ५१ ॥

. ; अब जैसे वायु सिद्ध होता है. तैसे चिकित्साको कहते हैं स्नेहन, रक्षण, पाचन, २ ऐसे इलाज करने चाहिये ॥ ४९ ॥ पत्तीना दिवाना, मालिसकरनी, वस्तिस्नेह, निरूह वस्ति ये चिकित्सा करनी चाहिये और स्नायु, संधि, अस्थि, इन्होंमें वायु प्राप्त होजावे तब भेदन अर्थात् गहावे ॥ ५० ॥ और माणिमंथ यंत्र करके वायुको शांतकरै और ज असाध्य व्यानवायु शुक्रमें प्राप्त होवे तो वीर्यवृद्धिसरीखी औषध करै ॥ ५१ ॥

अथ स्नेहनामघृत ॥

मुण्डी गुडूची बृहतीद्वयं च रास्ना समङ्गा कथितः कषायः ॥ समुच्चित्तं
नापि विमिश्रितं च दुग्धं दधि स्यान्नवनीतकञ्च ॥ ५२ ॥ पचेत्सुधीमा
म्बुदुवह्निना च सिद्धं घृतं स्नेहनमेव पुंसाम् ॥ कर्षप्रमाणं विहितं च पा
ने चाभ्यञ्जके भोजनके तथैव ॥ ५३ ॥ वस्तौ हितं स्नेहनमेव पुंसां
सप्ताहकं वातविकारिणाञ्च ॥ ५४ ॥

गोरखमुंही, गिलोय, छोटी कटेहली, बड़ीकटेहली, रास्ना, मंजीठ, इन्होंका काथ, बनाले-
वे पीछे इस काथमें दूध, दही, नूनीघृत ॥ ५२ ॥ इन्होंको मिला फिर मंद २ अग्निते
पकावे फिर यह घृत सिद्ध होजावे तब इसकी मालिस करनी वातवालेपुरुषोंको हित है और
एक तोला प्रमाण इसको पीवे अथवा मालिसमें और भोजनमें बरतै ॥ ५३ ॥ वातके वि-
कारवाले पुरुषोंको यह घृत सात दिनतक सेवन करना चाहिये ॥ ५४ ॥

अथ निरूहणवस्ति ॥

रास्नाविडङ्गरजनी सह नागरेण सौवीरकेण सुरसा सह सैन्धवेनासोष्णञ्च
पानमिदमेव विरूक्षणञ्च स्यान्नृणाञ्च पञ्चदिनकर्षमात्रमेव ॥ ५५ ॥

रास्ना, वायविहंग, हलदी, सुंठ, कांजी, तुलसी, संधानमक, इन्होंको एक जगह मिला
गरम २ पीना हित है और रूपा भोजन खावै और पांच दिनतक एक एक तोला प्रमाण
इसको खावै ॥ ५५ ॥

अथ पाचन तथा शमनका कथन ॥

अतः स्यात्पाचनं सम्यग् दिनसप्तकमेव तत् ॥ पाचिते चैव दोषे च
तस्मात्संशमनं ददेत् ॥ ५६ ॥ वक्ष्यामि ते पुष्टिगते धमन्या समाश्रिते च
बहुधाशनेनासंस्वेदश्च नाशयते समीरं सप्ताहकं चोष्णजलेन सेकः ॥ ५७ ॥

इसके सेवनेसे वायु पकजाता है और फिर सात दिन पीछे दोष पकजावे तब संशमन
औषधको करै ॥ ५६ ॥ अब धमनी नाडीके आश्रय होके पुष्टिस्थानमें प्राप्तहुआ

वायुका इलाजको कहते है विस वायुको बहुत प्रकारसे शमन करके स्वेद अर्थात् परीना दिवाके वायुको शांत करे और सात दिनतक गरम जलसे सैके ॥ ५७ ॥

अथ सर्वांगवायुकी चिकित्सा ॥

रास्नात्रिकण्डकैरण्डशतपर्वा पुनर्नवा ॥ काथो वातमयं हन्ति सर्वाङ्गगत
माशु च ॥ ५८ ॥ रास्नागुहूचिकादारुनागरेरण्डसंयुतः ॥ काथः सर्वाङ्ग
वातेऽपि समधातुगते हितः ॥ ५९ ॥ रास्नाश्वगन्धाकाशीशं वचा च व
पिकञ्जुकम् ॥ काथस्त्वेरण्डतैलेन पीतो हन्ति समीरणम् ॥ ६० ॥ रा
स्नाधान्यकशुण्ठी च यवानी दशमूलकम् ॥ काथः पाचनके प्रोक्तो
नरे वातविकारिणि ॥ ६१ ॥ रास्नाद्यानि पाचनानि हितानि क
थितानि च ॥ ६२ ॥

और रास्ना, छोटी कटेहली, बड़ी कटेहली, गोखरू, अरंड, वच, सांठी, इन्होंका काथ
ना पीनेसे वातके रोग दूर होते है और सर्वांग वात शीघ्रही नष्ट होता है ॥ ५८ ॥ और
रास्ना, गिलोय, देवदार, स्रंड, अरंड, इन्होंका काथ सर्वांग वातमें और धातुगत वातमें हित है
॥ ५९ ॥ और रास्ना, आसगंध, हीराकसीस, वच, कौंचके बीज, इन्होंका काथको अरंडी-
के तेलके संग पीनेसे वातका नाश होता है ॥ ६० ॥ और, रास्ना, धनियां, स्रंड, अजमा-
न दशमूल, इन्होंका काथ वातविकारवाले पुरुषोंको पाचन कहा है ॥ ६१ ॥ ऐसे ये रास्ना
आदिक काथ वातवालोंको हित और पाचन कहे है ॥ ६२ ॥

अथ रसोनकयोग ॥

अर्द्धपलं रसोनञ्च हिङ्गुसैन्धवजीरकैः ॥ सौवर्चलेन संयुक्तं तथैव कटु
कत्रिकम् ॥ ६३ ॥ घृतेन संयुतं भक्षेन्मासमेकं दिने दिने ॥ निहन्ति
वातरोगञ्च अर्दितं च प्रतानकम् ॥ ६४ ॥ एकाङ्गरोगिणाश्चापि तथा
सर्वाङ्गरोगिणाम् ॥ ऊरुस्तम्भं क्रिमेदोषं गृध्रसीर्वापि कर्षति ॥ ६५ ॥
पलाद्धञ्च पलं चापि रसोनञ्च सुकुट्टितम् ॥ हिङ्गुजीरकसिन्धुर्थं सौवर्च
लकटुत्रयम् ॥ ६६ ॥ एभिः संचूर्णितैः सर्वैस्तुल्यं तैलेन संयुतम् ॥ यथा
ग्निं भक्षयेत्प्राताः रुचुकाथानुपानवत् ॥ ६७ ॥ मासमेकं प्रयोगेण सर्व
वातामयाञ्जयेत् ॥ एकाङ्गं चैव सर्वाङ्गमूरुस्तम्भं च गृध्रसी ॥ ६८ ॥

कटिपृष्ठास्थिसन्धिस्थमर्दितं चापतन्त्रकम् ॥ ज्वरं धातुगतं जीर्णं
त्यञ्च सैकराह्वयम् ॥ ६९ ॥

लस्सन २ तोले हींग, सेंधानमक, जीरा, कालानमक, संठ, मिरच, पीपल, इन्हेंको १
नभाग ले ॥ ६३ ॥ घृतमें मिला दिन २ प्रति एक २ मात्ताप्रमाण भक्षण करै यह वा
ग, लंकुवा, प्रतानकवात, इन्हेंको नाशता है ॥ ६४ ॥ और एकांगवातरोग, सर्वांग व
ऊरुस्तंभ, किमिदोष, गृध्रसी वात इन्हेंको दूर करता है ॥ ६५ ॥ और चार तोले अथवा
तोले लस्सनको कूटि तिसमें हींग, जीरा, सेंधानमक, कालानमक, संठ, मिरच, पीपल, ॥६६॥
इनसर्वोंको समान भाग ले चूर्ण बना तिसमें बराबरका तेल मिला फिर प्रातःकाल जठराग्निके
अनुसार इसको भक्षण करे और इसपे अरंडका काथका अनुपान करै ॥ ६७ ॥ इसके
एक मात्ता खानेसे सबप्रकारके वातरोगोंका नाश होता है एकांग वात, सर्वांग वात, ऊरुस्तंभ,
गृध्रसी वात ॥ ६८ ॥ कटि, पृष्ठ, अस्थि, संधि इन्हेंको मर्दन करनेवाला वात, अपतन्त्रक
वात, धातुगत ज्वर, तथा जीर्ण ज्वर, और नित्य आनेवाला ज्वर, शीतज्वर, इन्हेंको
नाशता है ॥ ६९ ॥

अथ वातको शमन करनेवाले काथ ॥

नागरा च हरिद्रा च कणाजाज्यजमोदिका ॥ वचा सैन्धवरास्ना च
मधुकं समभागिकम् ॥ ७० ॥ श्लक्ष्णचूर्णं पिबेच्चैव सर्पिषा प्रत्यहं नरः ॥
एकविंशतिदिनैर्वा रोगान् हन्ति न संशयः ॥ ७१ ॥ अवेच्छुतिधरः श्रीमां
न् मेघदुन्दुभिनिस्वनः ॥ हन्ति वातामयान् सर्वान् लेहो यश्च सुखावहः
॥ ७२ ॥ शतावरी वचा शुण्ठी रास्ना कदरशल्लकी ॥ दशमूली बला
किण्वस्तुम्बुरु च गुडूचिका ॥ ७३ ॥ एष कल्को घृतैर्युक्तो हन्ति वातं
शरीरगम् ॥ ७४ ॥ शल्लकीचिक्कणीत्वचो काथस्तैलेन संयुतः ॥ कुर्घ्या
द्वातार्दितं स्वस्थमेकाविंशतिदिनैर्नरम् ॥ ७५ ॥ अतोऽभ्यङ्गश्च कर्त्तव्यस्तै
लैरपि घृतैरपि ॥ गुग्गुलञ्च रसोनञ्च कारयेद्विधिपूर्वकम् ॥ ७६ ॥

संठ, हलदी, पीपल, जीरा, अजमोद, वच, सेंधानमक, रास्ना, मुलहठी, इन्हेंको समान
भागले ॥ ७० ॥ बारीक चूर्ण बना घृतके संग पीनेसे इक्कोस दिनोंमें वातके रोम नष्ट होते है
इसमें संदेह नहीं ॥ ७१ ॥ और श्रोत्र इंद्रिय बलवान् होजाती है मेघके समान स्वर होजाता
है इसमें संदेह नहीं और यह लेह सबप्रकारके वातरोगोंको नाशता है सुख करनेवाला है

॥ ७२ ॥ और शतावरी, वच, सुंठ, रास्ना, छोटा शल्यकीवृक्ष, दशमूल, खरैहटी, मंदिरासे चाकी रहा द्रव्य, धनिय्रा, गिलोय ॥ ७३ ॥ इन औषधोंका कल्क बना घृतके संग खानेसे शरीरमें प्राप्तहुआ वातका नाश होता है ॥ ७४ ॥ और शालवृक्ष, सुपारीका वृक्ष, इन्होंकी छालके काथमें तेल मिला मालिस करनेसे इक्कीस दिनमें वातसे पीडित मनुष्य स्वस्थ आनंदित होता है ॥ ७५ ॥ इसवास्ते तेलोंकरके तथा घृतकरके मालिस करनी हित है और विधिपूर्वक उत्सनमें गुगलको सिद्धकर तिसका सेवन करना हित है ॥ ७६ ॥

अथ बलाआदिक औषध ॥

भागाश्वाष्टौ बलामूलं चत्वारो दशमूलकम् ॥ काथश्चतुर्गुणे तोयेऽथवा द्रोणस्य संख्यया ॥ ७७ ॥ तत्राढकं क्षिपेत्क्षीरमाढकं मिश्रयेद्दधिः ॥ कुलत्थाढकयूपं वै चाशु पच्युपितं क्षिपेत् ॥ ७८ ॥ तैलं तिलानां द्रोणं तु कटाहे पाचयेच्छनैः ॥ जीवन्ती जीवनीया च काकल्यौ जीवकर्षभौ ॥ ७९ ॥ मेदे द्वे सरलं दारु शल्लकश्च कुचन्दनम् ॥ कालीयकं सर्जरसं मञ्जिष्ठा त्रिसुगन्धिकम् ॥ ८० ॥ मांसी शैलेयकं कुष्ठं च चा कालाटशारिवा ॥ शतावरी चाश्वगन्धा शतपुष्पा पुनर्नवा ॥ ८१ ॥ किण्वकं च सुरा मुस्ता तथा तालीसपत्रकम् ॥ कटुत्रयं वालुकौ च सर्वं तत्रैव मिश्रयेत् ॥ ८२ ॥ सिद्धं सर्वगुणं श्रेष्ठं कृत्वा मङ्गलवाचनम् ॥ सौवर्णे राजते कुम्भे वाथवा मृन्मयायसे ॥ ८३ ॥ प्रतप्तं धारयित्वा तु पानाभ्यङ्गे निरूहके ॥ बस्तौ वापि प्रयोक्तव्यं मनुष्यस्य यथा बलम् ॥ ८४ ॥ वातादितेऽथवा भग्नेभिन्ने वापि प्रदापयेत् ॥ या वन्ध्या च भवेन्नारी पुरुषाश्चाल्परेतसः ॥ ८५ ॥ क्षीणो वा दुर्बलो वापि तथा जीर्णज्वरातुरः ॥ आमवातातुराणाञ्च तथा प्रक्षिप्य कञ्चटम् ॥ ८६ ॥ प्रभाते च प्रयोक्तव्यं तथा शुष्के हनुग्रहे ॥ कर्णशूले चाक्षिशूले मन्यास्तम्भे च पार्श्वगे ॥ ८७ ॥ सर्ववातविकाराणां हितं तैलं यथामृतम् ॥ हर्निं श्वासं च कासं च गुल्मार्षौग्रहणीगदम् ॥ ८८ ॥ अटादृशानि कुष्ठानि शीघ्रं वापि नियच्छति ॥ ग्रहभूतपिशाचाश्च डाकिनी शाकिनी तथा ॥ ८९ ॥ दूरदेशे पलायन्ते बलानैलस्य दर्शनार् ॥ अपस्मा

रादिदोषांश्च तत्र दूरे नियच्छति ॥ ९० ॥ वृद्धा युवानो जघन्ति
च लभते सुतम् ॥ तैलं महावलाद्यं च महावातहरं स्मृतम् ॥ ९१ ॥

खरैहटीकी जड़ आठ भाग, दशमूल चार भाग, इन्हेंको चारगुना जलमें और १०२ तोले जलमें पकाके काथ बनावे ॥ ७७ ॥ पीछे तिसमें २५६ तोले दूध मिला, और २५६ तोले दही, २५६ तोले कुलथीका रूपको वासीकरके मिलावे ॥ ७८ ॥ और तिलोंका तेल १०२४ तोले ऐसे इनसबोंको मिला पीछे शनैःशनैः कडाहीमें पकावे और जीवंती, हरडै, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, कृपभक, ॥ ७९ ॥ मेदा, महामेदा, सरल, देवदार, शलकी, लाल चंदन, रोहितवृण, शलकावृक्ष, मंजीठ, त्रिसुगंधि अर्थात् तेजपात, इलायची, दालचीनी ॥ ८० ॥ जटामांसी, शिलाजित, कूठं, वच, नील, अनंतमूल, शतावरी, आसगंध, सौंफ, सांठी ॥ ८१ ॥ मदिरासे बाकी रहा द्रव्य, मदिरा, नागरमोथा, तालीसपत्र, कुटकी, नेत्रवाला, इनसबोंको एक जगह मिला ॥ ८२ ॥ पीछे इसको सिद्ध करै यह सब गुणोंवाला है श्रेष्ठ है इसको मंगलाचरण करके सुवर्णका अथवा चांदीका तथा चृत्तिकाके पात्रमें घाल घेरो ॥ ८३ ॥ इसको गरम २ को पीनेमें अथवा मालिसमें तथा निरूहवस्तिमें प्रयुक्त करै अथवा मनुष्यके अश्विबलको विचार साधारण वस्तिमें इसको प्रयुक्त करै ॥ ८४ ॥ लकुवावात, भग्नवात, भिन्नवात, इन्होंने यह औषध वरतना चाहिये और जो बंध्या स्त्री है अथवा अल्पवयसवाला पुरुष है तिसको यह श्रेष्ठ कहा है ॥ ८५ ॥ और क्षीण पुरुष, दुर्बल, जीर्ण ज्वरसे पीडित, इनपुरुषोंकेवास्ते श्रेष्ठ कहा है और आमवात इनरोगवाले पुरुषोंको इस औषधमें गंजपीपली मिलाके देना चाहिये ॥ ८६ ॥ और शुष्क हनुग्रहरोगमेंभी इसको प्रभातकालमें स्वावे और कर्णशूल, अतिशूल, मन्यास्तंभ, पशलीशूल, इन्हेंको नाशता है ॥ ८७ ॥ और यह तेल संपूर्ण वातके विकारोंको नाशता है और स्वास, खांसी, गुल्म, ववासीर, संग्रहणी रोग ॥ ८८ ॥ अठारह प्रकारके कुष्ठ रोग, इनसबोंको नाशता है और ग्रहदोष, भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ॥ ८९ ॥ ये सब इस बलातैलके दर्शन करनेसे दूर भाग जाते हैं और मृगी आदि रोग दूर चले जाते हैं ॥ ९० ॥ और वृद्ध पुरुष जवान होजाता है और बंध्या स्त्री पुत्रवाली होजाती है यह महाबलाआदिक नामवाला तैल महावातरोगोंको हरनेवाला कहा है ॥ ९१ ॥

अथ बलाआदितैल ॥

बलाकाथाढकं क्षिप्त्वा क्षिपेत्तत्राढकं दधि ॥ कुलत्थाढकयूषं तु सौवी
रस्याढकं तथा ॥ ९२ ॥ एकत्र कृत्वा विपचेद्योजयेदौषधञ्च तत् ॥ शत
पुष्पा देवदारु पिप्पली गजपिप्पली ॥ ९३ ॥ त्रिसुगन्धि सुरामांसी कुष्ठ

अथ दशमूलकम् ॥ घूर्णकं निक्षिपेत्तत्र सिद्धं तदवतारयेत् ॥ ९४ ॥ यो
 व्यं पाने तथाभ्यङ्गे निरूहे नस्यकर्मणि ॥ हन्ति वातामयाञ्छीति श्रेष्ठं
 गुणगणात्मकम् ॥ ९५ ॥ यथा महावलं तैलं तथेदं गुणवर्द्धनम् ॥ ९६ ॥

२५६ तोले खैरहदीका काथमें २५६ तोले दही मिलावे पीछे तिसमें २५६ तोले कु-
 लथीका यूप मिलावे २५६ तोले कांजी मिला ॥ ९२ ॥ इनसर्वोंको एक जगहकर आगे
 कहीहुई औपधोंको मिलावे सौंफ, देवदार, पीपल, गजपीपल, ॥ ९३ ॥ दालचीनी, तेजपा-
 त, इलायची, मुरामांसी, कूठ, दशमूल, इन्होंके चूर्णको मिला अग्निसे पकावे सिद्ध होजावे
 तब उतारि ॥ ९४ ॥ इसको पीनेमें निरूहवस्तिमें नस्यकर्ममें वरते और अस्ती प्रकारके
 वातरोगोंको यह तैल नाशता है जैसे पहले कहाहुआ महावलादिक तैल गुणवर्द्धन है ॥ ९५ ॥
 ऐसेही यह तैल गुणोंको बढ़ानेवाला और बलपद कहा है ॥ ९६ ॥

अथ भृङ्गराजतैल ॥

भृङ्गराजसञ्चैव कटुतुम्बीरसं तथा ॥ सौवीरकरसं चैव काथं वै दशमूल
 कम् ॥ ९७ ॥ माषकुल्माषयूषं च वाजं दधि समाश्रयेत् ॥ समांशका
 नि सर्वाणि तैलं चाद्धं प्रयोजयेत् ॥ ९८ ॥ मृद्वग्निना पाचनीयं सिद्धं
 चैवावतारयेत् ॥ अभ्यङ्गे च प्रयोक्तव्यं न पाने वस्ति कर्मणि ॥ ९९ ॥
 पूरणं कर्णरोगेषु शिरःशूले च दारुणे ॥ अर्द्धशीर्षिकारेषु भ्रुवः शङ्का
 क्षिशूलके ॥ १०० ॥ तस्य योगेन मनुजः सुखमापद्यते द्रुतम् ॥ हन्ति
 कुष्ठं च पामानं त्वग्रोगोऽभ्यञ्जनेन तु ॥ १०१ ॥ शीघ्रं विनाशमाया
 ति हन्त्यपस्मारमुत्कटम् ॥ न वस्तिशूलो भवति वामवाते श्रमः कृमः ॥ १०२ ॥

भृङ्गराका रस, कहुईतुंधीका रस, कांजीका रस, दशमूलका काथ ॥ ९७ ॥ उहदोंके
 वाफलोंका यूप अथवा बकरीका दही इन्होंको समान भाग ले और आधाभाग तैल मिला
 ॥ ९८ ॥ पीछे मंद २ अग्निसे पकावे जब सिद्ध होजावे तब उतारि इसकी मालिस करै
 और यह तैल पीनेमें तथा वस्तीकर्ममें नहीं वरतना चाहिये ॥ ९९ ॥ और कानके रोग,
 दारुण शिरकी शूल, इन्होंमें पूरण करना चाहिये और अधशिराका विकार, भ्रुकुटि, कन-
 पटी, आंख इन्होंकी शूल ॥ १०० ॥ इनरोगोंवाला मनुष्य इस तैलके योगसे सुखको प्राप्त
 होजाता है और इस तैलकी अच्छीतरह मालिस करनेने कुष्ठ, पामा, इन्होंका नाश होता है
 ॥ १०१ ॥ और मृगीरोग शीघ्रही नष्ट होता है और वस्तिस्थानमें शूल नहीं रहता है और
 आमवातमें श्रम और ग्नानि होती है ॥ १०२ ॥

अथ आमपाककी चिकित्सा ॥

आमपाकीति विज्ञेयो न कुर्ष्यात्तस्य पाचनम् ॥ विरेचनं न कर्त्तव्यं
स्तम्भनं तस्य कारयेत् ॥ १०३ ॥ कटिपृष्ठे वक्षोदेशे तोदनं वस्तिर्भूल
ता ॥ गुल्मवज्जठरं गर्जेत्तथान्त्रे शोफमेव च ॥ १०४ ॥ शिरोगुरुत्वं
भवति वामे च पतति शृशाम् ॥ सर्वाङ्गो भवेत्सोऽपि विज्ञेयः सुविज्ञान
ता ॥ १०५ ॥ तस्य च पाचनं कुर्ष्याद्विरेचनं ततः परम् ॥ विष्टम्भी गु
ल्मपाकी च सर्वाङ्गोऽन्यः कीर्त्तितः ॥ १०६ ॥ विज्ञेयस्तत्र यः साध्य
श्वान्यौषमो कष्टसाध्यकौ ॥ स्निही वामश्च कथितः कृत्वापस्मारनिग्रहम् १०७

और जो पुरुष आमपाकी हो तिसको पाचन औषध नहीं देवे और जुलाव नहीं दिववि
किंतु स्तंभन औषध देवै ॥ १०३ ॥ और कटि, पीठ, छाती, इन्हें चभकाहो वस्तिमें शूल
हो और गोलाकी तरह पट बोलै आंतोंमें शोजा हो ॥ १०४ ॥ शिर भाराहो, और बहुतसी
आंव गिरै वह सर्वांग वात अर्थात् सब आंगमें प्राप्तहुआ वात जानना ॥ १०५ ॥ तिसमें
पहले पाचन औषध देवै पीछे जुलावकी औषध देवै और जिसका मलबंध हो गोला पक-
जावे, वहभी अन्यप्रकारका सर्वांगवात कहाता है ॥ १०६ ॥ तहां एकतो साध्य होता है और
दो कष्टसाध्य होते हैं, और स्नेह, तैलादिक देके धमन करके मृगीरोगको दूर करै ॥ १०७ ॥

अथ नारायणनामक तेल ॥

श्योनाकः पाटला विल्वं तर्कारी पारिभद्रकम् ॥ अश्वगन्धा कण्टकारी
प्रसारिणी पुनर्नवा ॥ १०८ ॥ श्वदंष्ट्रातिवला चैव बला च समभागिकी ॥
पादशेषं जलद्रोणे कथितं परिस्नावयेत् ॥ १०९ ॥ वाच्यमानानि योज्यानि
भेषजानि भिषग्वरैः ॥ ११० ॥ शतपुष्पा वचा मांसी दारु शैलेयकं वरा ॥
पतङ्गं चन्दनं कुष्ठं तथान्यं रक्तचन्दनम् ॥ १११ ॥ करञ्जवीजांशुयती
त्रिसुगन्धि पुनर्नवा ॥ रास्ना तुरङ्गगन्धा च सैन्धवं च दुरालभा ॥ ११२ ॥
मिष्टासुरसा चैतत्तु प्रत्येकं तु पलद्वयम् ॥ चूर्णं कृत्वा क्षिपेत्तत्रक्षिपेत्क्षि
रसाढकम् ॥ ११३ ॥ शतावरीरसं चैव अजाक्षीरं चतुर्गुणम् ॥ दधि तत्राढकं गु
र्व्यं तिलतैलं प्रयोजयेत् ॥ ११४ ॥ सिद्धं तत्र प्रदृश्येत ततो मङ्गलवा
चनदे ॥ प्रतिश्लेनं प्रतिष्ठाप्य नारायणमिदं स्मृतम् ॥ ११५ ॥ हन्ति वा

तविकारांश्च अपस्मारमहांस्तथा ॥ शिरोरोगान् कर्णरोगान् कुष्ठान्य
 षट्दशान्यपि ॥ ११६ ॥ वन्ध्या च लभते पुत्रं षण्डोऽपि पुरुषायते ॥
 कृशो युवायते मूर्खो विद्याराधनतत्परः ॥ ११७ ॥ नारायणमिदं तैलं
 कृष्णात्रेयेण भाषितम् ॥ ११८ ॥

सोनापाठा, पाहलवृक्ष, बेलपत्र, अरणी, नींबू, आसगंध, कटेहली, खीप, सांठी ॥१०८॥
 गोखरू, खरैहटी, गंगेरनकी जड़, इन्होंको समान भागले १०२४ तोले जलमें पकाये जब
 चतुर्थांश बाकी रहे तब उतारि वस्त्रमांहके छान लेवे ॥ १०९ ॥ पीछे वैद्यजनोंको आगे
 कहीहुई औषधें गेरनी चाहिये ॥ १०१ ॥ जैसे—सौंफ, वच, जटाभांसी, देवदार, शिलाजीत, विफला,
 पतंग, चंदन, कूठ, लाल चंदन ॥ १११ ॥ करंजुवाके चीज, शालवन, दालचीनी, तेजपात,
 दालचीनी, इत्यायची, सांठी, रास्ना, आसगंध, संधानमक, जवांसा ॥ ११२ ॥ मीठी तोरी,
 तुलसी, इनसबोंका आठ २ तोला प्रमाण ले चूर्ण बना तिसमें पहले कहे काथमें गेर देवे
 और लाखका रस २५६ तोले ॥ ११३ ॥ शतावरीका रस २५६ तोले, बकरीका दूध चार
 भाग गौका दही २५६ तोले और २५६ तोले तिलोंका तेल इन्होंको मिला ॥ ११४ ॥
 फिर अग्निसे सिद्ध करे पीछे भंगलाचरण करके इस नारायणनामक तेलको प्रतिष्ठाकरके
 स्थापित कर देवे ॥ ११५ ॥ यह तैल वातके विकारोंको नाशता है और श्मृगीरोग, ग्रहदोष
 इन्होंको दूर करता है और शिरके रोग ॥ ११६ ॥ कर्णरोग, अठारह प्रकारके कुष्ठ इन्होंको
 नाशता है वंध्यास्त्री पुत्रको प्राप्त होजाती है और नपुंसकभी पुरुषकीतरह आचरण करता
 है और मादा पुरुषभी जवानकी तरह आचरण करता है और मूर्ख पुरुष विद्यावान् होजाता
 है ॥ ११७ ॥ यह नारायणनामवाला तेल कृष्णात्रेयजीने कहा है ॥ ११८ ॥

अन्यानि घृततैलानि तानि चात्र प्रयोजयेत् ॥ एतेन जायते सौख्यं वा
 तरोगं निवच्छति ॥ ११९ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने वा
 तव्याधिचिकित्सा नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

और अन्यभी जो घृत तथा तेल कहे है वे इस जगह प्रयुक्त करने चाहिये इस कर्मकर-
 के सुख होता है और वातरोग दूर होते हैं ॥ ११९ ॥ इति वेरीनियासिबुधशिवसहा-
 यस्तनुवैद्यरविदत्तशास्त्रयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने वातव्याधिचिकित्सानाम-
 विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

अथ आमवातचिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ लक्षणं शृणु पुत्र ! त्वं समासेन वदाम्यहम् ॥ गुर्वन्नाह्य
रपुष्टेन मन्दाग्निना व्यवायिनः ॥ १ ॥ तर्पितैः कन्दशकैस्तु आस्यो
वायुसमीरितः ॥ श्लेष्मस्थाने प्रपच्यैव जायते बहुवेदनः ॥ २ ॥ आमा
तिसारो वर्त्तत सन्धौ शोफः प्रजायते ॥ जरत्वञ्चैव गात्राणां बलासपतनं
सुखे ॥ ३ ॥ पृष्ठमन्यात्रिके जाते वेदनात्तैऽपि सीदति ॥ अङ्गं वैकल्यमा
याति आमवाते त्रिषग्वर ! ॥ ४ ॥ तस्य नो स्नेहनं कार्यं पाचनञ्च वि
धीयते ॥ आमं संक्षयते प्राज्ञश्चतुर्धा भेदलक्षणैः ॥ ५ ॥ विष्टम्भी गुल्मक
न्मेही आमः पक्वाम एव च ॥ सर्वाङ्गो भवेच्चान्यो वक्ष्ये तस्यापि लक्ष
णम् ॥ ६ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे पुत्र ! आमवातेके लक्षणोंको संक्षेपमात्रसे कहते हैं सुन भ्राता
अन्नके भोजनसे मंदअग्निवाले पुरुषके ॥ १ ॥ कसरत नहीं करनेसे, कंद, मूलादिक शाकों-
से वृष होनेसे आमवात होजाता है सो कफके स्थानमें पकके बहुत पीडा सहित होजाता
है ॥ २ ॥ तिस्ते आमातिसार होता है संधियोंमें शोजाहो अंगोंमें ज्वर बना रहे मुखसे क-
फ गिरै ॥ ३ ॥ और पीठ, मन्या कटिआदि त्रिकस्थान इन्होंने अत्यंत पीडा रहे और हे
उत्तमवैद्य ! आमवातरोगमें सब अंग विकल होजाते है ॥ ४ ॥ तिस आमवातेमें स्नेहन
अर्थात् तैलआदिक औषध नहीं करै, पाचन काथ देने चाहिये और चारप्रकारके लक्षणोंसे
आमवात होता है ॥ ५ ॥ विष्टम्भी अर्थात् मलबंध रहे १ पेटमें गुल्महो, २ स्नेही आम, ३
पक्वाम ४पेसे चारप्रकारका होता है और एक सर्वांगवात होता है तिसका लक्षणभी कहेंगे ॥ ६ ॥

अथ विष्टम्भीआमके लक्षण ॥

विष्टम्भी गुरु चाध्मानं वस्तिशूलं च जायते ॥

तस्यापि पाचनं कार्यं स्नेहनं चैव कारयेत् ॥ ७ ॥

मल बंध रहे पेट भारा रहै अफाराहो वस्तिमें शूलहो तिसकाभी पाचन औषध करना
चाहिये और स्नेहनऔषध नहीं करै ॥ ७ ॥

अथ गुल्मीआमका लक्षण ॥

जठरं गर्जते यस्य गुल्मवत्परिपीड्यते ॥ कटिदेशे जडत्वञ्च आमगुल्मा

भिशङ्कितः ॥ ८ ॥ तस्यादौ लङ्घनानि स्युर्ज्ञात्वा देहबलाबलम् ॥ पाचनं
नेध कर्त्तव्यं गुल्मपाके विमूर्च्छति ॥ ९ ॥ पाचिते चापि गुल्मामे तदाशु
मरणं ध्रुवम् ॥ १० ॥

जिसका पेट गर्जता रहे गोलासरीखी पीढाहो कटिमें जडताहो वह गुल्मवाला आम
कहाता है ॥ ८ ॥ तिसकी देहके बलाबलको विचार लंघन कराने चाहिये और पाचन
औपध नहीं करावे गुल्मपाक होनेमें मूर्च्छा होजाती है ॥ ९ ॥ गुल्म आममें पाचन औपध
करनेसे शीघ्रही मृत्यु होजाती है ॥ १० ॥

अथ स्नेहीआमके लक्षण ॥

यस्य च स्निग्धता गात्रे जाड्यं मन्दाग्रिको बली ॥ स्नेहामो विजलः,
यस्य स्नेही वामः प्रकीर्त्तितः ॥ ११ ॥ तस्य नो स्नेहनं काथ्यं चोपवा
सश्च कारयेत् ॥ पाचनं चैव कर्त्तव्यमामं चैवातिसारयेत् ॥ १२ ॥

जिसके शरीरपै चिकनाईहो, जडताहो, मंदअग्रिको, और जलसे रहित चिकनी २ आम
गिरै वह स्नेही आम होता है ॥ ११ ॥ तिसकी स्नेहन औपध नहीं करे उपवास प्रतिकर्म
करै और पाचन औपध करै आमको निकालै ॥ १२ ॥

अथ आमके लक्षण ॥

यस्य शौफाननं जाड्यं तथा चैव घनोदरम् ॥ अरुच्यामातिसारश्च स
चासाध्योविज्ञानता ॥ १३ ॥ प्रत्याख्येया क्रिया काथ्या जीवितस्या
पि संशये ॥ पाचनं पाचितं ज्ञात्वा तस्माच्चूर्णानि दापयेत् ॥ १४ ॥

जिसके मुखपै शोणाहो, जडताहो, पेट करडाहो, अरुचिहो, आमातिसारहो, वह असा-
ध्य कहा है ॥ १३ ॥ तिसकी सब क्रिया त्यागदेनी चाहिये तिसके जीवनेमें संदेहहै तहां
पाचन औपधको पकानेवाली जानके चूर्ण देना चाहिये ॥ १४ ॥

अथ पक्काम और सर्वांगआमके लक्षण ॥

सपीतो विजलः श्यामः पक्कामः पतते त्वधः ॥ न वस्तिशूलो भवति आ
मवाते श्रमः क्लमः ॥ १५ ॥ आमपाकीति विज्ञेयो न कुठ्यात्तस्य पा
चनम् ॥ विरेचनं न कर्त्तव्यं स्तम्भनं तस्य कारयेत् ॥ १६ ॥ कंठिप्रुष्टे
षक्षोदेशे तोदनं वस्तिशूलवान् ॥ गुल्मतो जठरं गर्जेत्तथातः शौफ एव
च ॥ १७ ॥ शिरोगुरुत्वं भवति आमश्च पतते भृशम् ॥ सर्वाङ्गो भवेत्सोऽ

पि विज्ञेयोऽसौ विजानता ॥ १८ ॥ तस्य च पाचनं कुर्ष्याद्विरेचनमन-
न्तरम् ॥ विष्टम्भी गुल्मपाकी च अन्यः सर्वाङ्गो मतः ॥ १९ ॥ विज्ञे-
याश्चात्र ये साध्याश्चान्यौ द्वौ कष्टसाध्यकौ ॥ स्नेही आमश्च कथितः क-
च्छसाध्यं द्वयं मतम् ॥ २० ॥ पक्वामः सुखसाध्यस्तु ज्ञात्वा कर्म समा-
चरेत् ॥ २१ ॥

पीला रंगवाला जलसे रहित काला रंगवाला ऐसा पकाहुआ आंव गिरै और वस्तिस्था-
नमें शूल नहीं होवे और जो आमवात होवे तो श्रमग्लानि होती है ॥ १५ ॥ और जो
आमपाकी वात होवे तो तिसका पाचन नहीं करै जुलावभी नहीं देवै तहां स्तंभन औपधोको
करै ॥ १६ ॥ और कटि, पीठ, छाती इन्होंमें चभका हो वस्तिमें शूल हो गुल्मसरीखा पेट
गर्जे शोजाहो ॥ १७ ॥ शिर भारा हो बहुतसा आम गिरै वह सर्वांगवात जानना ॥ १८ ॥
तहां पहले पाचन औपध देवै पीछे जुलाव देवै और विष्टंभी, गुल्मपाकी, सर्वांग ॥ १९ ॥
ये रोग साध्य है और स्नेहीआम, आम, ये दोकष्टसाध्य कहे है ॥ २० ॥ तहां पकेहुए
आमको सुखसाध्य जानके तिसका कर्म करै ॥ २१ ॥

अथ पाचनविधि ॥

रास्ना त्रिकण्टमेरण्डं शतपुष्पा पुनर्नवा ॥ पानं पाचनके शस्तं वामे
वाते क्षिपग्वर ! ॥ २२ ॥ रास्ना श्योनाककाश्मीरं चिक्कणीकं च पुष्क-
रम् ॥ काथं शृतं सुखोष्णं च पाचनं पाययेन्नरः ॥ एतत्पाचनकं वि-
द्धि प्रोक्तं चामे सवातिके ॥ २३ ॥

हे उत्तम वैद्य! आमवातमें रास्ना, छोटीकटेहली, बड़ीकटेहली, अरंड, सौंफ, सांठो, इन्होंका
काथ बना पीनेमें पाचनकेवास्ते श्रेष्ठ है ॥ २२ ॥ और रास्ना, सोनापाठा, खंभारी, चिकनीसुपारी,
पौहकरमूल, इन्होंका काथ सुखसे सुहाताहुआ गरम २ पीना पाचनमें हित है यह काथ आम-
वातमें पाचनके वास्ते श्रेष्ठ है ॥ २३ ॥

आमवाते कणायुक्तं दशमूलीजलं पिवेत् ॥ गुडूची नागरं पथ्या चूर्णं
मेतद्गुडान्वितम् ॥ २४ ॥ धान्यनागरराजाम्लदेवदारुवचाभयाः ॥ पाच-
नं चामवाते च श्रेष्ठमेतत्सुखावहम् ॥ २५ ॥ तथा कोलकचूर्णं वा
पिवेदुष्णेन वारिणा ॥ आमवातश्च मन्दाग्निं शूलं गुल्मश्च नाशयेत्

॥२६॥ वलाक्काथाढकं क्षिप्वा दधितक्काढकं क्षिपेत्॥कुलत्थाढकयूर्णं
 तु सौवीरस्याढकं तथा ॥ २७ ॥ एकत्र कृत्वा विपचेद्योजयेदौषधञ्च
 तत् ॥ शतपुष्पा देवदारु पिप्पली गजपिप्पली ॥ २८ ॥ त्रिसुगन्धि मु
 रामांसी कुष्ठं द्विपञ्चमूलकम् ॥ चूर्णं विनिक्षिपेत्तत्र सिद्धं तद्वतारयेत्
 ॥ २९ ॥ पाने चाभ्यन्तरे योज्य निरूहे वस्तिकर्मणि ॥ हन्ति वातामयं
 सर्वं श्रेष्ठं गुणगणप्रदम् ॥ ३० ॥ पिबेदेरण्डजं तैलं गुडक्षीरेण संयुतम् ॥
 सर्वाङ्गे चामवाते हि श्रेष्ठमेतद्विरेचनम् ॥ ३१ ॥ नागरस्य भागमेकं द्वौ
 भागौ क्रिमिजस्य तु ॥ त्रिष्टग्नागत्रयं क्षिप्वा चूर्णं गुडसमं वटम् ॥ ३२ ॥
 भक्षेत्तथोष्णतोयेन पुनश्चोष्णं पयः पिवेत् ॥ एतेन जायते वामे वि
 रेकः सुखकारकः ॥ ३३ ॥ विडङ्गशुण्ठी रास्ना च पथ्या त्रिकटुकान्वि
 ता ॥ क्वाथभटावशेषं च कारयेद्भिपजांवरः ॥ ३४ ॥ दुग्धं क्वाथार्द्धं
 कं तैलं तथैवेरण्डजं क्षिपेत् ॥ कर्पमात्रं सुपातव्यो विरेकश्चानुपानतः
 ॥ ३५ ॥ गुडूची त्रिफला पथ्या गुडेन सह भक्षयेत् ॥ विरेको ह्यामवातेषु
 श्रेष्ठमेतत्सुखावहम् ॥ ३६ ॥

और आमवातमें पीपल, दशमूल, इन्होंका क्वाथ बना पीना हित है और गिलोय, संठ,
 इन्होंका चूर्णमें गुड मिला खाना ॥ २४ ॥ तथा धनियां, संठ, अमलतास, देवदार, हरई,
 इन्होंका चूर्ण आमवातमें पाचन है और सुखको करनेवाला है ॥ २५ ॥ और पीपलोंका
 चूर्णको गरम जलके संग पीनेसे आमवात, मंदाग्नि, शूल, गुल्म, इन्होंका नाश होता है ॥ २६ ॥
 और २५६ तोले खरैहटीका क्वाथ, दही, तक्र, इन्होंको २५६ तोले, लेवे कुलथीका यूप
 २५६ तोले कांजी २५६ तोले, ॥ २७ ॥ इन्होंको एकजगह मिलाके पकावे और इन
 आगे कही औषधोंको गैरे सौंफ, देवदार, पीपल, गजपीपल, ॥ २८ ॥ त्रिसुगंधि अर्थात्
 ढालचीनी, तेजपात, इलायची, मुरामांसी, कूठ, दशमूल, इन्होंका चूर्ण गैरे पीछे सिद्ध होजावे
 तब उत्तारलेवे ॥ २९ ॥ यह पीनेमें और निरूहवस्तिमें उदरके भीतर युक्त करना चाहिये
 यह संपूर्ण वातरोगोंको नाशता है श्रेष्ठ है गुणको देनेवाला है ॥ ३० ॥ और अरंडीका तैलको
 गुड तथा दूधके संग पीवे सर्वांगवातमें और आमवातमें यह जुलाव श्रेष्ठ है ॥ ३१ ॥ और संठ
 एक भाग, अगर दोभाग, निशोत तीन भाग, इनसबोंके समान गुड मिला गोली बांधलेवे ॥ ३२ ॥
 पीछे गरम जलके संग भक्षण करै और ऊपरसे गरम दूध पीवे इस्से आमवातमें सुखको
 करनेवाला जुलाव होता है ॥ ३३ ॥ और वायविडंग, संठ, रास्ना, हरई, इन्होंको जलमें चढा

अष्टमांश वाकी रहे तबतक काथ बनावे ॥३४॥ पीछे काथसे आधा दूध और अरंडीका तेल मिलावे पीछे यह एक तोला प्रमाण पीना चाहिये इससे जुलावका अनुपातकरै ॥ ३५ ॥ और गिलोय, त्रिफला, हरडै, इन्होंको गुडके संग भक्षणकरै यह जुलाव आमवातमें हित है सुखको करनेवाली है ॥ ३६ ॥

अथ आमवातरोगको शमन करनेवाली औषध ॥

अभया मस्तुना पिष्टा मधुशर्करयान्विता ॥ आमातिसारं स्तम्भोत्तु गुडा
मलकमेव च ॥ ३७ ॥ वत्सकं जीरके द्वे च दध्ना पिष्टं तु दापयेत् ॥
आमातिसारशमनं वस्तिशूलं नियच्छति ॥ ३८ ॥ गुग्गुलं च रसोनं च
हिङ्गु नागरसंयुतम् ॥ काथं वामविनाशाय शमनं मारुतस्य च ॥ ३९ ॥
अजमोदोषगन्धा च कुष्ठं त्रिकटुकं शठी ॥ फलत्रिकं च भार्ङ्गी च
पुष्करं लवणाष्टकम् ॥ ४० ॥ जीरके द्वे विडङ्गानि तुम्बुरू द्वे च दारु
च ॥ तथा बिल्वा शिलाभेदो रोध्रं वत्सकवासकम् ॥ ४१ ॥ धा
तकीकुसुमं चैव शाल्मलीत्वक् च दाडिमम् ॥ एतानि समभागानि सूक्ष्म
चूर्णानि कारयेत् ॥ ४२ ॥ घृतेन संयुतं वातं नाशयत्याशु निश्चितम् ॥
सहिङ्गु चारनालेन पीतं शूलान्तिनाशनम् ॥ ४३ ॥ तथा चोष्णजलेनापि
वामवातं नियच्छति ॥ गृध्रसीकटिशूले च दशमूलजलेन तु ॥ ४४ ॥
विवन्धैरण्डनैलेन शोफे वापि सुदारुणे ॥ गुल्मगोमूत्रसंयुक्तं गुडेन पाण्डु
रोगजित् ॥ ४५ ॥ प्रमेहे मधुसंयुक्तं यक्ष्मणि शर्करायुतम् ॥ हन्ति सर्वा
मयान् घोरान् यथायोगेन योजितम् ॥ ४६ ॥

हरडैको दहीके पानीमें पीसि शहद और खांड मिला पीनेसे अथवा गुड आंवला इन्होंके पीनेसे आमातिसार बंध होता है ॥ ३७ ॥ कूडाकी छाल, दोनों जीरे इन्होंको दहीमें पीस देनेसे आमातिसार, वस्तिशूल ये शांत होते हैं ॥ ३८ ॥ और गुग्गुल, लस्सन, हींग, सूंड इन्होंका काथ बना पीनेसे आमवातका नाश होता है ॥ ३९ ॥ और अजमोद, वच, कूठ, सूंड, मिरच, पीपल, कचूर, त्रिफला, भारंगी, पौहकरमूल, लवणाष्टक, ८ नमक ॥ ४० ॥ दोनों जीरे, वायविडंग, धनियां दो भाग, देवदार, बेलगिरी, पापाणभेद, लोध, कुडाकी छाल, वांसा ॥ ४१ ॥ धायके फूल, सालवनकी छाल, अनारदाना इन्होंको समान भागसे वारीक चूर्ण बना लेवे ॥ ४२ ॥ पीछे घृतमें मिला खानेसे आमवातका नाश होता है और हींग,

कांजी इन्होके संग पीनेसे वस्तिशूलकी पीडाका नाश होता है ॥ ४३ ॥ और गरम जलके संग पीनेसे आमवातका नाश होता है और गृध्रसीवात, कटिशूल, इनरोगोंमें दशमूलके काथके संग पीये ॥ ४४ ॥ और मलका बंधा, दारुण शोभा, इन्होंमें अरंडीका तेलके संग पीवै पांडुरोगमें गुडके संग और पेटका गोलामें गोमूत्रके संग पीवै ॥ ४५ ॥ प्रमेहमें शहदके संग, राजयक्ष्मारोगमें खांडके संग पीये यह चूर्ण इसप्रकार यथायोगके संग देनेसे संपूर्ण घोर वातरोगोंको नाशता है ॥ ४६ ॥

अथ आमवातमें वर्ज्य ॥

वर्जयेद्विदलं गौल्यं तैलं पिच्छलमेव च ॥ शीतोदकेन न स्नानमाभ
वाते निपग्वर ॥ ४७ ॥ पाचिते चामदोषे च आमवातं न सेवयेत् ॥
न सेवनीयं चोष्णं च द्रवं द्रावं विशेषतः ॥ ४८ ॥ ज्वरे प्रोक्तानि पथ्यानि
तानि चात्र प्रयोजयेत् ॥ ४९ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीय
स्थाने आमवातचिकित्सा नामैकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

और इसपै द्विदल धान्य, गुल्ली बंधनेवाला अन्न, तेल, झांगोवाला पदार्थ, इन्होंको वर्ज्य देवै. और हे उत्तमवैद्य ! आमवातमें शीतल जलसे स्नान नहीं करावे ॥ ४७ ॥ और आमदोष पकजाये तब आमवातनाशक औषधोंको नहीं सेवै और विशेष करके गरम वस्तु पतला और दस्त लगानेवाला भोजन, इन्होंको नहीं सेवै ॥ ४८ ॥ और ज्वरमें कहीहुई जो पथ्य वस्तु हे उन्होंको यहां प्रयुक्त करै ॥ ४९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्त्रुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने आमवातचिकित्सानाम एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

अथ गृध्रसीवातकी निदान और लक्षण ॥

आत्रेय उवाच ॥ रक्तवातसमुद्भूतान्दोषाञ्जृणु महामते ! ॥ कट्यूरुजानु
मध्ये तु जायते बहुवेदना ॥ १ ॥ गृध्रसीति विजानीयात्तेन नोक्तञ्च ल
क्षणम् ॥ २ ॥ जानुमध्ये भवेच्छोफो जायते तीव्रवेदना ॥ वातरक्तस
मुद्भूता विज्ञेया कोष्ठशीर्षिका ॥ ३ ॥ कण्डरा बाहुपृष्ठे च अङ्गुल्यग्य
न्तरेषु च ॥ करकमक्षयकरी सा विज्ञेया विपश्चिता ॥ ४ ॥ पादहर्षो

भवेच्चात्र पादयोर्लोमहर्षणम् ॥ कफवातप्रकोपान्ते प्रस्वेदः करपादयोः
॥ ५ ॥ पित्तवातान्वितं चान्ते उष्णत्वं करपादयोः ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे महामते ! रक्तवातसे उपजेहुए दोपोंको सुन, कटि,जांघ, गोडे, इन्होंमें बहुवसी पीडा होती है ॥ १ ॥ उसको गृध्रसीवात कहते है इसके अन्य लक्षण पहले नहीं कहे है ॥ २ ॥ गोडाके मध्यमें पीडाहो शोजाहो तीव्र वेदना हो वह वातरक्तसे उपजी हुई कोष्ठशीर्षिका कहाती है ॥ ३ ॥ और भुजा, पीठ, अंगुली इन्होंमें खाजिहो वह कर क्रमक्षयकरी अर्थात् हाथके क्रमसे क्षय करनेवाली गृध्रसी कहाती है ॥ ४ ॥ और पैरोंमें जो रोमहर्ष होता है वह पादहर्ष कहाता है और कफवातके प्रकोपके मध्यमें हाथ पैरोंमें पसीना हो जावे ॥ ५ ॥ और पित्तवातके मध्यमें हात पैर गरम हो जाता है.

अथ गृध्रसीवातकी चिकित्सा ॥

अमीषां रुधिरस्त्रावं ततः स्वेदं च कारयेत् ॥ ६ ॥ अभ्यङ्गे वातहृत्तैलं
पानं रास्नायाः पञ्चकम् ॥ शतावरी वले द्वे च पिप्पली पुष्कराह्वयम्
॥ ७ ॥ चूर्णमेरुण्डतैलेन गृध्रसीमपकर्षति ॥ अजमोदादिकं चूर्णमामवा
ते प्रकीर्त्तितम् ॥ ८ ॥ तदत्र योजनीयं च गृध्रसीनां निवारणम् ॥ एतैर्न
जायते सौख्यं दहेल्लोहशलाकया ॥ ९ ॥ पादरोगेषु सर्वेषु गुल्फे द्वे
चतुरङ्गुले ॥ तिर्ध्वग्दाहं प्रकुर्वीत दृष्ट्वा पादे शिरां दहेत् ॥ १० ॥ वातरो
गेषु प्रोक्तानि पथ्यानि चात्र योजयेत् ॥ ११ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारी
तोत्तरे तृतीयस्थाने गृध्रसीचिकित्सा नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

और इनसर्वोंमें जो यदि रुधिरस्त्राव होवेतो पसीना दिवाना चाहिये ॥ ६ ॥ और वातको हरनेवाला तेलको मालिसमें वरतै और रास्ना पंचक आदि औषधोंका काथ पीना चाहिये और शतावरी, खरैहटी, बडीखरैहटी, पीपल, पौहकरमूल ॥ ७ ॥ इन्होंका चूर्णको अरंडके तेलमें मिला पीनेसे गृध्रसी वातका नाश होता है और अजमोद आदिक चूर्ण जो आमवात रोगमें कहा है ॥ ८ ॥ वह यहां गृध्रसी वातके निवारण करनेमें देना चाहिये और इन इलाजोंसे जो यदि सुख नहीं होवे तो लोहकी शलाका करके दग्ध करै ॥ ९ ॥ और संपूर्ण पादरोगोंमें दोनों टंकनोंपे दाह करै अथवा पैरपे नाडीको देख तिरछा दाह करना चाहिये ॥ १० ॥ और वातरोगमें कहेहुए पथ्योंको यहां करे ॥ ११ ॥ इति वैरीनिवासिविबुधंशिवसहाय सन्नुवैद्यरविदक्षशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां गृध्रसीचिकित्सानामद्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

अथ वातरक्तका निदान और लक्षण ॥

आत्रेय उवाच ॥ कटुक्षाराम्ललवणै रक्तं देहे प्रकुप्यति ॥ रोधासंधा
रणाद्वापि दिवास्वप्नादिसेवनेः ॥ १ ॥ समीरकोप. प्रत्यङ्गे युगपद्दृश्यते
नृणाम् ॥ वातरक्तमिति प्रोक्तं नृणां देहे प्रवर्त्तते ॥ २ ॥ जायते सुकुमा
राणां तथा स्त्रीणां जिषग्वर ! ॥ स्थूलानाश्च विशेषेण कुप्यते वातशोणि
तम् ॥ ३ ॥ आलस्यं च तथा कण्डूर्मण्डलानाश्च दर्शनम् ॥ वैवर्ण्यं स्फु-
रणं शोकशोषो दाहश्च मार्दवम् ॥ ४ ॥ वातरक्तं विजानीयाच्छ्यावतां
दन्तरक्तयोः ॥ एतद्विलक्षणं दृष्ट्वा कर्त्तव्या च प्रतिक्रिया ॥ ५ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—कडुआ, खारा, खटा, नमक, इनभोजनोंके खानेसे शरीरमें रक्त
कुपित होता है और मल आदिकोंके वेगका धारण करनेसे दिनमें सोनेसे ॥ १ ॥ वायुके
कोपसे मनुष्योंके अंगमें एकवार वातरक्त कुपितहोके दीखता है ॥ २ ॥ यह रोग सुंदर बा-
लकोंके तथा स्त्रियोंके होता है और स्थूल शरीरवाला पुरुषके विशेष करिके वातरक्त कुपित
होता है ॥ ३ ॥ आलस्यहो खाजिहो शरीरमें मंडलसे दीखे शरीरका विवर्ण होजा और
फुरे, शोकाहो, शोषहो दाहहो, कोमलपनाहो, ॥ ४ ॥ दांत, रक्त ये कालेहों तब जानिये
कि वातरक्त है ऐसा विलक्षण रोग जानके इसका इलाज करै ॥ ५ ॥

अथ वातरक्तकी चिकित्सा ।।

विरेकं रक्तमोक्षं च पानलेपनलेहकान् ॥ धान्यनागरसंयुक्तं क्षीरं चा
स्य प्रदापयेत् ॥ ६ ॥ पटोलीनिम्बपत्राणि कथित्वा मधुसंयुतम् ॥ पाचनं वा
तरक्तानां तथा च शमनानि च ॥ ७ ॥ काञ्जिकेन च संपिष्य पिचुम
न्ददलानि च ॥ लेपनं शस्यते तस्य वातरक्तप्रशान्तये ॥ ८ ॥ दूर्वा मू
र्वा शठी शुण्ठी धान्यकं मधुयष्टिका ॥ वर्त्तनं शीततोयेन वातरक्तप्रले
पनम् ॥ ९ ॥ धन्यकर्षश्च जीरे द्वे गुडेन परिपाचितम् ॥ भक्षणे वातर
क्तानां दापयेद्वोपशान्तये ॥ १० ॥ एतैर्यदि न सौख्यं स्यात्तदा रक्ताव
सेचनम् ॥ ज्वरे प्रोक्तानि पश्यानि तानि चात्र प्रदापयेत् ॥ ११ ॥ इत्यात्रेय
भाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने रक्तवातचिकित्सानाम् अर्द्धतर्के ऽध्याय

और जुलाब दिवानी, फस्तखुलानी, पान, लेप, अवलेह ये क्रिया करनी चाहिये, और धनियां, स्रंठ, इन्होंसे युक्त दूधका पान करना चाहिये, ॥ ६ ॥ और परवल, नींबूके पत्ते इन्होंका काथ बना शहद मिला पीनेसे रक्तवातका पाचन होता है और शमन होता है. ॥ ७ ॥ और नींबूके पत्तोंको कांजीमें पीसि लेप करनेसे वातरक्तकी शांति होती है ॥ ८ ॥ और दूब, मूर्वा, स्रंठ, कचूर, धनियां, मुलहठी, इन्होंको शीतल जलमें पीस लेप करनेसे वात रक्तकी शांति होती है ॥ ९ ॥ और १ तोला धनियां १ तोला दोनों जीरे इन्होंको गुडमें पका भक्षण करनेसे वातरक्त दोषकी शांति होती है. ॥ १० ॥ और इन्होंसे जो शांति नहीं होवे तो रक्त निकसावे और ज्वरमें कहेहुए जो पथ्य है उन्होंको यहां करवावे ॥ ११ ॥ इतिवेरीनिवासि ० हारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने रक्तवातचिकित्सानाम त्रयोविंशोऽध्यायः २३

चतुर्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

अथ अम्लपित्तका निदान ॥

आत्रेय उवाच ॥ गुडनिषेवणाच्चाम्ले विरुद्धाहारसूचिते ॥ कुपितं चाम्लपित्तं च कण्ठस्तेन विदह्यते ॥ १ ॥ दाहो वा हृदये तस्य शिरोऽतिश्रैव जायते ॥ उद्गारानम्लकान् कण्ठे हिक्काम्लोऽपि प्रधावति ॥ २ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—गुडका सेवन करनेसे और खटा पदार्थ खानेसे विरुद्ध भोजन करनेसे अम्लपित्त कुपित होजाता है तिससे कंठ दग्ध होता है ॥ १ ॥ अथवा तिसके हृदामें दाह होता है और शिरमें पीडा होती है और कंठमें खटी २ अडकार आवती है खटी हिचकी आवे ॥ २ ॥

अथ अम्लपित्तकी चिकित्सा ॥

शृणु तस्य प्रतीकारं वमनं कारयेद्भुतम् ॥ अधोगते चाम्लपित्ते विरेकश्च प्रदीयते ॥ ३ ॥ पारिभद्रदलानीति आमलक्याः फलानि च ॥ काथपानं प्रयोक्तव्यमम्लपित्तं व्यपोहति ॥ ४ ॥ पटोलपाटलाकाथो धान्यनागरकान्वितः ॥ जलेन हितकः प्रोक्तश्चाम्लपित्तनिवारणे ॥ ५ ॥ पटोलविश्वामृतवह्नितिक्तापत्राणि निम्बस्य च वत्सकानाम् ॥ काथो विसर्पकृतम्

पाचन और शोधन औषध देनी, जुलाब दिवानी, फस्त खुलानी, काथपान, ये विधि शोफ रोगमें कही है ॥ ११ ॥ शोजाकी आदिमें तेलआदि औषध और रूपी औषध नहीं करनी चाहिये किंतु आगे कही हुई औषधोंको पाचनकेवास्ते देवै ॥ १२ ॥

अथ पुनर्नवादिक्वाथ ॥

पुनर्नवा मगधजा च कटुत्रयं च निम्बाभया च कटुका च पटोलदावीं ॥
क्वाथः सुखोष्णक्वथितस्तु विपाचनेन शोफो जहाति जठरं च नरस्य शी
घ्नम् ॥ १३ ॥

सांठी, पीपल, कटुत्रय अर्थात् सूठ, मिरच, पीपल, नींबू, हरद्वै, कुटकी, परवल, दारु, हल्दी, इन्होंका क्वाथ बना गरम २ पीना पाचन कहा है और मनुष्यके उदरमें प्राप्त हुआ शोजाको शीघ्रही नाश देता है ॥ १३ ॥

अथ अन्यउपाय ॥

पुनर्नवा गुडूची च गुग्गुलुं समकलिकतम् ॥

शोफदोषांश्च गुल्मञ्च हन्त्युदरं कफानयम् ॥ १४ ॥

और सांठी, गिलोय, गुग्गुलु, इन्होंको समान भागले कल्क बना खानेसे शोजा, गुल्मरोग, उदररोग, कफरोग, इन्होंका नाश होता है ॥ १४ ॥

गजमहिष्या ट्षभस्य मूत्रं तथैव लाजं सकणं प्रयोज्यम् ॥ पानेन शो
फो विजहाति शीघ्रमेरण्डतैलेन युतं पयो वा ॥ १५ ॥ संस्वेदनक्रिया तत्र
काथ्या चैव पुनः पुनः ॥ एरण्डपत्रकैर्वापि अथवा तित्तिडीच्छदैः ॥ १६ ॥
लोमशा कटुतुम्बी च काञ्जिकेन जलेन वा ॥ निष्काथ्य चापि संस्वेदस्त
थैवोष्णेन तेन च ॥ १७ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने शो
फचिकित्सा नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

और हस्ती, भैंस, बैल, इन्होंके मूत्रमें धानकी खील और पीपल मिला क्वाथ बनाके पीनेसे शीघ्रही शोजाका नाश होता है और अरंडीका तेलमें दूध मिला पीनेसेभी शीघ्रही नाशता है ॥ १५ ॥ और अरंडके पत्तोंसे अथवा अमलीके पत्तोंसे वारंवार स्वेदनक्रिया अर्थात् पसीना दिवावै ॥ १६ ॥ और वालछड, कडुई तुंधी, इन्होंको कांजीमें अथवा जलमें औटाय गरम २ तिस जलसे पसीना दिवावै अथवा इन्होंकोही गरम करके पसीना दिवावै ॥ १७ ॥ इति वेरी निंवासि ० हारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने शोफचिकित्सानाम पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

अथ गुल्मनिदान और लक्षण ॥

आत्रेय उवाच ॥ श्वयथूत्थैरुपचारैस्तैश्च संकुप्यतेऽनिलः ॥ मन्दाग्निना विषमेण गुल्मं जठरे जायते ॥ १ ॥ उदरं गर्जते यस्य विषमाग्निश्च दृश्यते ॥ तोदो वपुषि शूलं च वातगुल्मं विनिर्दिशेत् ॥ २ ॥ शोषोऽरतिः सपीतत्वं मन्द्रज्वरनिपीडिनम् ॥ तमोभ्रमपिपासार्त्तिर्गुल्मं तत्पित्तसम्भवम् ॥ ३ ॥ शोषो जाड्यश्च हृष्टासस्तन्द्रालस्यं सशीतकम् ॥ मन्दाग्निर्विड्बिबन्धश्च गुल्मं तच्छ्लेष्मसम्भवम् ॥ ४ ॥ मोहो विभ्रमता जाड्यमरतिः क्षुत्पिपासकम् ॥ आलस्यं निद्रतावेश्यं गुल्मं तत्कफपैत्तिकम् ॥ ५ ॥ निद्रालस्यश्च दाहश्च शोफाच्छूलं च सज्वरम् ॥ वैषण्यमरतिर्जाड्यं विड्बन्धो विकलङ्गता ॥ ६ ॥ तथातिसारो मूर्च्छा च तृड्हृष्टासश्च वेपथुः ॥ श्वासोऽरुचिरजीर्णत्वं गुल्मं तत्सान्निपातिकम् ॥ ७ ॥ साध्यं केवलदोषोत्थं द्वन्द्वं कष्टेन सिध्यति ॥ असाध्यं सन्निपातोत्थं वक्ष्यामस्तत्प्रतिक्रियाम् ॥ ८ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—शोभासे उत्पन्नहुए उपचारोंकरके वायु कुपित होजाता है तिस्से अथवा मंद अग्निसे और विषम अग्निसे उदरमें गुल्म अर्थात् गोला उत्पन्न होजाता है ॥ १ ॥ जिसका उदर गर्जे और विषम अग्नि दीखे शरीरमें चभकाहो और शूलहो वह वातसे उपजा गुल्म जानना ॥ २ ॥ और शोषहो, पीडाहो, ग्लानिहो, पीला शरीरहो, मंद ज्वरकी पीडाहो, तम अर्थात् अंधेरी, भ्रम, पिपासा ये हों वह पित्तसे उपजा गुल्म जानना ॥ ३ ॥ शोषहो, जडताहो, थुकथुकीहो, तन्द्राहो, आलस्यहो, ठंढकर रहे, मंदाग्निरहे, विषा वंधरहै वह कफसे उपजा गुल्म जानना ॥ ४ ॥ और मोह, विभ्रम, जडता, ग्लानि, क्षुधा, पिपासा, आलस्य, निद्राआना, ये हैं वह कफपित्तसे उपजा गुल्म जानना ॥ ५ ॥ और निद्राहो, आलस्यहो, दाहहो, शूलसहित शोभाहो, ज्वरहो, बुरावर्णहो, ग्लानिहो, जडता, मलबंध, विकलपना ॥ ६ ॥ अतिसार, मूर्च्छा तृषा, थुकथुकी, कांपना, श्वास, अरुचि, अजीर्ण, ये हों वह सन्निपातका गुल्म जानना ॥ ७ ॥ एक दोषका गुल्म साध्य है और दो दोषोंसे उपजागुल्म कष्टसाध्य है सन्निपातसे उपजा गुल्म असाध्यहोता है अब इन्हींकी चिकित्सा कहेंगे ॥ ८ ॥

अथ गुल्मचिकित्सा ॥

यकृद्ग्रहणीचिकित्सैव कथितं चोपचारणम् ॥ तद्वत्स्त्रीहा समाख्यातो न

चात्र कथितः पुनः ॥ ९ ॥ चिकित्सोदरगुल्मस्य वक्ष्यते शृणु साम्प्रत
म् ॥ स्नेहनं रूक्षणञ्चैव पाचनं शोधनानि च ॥ १० ॥ संशमनं विरेक
श्च वस्तिस्नेहनिरूक्षणम् ॥ क्षारपानञ्च चूर्णानि गुल्मोपचरणक्रिया ॥ ११ ॥

पहले यकृत ग्रहणीकी चिकित्सा जो कही है वही तिळीकी चिकित्सा जान लेनी अब
फिर नहीं कहेंगे ॥ ९ ॥ अब गुल्मोदरकी चिकित्साको कहते हैं सो सुन, स्नेहन, रूक्षण,
पाचन, शोधन, ॥ १० ॥ संशमन, जुलाव, स्नेहनवस्ति, रूक्षणवस्ति, क्षारपान, चूर्ण ये सब
क्रिया गुल्मरोगकी शांतिकेवास्ते करे ॥ ११ ॥

अथ शुंठ्यादि काथ ॥

शुण्ठी दारु सुरसा च मूर्वा पञ्चमूलं लघुः ॥

काथोऽस्याष्टावशेषः स्यात्तत्समं क्षीरमेव च ॥ १२ ॥

सूठ, देवदार, तुलसी, मूर्वा, लघुपंचमूल, इन्होंका काथ अष्टमांश वाकां जल रहे ऐसा
लेवे और इसकी बराबर दूध मिलावे ॥ १२ ॥

अथ स्नेह विधि ॥

दधि तत्सममाज्यं तु पाचयेत्तत्समाग्निना ॥ घृतं यावत्प्रदृश्येत सि
द्धमुच्चार्यते ततः ॥ १३ ॥ तत्कृतं पानकेऽभ्यङ्गे भाजने च प्रदापये
त् ॥ स्नेहः सप्तविधो यावत्तस्मान्च रूक्षणं हितम् ॥ १४ ॥

और तिस दूधके समान दही मिला और तिसीके समान घृत मिलावे फिर मंद २ अग्निसे
पकावे जब घृतमात्र चाकी रहजावे तब सिद्धहुआ जानके उतार लेवे ॥ १३ ॥ पीछे इसको
पाचमें घाल धरे इसको पीनेमें और मालिसमें बरते स्नेह सात प्रकारका होता है इसवास्ते
रूक्षण कर्म करना हित है ॥ १४ ॥

अथ शुंठ्यादि पानक ॥

दिनत्रयञ्च कर्त्तव्यं कथयाम्यत्र कोविद! शुण्ठी सौवर्चलं जीरे द्वे
वाह्निङ्कु समन्वितम् ॥ १५ ॥ काञ्जिकं पानमेतेषां रूक्षणं गुल्मशान्त
ये ॥ गुल्मचिकित्सिते क्षारपाकोऽन्नं प्रतियुज्यते ॥ १६ ॥

तीन दिनतक रूक्षण कर्म करे सो कहते है सूठ, कालानमक, दोनों जीरे, हींग, इन्होंको
॥ १५ ॥ कांजीम मिला पान करना यह गुल्मकी शांतिके वास्ते रूक्षण कर्म कहा है और
यहां गुल्मकी चिकित्सामें क्षारपाकयुक्त करनाभी श्रेष्ठ है ॥ १६ ॥

अथ विरूक्षण ॥

क्षारं पलाशार्जुनसूरणस्य तथैव क्षारं सहयावशूकम् ॥ सौवर्चलं सि
न्धुभवोद्भिदञ्च सामुद्रजं वापि विमिश्रयेच्च ॥ १७ ॥ तोयं परिस्राव्य
विधानतोऽपि युक्तं तथैतानि सद्दौषधानि ॥ पथ्याग्निशुण्ठीरजनीसुराहं
कुष्ठं विशाला च जवानिका च ॥ १८ ॥ तथाजमोदा सह जीरके द्वे ष
ड्ग्रन्थिका हिङ्गुयुतं च चूर्णम् ॥ क्षारोदकापानविमिश्रपानं निहन्ति सर्वा
ण्यपि कोष्ठजानि ॥ १९ ॥ गुल्मानि सर्वाणि विसूचिकानां मन्दाग्निशू
लानि भगन्दराणाम् ॥ श्लीहोदरानाहं च विड्विवन्धं विनाशयेद्द्रोगत्रयं
नराणाम् ॥ २० ॥

केशू, अर्जुनवृक्ष, जमीकंद, इन्होंका खार, जवाखार, काष्ठानमक, सेंधानमक, रेही, इन्हों-
का खार, खारीनमकका खार इन्होंको एकत्र मिलाया ॥ १७ ॥ जलमें उतार पीछे विधिसे इन व्यौ
पधोंको गेरै, हरडै, चीता, संठ, हलदी, देवदार, कूट, इंद्रायण, अजमान, ॥ १८ ॥ अजमोद
दोनो जीरे, वच, हींग, इन्होंके चूर्णको तिनक्षारोंके संग पीवे यह कोष्ठमें उपजे हुए सब
विकारोंको नाशता है ॥ १९ ॥ और सब प्रकारके गुल्मविसूचिका मंदाग्नि, शूल, भगंदर,
श्लीहोदर, अफारा, विड्वबंध, इन सब रोगोंको नाशता है ॥ २० ॥

अथ वातगुल्म पाचन

पथ्या समङ्गा कलसी दृषञ्च महौषधं वातिविषा सुराह्वम् ॥ जले च
निष्काथ्य त्विदं हि पानं गुल्मामयानां प्रतिपाचनञ्च ॥ २१ ॥ वचायवा
नीत्रिकटुदशमूलीजलं स्मृतम् ॥ काथश्चोष्णो हितः पाने धान्यनागरया
थवा ॥ २२ ॥ वातगुल्मेषु सर्वेषु ज्वरेषु विषमेषु च ॥ रास्त्रायं पञ्चकं
वापि वातगुल्मप्रपाचनम् ॥ २३ ॥ शठी सौवर्चलं शुण्ठी पाचनं वाथ
गुल्मिणे ॥ २४ ॥

हरडै, मंजीठ, पिठवन, वांसा, संठ, अतीश, देवदार, इन्होंको जलमें काथ बना तिसका
पीना गुल्मरोगमें पाचन है, ॥ २१ ॥ वच, अजमान, विकटु, संठ, मिरच पीपल, दशमूल-
इन्होंका जलमें काथ बना सुखसे सुहावाहुआ गरम २ पीना हित है अथवा धनियां,
संठ इन्होंका काथ हित है ॥ २२ ॥ संपूर्णवात गुल्म और विषमज्वर इन्होंमें ५ काथ हित

है अथवा रास्नाद्य पंचक, रास्ना आदि पांच औषधोंका काथ वात गुल्ममें पाचन है ॥२३॥
अथवा कचूर, कालानमक, सूंठ, इन्होंका काथ देना पाचन है ॥ २४ ॥

अथ पित्तगुल्म तथा कफके गुल्मका पाचन

विडुला द्राक्षा कटुका निम्बपत्राणि चैव तु ॥ सगुडं पाचनं देयं पैत्ति
कगुल्मरोगिणि ॥ २५ ॥ धात्रीकल्कं सितोपेतं पाचनं पित्तगुल्मते ॥
यवानी चोन्नगन्धा च तथा च कटुकत्रयम् ॥ पाचनं श्लैष्मिके गुल्मे
पीतं चोष्णं निशासु च ॥ २६ ॥

सावला, दाख, कुटकी, नींबूके पत्ते, इन औषधोंका काथमें गुड मिला पित्तके गुल्ममें पाचन
देना चाहिये ॥२५॥ और आंवलोंका कल्कमें मिसरी मिला खाना पित्तके गुल्ममें पाचन है
और अजमान, वच, सूंठ, मिरच, पीपल, इन्होंका काथ रात्रिमें पीयाहुआ पाचन है ॥ २६॥

अथ वातके गुल्ममें जुलाव ॥

नागरा क्रिमिजित्पथ्या त्रिवृतात्रिगुणायुता ॥ चूर्णं गुडान्वितं देयं वातगु
ल्मविरेचनम् ॥ २७ ॥ दन्ती च भागमेकं च द्वौ भागौ च हरीतकी ॥
त्रिवृताभागत्रयं स्याच्छुण्ठ्याश्वत्वार एव च ॥२८॥ प्रक्षिप्य सर्वमेकत्र
सर्वतुल्यगुडेन तु ॥ वटकं भक्षयेत्प्रातस्तस्योपरि जलं पिबेत् ॥ २९ ॥
कथितं च विरेकाय वातगुल्मोपशान्तये ॥ ३० ॥

सूंठ, वायविडंग, हरद्वै, तीन भाग निशोत, इन्होंके चूर्णमें गुड मिला वातगुल्ममें जुला-
वके वास्ते देना चाहिये ॥ २७ ॥ जमालगोटाकी जड़ एकभाग, हरद्वै दोभाग, निशोत तीन
भाग, सूंठ चारभाग ॥२८॥ इसप्रकार इन्होंको ले चूर्ण बना तिसके समान गुड मिला तिस
गोलीको प्रातःकाल भक्षण करै तिसमें औटायाहुआ जल पीवे ॥२९॥ इसप्रकार जुलाव देंसे
वातका गुल्म शांत होता है ॥ ३० ॥

अथ पित्तके गुल्ममें जुलाव ॥

पिबेदेरण्डतैलं च शर्कराक्षीरसंयुतम् ॥ पित्तगुल्मविरेकाय श्रेष्ठमेतत्सुखा
वहम् ॥ ३१ ॥ आरग्वधप्रवालानि तथैवारग्वधानि च ॥ विभाव्यैरण्ड
तैलेन एरण्डपत्रैस्तु वेष्टयेत् ॥ ३२ ॥ कर्दमेन प्रलिप्याथ अङ्गरेषु च
स्थापयेत् ॥ सुखिन्नभर्जिकां ताञ्च भक्षयेच्छर्करान्विताम् ॥ ३३ ॥ वि
रेकः पैत्तिके गुल्मे हितं शुद्धविरेचनम् ॥ ३४ ॥

अरंडीके तेलमें खांड और दूधं मिलाके पीवे यह जुलाव पित्तके गुल्ममें श्रेष्ठ और सुख-
को देनेवाली कही है ॥ ३१ ॥ और अमलतासके पत्ते तथा अमलतास इन्होंको अरंडीके
तेलमें भावना दे फिर अरंडके पत्तोंमें लपेटि ॥ ३२ ॥ गारासे लीप अंगारोंमें रख देवे जब अच्छि
तरह पकजावे तब खांड मिलाके भक्षण करै ॥ ३३ ॥ पित्तसे उपजे गुल्ममें यह जुलाव हित
और शुद्ध कही है ॥ ३४ ॥

अथ कफगुल्मपर विरेचन ॥

त्रिफलासुरसाशुण्ठीचूर्णं कृत्वा विभावयेत् ॥ स्नुहीक्षीरेण वारैकं गुडेन
सह मिश्रितम् ॥ ३५ ॥ विरेकः श्लेष्मके गुल्मे सर्वोदरविनाशनः ॥ ३६ ॥
शुण्ठी सौवर्चलं पथ्या विडङ्गश्च पुनर्नवा ॥ चूर्णोऽपामार्गवीजानां स्नुही
क्षीरेण भावितम् ॥ ३७ ॥ गुडेन संयुतं खादेत्पश्चाद्दुष्णं जलं पिबेत् ॥
विरेकः सर्वगुल्मेषुप्रशस्तो हितकारकः ॥ ३८ ॥

त्रिफला, तुलसी, स्रंठ, इन्होंका चूर्ण बना, एकवार थोहरके दूधमें भावना दे गुडेमें मिला
भक्षण करै ॥ ३५ ॥ यह जुलाव कफके गुल्ममें हित कही है और सवप्रकारके उदर रोगोंका
नाश करती है ॥ ३६ ॥ और स्रंठ, कालानमक, हरहै, वायविडंग, सांठी, अंग्राके बीज
इन्होंका चूर्ण बना थोहरके दूधमें भावना दे ॥ ३७ ॥ गुडेमें मिला भक्षण करै पीछे गरम पानी
पीवे यह जुलाव सवप्रकारके गुल्मोंमें सुख करनेवाली है ॥ ३८ ॥

अथ क्षारपान ॥

शुक्तिक्षारनिशाविशालकदली स्यात्सूरणं कोकिला पालाशं दहनार्जुनं
शठिजयापामार्गकुम्भाण्डकम् ॥ दग्ध्वा क्षारविपाचितं परिस्तुतं हिङ्गु त्रिक
टुकान्वितं गुल्मानाहविवन्धशूलहरणं सर्वोदराणां हितम् ॥ ३९ ॥

सीप, जवाखार, हलदी, इंद्रायण, केला, जमीकंद, कोलिस्ता, केश, चीता, अर्जुनवृक्ष,
कचूर, अरणी, अंगा, कोहला, इन्होंको जला फिर पानीमें धोलेके खार जमाके तिसखारमें
हींग, स्रंठ, मिरच, पीपल ये मिला खानेसे गुल्म, अफारा, मलका बंधा, शूल, इन्होंका नाश
होता है और सवप्रकारके उदररोगोंमें हित है ॥ ३९ ॥

अथ अजमोदादि औषध ॥

अजमोदा शठी दन्ती विडङ्गं कुष्ठतुम्बुरू ॥ त्रिफला चित्रकं चैव शुण्ठी
कर्कटशृङ्गिका ॥ ४० ॥ त्रिवृता च सुराह्वा च पुष्करं द्रुदाकम् ॥ त

थाम्लवेतसं चैव तित्तिडीकञ्च चिञ्चिनी ॥ ४१ ॥ समं तु मातुलुङ्गेन वि
भाव्यमेकतः कृतम् ॥ त्रिभागहिङ्गुसंयुक्तं घृतेन चूर्णितं हितम् ॥ निहं
न्ति वातगुल्मञ्च शूलमुदरं तथा ॥ ४२ ॥

अजमोद, कचूर, जमालगोटाकी जड़, वायविडंग, कूठ, धनियाँ, त्रिफला, स्रंठ, काकडा-
सींगी ॥ ४० ॥ निशोत, देवदार, पोहकरमूल, त्रिदारा, अम्लवेत, अमली इन्होंको ॥ ४१ ॥
समानभागले एकवार विजौराके रसमें भावनादे तीनभाग हींग मिला फिर घृतके संग इसचूर्ण-
को खावे यह वातके गुल्मको तथा शूलसहित उदररोगको नाशता है ॥ ४२ ॥

अथ हिंवादिचूर्णितं ॥

हिङ्गुफलत्रिकजीरकयुग्मं चित्रकभाङ्गीं कुष्ठविडङ्गम् ॥ तुम्बुरुपुष्करं
विश्वसुराहं क्षारयुतं लवणानि च पञ्च ॥ ४३ ॥ वातिकगुल्मविनाशनहे
तोः शूलरुजश्च निहन्ति नराणाम् ॥ ४४ ॥ हिङ्गुसौवर्चलाजाजी विश्वा
कुष्ठं विडङ्गकम् ॥ आरनालेन पीतं च हन्ति गुल्मं सवातिकम् ॥ ४५ ॥

और हींग, त्रिफला, दोनों जीरे, चीता भारंगी, कूठ, वायविडंग, धनियाँ, पोहकरमूल, स्रंठ,
देवदार, इन्होंका चूर्णमें जवाखार और पांचौनमक मिला खानेसे वातके ॥ ४३ ॥ गुल्मका नाश
होता है और मनुष्योंकी शूलकी पीडाका नाश होता है ॥ ४४ ॥ और हींग, कालानमक,
जीरा, स्रंठ, कूठ, वायविडंगइन्होंको, कांजीके संग पीनेसे वातके गुल्मका नाश होता है ॥ ४५ ॥

अथ पित्तगुल्मोदरचिकित्सा ॥

जीरे द्वे त्रिकटु शठी तुम्बुरु चित्रकं मधु ॥ लेहः पित्तात्मके गुल्मे हिं
तः शोफनिवारणः ॥ ४६ ॥ यष्टिकं निम्बपत्राणि तथा धात्रीफलं सिता ॥
चूर्णं मध्वावलीढं च पित्तगुल्मनिवारणम् ॥ ४७ ॥

दोनोंजीरे, त्रिकटु, अर्थात् स्रंठ, मिरच, पीपल, कचूर, धनियाँ, चीता शहद, इन्होंका लेह
ना खानेसे पित्तका गुल्मका नाशहोता और शोफा दूर होता है ॥ ४६ ॥ गुलहटी, नींबके प
त्रे, आंवले, मिसरी, इन्होंके चूर्णको शहदमें मिला चाटनेसे पित्तके गुल्मका नाश होता है ४७

त्रिकटुत्रिफलाचित्रवटकफलसंयुतम् ॥ चूर्णं मद्येन वा पीतं फलकाये
न वाहितम् ॥ ४८ ॥ श्लेष्मगुल्मविनाशाय हितं चैतःसुरवावहम् ॥ ४९ ॥

और स्रंठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, चीता, बडके फल, बडवंटे, इन्होंके चूर्णको मदिराके

संग अथवा त्रिफलाके काथके संग पीवे ॥४८॥ तो कफके गुल्मका नाशहोता है और यह हित है सुखको देनेवाला है ॥ ४९ ॥

अथ कफके गुल्मकी चिकित्सा ॥

रोधं च कमलं विश्वा कुष्ठं चित्रकमेव च॥नागरहिङ्गुसंयुक्तं चूर्णं मूत्रेण संयुतम् ॥ ५० ॥ श्लेष्मगुल्मविनाशाय शूलोदरविनाशनम् ॥ उग्रगन्धा च मरिचं क्षारचूर्णसमन्वितम् ॥ ५१ ॥ पिवेन्मूत्रेण संयुक्तं श्लेष्मगुल्म विनाशनम् ॥ ५२ ॥

लोध, कमल, स्रंठ, कूठ, चीता, नागरमोथा, हींग, इन्होंके चूर्णको गोमूत्रके संग खावे ॥५०॥ तो कफकी शूल उदररोग कफका गुल्म इन्होंका नाशहोता है और वच, मिरच, इन्होंके समान जवाखार इन्होंके चूर्णको ॥५१॥ गोमूत्रके संग पीनेसे कफके गुल्मका नाश होता है ॥ ५२ ॥

अथ वातकी गुल्मकी चिकित्सा ॥

शुण्ठी सौवर्चलं भाङ्गी वत्सकं यावशूककम् ॥ जीरे द्वे चाटस्त्रुषं च यवा नी हिङ्गु सैन्धवम् ॥ ५३ ॥ आरग्वधेन संयुक्तं चूर्णं सघृतमेव च ॥ वा तश्लेष्मोद्भवे गुल्मे सुखमाशु प्रपद्यते ॥ ५४ ॥ उग्रगन्धा फलत्रिकं देवदारु पुनर्नवा ॥ त्रिटत्सौवर्चलोपेतं क्षारोदकसमन्वितम् ॥ पीतं वातकफे गुल्मे सुखकारि परं मतम् ॥ ५५ ॥

स्रंठ, कालानमक, भारंगी, कुडाकी छाल, जवाखार, दीनोंजीरे, वांसा, अजमान, हींग, सेंधानमक, ॥ ५३ ॥ अमलतास, इन्होंके चूर्णमें घृत मिला खानेसे वातकफसे उत्पन्नहुआ गुल्ममें शीघ्रही सुख उत्पन्न होता है ॥ ५४ ॥ और वच, त्रिफला, देवदार, सांठी, निशोत, कालानमक, इन्होंको जवाखारके जलके संग पीनेसे वातकफसे उपजाहुआ गुल्ममें अत्यंत सुख होता है ॥ ५५ ॥

अथ सन्निपातके गुल्मकी चिकित्सा ॥

ग्रहणीगुल्मक्रिया या सा चात्र प्रभवेद्यदि ॥ शोफोदरेषु सर्वेषु कार्थ्यं चात्र विरेचनम् ॥ ५६ ॥ शोफातिसारसंयुक्तो हन्ति गुल्मोदरो नरम् ॥ तस्य क्षारोदकपानं बृहद्धिङ्गादिचूर्णकम् ॥ ५७ ॥ अजमोदादिकं वापि शोफातिसारशान्तये ॥ वमिश्रैवातिसारश्च गुल्मरोगेषु यद्यपि ॥ ५८ ॥

तेनसाध्यं विजानीयात्प्रत्याख्येया क्रिया हिता ॥ गुडदाडिमपथ्यां च
मधुना सहितां पिवेत् ॥ ५९ ॥ वमिञ्च वातिसारं च वारंवारं प्रयोजयेत् ॥
सर्वलक्षणसंयुक्तं गुल्मं तत्सान्निपातिकम् ॥ ६० ॥ तोदोऽरतिर्विवर्णत्वं
मूर्च्छातिसारसंयुतम् ॥ वमिः क्लेशश्च तन्द्रा च तदसाध्यं त्रिदोषजम् ॥ ६१ ॥

संग्रहणी गुल्ममें कहीहुई जो क्रियाहो वहे यहां करनी चाहिये और सवप्रकारके उदर-
रोगोंमें जुलाब दिवानी चाहिये ॥ ५६ ॥ और शोजा अतिसार, इन्होंसे संयुक्त गुल्मोदर,
मनुष्यको मार देता है तिसको बृहत् हिंसादि चूर्णके संग क्षारोदक पान कराना चाहिये
॥ ५७ ॥ अथवा अजमोदआदिक चूर्णको शोजाकी शांतिकेवास्ते देवै, गुल्मोदर रोगोंमें
वमनहो और अतिसारहो ॥ ५८ ॥ जो साध्य जानना तिसकी संपूर्ण क्रिया करनी हित
कही है और गुड, अनारदाना, हरडे, इन्होंको शहदके संग पीवे ॥ ५९ ॥ वमन अतिसार
इन्होंको वारंवार करवावै और जो सब लक्षणोंसे युक्तहो वह सन्निपातसे उपजा गुल्म जानना
॥ ६० ॥ चमकाहो, ग्लानिहो, विवर्णहो, मूर्च्छाहो, अतिसारहो, वमनहो, गीलापनहो, आल-
स्यहो, वह त्रिदोषसे उपजा गुल्मरोग असाध्य जानना ॥ ६१ ॥

अथ शोथचिकित्सा ॥

शृणु पुत्र महाप्राज्ञ एकाग्रमनसाधुना ॥ शोफोद्धारक्रियां नृणां वक्ष्यते च
विजानता ॥ ६२ ॥ त्रिवृत् तथाचेक्षुगुडेन युक्ता अनन्तरं कोणजलेन
पीता ॥ तस्मान्निहन्त्युदरं सशोफं पित्तात्मकं वा विजहाति पुंसाम् ॥ ६३ ॥
हरीतकी च त्रिवृता च शुण्ठी गुडेन युक्ता त्वथ हन्ति शोफम् ॥ द्विपञ्चमू-
लं कथितं सुरवोष्णमेरुण्डतेलेन जहाति शोफम् ॥ ६४ ॥ गोमूत्रयुक्तं व-
रुणस्य तैलं पाने हितं नाशयते च शोफम् ॥ ६५ ॥

हे पुत्र ! अब एकाग्र मन करके सुन मनुष्योंके शोजाको दूर करनेवाली क्रियाको कहते
है ॥ ६२ ॥ निशोतकों ईखके गुडके संग खावे पीछे गरम जल पीवे तिससे शोजा सहित उदर
रोगका नाश होता है और पित्तसे उपजा गुल्मरोगभी शांत होता है ॥ ६३ ॥ और हरडे,
निशोत, सूँठ, इन्होंको गुडमें मिला खानेसे शोजाका नाश होता है और दशमूलके गरम २
काथकों अरंडीके तेलके संग पीनेसे शोजाका नाश होता है ॥ ६४ ॥ और वरणाका तेल गोमूत्रके
संग पीना हित है शोजाको नाशता है ॥ ६५ ॥

अथ शोथरोगमें वर्ज्य ॥

ग्राम्यानूपं विशितलवणञ्च शुष्कशाकं नवान्नं गौडं पिष्टान्नं सदधिकं

शरश्च विजलं मद्यमन्नम् ॥ धान्यं वल्लूरं शोफकरणमथ गुर्वसात्म्यं विदा
 हिस्वप्नं वापि रात्रौ श्वयथुगदवान् वर्जयेन्मैथुनञ्च ॥ ६६ ॥ लेपोऽरुष्करस्य
 शोफं हन्ति तिलदुग्धमधुकनवनीतैः ॥ तत्तरुतलमृद्भिर्वासकदलैर्वापि
 सविरणैः ॥ ६७ ॥ शोषे विषनिमित्ते तु विषोक्ता शमनक्रिया ॥ लङ्घनं
 दीपनं स्निग्धमुष्णवातानुलालनम् ॥ ६८ ॥ वृंहणं तु भवेदन्नं तद्विषं सर्वं
 गुल्मिनाम् ॥ वल्लूरं मूलकं मत्स्याञ्जुष्कशाकादि वैदलम् ॥ ६९ ॥ न
 खादेद्वालुकं गुल्मी मधुराणि समानि च ॥ ७० ॥

और गाममें रहनेवाला श्वानं आदिजीव अनूपदेशके जीव इन्होंका मांस, नमक, सूखा-
 शाक, नवीन अन्न, गुडका भोजन, पीठीका भोजन, दही, खीचडी, जलसे रहित सूखा
 अन्न, मदिराका अन्न, सूखा धान्य, सूखा मांस, शोजा करनेवाला पदार्थ, भारा, प्रकृ-
 तिसे रहित और विदाही पदार्थ, रात्रिमें सोना, मैथुन, इन्होंको शोजावाला पुरुष त्याग
 देवै ॥ ६६ ॥ और भिलावा, तिल, मुलहटी, इन्होंको दूधमें पीस नौनी घृत मिला लेप
 करनेसे शोजाका नाश होता है अथवा भिलावाका वृक्षकी जड़की मांटी, वांसाके पत्ते
 नेत्रवाला इन्होंका लेप करनेसे शोजाका नाश होता है ॥ ६७ ॥ और विपसे उपजे हुए
 शोजे विषोंको शांत करनेवाली चिकित्सा करै लंघन, दीपन, स्निग्ध, अर्थात् तेल आदि
 गरम वातको बढ़ानेवाला ॥ ६८ ॥ वृंहण पदार्थ, ऐसा, अन्न सब गुल्म रोगवालोंको विपके
 समान है और सूखामांस, मूली, मच्छी, सूखाशाक, एलवा ॥ ६९ ॥ और समान मधुरी
 पदार्थ इन्होंको गुल्म रोगवाला पुरुष नहीं खावे ॥ ७० ॥

अथ रक्तगुल्ममें पाचन ॥

सरक्तगुल्मे न तु पाचनं तु न हिङ्गुपानं कटिचालनं च ॥ न चैव संस्वेद
 नमर्दनञ्च नाक्रमेण नात्प्लवनं हितं च ॥ ७१ ॥ रोध्राजुर्नखदिरमागधि
 कासमङ्गकाथोऽम्लवेतसमधुघृतसंप्रयुक्तः ॥ गुल्मं सरक्तमपि चाथ नि
 हन्ति चाशु हृत्केदनं च विनिहन्ति च ऋद्धरक्तम् ॥ ७२ ॥

और रक्तसहित गुल्म रोगमें पाचन औषध नहीं देवै और हिंगुआदि औषध पान, कटि
 मसलना, पसीने दिवाने, मालिस करनी, ऊपरको लफना, कूदना ये हित नहीं है ॥ ७१ ॥
 और लोद, अर्जुन वृक्ष, खैर, पीपली, मंजीठ, अम्लवेत, इन्होंका काथ वना शहद और घृत
 मिला खानेसे रक्तसहित गुल्मका शोषही नाश होता है और हृदाकी पीडा, अत्यंत रक्तरोग
 इन्होंका नाश होता है ॥ ७२ ॥

अथ रक्तगुल्ममें पथ्य ॥

क्षीरपानं प्रदातव्यं घृतसौवर्चलान्वितम् ॥ रक्तगुल्मविनाशाय यत्कृद्विष-
तजेऽपिवा ॥ ७३ ॥ नच हिङ्गुयुतं पथ्यं नचोष्णं न विदाहि च ॥ रक्तजे
क्षतजे गुल्मे मांसानि जाङ्गलानि च ॥ ७४ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे
तृतीयस्थाने गुल्मचिकित्सा नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

और रक्तके गुल्मके नाशकेवास्ते तथा यत्कृत् भंगसे उपजे गुल्मके नाशकेवास्ते घृत का-
लानमक इन्होंसे युक्त दूधको पीना चाहिये ॥ ७३ ॥ तहां हिङ्गुसंयुक्त औषध और गरम
तथा विदाही पदार्थ हित नहीं है और रक्तसे उपजा तथा चोटसे उपजा गुल्ममें जांगल दे-
शके जीवोंका मांस हित नहीं है ॥ ७४ ॥ इति वेरीगिवासिनुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशा-
स्त्रनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने गुल्मचिकित्सानाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

अथ जलोदरका निदान तथा लक्षण ॥

आत्रेय उवाच ॥ विपमासनोपवेशात्पीततोयादथापिवा ॥ श्रमाध्वश्वा
सनिष्क्रान्ते अतिव्याघामितेऽपि वा ॥ पीतं तूदरमेवं च तस्माज्जातं ज
लोदरम् ॥ १ ॥ उदरं सजलं यस्य सघोपमतिवर्द्धितः ॥ श्वयथुः पाद
योः शोफो जलोदरस्य लक्षणम् ॥ २ ॥

विपम आसनपे बैठनेसें, ज्यादै जलपीनेसे श्रम, मार्ग, इन्होंकी पीडा होनेसे अथवा अ-
त्यंत कसरत करनेसे पीला उदर होजाता है इन्होंसे जलोदर संज्ञक रोग होजाता
है ॥ १ ॥ जिसका उदर जलसहित दीखे शब्दहो और अत्यंत बढजाये पैरोंमें शोजाहो यह
जलोदरका लक्षण है ॥ २ ॥

अथ जलोदर रोगकी चिकित्सा ॥

विरेकं वमनं कुर्ध्यात्पाचनानि च कारयेत् ॥ क्षारयोगश्च वटकस्तेन त
दुपशास्यति ॥ ३ ॥ तस्मान्नाभेर्वलीभागे वर्जित्वाङ्गलमात्रकम् ॥ ज
लनाडीं चानुमान्य कुशमात्रेण वेष्टवेत् ॥ ४ ॥ एरण्डजलनालं च त
न्न सञ्चारयेद्बुधः ॥ अन्तर्गतं जलं स्राव्यं ततः संधारयेद्भुतम् ॥ ५ ॥

यदा न धरते तच्च तदा दाहः प्रशस्यते ॥ कणकल्कं परिस्राव्य घृतं
 देयं चतुर्गुणम् ॥ ६ ॥ शुण्ठीविषासमं पाच्य पानमालेपनं हितम् ॥ श
 स्रकर्म भिषक्छ्रेष्ठो विज्ञातेनैव कारयेत् ॥ ७ ॥ दुष्करं शस्त्रकर्मैव न कु
 र्याद्यत्र तत्र तु ॥ अक्रियायां ध्रुवो मृत्युः क्रियायां संशयो भवेत्
 ॥ ८ ॥ तस्मादवश्यं कर्त्तव्यमीश्वरं साक्षिकारिणा ॥ ९ ॥ इत्यात्रेयभा
 षिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने जलोदरचिकित्सानामसप्तविंशोऽध्यायः २७

इसरोगमें जुलाव, वमन, पाचन औषध, इन्हेंको करवावै और क्षारयोग, गोलीआदिक,
 इन्होंसे यह रोग शांत होता है ॥ ३ ॥ इसरोगमें नाभिके वलिभागसे एक अंगुल मात्र जगह
 वर्जके जलकी नाडीका अनुमान जानके कुशासे बांधदेवै ॥ ४ ॥ पीछे बुद्धिमान् जन तहां
 अरंडीके जलकी नालीको प्रयुक्त करै भीतरको प्राप्त हुआ सब जलको झिरादेवै पीछे शीघ्र-
 बंद करदेवै ॥ ५ ॥ और जो इसप्रकार करनेसे तहां आराम नहीं होवे तो दाह करना श्रेष्ठ
 कहा है गीहूंओंकी कणीका चूनको छान तिसमें चौगुना घृत मिला ॥ ६ ॥ स्रंठ अतीश इ-
 न्होंको चूनके समान भाग मिला पकालेवे पीछे इसका पीना और लेप करना हित है और
 उत्तमवैद्यको अच्छी तरह जान विना शस्त्रकर्म नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥ शस्त्रकर्म अत्यंत
 दुष्कर है इसवास्ते जहां तहां सब जगह नहीं करना चाहिये अन्यथा चिकित्सा होनेमें नि-
 श्रय मृत्यु होजाती है यथार्थ चिकित्सा करनेमेंभी संदेह रहता है ॥ ८ ॥ इसवास्ते अवश्य
 ईश्वरको साक्षी करके कर्म करना चाहिये ॥ ९ ॥ इति वेरीनि० हारीतसंहिताभाषायां ज-
 लोदरचिकित्सानामसप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

अष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

अथ प्रमेहचिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ विंशत्येवं प्रमेहास्तु नराणामिह लक्षणम् ॥ १ ॥ श्र
 माद्व्यवायाञ्च तथैव घर्मविरुद्धतीक्ष्णोष्णविभोजनेन ॥ मद्येन वा क्षी
 रकटुप्रसेवनान्मेहप्रसूतिः कथिता मुनीन्द्रैः ॥ २ ॥ जलप्रमेहो रुधिरप्र
 मेहः पूयप्रमेहो लवणप्रमेहः ॥ तक्रप्रमेहः खटिकाप्रमेहः शुक्रप्रमेहः
 कथितःपुरस्तात् ॥ ३ ॥ स्याच्छर्करामेहोवसाप्रमेहो रसप्रमेहोऽन्यघृतप्रमेहः ॥

पित्तप्रमेही कफमेहिनश्च मधुप्रमेहीति विभावयेच्च ॥ ४ ॥ यथा च ना
मानि तथैव लक्षणं बलक्षयं वापि नरस्य देहे ॥ कुर्वन्ति शीघ्रं भिषजां
वरिष्ठः कुट्यात्क्रियाश्च शमनाय हेतुम् ॥ ५ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—मनुष्योंके बीस २० प्रकारके प्रमेह रोग होते हैं ॥ १ ॥ श्रम क-
रनेसे घाम, तीक्ष्ण विरुद्ध भोजन इन्होंने मदिरा, दूध, चर्चरा, इनवस्तुओंके सेवनेसे मुनि-
जनोंको प्रमेह रोगकी उत्पत्ति कही है ॥ २ ॥ जलप्रमेह १ रुधिर प्रमेह २ पूय प्रमेह ३
लवण प्रमेह ४ तक्र प्रमेह ५ खटिका प्रमेह ६ शुक्र प्रमेह ७ ॥ ३ ॥ शर्करा प्रमेह ८ वसा
प्रमेह ९ रस प्रमेह १० घृत प्रमेह ११ पित्त प्रमेह १२ कफ प्रमेह १३ मधु प्रमेह इसप्र-
कारसे हैं ॥ ४ ॥ जैसे इन्होंने नाम है वैसेही लक्षण है ये प्रमेहरोग मनुष्यके देहमें बलका
क्षय करदेते हैं इसवास्ते इसरोगके नाशकेवास्ते शीघ्रही उत्तमवैद्यको चिकित्सा करनी
चाहिये ॥ ५ ॥

अथ प्रमेह चिकित्सा ॥

धवाजुनं चन्दनशालच्छलीकथो हितः स्याच्च जलप्रमेहे ॥ रक्तप्रमेहे
शिशिरं पयश्च द्राक्षान्वितं यष्टिकचन्दनेन ॥ ६ ॥ स्त्रीसेवनं चाल्पतर
श्च पूयमेहे हितः कथो धवार्जुनस्य ॥ दूर्वाकसेरुकदलीनलिन्या लव
णस्य मेहे कपाय उक्तः ॥ ७ ॥ कदम्बशालार्जुनदीप्यकानां विडङ्गदा
वीधवशङ्खकीनाम् ॥ सर्वे तथैते मधुना कषायाः कफप्रमेहेषु निषेवनी
याः ॥ ८ ॥ रोध्रार्जुनः क्षीरमरिष्टपत्रात्तत्रैव धात्रीफलचन्दनानि ॥ तक्र
प्रमेहे खटिकाप्रमेहे देयो हितः काथगुडावटश्च ॥ ९ ॥ दूर्वा च मूर्वा कु
शकाशमूलं दन्ती समङ्गा सह शल्मली च ॥ शुक्रप्रमेहे कथितं जलेन
पानं हितं वा रुधिरप्रमेहे ॥ १० ॥ फलत्रिकारग्वधमूलमूर्वाशोभाञ्जना
रिष्टदलानि मोचा ॥ द्राक्षायुतो वा कथितः कषायः सर्पिःप्रमेहस्य नि
वारणाय ॥ ११ ॥ कुण्डं तथा पर्पटकं च तिक्ता सिता शृगाढं कथितः
कषायः ॥ मूर्वारिकापाटलिकानियुक्तो दुरालभाकिंशुकटुण्डुकानाम् ॥
रसप्रमेहे च सदा हितः स्यात् ॥ १२ ॥ नीलोत्पलार्जुन कलिङ्गधवाम्लि
कानां धात्रीफलानि पिचुमन्ददलानि तोये ॥ निष्काश्य शर्करयुते मनु
जस्य पाने पित्तप्रमेहशमनाय वदन्ति धीराः ॥ १३ ॥ विडङ्गसर्जार्जुन

कफलानां कदम्बरोध्राशनवृक्षकाणाम् ॥ जलेन काथश्च हितो नराणां
 कफप्रमेहं विनिहन्ति तेषाम् ॥ १४ ॥ मुस्ता फलत्रिकनिशा सुरदारु मूर्वा
 इन्द्रा च रोध्रसलिलेन कृतः कषायः ॥ पाने हितः सकलमेहभवे गदे
 च मूत्रग्रहेषु सकलेषु वियोजनीयः ॥ १५ ॥ यच्चाभयालोहरजोनिकु
 म्भचूर्णं हितं शर्करया समेतम् ॥ फलत्रिकाया मधुना च लेहं सर्वप्रमेहे
 षु हितं वदन्ति ॥ १६ ॥ मधुमेहे प्रयोक्तव्यं घृतपानं सुधीमता ॥ क्षीरं
 वा शर्करायुक्तं काथो वा गुटिकानि च ॥ १७ ॥ न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थ
 प्लक्षारग्वधटुण्डुकम् ॥ पियालं ककुभं जम्बूकाकपिच्छाम्रातकानि च
 ॥ १८ ॥ मधुकं यष्टीमधुकं रोध्रं वै पारिभद्रकम् ॥ पटोलं चारिणी चै
 व दन्ती मेपविपाणिका ॥ १९ ॥ चित्रकं च करञ्जश्च शक्राहं त्रिफला
 युतम् ॥ भल्लातकानाञ्च समं त्रिगन्धं कटुकत्रयम् ॥ २० ॥ सूक्ष्मचूर्णं
 प्रदातव्यं न्यग्रोधाद्यं गुणाधिकम् ॥ मधुना संयुतं, लेहो हन्याच्च मधु
 मेहकम् ॥ २१ ॥ काथो वा तैलपाको वा घृतपाकोऽथवापि च ॥ पा
 नाभ्यङ्गे प्रशस्तः स्याद्भन्ति वै मूत्रजं गदम् ॥ २२ ॥ न्यग्रोधाद्यमिदं चू
 र्णं पेयं वा क्षीरसंयुतम् ॥ मधुमेहं नान्योऽस्ति यथालाभेन योजितः ॥
 ॥ २३ ॥ माक्षीकं धातुमाक्षीकं शिलोद्भेदं शिलाजतु ॥ चन्दनं रक्तधातु
 च तथा कर्पूरकं कणाः ॥ २४ ॥ वंशरोचनकं चैव क्षीरेण सहितं पि
 वेत् ॥ मधुप्रमेहं हरति मूत्ररोगाद्विमुच्यते ॥ २५ ॥

धव, अर्जुन वृक्ष, चंदन, शालवृक्ष इन्होंकी छाल इन्होंका काथ वना पीना जलप्रमेहमें
 हित है और रक्त प्रमेहमें दाख, मुलहटी, चंदन, इन्होंसे युक्त ठंडा दूध पीना हित है ॥ ६ ॥
 और मैथुन स्वल्प करना, धव, अर्जुनवृक्ष इन्होंका काथ पीना पूयप्रमेहमें हित है और दूव,
 कसेरु, केला, कमलिनी, इन्होंका काथ लवण प्रमेहमें हित है ॥ ७ ॥ कदंब, अर्जुनवृक्ष,
 शाल, अजमोद, वायविडंग, दारुहलदी, धव, शलकीवृक्ष, इन्होंका काथ शहदके संग पीना
 कफ प्रमेहमें हित है ॥ ८ ॥ लोद, अर्जुनवृक्ष, दूध, नींबके पत्ते, आंवला, चंदन, इन्होंका
 काथ अथवा गुडमें मिटाके गोली देना तक्रप्रमेह, खटिका प्रमेह, इन्होंमें हित है ॥ ११ ॥ और
 दूव, मूर्वा, कुशा, कांस, इन्होंकी जड़, जमालगोटाकी जड़, मंजीठ, शालवन, इन्होंका काथ
 वनाके पीना शुक्रप्रमेहमें और रुधिर प्रमेहमें हित है ॥ १० ॥ त्रिफला, अमलतासकी जड़,

मूर्वा, संहैजना, नींबूके पत्ते, मोचरस, दास, इन्होंका काथ पीनेसे घृत प्रमेहका निवारण होता है ॥ ११ ॥ और कूठ, पित्तपापडा, कूटकी, मिसरी, इन्होंका अच्छीतरह काथ बना पीना अथवा मूर्वा, खैर, पाडलवृक्ष, जवांसा, केशू, टेंदुवृक्ष, इन्होंका काथ पीना रसप्रमेहमें सदा हित है ॥ १२ ॥ नीला कमल, अर्जुनवृक्ष, इंद्रजव, धव, अमली, आंवला, नींबूकेपत्ते, इन्होंका काथ बना तिसमें खांडमिळा मनुष्यको प्यानेसे पित्तप्रमेह शांत होता है ऐसे वैद्यजन कहते है ॥ १३ ॥ वायविडंग, रालवृक्ष, अर्जुनवृक्ष, त्रिफला, कदंब, लोद, आसनां इन्होंका काथ बना पीना पीनेसे कफ प्रमेहका नाश होता है ॥ १४ ॥ और नागरमोथा, त्रिफला, हलदी, देवदार, मूर्वा, इंद्रायण, इन्होंका काथ बना पीनेसे सवप्रकारके प्रमेह रोग और मूत्रग्रह अर्थात् मूत्र बंधहोना ये दूर होते है ॥ १५ ॥ और हरडै, लोहाकी रज, जमालगोटाकी जड इन्होंका चूर्ण बना खांडके संग खानेसे अथवा त्रिफलाके चूर्णको शहदमें मिला लेह बना चाटनेसे सवप्रकारके प्रमेहरोग दूर होते है ॥ १६ ॥ और वैद्यजनको मधुप्रमेहमें घृतका पान कराना चाहिये और खांडसे युक्त दूधके काथका पान करावे तथा गोली देवे ॥ १७ ॥ वड, गूलर, पीपल, पिलखन, अमलतास, टेंदुवृक्ष, चिरौजीका वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, जामन, कैथ, अंबाडा वृक्ष, ॥ १८ ॥ महुआ वृक्ष, मुलहटी, लोद, नींबू, परवल, अरणी, जमालगोटाकी जड, गेंडासींगी ॥ १९ ॥ चीता, करंज वृक्ष, देवदार, त्रिफला, भिल्लये विंगंध, दालचीनी, तेजपात, इलायची, स्रंठ, मिरच, पीपल, ॥ २० ॥ इन सब औषधोंका चूर्ण बना शहदमें मिला लेह बना खानेसे मधुप्रमेहका नाश होता है ॥ २१ ॥ अथवा इनऔषधोंका काथ तथा तैलपाक अथवा घृतपाक बनाके पीनेमें और मालिस करनेमें हित कहा है और सवप्रकारके मूत्ररोगोंको नाशता है ॥ २२ ॥ वडआदि औषधोंका यह चूर्ण दूधके संग पीना हित है मधु प्रमेहमें इसके समान औषध नहीं है इसमें कहीहुई जितनी औषध मिलें उतनीही मिलादेवे ॥ २३ ॥ और शहद, सोनामाखी, पापाणभेद, शिलाजीत, चंदन, गेरू, कपूर, पीपल, ॥ २४ ॥ वंशलोचन, इन्होंके चूर्णको दूधके संग पीवे यह मधु प्रमेहको नाशता है और संपूर्ण मूत्र रोगोंको दूर करता है ॥ २५ ॥

अथ प्रमेह पिटिकाकी चिकित्सा ॥

प्रमेहपिटिकानाञ्च वक्ष्यामोऽथ चिकित्सितम् ॥ धवार्जुनकदम्बानां वदरी-खदिरशिशपे ॥ पारिभद्रकमेतेषां मेहनस्य प्रधावनम् ॥ २६ ॥ अर्जुनस्य कदम्बस्य टिण्टुकी वान्तरत्वचा ॥ पाके पूयविशोधार्थं, मेहनस्य प्रशस्यते ॥ २७ ॥ शृङ्गराजरसं गृह्य तथाच सुरसादलम् ॥ निष्पावकपटोलानां पत्राणि काञ्जिकेन तु ॥ २८ ॥ पिष्ट्वा वातपिटिकानां लेपनं

मेहनस्य च ॥ २९ ॥ यष्टीमधु तथा कुष्ठं चन्दनं रक्तचन्दनम् ॥ उशी
रं कत्तूणं चैव रक्तधातुमृणालकम् ॥ ३० ॥ क्षीरमण्डकसंयुक्तं यथा
लाभं त्रिषग्वर ! ॥ लेपनं पित्तरक्तानां मेहदाहः प्रशाम्यति ॥ ३१ ॥ धा
वनं शीतपयसा नवनीतेन मर्दनम् ॥ कणं कदम्बार्जुनपिण्याकपत्राणि
दाडिमस्य च ॥ ३२ ॥ खदिरस्य दलानां तु तथा चामलकीदलान् ॥
उष्णेन वारिणा पिष्ट्वा सोमपाके च मेहने ॥ ३३ ॥ त्रिफलायाश्च वा
चूर्णं शुष्कपूयनिवारणम् ॥ धावनं काञ्जिकेनाथ तत्रेणाथ तुपाम्बुना ॥
॥ ३४ ॥ अतिशीतेन तोयेन मेहपाके च धावनम् ॥

अब प्रमेहकी पिडिकाओंकी चिकित्साको कहते हैं धव, अर्जुनवृक्ष, कदंब, वेर, खैर, सी-
सम, नींबू, इन्होंकी छालके काथसे प्रमेहरोगकी पीडिकाओंको धोवै ॥ २६ ॥ और अर्जु-
नवृक्ष, कदंब, टेंदुवृक्ष, इन्होंकी भीतरकी वकलके काथसे, पकीहुई पिडिकाओंकी राधको
शोधनेकेवास्ते धोवै ॥ २७ ॥ और भंगराका रस, तुलसीके पत्तोंका रस, मोठ, परवल इन्हों-
के पत्ते इन्होंको कांजीमें और तिस रसमें ॥ २८ ॥ पीस वातसे उपजी हुई प्रमेहकी पिडिकाओं-
के लेप करै ॥ २९ ॥ और मुलहटी, कूठ, चंदन, लाल चंदन, खश, रोहिपट्टण, गेरू, कमलकी
नाली ॥ ३० ॥ इन्होंको जितनी औषध मिले उन्होंहीको दूधमें तथा चावलोंका मांडामें
पीके लेप करनेसे शिक्षका दाह शांत होता है ॥ ३१ ॥ तथा चावलोंके धोवनका ठंडा पा-
नीमें वा नौनी घृतमें पीस और गीहंका कणका, कदंबवृक्ष, तिलोंका वृक्ष इन्होंके पत्ते और
अनार ॥ ३२ ॥ खैर, आंवला, इन्होंके पत्ते इन्होंको गरम जलमें पीस सोमपाक प्रमेह रोगमें
देवै ॥ ३३ ॥ और त्रिफलाका चूर्ण शुष्कपूय प्रमेहका निवारण करता है अथवा कांजी
तक शीतलजल इन्होंसे इंद्रियका धोना हित है ॥ ३४ ॥ और प्रमेह पाकमें अत्यंत ठंडाजलसे
इंद्रियका धोना श्रेष्ठ है

अथ प्रमेहमें पथ्यापथ्य ॥

रक्तशालिश्च षाटीकश्चाढकी वा कुलत्थकः ॥ ३५ ॥ घृतं च मधुरं
किञ्चिद्भोजनार्थं विधीयते ॥ क्षाराम्लकटुकं वापि दिवा स्वप्नं विशे
षतः ॥ ३६ ॥ स्त्रीदर्शनं व्यवयञ्च तथाचात्यशनं तथा ॥ चलनं धावनं
चेति तथा मूत्रविरोधनम् ॥ ३७ ॥ वस्त्रवातं रक्तवस्त्रं वर्जयेद्भिषजां वरः ॥
एकान्ते गृहमध्ये च गान्त्रीवालकं रमः ॥ ३८ ॥ न चाभरणताम्बूलै
कोपशोषं जहाति च ॥ दूरे चैतानि वर्जन्तु यदीच्छेत्सुखसम्पदः ॥ ३९ ॥

और लाल चावल, सांठी चावल, कुलथी ॥ ३५ ॥ घृत, किंचित् मधुर अन्न, इन्होंको भोजनकेवास्ते देवै और खारा, खटा, चर्चरा पदार्थ, दिनमें सोना इन्होंको विशेष करिके वर्ज देवै ॥ ३६ ॥ स्त्रीका दर्शन, मैथुन, ज्यादै भोजनकरना, मार्गमें चठना, भाजना, मूत्रका रोकना, ॥ ३७ ॥ वस्त्रसे वायु करना, रक्तवस्त्र पहिरना इन्होंको वैद्यजन इसरोगमें वर्ज देवै एकांतमें घरके मध्यमें गाना स्त्रीवालक इन्होंके संग प्यार करना ॥ ३८ ॥ आभूषण पहिरना, पान चावना, क्रोध करना इन्होंको इसरोगमें दूरसेही त्यागदेवै तब सुखहोता है ॥ ३९ ॥

पीतप्रमेहपर हरिद्रादिकाथ ॥

हरिद्राद्वितयं शुण्ठी विडङ्गानि हरीतकी ॥ कफप्रमेहे विहितः काथोऽयं मधुना सह ॥ ४० ॥ नीलोत्पलमुशीरञ्च पथ्यामलकमुस्तकम् ॥ पिवेत्पीतप्रमेहार्त्तः काथं मधुविमिश्रितम् ॥ ४१ ॥

और दोनो हलदी, संठ, वायविडंग, हरडै इन्होंका काथ शहदके संग पीना कफ प्रमेहमें श्रेष्ठ कहा है ॥ ४० ॥ नीलाकमल, खश, हरडै, आंवला, नागरमोथा, इन्होंका काथ शहदके संग पीनेसे पीत प्रमेहका नाश होता है ॥ ४१ ॥

अथ पित्तप्रमेहपर कमलादिकाथ ॥

कमलञ्च तथा रोध्रमुशीरमर्जुनान्वितम् ॥

पित्तप्रमेहे विहितः काथोऽयं मधुना सह ॥ ४२ ॥

और कमल, लोध, खश, अर्जुनवृक्ष, इन्होंका काथ शहदके संग पीना पित्त प्रमेहमें हित कहा है ॥ ४२ ॥

अथ आमलक्यादिचूर्ण ॥

आमलकस्य स्वरसं मधुना च विमिश्रितम् ॥

हरीतक्याश्च चूर्णं वा सर्वमेहनियारणम् ॥ ४३ ॥

और आंवलोंका रसमें शहद मिला अथवा हरडैका चूर्णमें शहद मिला खानेसे सब प्रकारके प्रमेहरोगोंका नाश होता है ॥ ४३ ॥

अथ खादिरादि चूर्ण ॥

खदिरं शर्करा दारु हरिद्रा सुस्तमेव च ॥

चूर्णितं तु पिवेत् सर्वप्रमेहगदशान्तये ॥ ४४ ॥

और खैर, खांड, देवदार, हलदी, नागरमोथा, इन्होंके चूर्णको पीनेसे सब प्रमेहरोग शांत होते है ॥ ४४ ॥

अथ कोष्ठादि चूर्णं ॥

कोष्ठं हरिद्राद्वयदेवदारु पाठा गुडूची त्रिफला च मुस्तम् ॥ एषां हि चूर्णं मधुना विमिश्रं मूत्रप्रमेहं हरते व्यथाञ्च ॥ ४५ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने प्रमेहचिकित्सा नाम अष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

और कूठ, दोनों हल्दी, देवदार, पाठा, गिलोय, त्रिफला, नागरमोथा, इन्होंके चूर्णको शहदेके संग पीनेसे सब मूत्र प्रमेहरोग और पीडा इन्होंका नाश होता है ॥ ४५ ॥ इति वेरीनिवासिवुधशिवसहायसन्तुवैद्यरविदंत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने प्रमेहचिकित्सानाम अष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

अथ मूत्रकृच्छ्र चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ एलाशिलाजतुयुतं मागधिकापाषाणभेदसंचूर्णम् ॥ तण्डुलजलेन पीतं प्रमेहरोगं हरत्येव ॥ १ ॥ एरण्डमूलपाषाणभेदगोक्षुरकास्तथा ॥ एलाटरूपपिप्पलंयो यष्टीमधुसमन्विताः ॥ २ ॥ एषां काथं पिवेज्जन्तुः शिलादित्येन योजितम् ॥ अश्मरीशर्करायाञ्चशर्करायाः पलद्वयम् ॥ ३ ॥ सुशीतलं जलं कर्पमात्रं स्यान्मूत्रकृच्छ्रहृत् ॥ दध्यम्बुना च संमिश्रमयश्चूर्णं सुरवप्रदम् ॥ ४ ॥ मूत्रकृच्छ्रेयवक्षारचूर्णं हिङ्गुप्रयोजितम् ॥ कुम्भाण्डं च समादाय शर्करासहितं पिवेत् ॥ ५ ॥ यो हि त्रिदोषसम्भूतमूत्रकृच्छ्रनिवारणः ॥ पिवेच्छतावरीमूलं शीतपानीयचूर्णितम् ॥ ६ ॥ अतः शर्करारोगार्त्ते शर्करां संप्रयोजयेत् ॥ आरग्वधफलं मूलं दुरालभा धान्यकशतावर्यः ॥ ७ ॥ पाषाणभेदपथ्ये काथोऽयं मूत्रकृच्छ्रे स्यात् ॥ ८ ॥ पाषाणभेदस्त्रिवृता च पथ्या दुरालभा गोक्षुरपुष्करं वा ॥ एला सकुरुण्टककर्कटीजं वीजं कपायः सुनिरुद्धमूत्रे ॥ ९ ॥ कुलत्थयुक्तः पटोलीमूलकपायः प्रतिपाकः ॥ पुष्करमूलमिश्रः प्रमेहपाषाणरोगघ्नः स्यात् ॥ १० ॥ यो मातुलुङ्गिकामूलं पिवेत् पथ्युषिताम्बुना ॥ त

स्यान्तः शर्करोद्भूतं दुःखं सद्यो विलीयते ॥ ११ ॥ गवां तक्त्रेण संपिष्टं
क्षिप्रनामकमौषधम् ॥ पिवेच्चिरेण तक्त्रश्च शर्करादोषदृषितः ॥ १२ ॥
इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने मूत्ररुच्छ्रिचिकित्सा नामैकोन
त्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

आग्नेयजी कहते हैं—इलायची, शिलाजीत, पीपल, पापाणभेद, इन्होंके चूर्णको चौलाई-
के जलके संग पीनेसे प्रमेह रोगका नाश होता है ॥ १ ॥ और अरंडकी जड़, पापाणभेद, गोखरू,
इलायची, वांसा, पीपली, मुलहठी, इन्होंका काथ बना तिसमें शिलाजीत मिला पीनेसे मूत्र-
रुच्छ्र दूर होता है ॥ २ ॥ और पथरीरोग, शर्करारोग, इन्होंमें ८ तोलाप्रमाण खांड मिला
पीना चाहिये ॥ ३ ॥ और एक तोलाप्रमाण टंडा जल पीनेसे मूत्ररुच्छ्ररोग दूर होता है ॥ ४ ॥
और मूत्ररुच्छ्ररोगमें जवाखारका चूर्ण, हींग, कोहला, खांड, इन्होंको जलके संग पीवे ॥ ५ ॥
और शीतल जलके संग शतावरीके जड़को पीनेसे त्रिदोषसे उपजा मूत्ररुच्छ्र दूर होता है ॥ ६ ॥
और शर्करारोगमें खांडको पीवे और अमलतास, मूली, जवांसा, धनियां, शतावरी, ॥ ७ ॥
पापाणभेद, हरडे इन्होंका काथ पीनेसे मूत्ररुच्छ्ररोग दूर होता है ॥ ८ ॥ और पापाणभेद,
निशोत, हरडे, जवासा, गोखरू, पौहकर मूल, इलायची, कोरंटा, काकडीका बीज, इन्होंका
काथ मूत्रबंधमें पीना श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ और कुलथी परवल, मूली, पौहकर मूल इन्होंका का-
थ बना पीनेसे प्रमेह, पथरीरोग, इन्होंका नाश होता है ॥ १० ॥ और जो पुरुष विजौराकी
जड़को वासी जलके संग पीता है वह शर्करारोगसे छुटजाता है ॥ ११ ॥ और गौकी तक्त्रके
संग कायफलको पीस पीनेसे शर्करारोग दूर होता है ॥ १२ ॥ इति वेरोनिवासिविश्वस-
हायस्सुनुधैरविदत्तशास्त्रपनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने मूत्ररुच्छ्रचिकित्सानाम एको-
नत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

अथ मूत्ररोध चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ पिवेत्कर्कटिकाबीजं त्रिफलासैन्धवान्वितम् ॥ उष्णा
म्बुचूर्णितं पीतं मूत्ररोधं शमं नयेत् ॥ १ ॥ यस्तिलकाण्डक्षारं दधिमधु
संमिश्रितं पिवेत् ॥ स नरश्च मूत्ररोधं हत्वा सद्यः सुखमामोति ॥ २ ॥
अजाक्षीरेण संमिश्रं जातीमूलं प्रपेषितम् ॥ पिवेत्सदाहमूत्रोष्णवेद

नाशमनं यतः ॥ ३ ॥ तैलेन पद्मिनीकन्दं पक्कगोमूत्रमिश्रितम् ॥ पिवेन्मूत्रनिरोधे तु सतीव्रवेदनान्विते ॥ ४ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—काकडीके बीज, त्रिफला, सेंधानमक, इन्हेंको पीस गरम जलके संग पीनेसे मूत्ररोध दूर होता है ॥ १ ॥ और तिलोंकी नालियोंका क्षार, दही, शहद, इन्होंको मिला पीनेसे मूत्ररोध रोग दूर होता है तात्काल सुख होता है ॥ २ ॥ और जायफलको बकरीके दूधमें पीस पीनेसे दाह, गरम मूत्रकी पीडा, इन्होंकी शांति होती है ॥ ३ ॥ और कमलकंदको तेलमें पीस गोमूत्रमें मिला पीनेसे तीव्र पीडासे युक्त मूत्रकृच्छ्ररोग दूर होता है ॥ ४ ॥

अथ मूत्रकृच्छ्रका कारण ॥

पित्तप्रकोपनैर्द्रव्यैः कटुम्ललवणैस्तथा ॥ गौरास्त्रीसेवनेनापि रक्तं वापि प्रवर्त्तते ॥ ५ ॥ मद्यपानेन चोष्णेन श्रमव्यायामपीडितैः ॥ पित्तं प्रकोपयेच्छीघ्रं करोति मूत्रकृच्छ्रकम् ॥ ६ ॥ तेन मूत्रयते कृच्छ्रं चोष्णधारा प्रवर्त्तते ॥ मूत्रस्रोतश्च हरति रक्तं चापि प्रवर्त्तते ॥ तस्य वक्ष्यामि नैषज्यं येन संपद्यते सुखम् ॥ ७ ॥

और पित्तको कोप करनेवाले द्रव्य चर्चरा, खटा, नमक इन्होंके खानेसे और गौरास्त्रीके सेवनेसे इंद्रियमें रक्त प्रवृत्त होजाता है ॥ ५ ॥ और गरम मदिरा पीनेसे, श्रम, कसरत इन्होंकी पीडा होनेसे शीघ्रही पित्त कुपित होजाता है वह मूत्रकृच्छ्र रोगको करदेता है ॥ ६ ॥ तिससे कष्टसे मूत्र उतरे गरम २ धार आवे और मूत्रका वेग बंद होजावे, तथा रक्त गिरने लगे ॥ ७ ॥

अथ मूत्रकृच्छ्रपर उपाय ॥

यष्टीमधुकमृद्वीकाचन्दनं रक्तचन्दनम् ॥ रक्ततण्डुलतोयेन मूत्रकृच्छ्ररुजापहम् ॥ ८ ॥ वटप्ररोहमालासु द्राक्षाशर्करयान्वितः ॥ लेहोऽयं मूत्रकृच्छ्रस्य नाशनो त्रिषजां वर ॥ ९ ॥ देहोपशमनः प्रोक्तः शीतगाहनक्रोपतः ॥ मूत्रकृच्छ्रे तु तत् प्रोक्तं भोजनं मधुरं हितम् ॥ १० ॥ उक्ता नस्य रतौ भङ्गाद्वाहव्यायामजातके ॥ मूत्ररोधे वचा वय्या दद्यात्तत्रानिरोधकान् ॥ ११ ॥ अव्यायामे शुभ्रं भोज्ये शीतावगाहिता नरे ॥ एतैस्तु कुपितो वायुर्मूत्रद्वारं प्ररुन्धति ॥ १२ ॥ श्लेष्मसहितः पापिष्ठ उक्तः कष्टतमो गदः ॥ शृणु तस्य प्रतीकारं कषायं वानुवासनम् ॥ १३ ॥

वस्तिनिरूहकाथं च मूत्ररोधे हितो विधिः ॥ सर्वसंस्वेदनं चैव स्थानं व
क्रमणाविव ॥ १४ ॥ तुरङ्गशकटारोहधावनं च हितं मतम् ॥ फलत्रि
कं समगुडं काथः क्षीररसेन तु ॥ १५ ॥ पानं मूत्रनिरोधेषु पित्ताद्वा लव
णाम्लिकमापाटला टुण्डुका चैव निम्बगोक्षुरकं तथा ॥ १६ ॥ एलात्वक्
च तथा पत्रं काथस्त्रिफलयान्वितः ॥ गुडेन संयुतं पीतं हन्ति मूत्रनिरो
धकम् ॥ १७ ॥ दाडिमाम्लयुतं चैव हितं मूत्ररुजां नृणाम् ॥ त्रिफलेक्षु
सिताकाथगुडेन सह सैन्धवम् ॥ १८ ॥ मूत्ररोधं वारयति पथ्या वा गुड
संयुता ॥ अथवा तोदनन्वारीमैथुनं च विधेयकम् ॥ १९ ॥ तेन सौ
ख्यं भवेच्छीघ्रं स्त्रीणाञ्च योनिमर्दनम् ॥ २० ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतो
त्तरे तृतीयस्थाने मूत्ररोधचिकित्सा नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

अब तिसकी औपधोंको कहते है जिस्से सुख होवे है, मुलहटी, महुआवृक्ष, मुनकादाख,
चंदन, लाल चंदन, ॥ ८ ॥ इन्होंको लाल चावलोंके धोवनके जलमें पीस पीनेसे मूत्ररुद्धकी
पीडा दूर होती है । और वडके पत्तोंके अंकुर, दाख, त्वांठ, ये मिला लेहवना खानेसे
मूत्ररुद्धरोगका नाश होता है ॥ ९ ॥ और यह लेह देहको शांत करनेवाला है और शीतल
जलमें गोता मारनेसे उपजे हुए मूत्ररुद्धरोगमें मधुर भोजन हित कहां है ॥ १० ॥ और
मोधा सोवनेसे मैथुनका भंग होनेसे दाह और कसरतका परिश्रमसे उचजाहुआ मूत्ररोधमें
वच, शतावरी, इन्होंको देवै ॥ ११ ॥ और कसरत नहीं करना सुंदर तथा ज्यादा भोजन
करना शीतल जलमें गोता मारना, इन्होंसे कुपितहुआ वायु मूत्रद्वारको रोकलेता है ॥ १२ ॥
और अत्यंत कष्टवाला पापवाला यह रोग कफ सहित होता है अब इसरोगका इलाज कह-
ते हैं अनुवासन वस्तिमें काथ वरतना चाहिये ॥ १३ ॥ और मूत्ररोधमें निरूह वस्तिद्वारा
काथ देना चाहिये और सब शरीरमें पसीना दिवाना हित है जैसे टेढी मणिमें स्थान दीखता
है ऐसेही मूत्ररोध जानना ॥ १४ ॥ और घोडा, गाडी, इन्होंकी असवारीपे चढके भाजना
हित कहा है और त्रिफला, गुड इन्होंको समान भागले गुडमें काथ बनादेना हित है ॥ १५ ॥
और पित्तसे उपजे मूत्ररोधमें नमक कांजी इन्होंका पीना हित कहा है और पाडलवृक्ष,
दंडवृक्ष, नीव, गोखरू, ॥ १६ ॥ इलायची, दालचीनी, तेजपात, त्रिफला इन्होंका काथ
बना गुडके संग मिला पीनेसे मूत्ररोध दूर होता है ॥ १७ ॥ और अनारदानाकी कांजी
पीना मूत्ररोगवाले पुरुषोंको हित है और त्रिफला, ईख, मिसरी इन्होंका काथ बना गुड, सें-
धानमक इन्होंके संग पीनेसे ॥ १८ ॥ अथवा हरद्वै गुड इन्होंके खानेसे मूत्ररोधका
निवारण होता है अथवा स्त्रीके संग मूत्र आनेकेसमय विषय करै ॥ १९ ॥ और स्त्रीके

मूत्र बंधहोवे तो उसकी योनि मर्दन करै तो शीघ्रही सुख उत्पन्न होता है ॥ २० ॥
इति वेरीनिवासिनुधशिवसहायस्तुवैधरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्था-
ने मूत्ररोधचिकित्सायां त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

अथ अश्मरी अर्थात् पथरी रोगकी चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ पितृमातृकदोषेण अथवा मूत्ररोधनात् ॥ अपथ्य
सेवनाचारैर्जायते चाश्मरीगंदः ॥ १ ॥ मूत्राविष्टौ च पितरौ सुरतं कुरुतो
यदि ॥ मूत्रेण सहितं युक्तं च्यवते गर्भसम्भवम् ॥ २ ॥ पञ्च यस्य सदे
हस्य स च तत्र प्रजायते ॥ मूत्रं मूत्रस्य संस्थाने करोति बन्धनं त्रिषु
॥ ३ ॥ सोऽप्यसाध्यो मूत्रगदश्चाल्पाद्भवति मानुषे ॥ तारुण्ये चापि सा
ध्यश्च जायते मूत्रशर्करा ॥ ४ ॥ विपरीतेन चोत्ताने स्त्रिया च पुरुषेण
वा ॥ शुक्रश्च प्रबलेक्षस्य स्त्री शुक्रं विचिनोति च ॥ ५ ॥ पुनश्च मेहने वा
सः वातेन शोणितं च तत् ॥ द्वयं दत्तं प्रपद्येत मूत्रद्वारं प्ररुध्यति ॥ ६ ॥
तेन मूत्रप्ररोधश्च जायते तीव्रवेदना ॥ अण्डसन्धिस्थिता याति शर्क
रा शस्त्रसाध्यका ॥ ७ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—मातापिताके दोषसे अथवा मूत्रके रोकनेसे पथ्य वस्तुओंके सेवन नहीं करनेसे पथरीरोग होजाता है ॥ १ ॥ मूत्रके वेगसे युक्त हुए माता पिता जब मैथुन कर-
ते हैं तब गर्भको उत्पन्न करनेवाला वीर्य मूत्र सहित झिरता है ॥ २ ॥ फिर उसगर्भके
शरीरमें वह मूत्र उसीस्थानमें प्राप्त होजाता है वह मूत्र मूत्रके स्थानमें बंधा कर देता है ॥ ३ ॥
वह पथरीरोग असाध्य होता है बालकही अवस्थामें यह पथरी रोग होता है यह तीन प्रकार-
रसे होता है ॥ ४ ॥ और जवान अवस्थामें मूत्रशर्करा रोग होता है वह साध्य होता है स्त्री
और पुरुषके विपरीत तथा मोधेहोके मैथुन करनेसे जो वीर्य झिरता है और स्त्रीका वीर्य
इकट्ठा होता है ॥ ५ ॥ वह वीर्य तो मूत्रके संग वासमें युक्त होता है और स्त्रीका रुधिर वातके
संग युक्त होजाता है फिर इनदोनुओंको गर्भमें संयुक्त होनेसे मूत्रद्वार रुकजाता है ॥ ६ ॥
वह जो बालक उत्पन्न होवे उसके मूत्ररोध रोग होवे तीव्र पीडाहो यह अंड संधिमें शर्करा
संज्ञक रोग होजाता है ॥ ७ ॥

अथ अश्मरी रोगपर चिकित्सा ॥

अतो वक्ष्यामि भैषज्यं शृणु पुत्र ! महामते ! ॥ शुण्ठी गोक्षुरकं चैव वरु
णस्य त्वचस्तथा ॥ ८ ॥ काथो गुडयवक्षारयुक्तश्चाश्मरिनाशनः ॥ कु
शकाशनलं वेणु अग्रिमन्थाक्षत्तकम् ॥ ९ ॥ श्वदंष्ट्रा मोरटा वापि
तथा पापाणभेदकम् ॥ पलाशस्त्रिफलाकाथो गुडेन परिमिश्रितः ॥ १० ॥
पाने मूत्राश्मरीं हन्ति शूलवस्तौ व्यपोहति ॥ ११ ॥

हे पुत्र हे महामते! अब इन्होंकी औषध कहते हैं-सुन. स्रंठ, गोखरू, वरणाकी छाला ॥ ८ ॥
गुड, जवाखार इन्होंका काथ बना पीनेसे पथरीका नाश होता है ॥ ९ ॥ और कुशा, कांस,
नड, बांस, अरणी, बहेडा, वेत, गोखरू, मोरवेल, पापाणभेद, ॥ १० ॥ केशू, त्रिफला, इन्हों-
का काथ बना गुडमें मिला खानेसे पथरीका नाश होता है और वस्तिशूल दूर होती है ॥ ११ ॥

अथ एलादि काथ ॥

एलाकणावृषत्रिकण्टकरेणुकाचपापाणभेदमधुकं च फलत्रिकञ्च ॥ एर
ण्डतैलकशिलाजतुशर्कराद्यं काथोऽश्मरीञ्च हनते तथा सोष्णपानम् ॥ १२ ॥

और इलायची, पीपल, बांसा, दोनों कटेहली, गोखरू, रेणुका, पापाणभेद, त्रिफला,
अरंडीका तेल, शिलाजीत, खांड, इन्होंका काथ बना गरम पीनेसे पथरीरोग दूर होता है ॥ १२ ॥

अथ गोक्षुरकादि चूर्ण ॥

गोक्षुरकस्य बीजानां धातुमाक्षीकसंयुतम् ॥ चूर्णं महिषीदुग्धेन पानं
चाश्मरीपातनम् ॥ १३ ॥

और गोखरूके बीज, सोनामांखी इन्होंके चूर्णको भैंसके दूधके संग पीनेसे पथरी मि-
रती है ॥ १३ ॥

अथ अन्य उपाय ॥

शस्त्रविधिरुत्तरीये सृत्रस्थाने प्रोक्तं घृताध्याये च स्मृतम् ॥ १४ ॥ पुरा
णपट्टिका शालिरक्ततण्डुलकास्तथा ॥ श्यामाकः कोद्रवो दालो मर्क
टी तृणधान्यकम् ॥ १५ ॥ यवगोधूमकुलत्थास्तथाचैवाढकी भिषक् ॥
धातहराः प्रयोक्तव्या भोजने वातरोगिणाम् ॥ १६ ॥ क्रौञ्चाद्यानि च
मांसानि पथ्याग्ध्यश्मरीनाशने ॥ १७ ॥ इत्याग्नेयभाषिते हारीतोत्तरे वृ
तीयस्थाने अश्मरीचिकित्सा नामैकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

और उत्तर सूत्रस्थानमें शस्त्रविधि कहदी है तैलाध्यायमें तेल कहदिया है और घृताध्यायमें घृत कहदिया है ॥ १ ४ ॥ और पुरांनै सांठी चावल शालि संज्ञक चावल, लाल चावल, शामक, कोदूधान्य, दाल, कौंच, वृणधान्य अर्थात् मालकांगनी आदि अन्न, ॥ १ ५ ॥ जव, गेहूं, कुलथी, आढकी धान्य, इनभोजनोंको देवै और वातरोगवाले पुरुषोंको वात नाशक भोजनोंको देवै ॥ १ ६ ॥ और पथरी रोगके नाशकेवास्ते कूंजि आदि पक्षियोंका मांस देना चाहिये ॥ १ ७ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने अश्वरीचिकित्सानामैकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३ १ ॥

द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

—:०:—

अथ वृषण चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ अत ऊर्ध्वमण्डवृद्धिर्दृश्यते जिषजां वर ! ॥ वाल्ये मातुः पितुर्दोषाज्जायते वृषणानुगा ॥ १ ॥ दुष्टदाराविहाराच्च वातो वृत्तिगतो भृशम् ॥ अण्डस्थानं च संप्राप्य तस्य वृद्धिं करोति वै ॥ २ ॥ एकैकसन्निपातश्च चतुर्थः सान्निपातिकः ॥ पित्तदोषात्सन्निपातात्तथाऽसाध्या इमे स्मृताः ॥ ३ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे उत्तमवैद्य ! हारीत ! इससे उपरांत अंडवृद्धि रोग होता है सो बालकके मातापिताके दोषसे वृषणोंका रोग होता है ॥ १ ॥ दूषित स्त्रीके संग मैथुन करनेसे वंस्तिस्थानमें प्राप्तहुआ बहुतसा वायु अंडस्थानमें प्राप्तहोके अंडवृद्धि करदेता है ॥ २ ॥ एकएक दोषसे तीनप्रकारका और चौथा सन्निपातसे होता है और पित्तके दोषसे उपजेहुए और सन्निपातसे उपजेहुए अंडवृद्धिरोग असाध्य कहे हैं ॥ ३ ॥

दोषान् वक्ष्याम्यौषधानि शृणु तानि जिषग्वर ! ॥ स्वेदनान्यभ्यञ्जनानि क्वाथ्य पानं विधीयते ॥ ४ ॥ शिरःस्नावो जिषक्श्रेष्ठ ! तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ कम्पश्च मृदुवातेन पित्तेन दाहकज्वरः ॥ ५ ॥ कफाह्नश्च शोषश्च कठिनोवृषणो भवेत् ॥ रसालशहकीक्वाथः तर्कारी कटुतुम्बिका ॥ ६ ॥ क्वाथसंसेवनार्थां च मुष्कवृद्धिः सवातिके ॥ शीततोयाब्गा हो वा शीतसंसेवनं तथा ॥ ७ ॥

हे उत्तमवैद्य ! अब दोषोंको और औषधोंको कहते हैं सुन पसीना दिवाना मालिस करनी और क्वाथ पान नसोंका स्नाय ये विधि करनी चाहिये ॥ ४ ॥ अब इन्होंके लक्षणोंको कहेंगे वातदोषसे उपजे अंडवृद्धिरोगमें कंपनाहो कोमलहो और पित्तसे दाहहो ज्वरहो ॥ ५ ॥ कफसे करडाहो शोषहो कठिन अंडहो वातसे उपजे अंडवृद्धिरोगमें आंव, शल्लकी वृक्ष, अरणी, कडुई तुंबी, इन्होंका क्वाथ बना सेवन करना चाहिये ॥ ६ ॥ और पित्तसे उपजे अंडवृद्धिरोगमें शीतल जलमें गोता मारना, शीतल वस्तुसे बना और चंदन, कपूर, चीता, इन्होंका लेप करना श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥

वृषणवृद्धिपर चिकित्सा॥

शीतशीताश्लेपश्च पित्तमुष्के प्रशस्यते ॥ वचालवणतोयेन कदम्बार्जु
नसर्पपैः ॥ कपायसेवनैः प्रोक्तं कफमुष्केऽहितापहम् ॥ ८ ॥ अरुणव
रुणकोलं च शालिपर्णी शतावरी ॥ क्वाथः पित्तसन्निपातमुष्कवृद्धौ वि
दां वर ! ॥ ९ ॥ वरुणवृक्षादनी चैव दशमूली शतावरी ॥ क्वाथपानं
वातिके च मुष्कवृद्धौ हितावहम् ॥ १० ॥ एतेन भवते सौख्यं तदा क
र्मावकारयेत् ॥ कर्णकोषस्य मध्ये तु रक्तान्निर्हारयेच्छिराम् ॥ ११ ॥
वामकोष्ठस्य वृद्ध्या तु दक्षिणां हारयेच्छिराम् ॥ उभाभ्यां द्वे शिरे वेध्ये
तेन वा तत्सुरवं भवेत् ॥ १२ ॥ इति चाण्डक्रिया प्रोक्ता सा चैवोन्नी
तरोगिणे ॥ १३ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने वृषणवृ
द्धिचिकित्सा नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

कफसे उपजे अंडवृद्धिमें वच, नमक, कदंबवृक्ष, सिरसम, इन्होंका क्वाथ बना सेवन करना हित है ॥ ८ ॥ और लाल ऊंगा, वायवरणा, कंकोल, शालपर्णी, शतावरी, इन्होंका क्वाथ पित्त और सन्निपातसे उपजे अंडवृद्धिरोगमें हित है ॥ ९ ॥ और अगलवेल, वायवरणा, दशमूल, शतावरी, इन्होंका क्वाथ वातिके अंडवृद्धिरोगमें प्याना हित है ॥ १० ॥ इसकरके सुख होजाता है पीछे अन्यकर्म करै कानके मध्यमें रहनेवाली रक्तको धारण करनेवाली नाडीको विंधावे ॥ ११ ॥ और वायीतर्फ अंडवृद्धि होवे तो दाहिने कानकी नस विंधावे और दोनोतर्फ अंडवृद्धि होवे तो दोनों कानोंकी नसोंको विंधावे ऐसे करनेसे सुख उत्पन्न होता है ॥ १२ ॥ यह दारुण क्रिया कही है जिसके ज्यादै अंडवृद्धिहो रहीहो तिसरोगीके करनी चाहिये ॥ १३ ॥ इति वेरीनिवासिनुधशिवसहायसुनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुनादितहारीवसंहिता-
भाषायां तृतीयस्थाने वृषणवृद्धिचिकित्सानाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

अथ विसर्प रोगकी चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ लवणाम्लक्षारकटुकैरुष्णत्वेदातिदोषतः ॥ रक्तपित्तं
प्रकुप्येत स विसर्पी क्षिप्रम्बर ! ॥ १ ॥ स सप्तधा परिज्ञेयः पृथग्दोषैश्च
द्वन्द्वजैः ॥ केवलो रक्तजस्त्वन्यः सन्निपातेन सप्तमः ॥ २ ॥ तथापरे प्र
वक्ष्यन्ते नामानि च पृथक्पृथक् ॥ आज्ञेयो यन्धिको घोरः कर्दमश्च
तथापरः ॥ ३ ॥ आज्ञेयो वातपित्तेन यन्धिकः पित्तश्लेष्मणा ॥ कर्द
मो वातश्लेष्मोऽथो घोरः स्यात्सान्निपातिकः ॥ ४ ॥ रक्तं लसीका त्व
ग्मांसं दूष्यं दोषास्त्रयो मलाः ॥ विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः सप्तधात
वः ॥ ५ ॥ न्यग्रोधविल्वखदिरकषायो धावने हितः ॥ काञ्जिकाम्लैः
पिच्छिलया सौवीरकरसेन वा ॥ ६ ॥ मातुलुङ्गरसेनापि धावनं वातसर्पिणु ॥
क्षीरेण शीततोयेन धावनं पित्तसर्पिणि ॥ ७ ॥ श्लेष्मविसर्पिणे वाथ ध
वार्जुनकदम्बकम् ॥ धावनं सर्पिणे शस्तं सुरासौवीरकेण वा ॥ ८ ॥
धावनञ्च हितं तस्य सन्निपाते विसर्पिणे ॥ यवाग्निमन्थैश्च सठीन्यग्रोधै
श्च ससर्षपैः ॥ ९ ॥ काथः स्यात्सन्निपातोत्थविसर्पधावने हितः ॥ पञ्च
जीरकपित्थांश्च काञ्जिकेन तु पेपयेत् ॥ मातुलुङ्गरसेनापि लेपनं वातस
र्पिणे ॥ १० ॥ धवा रोध्रतिलाश्चैलविदारी कण्टकं तथा ॥ लेपः पित्त
विसर्पे वा गुञ्जापत्रैस्तु लेपनम् ॥ ११ ॥ सैन्धवारिष्टनुम्बीकापटोलप
त्रकैर्घृतम् ॥ पाचितं लेपने शस्तं विसर्पाणां निवारणम् ॥ १२ ॥ रक्त
जेषु विसर्पेषु कुड्याद्रिक्तावसेचनम् ॥ पश्वाद्भवकदम्बानां सर्वदा गृह्
धूमकम् ॥ १३ ॥ लेपने हितकत्प्रोक्तं धावनं काञ्जिकेन तु ॥ कुठेरका
श्च सुरसा चक्रमर्दो निशायुगम् ॥ १४ ॥ सर्षपाः काञ्जिकेनापि पि
ष्ट्वा च लेपनं हितम् ॥ १५ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्था
ने विसर्पचिकित्सा नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

आग्नेयजी कहतेहैं—नमक, खटा, खारा, चर्चरा, गरम, ऐसा पदार्थ सेवनेसे और पसीनेके दोषसे रक्त पित्त कुपित होजाता है वह विसर्परोम कहाता है ॥ १ ॥ वह जुदे २ दोषों करके और द्वंद्वज दोषों करके सात प्रकारका होता है और केवल रक्तसे उप-जाहुआ सन्निपातसे युक्त सातवा होता है ॥ २ ॥ और अन्य कईकजन जुदे २ नामों-वाले इनरोगोंको कहते है आक्षेपनामवाला घोरनामवाला और कर्दमनामवाला ऐसे तीन प्रकारसे होता है ॥ ३ ॥ आक्षेप विसर्परोम वातपित्तसे होता है और ग्रंथिक पित्तकफसे होता है कर्दमनामवाला विसर्प वातकफसे होता है और घोरनामक सन्निपातसे होता है ॥ ४ ॥ और रक्तकर्गति, त्वचा, मांस, इन्होंसे दूषित हुए तीनों दोष और सात धातु ये विसर्प रोगोंकी उत्पत्तिमें हेतु कहे है ॥ ५ ॥ और बडबेलगिरी, खैर, इन्होंके काथसे शरीरका धो-वना हित है और कांजीकी खटाईके झागोंसे अथवा सौवीर संज्ञक कांजीके रससे ॥ ६ ॥ अथवा विजौराके रससे धोवना वातसे उपजे विसर्परोगमें हित है और पित्तके विसर्पमें दूध और शीतल जलकरके धोवना हित है ॥ ७ ॥ और कफके विसर्परोगमें धव, अर्जुनवृक्ष, इन्होंके काथसे अथवा मदिरा सौवीर संज्ञक कांजी इन्हों करके धोवना हित है ॥ ८ ॥ और सन्निपातके विसर्पमें भी मदिरा सौवीर संज्ञक कांजी इन्होंसे धोवना हित है और अजमान, अरणी, कचूर, बड, सिरसम, ॥ ९ ॥ इन्होंके काथसे सन्निपातसे उपजे विसर्पको धोवना हित है और पांच प्रकारके जीरे, कैथ, इन्होंको कांजीमें पीस विजौराके रसके संग वातके विसर्पमें लेप करना हित है ॥ १० ॥ और धव, लोध, तिल, एलवा, विदारीकंद, गोखरू, इन्होंको पीस लेप करना अथवा चिरमठीके पत्तोंका लेप करना हित है ॥ ११ ॥ और सेंधा-नमक, नींव, तुंबी, परवलके पत्ते इन्होंको घृतमें पका लेप करनेसे सब प्रकारके विसर्पोंका नाश होता है ॥ १२ ॥ रक्तसे उपजे हुए विसर्परोगोंमें फस्तखुलानी चाहिये पीछे धव, क-दंब, घरका धूवा, ॥ १३ ॥ इन्होंका लेप करना हित है और कांजीसे धोवना हित है और आजवला, तुलसी, पुआड, दोनों प्रकारकी हलदी, ॥ १४ ॥ सिरसम, इन्होंको कांजीमें पीस लेप करना हित है ॥ १५ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्रयनुवादित श्रीरतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने विसर्पचिकित्सानाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

चतुस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

अथोपसर्गचिकित्सा ॥

आग्नेय उवाच ॥ चतुर्विधो भवेद्दोषो वातरक्तसमुद्भवः ॥ गन्धदोषेण जा-
यन्ते नामान्येषां पृथक् पृथक् ॥ १ ॥ क्षुद्रतश्वान्तको घोरः अथवान्या

मसूरिका ॥ वसन्तः सर्पपाकारा पिटका यस्य दृश्यते ॥ २ ॥ सोऽपि क्षु
द्रतरः प्रोक्तः पित्तरक्तप्रदोषतः ॥ अग्निदग्धवत्स दाहः पिटिका यस्य दृ
श्यते ॥ ३ ॥ सोऽप्यतीव विसर्पी स्यादसुरखी च निरन्तरम् ॥ ४ ॥
सघनाः पीडिका यस्य पाकयति समः कफः ॥ दाहोऽरतिर्विवर्णत्वं तस्य
सद्यः प्रजायते ॥ ५ ॥ वंचुलमसूरिकावत् पिटिका यस्य दृश्यते ॥ शा
म्यति शीघ्रपाकेन सा विज्ञेया मसूरिका ॥ तस्य वक्ष्यामि भैषज्यं यथा
विधि महामते ! ॥ ६ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—वात रक्तसे उपजाहुआ चारप्रकारका दोष होता है सो गंधके
दोषसे उत्पन्न होते हैं तिनहोंके जुदे २ नामोंको कहते है ॥ १ ॥ क्षुद्रक, अंतक, घोर, मसू-
रिका, ये है और जिसके गौर सिरसमेक आकार फुनसी दीखें ॥ २ ॥ वह क्षुद्ररोग पित्त-
रक्तके दोषसे होता है और जिसमें अग्निके दग्ध होनेके समान दाहहो ॥ ३ ॥ और निरंतर
सुरखी नहींहो वह अति घोर विसर्परोग होता है ॥ ४ ॥ और करडी तथा पकीहुई के समान
पिडिकाहो दाहहो ग्लानिहो विवर्णहो वह तात्काल अंतक रोग होता है ॥ ५ ॥ जिसके
मसूरिकाके समान गोल पिडिकाहो जल्दीही पकके शांत होजावे वह मसूरिका कहाती है
हे महामते! तिसकी यथार्थ विधिको कहते है ॥ ६ ॥

अथ मसूरिकामे चिकित्सा ॥

गुप्ताकारं सुरक्षेत्र रक्षायोगविधानतः ॥ न स्त्रीणां नाधमानाश्च संसर्गं वा
प्रसङ्गकम् ॥ ७ ॥ सुशीतं शीतलं स्थानं कारयेत्सुप्रयत्नतः ॥ क्षुद्रकस्यो
पसर्गस्य लेपनं चात्र कारयेत् ॥ ८ ॥ कुष्ठं सोशीरन्यग्रोधस्तथोडुम्बरि
कत्वचः ॥ प्रलेपनं प्रशस्तं स्यात्क्षुद्रोपसर्गवारणम् ॥ ९ ॥ क्षीरश्च मधु
शर्करायुक्तं पानं सुरवावहम् ॥ जम्ब्वाम्नपल्लवानाश्च विटं दधिमधुयुतम्
॥ १० ॥ पाययेत् क्षुद्रकस्यास्य अतिसाराग्निनाशनम् ॥ गोकुरश्वाति
विपा च कर्कटायं सपर्पटम् ॥ ११ ॥ कल्कमेतत्प्रयोक्तव्यं मधुशर्क
रासंयुतम् ॥ हरीतकीमातुलुङ्गखरसं शर्करायुतम् ॥ १२ ॥ क्षुद्रकस्योप
सर्गस्य वमिशोषनिवारणम् ॥ अग्निकोऽप्युपसर्गं च योज्यं चैतःप्रले
पनम् ॥ १३ ॥ रक्तचन्दनं मञ्जिष्ठा निम्बपत्राणि चार्जुनम् ॥ क्षीरेण
नवनीतेन हितं स्थाह्येपनं तथा ॥ १४ ॥

गुप्त आकारसे रक्षायोगके विधानसे तिसरोगीको रक्त्वे और स्त्री तथा नीच जन इन्होंका मेल नहीं होंदेवै ॥ ७ ॥ और अत्यंत यत्नसे शीतल स्थान रक्त्वे और क्षुद्रक उपसर्गमें लेप करना चाहिये ॥ ८ ॥ कूठ, खश, वड, गुलरकी छाल, इन्होंका लेप करनेसे क्षुद्र उपसर्गरोगका निवारण होता है ॥ ९ ॥ और शहद, खांड इन्होंसे युक्त दूधका पीना सुखदायक है और जामन, आंव इन्होंके पत्तोंको पीस दही और शहद मिला ॥ १० ॥ पीनेसे क्षुद्ररोग अतिसारकी अग्नि इन्होंका नाश होता है और गोखरू, अतिश, काकडासींगी पिचपापडा ॥ ११ ॥ इन्होंका कल्क बना शहद और खांड मिला ॥ १२ ॥ खानेसे क्षुद्रक रोगवाले पुरुषका वमन, शोष, इन्होंका निवारण होता है और अग्निसरीखे दाहवाले उपसर्गरोगमें ॥ १३ ॥ लाल चंदन, मंजीठ, नींबके पत्ते, अर्जुनवृक्षकी छाल इन्होंको दूध, नौनीपृत इन्होंमें पीस लेप करना हित है ॥ १४ ॥

घोरं चोपद्रवं दृष्ट्वा न स्वेदं न च मर्दनम् ॥ प्रलेपनं न कुर्वन्ति यथायो
गेन पण्डिताः ॥ १५ ॥ अरण्यगोमयक्षारतैलेन चालनं हितम् ॥ न तै
लेनापि चाभ्यङ्गं लेपेनैव च कारयेत् ॥ १६ ॥ चन्दनं मधुकं रोध्रं न्य
योधोत्पलसारिवा ॥ मधुना संयुतः कल्कः पानेन चोपसर्गहृत् ॥ १७ ॥
उपसर्गं ज्वरस्तीव्रो रक्तमूत्रं प्रजायते ॥ तस्य वक्ष्याम्युपचारं येन संप
द्यते सुखम् ॥ १८ ॥ पटोलं पर्पटं शुण्ठी मुस्ता च खदिरं समम् ॥ क-
ल्को मधुयुतः पाने हितः स्याज्ज्वरनाशनः ॥ १९ ॥ चन्दनोशीरमज्जिष्ठा
पुष्करं दन्तधावनम् ॥ काथपानं मधुयुतमुपसर्गज्वरापहम् ॥ २० ॥
वमने चातिसारे च दाडिमं कुटजस्तथा ॥ मधुदध्नान्वितं पानमतिसार
निवारणम् ॥ २१ ॥ शेषाश्च क्षुद्रिकाः प्रोक्ताः क्रिया चात्र विधेयका ॥
एषा क्रिया मसूरिके कर्त्तव्या सुविधानतः ॥ २२ ॥ वातलानि च स
र्वाणि तथा रूक्षाणि कोविदः ॥ स्त्रीसङ्गं रूक्षशोकश्च दूरतः परिवर्जये
त् ॥ २३ ॥ ज्वरे प्रोक्तानि पथ्यानि तानि चात्र प्रदापयेत् ॥ एवं त्रिस
प्तरात्रेण सुखं सम्पद्यते नरः ॥ २४ ॥ ततोऽभिषेकः कर्त्तव्यः कृत्वा म
ङ्गलवाचनम् ॥ नूतनानि च सूक्ष्माणि वस्त्राणि च सितानि च ॥ २५ ॥
परिधाप्य होमकार्घ्यमिष्टभोज्यं विधेयकम् ॥ २६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते
हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने उपसर्गचिकित्सा नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

और उपसर्गरोगमें घोर उपद्रवको देखिके तहां पसीना नहीं दिवावे मर्दन नहीं करै और लेपभी नहीं करै पंडित जनोंको ऐसे जानना ॥ १५ ॥ तहां वनके आरनोंका खार और तेल करके चालन कर्म करना हित है तेलसेभी मालिस और लेप नहीं करवावै ॥ १६ ॥ चंदन, महुआ, लोध, वड, कमल, अनंतमूल, इन्होंका कल्क बना शहदके संग पीनेसे उपसर्गरोगका नाश होता है ॥ १७ ॥ और उपसर्गरोगमें जो तीव्रज्वरहो लालमूत्र उतरे तिसकी चिकित्सा कहते है जिस्से सुख उत्पन्न होवे ॥ १८ ॥ परवल, पित्तपापडा, सेंट, नागरमोथा, खैर, इन्होंको समान भाग ले कल्क बना शहद मिला पीनेसे ज्वरका नाश होता है और यह हित है ॥ १९ ॥ और चंदन, खश, मंजीठ, पौहकरमूल इन्होंके काथसे दांतोंका धोवना और इसमें शहद मिला पीनेसे उपसर्गरोगमें उपजे ज्वरका नाश होता है ॥ २० ॥ और वमन अतिसार इन्होंमें अनारदाना इन्होंका काथ पीवे और शहद दही इन्होंके पीनेसे अतिसारका नाश होता है ॥ २१ ॥ और वाकीके रहे सब क्षुद्ररोगमें यही क्रिया करनी यह क्रिया उत्तम विधानसे मसूरिका रोगमें करनी चाहिये ॥ २२ ॥ और सब वातवाले पदार्थ तथा रूखे पदार्थ स्त्रीसंग, शोक इन्होंको वैद्यजन दूरसेही वर्ज देवै ॥ २३ ॥ और ज्वरमें कहेहुए जो पथ्य है उन्होंको यहां करवावै इसप्रकार करनेसे तीन रात्रिमें अथवा सात रात्रिमें सुख उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥ पीछे स्वस्तिवाचन करवाके अभिषेक करवावै और नवीन तथा वारीक सफेद वस्त्रोंको ॥ २५ ॥ धारण कर होम करवा इच्छा पूर्वक भोजन करै ॥ २६ ॥ इति वेरोनिवास्तिबुधशिवसहायसनुवैद्यरविदत्तशाह्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने उपसर्गचिकित्सानाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

पञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

व्रणचिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि व्रणानां तु चिकित्सितम् ॥ व्रणाश्वानेकधा प्रोक्ता नानाधातुविकारिणः ॥ १ ॥ दुष्टाम्बुपानाशनसेवना च क्रोधातिभाराद्यसनेन वापि ॥ संजायते दुष्टव्रणोऽपि घोरश्चान्येन रक्तस्य हि दूषणेन ॥ २ ॥ वातेन पित्तेन कफेन वापि द्वन्द्वेन वा दोषसमुच्चयेन ॥ मांसं प्रहृष्य रुधिरं विकीर्य संजायते दुष्टव्रणोऽपि घोरः ॥ ३ ॥ त्वग्रक्तानि समेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिताः ॥ दोषाः शोफं शनै

घोरं जनयन्त्युद्धता शृशम् ॥ ४ ॥ सरक्तञ्च सशूलञ्च सजावञ्च सवेपथु॥
 रूक्षं वा वातसम्भूतं विज्ञेयं सरुजं व्रणम् ॥ ५ ॥ सप्तदाहस्वरः स्रष्टः स्पर्शं सहते तु यः॥ शीतः सौख्यं लघुपाकी पित्तात् संजायते व्रणः॥६॥
 कठिनो वर्तुलाकारो घोरः पीतोलपवेदनः॥ उष्णसहः स्निग्धतरश्चिरपाकी
 ककत्र गः ॥७॥ सर्वैर्लिङ्गैर्विजानीयात्सन्निपातसमुद्भवम् ॥ द्वन्द्वजे द्वयदो
 पस्तु दोषे चापि प्रदृश्यते ॥ ८ ॥ अग्निघातसमुद्भूता विज्ञेयास्ते चतुर्वि
 धाः ॥ अन्ये नाढीव्रणा ये स्युः सवाताश्च सवेदनाः ॥ ९ ॥ अन्ये तु
 स्रोतसां मध्ये तेषां शृणु चिकित्सितम् ॥ प्रथमं मण्डविस्त्रावो द्वितीयं
 स्वेदनं स्रुतम् ॥ १० ॥ तृतीयं पाचनं प्रोक्तं पाचिते पाटनं तथा ॥
 शोधनञ्च प्रयोक्तव्यं तथा रोहणमेव च ॥ ११ ॥ पश्चात्कमस्तथै
 व स्याद्ब्रणानां हितकारकः ॥ रास्त्रा वचा तथा शुण्ठी मातुलुङ्गरस
 स्तथा ॥ १२ ॥ काञ्जिकेन सममेकधावनं वातिके व्रणे ॥ यटीमधुक
 मञ्जिष्ठापटोलनिम्बपत्रकैः ॥ १३ ॥ दुग्धेन कथितं शीतं धावनं पैत्ति
 के व्रणे ॥ १४ ॥ त्रिफला च कदम्बञ्च तथा जम्बु कपित्थकम् ॥ का
 थः सोणकफोद्भूते व्रणे धावनमुत्तमम् ॥ १५ ॥ मातुलुङ्गाग्निमन्थौ च
 मूढं वा काञ्जिकेन च ॥ सुरदारु तथा शुण्ठी लेपो वातव्रणे हितः ॥
 ॥ १६ ॥ गलमूर्वा च मधुकं चन्दनं रक्तचन्दनम् ॥ पिष्टं तण्डुलतोयेन
 पित्तव्रणविनाशनम् ॥ १७ ॥ अङ्गोलकञ्च रोधञ्च कदम्बार्जुनवेतसाः ॥
 पारिभद्रदलानां तु पिष्ट्वा व्रणविलेपनम् ॥ १८ ॥ पाकं गते व्रणे वापि
 गम्भीरे सरुजेऽथवा ॥ सरन्ध्रे शोधनं कार्घ्यं धावनं तु त्रिपवैरैः ॥१९॥
 करञ्जधवनिम्बानां कदम्बार्जुनवेतसैः ॥ पादावशेषे काथेन गम्भीरव्रण
 धावनम् ॥ २० ॥ मञ्जिष्ठा च तथा लाक्षारसश्चैव मनःशिला ॥ निशा
 युगे समायुक्तं पिष्ट्वा वस्त्रपरिस्रुतम् ॥ २१ ॥ मधुयुक्तं शोधनञ्च व्रणा
 नां हितकारकम् ॥ निम्बपत्राणि संक्षिप्य मधुना व्रणशोधनम् ॥ २२॥
 निम्बपत्रतिलक्षौद्रं दार्वीमधुकसंयुतम् ॥ तथा तिलानां कल्कञ्च शोध
 नञ्च व्रणेपु च ॥२३॥ तिलका निम्बसीतस्य पत्राणि सुमनासु च ॥ क

पायश्च हितश्चैव व्रणानां शोधनेषु च ॥ २४ ॥ विशुद्धश्च व्रणं ज्ञात्वा
अक्षयेच्च व्रणंच तत् ॥ नवनीतेन वा श्रेष्ठं तेन नदहते व्रणः ॥ २५ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—अब व्रणोंकी चिकित्साको कहेंगे अनेक प्रकारकी धातुओंके विकारवाले अनेक प्रकारके व्रण कहे हैं ॥ १ ॥ दूषित जल और अन्नके सेवनसे क्रोधसे अत्यंत बोझाके उठानेसे किसीवातके व्यसनसे मनुष्योंके घोर दुष्ट व्रण होजाता है अथवा दूषित रक्तसे घोरव्रण होता है ॥ २ ॥ वातसे, पित्तसे, कफसे, अथवा दोषोंसे तथा सब दोषोंके मिलापसे मांसमें प्रहर्ष होके रुधिर विखरके घोर दुष्टव्रण होजाता है ॥ ३ ॥ और त्वचा, रक्तमेद इन्हेंको दूषितकर अस्थियोंके आश्रयहोके ऊठेहुए दोष शनैशनै अत्यंत शो-जाको उत्पन्न करदेते हैं ॥ ४ ॥ तहां रक्त सहित शूलसहित पीडा होती है और कंपना होती है तहांरूपान्नहो वह वातसे उपजा जानना ॥ ५ ॥ और जो तप्तदाहज्वर, इन्हेंसे यु-क्तहो और स्पर्शको सहै शीलाहो सुखहो हलका पाकहो वह पित्तसे उपजा व्रण होता है ॥ ६ ॥ और कठिनहो, गोल आकारहो, घोर हो, शीतलहो, थोड़ी पीडाहो, गरम वस्तुको सहै अति चीकनाहो बहुतकालमें पकै वह कफसे उपजा व्रण जानना ॥ ७ ॥ और जो सब लक्षण मिलते हो तो वह सन्निपातसे उपजा व्रण जानना और दो दोषोंसे उपजा व्रणमें दो दोषोंके लक्षण मिलते हैं ॥ ८ ॥ और चोटआदिसे उपजेहुये चार प्रकारके व्रण होते हैं और अन्य जो नाडीव्रण होते हैं वे पीडासहित और वात सहित होते हैं ॥ ९ ॥ और अन्य व्रण स्रोतोंमें होते हैं तिन्हेंकी चिकित्साको सुन पहले तो मंडलको झिरावे पीछे पसीना दि-वावे ॥ १० ॥ फिर तिसरे पकावे पकजावे तब व्रणके फाड़नेकी विधि कही है पीछे शोध-न करै पीछे व्रणको भरै ॥ ११ ॥ पीछे व्रणोंको हित करनेवाला क्रम करना चाहिये रास्ना, वच, स्रंठ, विजौराका रस ॥ १२ ॥ कांजी इन्हेंसे धोवना वातके व्रणमें हित है और मूलहदी, महुआवृक्ष, मंजीठ, परवल, नींबूके पत्ते ॥ १३ ॥ इन्हेंको दूधमें मिला काथ बना शीलाकर पित्त का व्रण धोवना चाहिये ॥ १४ ॥ और त्रिफला, कदंब, जामन, कैथ इन्हेंका काथ बना गरम २ से कफसे उपजा व्रण धोवना चाहिये ॥ १५ ॥ और विजौरा, अरणी, मूली, कांजी, देवदार, स्रंठ, इन्हेंका लेप करना वातव्रणमें हित है ॥ १६ ॥ और नड, मूर्वा, मुलहदी, चंदन, लाल चंदन, इन्हेंको चावलके धोवनके जलमें पीस लेप करनेसे पित्तका व्रणका नाश होता है ॥ १७ ॥ और अंकोल, लोध, कदंब, अर्जुनवृक्ष, वेत, नींबूके पत्ते इन्हेंको पीस व्रणपे लेप करै ॥ १८ ॥ और व्रण पकजावे अथवा गंभीर होजावे पीडासहितहो अथवा छेकहो रहाहो तहां वैद्यजनोंनिं शोधन और धावन करना चाहिये ॥ १९ ॥ और करंजुआ, धव, नींबू, कदंब, अर्जुन और वेत इन्हेंका चतुर्थांश काथ रहे तब उससे गंभीर व्रणकुं शोधन करे ॥ २० ॥ और मंजीठ, लावका रस, मनसिल, दोनों प्रकारकी हलदी, इन्हें-

को समान भागले बकराका मूत्रमें पीस शहद मिला लेप करनेसे ब्रणोंका शोधन होता है यह हित है और नींबूके पत्तोंको पीस शहद मिला लेप करनेसे ब्रणोंका शोधन होता है ॥ २२ ॥ और नींबूके पत्ते, तिल, शहद, दारुहलदी, शहद, तिलोंका कल्क इन्हींके लेप, करनेसे ब्रणोंका शोधन होता है ॥ २३ ॥ और तिल, नींबू, बहेडा इन्हींके पत्ते और पुष्पोंका काथ बना सेक करनेसे ब्रणोंका शोधन होता है ॥ २४ ॥ पीछे शुद्धहुए ब्रणको जानके ब्रणको नौनी घृतसे धोलेवे नौनी घृत श्रेष्ठ है इससे ब्रण भरजाता है ॥ २५ ॥

अथ जात्यादि घृत ॥

जातीकरञ्जपिचुमन्दपटोलमत्र यष्टीमधुश्च रजनी कटुरोहिणी च ॥ म
ञ्जिष्ठकोत्पलमुशीरकरञ्जबीजं स्यात्सारिवा त्रिवन्मागधिका समांशा ॥
॥ २६ ॥ पक्कं घृतं वै हितमेव ब्रणे प्रशस्तं नाडीगते च सरुजे च सशो
णिते च ॥ लूताविसर्पमपि हन्ति गभीरयेच्च ब्रणाः सदाहकठिना अपि
रोहयन्ति ॥ २७ ॥ इति जात्यादिघृतम् ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्त
रे तृतीयस्थाने ब्रणचिकित्सा नामपञ्चत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

जावित्री, करंजुवा, नींबू, परवल, मुलहदी, हलदी, कुटकी, मंजीठ, कमल, खश, करंजुवाके बीज, अनंतमूल, निशोत, पीपल, इन्हींको समान भाग ले ॥ २६ ॥ इन्हींको घृतमें पकासेवे यह घृत ब्रणमें हित है और पीडा सहित तथा रक्तसहित नाडविण, सूत, विसर्पारोग, इन्हींका नाश होता है और दाहसहित तथा कठिन ऐसा ब्रण भरजाता है ॥ २७ ॥ इति वेरीनि-
वासिद्युवशिवसहायसुनुवैद्यरविदत्तशास्त्रपुत्रादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने ब्रणचिकि-
त्सानाम पंचत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

पद्मत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

अथ श्लीपदरोगकी निदान तथा लक्षण ॥

आत्रेय उवाच ॥ ब्रणोक्तैरुपचारैश्च जायते श्लीपदं तथा ॥ वातेन स्फुवे
टितं रूक्षं श्यामञ्चापि प्रदृश्यते ॥ १ ॥ सदाहपाकं पित्तेन सज्वरञ्चैव
श्यते ॥ श्लेष्मणा जायते स्निग्धं घनं शोफसमन्वितम् ॥ २ ॥ सर्पिणी शीत
तेन सर्वाणि जायन्ते भिषजांवर ! ॥ मेदाश्रितं तु वाल्मीकं वल्गुं

प्रदृश्यते ॥ ३ ॥ सदृशानि च चिह्नानि वातिकोत्थानि लक्षयेत् ॥ तस्य
 व्रणोक्ताः क्रियाश्च कारयेद्विधिपूर्विकाः ॥ ४ ॥ जात्यादि च घृतं श
 स्तं तथैवालेपनानि च ॥ पुनः प्रलेपनं कार्यं धवार्जुनकदम्बकैः ॥ ५ ॥
 गिरिकर्णिकामूलञ्च तथा वृक्षादनीमपि ॥ पिष्ट्वा प्रलेपनं कार्यं वाल्मी
 कश्लीपदस्य च ॥ ६ ॥ सूरणकन्दकं पिष्ट्वा मधुना च घृतेन च ॥ लेपनं
 च हितं तस्य वाल्मीकश्लीपदापहम् ॥ ७ ॥ इत्यात्रेयज्ञापिते हारीतोत्तरे तृ
 तीयस्थाने श्लीपदचिकित्सा नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

व्रणमें कहेहुए उपचारोंकरके श्लीपद संज्ञकरोग हो जाता है वातसे उपजा श्लीपद स्फुटित
 हो रूखाहो श्यामवर्णवालाहो ॥ १ ॥ और पित्तसे उपजे श्लीपद रोगमें दाहहो पाकहो और
 ज्वर होता है और कफसे उपजा श्लीपदरोग चिकनाहो करडाहो शोजासे युक्त होता है ॥ २ ॥
 और सन्निपातसे उपजे श्लीपद रोगमें सब लक्षण मिलते है और मेदकै आश्रय हुआ यह
 रोग सर्पकी घंघईके समान लक्षणोंवाला होता है ॥ ३ ॥ और वातसे उपजे इसरोगमें
 समान लक्षण होते है तिसकी क्रिया व्रणमें कहीहुई करनी चाहिये ॥ ४ ॥ और पहले
 कहाहुआ जात्यादिघृत लेप करनेमें हित है और धव, अर्जुनवृक्ष, कदंब, ॥ ५ ॥ गिरिक-
 णिकाकी मूल, अमरबेल, इन्होंको पीस लेप करनेसे वाल्मीक संज्ञक श्लीपदरोगका
 नाश होता है ॥ ६ ॥ और जमीकंदको पीस शहद और घृतमें मिला लेप करनेसे वाल्मीक
 संज्ञक श्लीपदरोगका नाश होता है ॥ ७ ॥ इति वेरोनिवासिबुधशिवसहायस्नुवैद्यरविदत्त-
 शास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने श्लीपदचिकित्सानाम षट्त्रिंशोऽध्यायः ३६ ॥

सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

अथ अर्बुदरोगकी चिकित्सा ॥

च वाताग्निघातपवनाद्रूपाद्वापि तथा पुनः ॥ रक्तनाड्यः प्ररोहन्ति रुंधन्ति
 होता च तथा पुनः ॥ १ ॥ तेन रक्तस्य मार्गस्तु रुध्यते तेन जायते ॥ अर्बुदञ्च
 व्रणपे जास्थूलं मार्गरोधाच्च जायते ॥ २ ॥ वातान्मृदुच परुषं कफाच्च घनशी
 छेकहो रू ॥ पित्तेन दाहपाकाद्यं विजानीयं विचक्षणैः ॥ ३ ॥ सन्निपातेन
 धव, नींब, शोधन करे ॥ घनं पापाणसन्निभम् ॥ वृद्धिसञ्च गडुकं स्यादसाध्यं तद्विषम्वर !

॥ ४ ॥ तस्यादौ पाटनं कार्थं मर्मस्थानञ्च वर्जयेत् ॥ सैन्धवेन घृतेना
पि कुर्ध्यात्तस्थानुलेपनम् ॥ ५ ॥ सूरणं कन्दकं दग्ध्वा घृतेन च गुडेन
च ॥ लेपनं चार्बुदानाञ्च नाशनञ्च भिषग्वर ! ॥ ६ ॥ शोषा व्रणक्रिया प्रो
क्ता शस्ता वार्वुदशान्तये ॥ वातघ्नानि च पथ्यानि हितानि मधुराणि च
॥ ७ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने अर्बुदचिकित्सा नाम
सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—चोटके अभाषातसे और वायुसे तथा व्रणसे रक्तकी नाडी भरजाती
है और रुकजाती है ॥ १ ॥ तिससे रक्तका मार्ग रुकजाता है सो मार्गके रुकनेसे महास्थूल अ-
र्बुद रोग होजाता है ॥ २ ॥ वातसे उपजा अर्बुद रोग कोमलहो और कठिनहो और कफसे क-
रडा और शीतल होता है और पित्तसे उपजामें दाह और पाक होता है ऐसे वैद्यजनें जा-
नना ॥ ३ ॥ सन्निपातसे उपजा कठिन और पत्थरके समान करडा होता है हे वैद्यजन ! वद-
नेवाला और गोलीसरीखा यह अर्बुदरोग असाध्य होता है ॥ ४ ॥ तिसरोगकी आदिमें मर्म-
स्थानको वर्जके फाडनेकी विधि करनी चाहिये पीछे संधानमक घृत, इन्होंका लेप करना
चाहिये ॥ ५ ॥ और जभीकंदको दग्ध कर घृत और गुडमें मिला लेप करनेसे अर्बुदरोगोंका
नाश होता है ॥ ६ ॥ और चाकीकी व्रणमें कहीहुई क्रिया करनी यह श्रेष्ठ है और वातको
नाश करनेवाले मधुर पदार्थ हित कहे हैं और पथ्य है ॥ ७ ॥ इति वेरीनिवासिनुवशिवस-
हायस्सुवैधरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने अर्बुदचिकित्सानामसप्त
त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

अष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

अथ लूत तथा गंडमाला रोगका निदान और लक्षण ॥

आत्रेय उवाच ॥ इति व्रणक्रिया प्रोक्ता समासेन भिषग्वर ! ॥ यथाघो
गं चोपचारं ज्ञात्वा सम्यगुपाचरेत् ॥ १ ॥ दुष्टाम्बुपानाच्च कद्वन्निषेव
णाच्च संजायते च क्रिमिसम्भवगण्डमाला ॥ समारुते च कफपित्तभवे
विकारे संसर्पते क्रिमिजदोषगणश्च गण्डात् ॥ २ ॥ वातेन वातसदृशानि
च लक्षणानि पित्तेन दाहसरुजव्रणशोपतापाः ॥ संश्लेष्मणा च शीत
लघना संप्रयोगात्स्यात्सन्निपातविहिता च समस्तलिङ्गैः ॥ ३ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे उत्तमवैद्य ! इसप्रकारके संक्षेपमात्रसे व्रणकी चिकित्सा कहदी है इसके यथार्थ उपचारको जानके अच्छी तरहसे चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥ दूषित जलके पीनेसे और कुत्सित अन्नके सेवनेसे क्रिमिरोगसे उपजीहुई गंडमाला जाननी वातपित्त कफ इनदोषोंसे उपजेहुए इसविकारमें क्रिमियोंसे उपजाहुआ दोष अंड अर्थात् कपोलस्थानसे चलता है ॥२॥ वातसे उपजेहुए इसरोगमें वातके समान लक्षण होते है और पित्तसे उपजेमें दाह, पीडा, व्रण, शोष, ताप, ये होते है और कफसे उपजेमें शीतलता, कठोरता, ये उपचार होते है और जिसमें सब लक्षण मिलतेहों वह सन्निपातसे उपजा जानना ॥ ३ ॥

अथ लूता गंडमाला चिकित्सा ॥

तस्य चैमं प्रतीकारं वक्ष्यामि शृणु पुत्रक ! ॥ रोहिणी विशदा चैव विजया च विभेदिनी ॥ ४ ॥ कान्तारी वज्रपुष्पा च तथा चेन्द्रायुधापरा ॥ इति सप्तविधा लूताः शृणु पश्चात्पृथक्पृथक् ॥ ५ ॥ रक्तमुण्डा भवेद्रक्ता रक्तस्थाने च रोहिणी ॥ विशदा मांसलस्थाने श्वेतवर्णा च दीर्घिका ॥ ६ ॥ विजया च शिरोमध्ये पीतवर्णा यवप्रभा ॥ ७ ॥ भेदिनी मेदसस्थाने श्वेता च नीलरेखिका ॥ ८ ॥ कान्तारी वस्तिमध्ये च श्वेता ह्ना रक्तमुण्डिका ॥ वज्रपुष्पा चास्थिमध्ये श्वेता कृष्णा शिरा मता ॥ ९ ॥ इंद्रायुधा शिरान्ते च धूम्रा कृष्णा शिरा मता ॥ १० ॥ रोहिण्यङ्गुलिमात्रेण मूत्रेण विशदा समा ॥ विजया च यवाकारा वर्तुला विजया तथा ॥ ११ ॥ अन्या नृणां च विज्ञेया तण्डुलीकण्टकानिभा ॥ रोहिणी विजया विंशा मांसस्थाने समाश्रिता ॥ १२ ॥ गुल्फे वा चास्थिसन्धौ च दृश्यते भेदिनी नरे ॥ कुक्षौ कर्णान्तरेऽपाङ्गे कान्तारी विद्धि पुत्रक ! ॥ १३ ॥ वज्रपुष्पा शिरसि च शिरान्ते चेन्द्रायुधा मता ॥ अतो वक्ष्यामि भैषज्यं शृणु पुत्र ! प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ सान्द्रपूयविस्त्रावञ्च गम्भीरञ्च व्रणं विदुः ॥ अन्यञ्च सरुजं चैव पक्कजम्बूसमप्रभम् ॥ १५ ॥ लूतां व्रणानां चैतानि अपक्वं यावद्दृश्यते ॥ त्यक्त्वा सन्धिस्थमर्मस्थां लूतां चैव हि तद्गणम् ॥ तदा तप्तेन तैलेन दाहश्चाशु विधीयते ॥ १६ ॥ अङ्गोलश्वैव मद्यानि पारिभद्रदलानि च ॥ गृहधूमं कृष्णजीरं गोमूत्रेण तु पेपितम् ॥ लेपनं च प्रशस्तं च लूतानां मारणे परम् ॥ १७ ॥ पिण्डीतकं विड

हानि तथा चेङ्कुदिमूलकम् ॥ वीजपूरकमूलानि पेषितानि विलेपयेत् ॥
 गण्डमालां तथा घोरां हन्ति शीघ्रं प्रकण्टकान् ॥ १८ ॥ स्नुहीक्षीरं चा
 र्कक्षीरं लूतारन्ध्रे नियोजयेत् ॥ तेन कीटस्तु तन्मध्ये म्रियते नात्र संश
 यः ॥ १९ ॥ आस्यतो गिरिकर्णीश्च चन्दनञ्च समांशकम् ॥ पिष्ट्वा लेपः
 प्रयोक्तव्यो लूतां हन्ति सुदारुणाम् ॥ २० ॥ करवीरं चार्कदुग्धं तथा च
 कटुतुम्बिकाम् ॥ निशाद्वयं जाङ्गलिकां तिलतैले विपाचयेत् ॥ ३८ ॥
 लूतामभ्यञ्जने हन्ति गण्डमालाञ्च दारुणाम् ॥ घृतं जात्यादिकं नाम त
 था चात्र प्रयोजयेत् ॥ २२ ॥ अन्यान्यपि व्रणे यानि प्रोक्तानि च य
 थाविधि ॥ २३ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने लूतागण्ड
 मालाचिकित्सा नामाष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

हे पुत्र ! विसका इलाजको कहते है सुन रोहिणी, विशदा, विजया, विभेदिनी, कांतारी,
 ॥ ४ ॥ वज्रपुष्पा, इंद्रायुधा, ऐसे सात मकारकी लूत होती है सो हे पुत्र ! जुदी २ सुन ॥ ५ ॥
 रक्तमुखवाली रक्तवर्णवाली रक्तके स्थानमें होंवाली ऐसी रोहिणी नामक लूत होती है और
 सफेद वर्णवाली तथा दीर्घ ऐसी विशदानामवाली लूत मांसस्थानमें होती है ॥ ६ ॥ और
 विजयानामवाली लूत पीलावर्णवाली और शिरके मध्यमें होती है और जवसरीखी होती है ॥
 ॥ ७ ॥ सफेदवर्णवाली नीलीरेखावाली ऐसी लूत मेदके स्थानमें भेदिनीनामवाली होती है ॥
 ॥ ८ ॥ और सफेदवर्णवाली रक्तमुखवाली ऐसी कांतारीनामवाली लूत वस्तिस्थानमें होती है
 और वज्रपुष्पा नामक लूत अस्थि स्थानमें होती है और सफेदवर्णवाली तथा काला मुखवाली
 होती है ॥ ९ ॥ और इंद्रायुधा लूत नसोंके मध्यमें होती है धूम्रवर्णवाली और काला शिर-
 वाली होती है ॥ १० ॥ और रोहिणीनामवाली लूता अंगुल प्रमाणमें होती है विशदा लूत
 सूतके समान होती है विजया लूत जवके आकारवाली अथवा गोल आकारवाली होती है
 ॥ ११ ॥ और अन्य लूत गनुष्योंके चौलाइके काटेके समान जाननी और रोहिणी विजया
 विशदा लूत मांसस्थानके आश्रय रहती है ॥ १२ ॥ और टांकनेकी गुल्फ अस्थि संधि इ-
 न्होंमें विभेदिनी लूत होती है और कूखि, कानके समीपस्थान, नेत्रोंके समीप यहां कांतारी-
 नामक लूत होती है ॥ १३ ॥ और वज्रपुष्पा शिरमें होती है और नसोंके मध्यमें इंद्रायुधा
 लूत होती है हे पुत्र ! अब इन्होंकी औषध कहते है यतनसे सुन ॥ १४ ॥ करडीराध सिरती
 हो तहां गंभीर व्रण कहते है और अन्य पीडा सहित और पकेहुए जामनके फलेके समान
 व्रण होता है ॥ १५ ॥ और लूतके व्रण जबतक पके नहीं उरसें पहले मर्भ संधियोंको त्याग-
 के लूतको और व्रणको गरम २ तेलसे दग्ध करना चाहिये ॥ १६ ॥ और अंकोल, मदिरा,

नींबूके पत्ते, घरका धूमा, कालाजीरा, इन्हेंको गोमूत्रमें पीस लेप करनेसे सूतका नाश होता है ॥ १७ ॥ और तगर, वायविडंग, इंगुदीवृक्षकी जड़, विजौराकी जड़, इन्हेंको पीस लेप करनेसे घोर गंडमाला कंठकरोम, इन्हेंका शीघ्रही नाश होता है ॥ १८ ॥ और थोहरका दूध, आकका दूध, इन्हेंको सूतके छिद्रोंमें युक्त करनेसे तिसके मध्यके कीड़े मरजाते हैं ॥ १९ ॥ सफेद गोकर्णी, चंदन, इन्हेंको समान भागले पीसके लेप करनेसे दारुण सूतका नाश होता है ॥ २० ॥ और कनेर, आकका दूध, कड़ई तुंबी, दोनों हलदी, कपूर, कचरी, इन्हेंको तिलोंके तेलमें पका ॥ २१ ॥ मालिस करनेसे सूत, गंडमाला, इन्हेंका नाश होता है और जात्यादिक नामवाला घृत यहां युक्तकरना श्रेष्ठ है ॥ २२ ॥ और अन्य जो ऋणमें कहीहुई औषध है वे यहां करनी श्रेष्ठ है ॥ २३ ॥ इति वेरीनिवासिनुधशिवसहायसूनुवैद्यविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थानेसूतागंडमालाचिकित्सानाम अष्टविंशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥

एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥

अथ कुष्ठचिकित्सा ॥

आत्रेयउवाच॥ विरुद्धपानानि गुरूणि चाम्लपापोदकं सेवनकेन वापि॥
निद्रा दिवासुप्रतिजागराच्च पित्तं प्रकुप्येद्बुधिराश्रितं तत् ॥ १ ॥ त्वचा
गतः सर्पति रोगदोषः कुष्ठेति संज्ञां प्रवदन्ति धीराः ॥ पापोद्भवास्ते
प्रभवन्ति देहे चृणां ऋशं कोपयतां विधिज्ञ ! ॥ २ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—विरुद्धपान और भारा अन्नपान, खटा तथा दूषित जलके सेवनेसे दिनमें सोना और जागरण करनेसे रक्तके आश्रयहुंआ पित्त कुपित होता है ॥ १ ॥ त्वचामें प्राप्तहुआ रोगरूपदोष फैलता है तब कुष्ठ ऐसी संज्ञा होती है पापसे उत्पन्न होनेवाले वे रोग मनुष्योंके शरीरमें कोपसे प्राप्त होजाते हैं अब तिन्हेंके जुदे २ लक्षणोंको कहेंगे ॥ २ ॥

कुष्ठोंके सामान्यभेद और लक्षण

कुष्ठानि चाष्टादशधा वदन्ति तेषांपृथक्त्वेन वदामि लक्षणम् ॥ असाध्य
साध्यानि च कर्मजानि दोषोद्भवानि च सहजानि तानि ॥ ३ ॥ कारु
ण्यपारुष्यमथैव कण्डूरोमग्रहर्षःस्तिमितं तथैपाम् ॥ तोदस्तथा संव्यथनं
च देहे त्वचि स्थिते कुष्ठभवेति चिह्नम् ॥ ४ ॥

कुष्ठोंको अठारहप्रकारके कहते हैं, तहां कर्मसे उपजे कुछ असाध्य है और वातआदि दोषोंसे तथा स्वभावसे उपजे साध्य है ॥ ३ ॥ दीनता, कठोरपना, खाज, रोगहर्ष, गीलापन, शरीरमें चभका, पीडा ये लक्षण कुष्ठकी आदिमें होते हैं ॥ ४ ॥

अथ कुष्ठोंके नाम ॥

कपालकं चैवमुद्गुम्बरञ्च तथैव दद्रूणि च मण्डलानि ॥ विसर्पकं हस्तिबलं किणञ्च गोजिह्वकं लोहितमण्डला वा ॥ ५ ॥ वैपादिकं चर्मदलं तथा न्यं विस्फोटकान्यथ बहुव्रणञ्च ॥ कण्डूर्विचर्ची कथितं तथान्यद्भ्रातुप्रभेदास्त्वचि रोगसिद्धाः ॥ ६ ॥

और कपालकुष्ठ, उदुंवरकुष्ठ, दद्रुमंडलकुष्ठ, विसर्पकुष्ठ, हस्तिबलकुष्ठ, किणकुष्ठ, गोजिह्वककुष्ठ, लोहितमंडला ॥ ५ ॥ वैपादिक, चर्मदल, विस्फोटक, बहुव्रण, कंडू, विचर्चिका, ऐसे इसप्रकारसे धातुओंके भेदसे उपजेहुए रोग त्वचामें प्रतीत होते हैं ॥ ६ ॥

उदुंवरकुष्ठलक्षण ॥

कपालकाभं सितवर्णकञ्च कपाल्यकं तद्रदितं विधिज्ञैः ॥

स्निग्धञ्च सर्वाङ्गगतं च कण्डूमुद्गुम्बरं तं प्रवदन्ति सन्तः ॥ ७ ॥

कपालसरीखा सफेद वर्णवालाहो वह वैद्यजनोंमें कपालक कुष्ठ कहा है और चिकनाहो रास अंगमें प्राप्तहो खाजीहो वह उदुंवर कुष्ठ कहाता है ॥ ७ ॥

अथ मंडलकुष्ठ तथागजचर्मकुष्ठका लक्षण ॥

दहूपमं यद्भवते च दद्रुर्दहूपमं मण्डलकं तमाहुः ॥

विसर्पकं सर्पति तद्विसर्पे तथान्यमान्तं गजचर्मतुल्यम् ॥ ८ ॥

और जो दादके समानहो दादसरीखे मंडलहो वह दद्रुमंडल कुष्ठ कहाता है और जो विसर्परोगकी तरह शरीरमें फैले तिसको विसर्पकुष्ठ कहते हैं जिसकी हस्ती सरीखी त्वचा होजावे तिसको गजचर्मक कुष्ठ कहते हैं ॥ ८ ॥

अथ गोजिह्वक कुष्ठ लक्षण ॥

यद्दृष्यपारुष्यसर्कशञ्च गोजिह्वकं स्यात्खलु भेदयोग्यम् ॥

यवासरक्तानि च मण्डलानि सकण्डुकानि व्रणसंयुतानि ॥ ९ ॥

और जो रूपाहों कठोरहो करडाहो गौकी जिह्वाके समान वर्णवालाहो वह गोजिह्वक कुष्ठ कहाता है और रक्त मंडलहो कुंडलसरीखेहों व्रणसे संयुक्तहों वह लोहितमंडल कुष्ठ जानना ॥ ९ ॥

अथ विपादिका कुष्ठ लक्षण ॥

ज्ञेयं तु तल्लोहितमण्डलञ्च रक्तोद्भवं तद्गुधिराश्रितञ्च ॥

सवेदनार्त्तस्य परिस्फुटञ्च विपादिका सा कथिता विधेया ॥ १० ॥

और जो रक्तसे उत्पन्न हो रक्तकै आश्रय हो पीडासे युक्त हो प्रकट हो वह विपादिका कुष्ठ कहाता है ॥ १० ॥

सरक्तवातकुपितेन जाता तथैव विस्फोटकसन्निभा वा ॥ तथापरं नाम बहुव्रणं च सूक्ष्मा च सा सुविदिता नरस्य ॥ ११ ॥ कण्डूर्विचर्ची भुवने प्रतीता श्वेतानि सूक्ष्मानि च पाटलानि ॥ विसर्पते यस्य नरस्य रक्तं युवा न केनापि भवेच्च सिद्धः ॥ १२ ॥

और जो रक्तवातके कुपित होनेसे उत्पन्न हो और विस्फोटकके समान हो और बहुतसे व्रण हो वह सूक्ष्मा विपादिका नामक कुष्ठ जानना ॥ ११ ॥ और कंडू, विचर्चिका ये संसारमें प्रसिद्ध है और जिसकै सूक्ष्मवर्णवाले तथा सफेदवर्णवाले और पीले वर्णवाले ऐसे चिह्नदीखें और रक्त दुष्टहोके फैलता है ऐसा तरुणरोग किसी प्रकारसेभी सिद्ध नहीं होता है ॥ १२ ॥

अथ वातादिजन्य कुष्ठका लक्षण ॥

शिरीषपुष्पाणि शिरीषकाणि सन्त्यक्तभावः पुरुषश्चसूक्ष्मः ॥ तोदस्तथा वैपथुवातलिङ्गं पित्ते नशोषभ्रमदाहत्तृष्णाः ॥ १३ ॥ श्लेष्माद्भवे कठिनशीतलपाण्डुरञ्च नेत्रेनखेषु च वपुष्यभिलाषता च ॥ मिश्रेण संशृतभवानि भवन्ति यस्य स्यात्सान्निपातिकभवं बहुभिश्च लिङ्गैः ॥ १४ ॥

और शिरसके पुष्पोंके समान और शिरसके समान वर्ण हो कठोरहों सूक्ष्महों चभकाहो कंपना हो ये वातसे उपजे कुष्ठके लक्षण है और पित्तसे उपजा कुष्ठमें शोष हो, भ्रम हो, दाह हो, घृषा हो, ॥ १३ ॥ और कफसे उपजा कुष्ठ कठिन, शीतल होता है और नेत्र, नख, शरीर, ये पीले होजाते हैं इन्होंने खाजि करनेकी इच्छा रहे और सब मिलेहुए दोषोंसे मिलेहुए लक्षण होते हैं सन्निपातसे उपजे कुष्ठमें बहुतसे लक्षण मिलते हैं ॥ १४ ॥

अथ रक्तस्थ कुष्ठ ॥

रूक्षं तथा सकण्डु त्वक्स्थितञ्च मृदु शीतलम् ॥

आस्त्रावदाहरक्ताभं रक्तस्थं रक्तगं विदुः ॥ १५ ॥

और जो रूप हो खाजि हो कोमल हो शीतल हो वह त्वचामें स्थित कुष्ठ जानना और जि-समें झिरना हो रक्तसरीखी कांतिहों वह रक्तमें स्थितहुआ कुष्ठ जानना ॥ १५ ॥

अथ मांसस्थ मेदःस्थ तथा अस्थिस्थ कुष्ठ ॥

सुस्निग्धं तोदगम्भीरं मांसगञ्च विनिर्दिशेत् ॥ मेदःस्थंतोदवेष्टत्वं सुस्निग्धं
रक्तलोचनम् ॥ अस्थिसंस्थञ्च गम्भीरं विसर्पे नासिकामुखे ॥ १६ ॥

और स्निग्धहो चभकाहो गंभीरहो वह मांसमें प्राप्त हुआ कुष्ठ जानना जो मेदमें स्थितहो
तिसमें चभकाकी पीडाहो चिकनाहो रक्तनेत्रहैं और जो अस्थिमें स्थितहो वह गंभीर होता
है मुखमें तथा नासिकामें विसर्परोग दीखता है ॥ १६ ॥

अथ मज्जास्थ तथा शुक्रस्थ कुष्ठ ॥

मज्जसंस्थश्च विकलो मज्जास्त्रावश्च जायते ॥ विशीर्यते च सर्वाङ्गे त
थैव शुक्रगं विदुः ॥ १७ ॥ अतो वक्ष्ये समासेन प्रतिकर्म भिषग्वर ! ॥ १८ ॥

मज्जामें स्थितहोनेसे विकल होजावे, और मज्जास्त्राव होता है और जिसमें सब अंग शिथिल
होजावे वह वीर्यमें प्राप्त हुआ कुष्ठ जानना ॥ १७ ॥ हे उत्तम वैद्य ! अब संक्षेप मात्रसे इन्हों-
की चिकित्साको कहैगै ॥ १८ ॥

अथ कुष्ठचिकित्सा ॥

त्वक्स्थे स्वेदस्यालेपो रक्तस्त्रावश्च रक्तगे ॥ विरेचं मांसगे प्रोक्तं मेदोगे
क्वाथपाचनम् ॥ १९ ॥ अथ तानि च त्रीण्येवमस्थिमज्जागतानि च ॥
वातिके स्वेदनं पथ्यं पित्ते शीतोपचारणम् ॥ २० ॥ कष्टसाध्यमिदं प्रो
क्तमसाध्यं सान्निपातिकम् ॥ रोगकारणमालोच्य तदा कर्म समारभेत् २१

त्वचामें स्थितहुए कुष्ठमें पसीना दिवावे लेप करे रक्तमें प्राप्तहुएमें स्त्राव करावे मांसमें
प्राप्तहुए कुष्ठमें जुलाव देवै, और मेदमें प्राप्तहुएमें क्वाथ पाचन देवै ॥ १९ ॥ और यही उप-
चार अस्थि, मज्जा इन्होंमें प्राप्तहुएमेंभी करना चाहिये वातसे उपजे कुष्ठमें पसीना दिवाना
पथ्य हे पित्तसे उपजेमें शीतल उपचार करना श्रेष्ठ है ॥ २० ॥ यह कुष्ठरोग कष्टसाध्य कहा
है और सन्निपातसे उपजा असाध्य होता है पहलेरोगके कारणको जानके पीछे कर्म करने-
का आचरण करे ॥ २१ ॥

पक्षान्पक्षाञ्छोधनं पाचनञ्च मासान्मासान्कारयेद्रेचनञ्च ॥ मासान्कुष्ठे
शोधनाय प्रकर्षात्पिष्टे षष्ठे मास्यसृग्मोक्षणञ्च ॥ २२ ॥ वासापटोलफ
लिनीलवर्णं वचाञ्च निम्बत्वचं कथितमाशु पिबेत्कषायम् ॥ कुष्ठे करो
ति वमनं मदनान्विते च पथ्याकषाय वमने मदनान्वितेषु ॥ २३ ॥ ७

लत्रिकं त्रिदहन्ती विरेचकं जिषग्वर ! ॥ काथो वचोष्णतोयेन पाने
स्याद्भिषगुत्तम ! ॥२४॥ श्वासप्रश्वासयोर्वेध्या शिरा शिरसि चेद्दहिः ॥
ततः प्रयोजनीयञ्च काथस्नेहस्य भोजनम् ॥ २५ ॥

और पक्षपक्षके प्रति शोधन और पाचनकर्म करै महीना २ के प्रति जुलाव दिवानी चा-
हिये और कुष्ठरोगमें छठे महीनेके प्रति रक्तको निकसावे ॥२२॥ और वांसा, परवल, माल-
कांगनी, नमक, वच, नींबकी त्वचा, इन्होंका काथ बना मैनफल मिला कुष्ठमें पीनेसे वमन
होवा है और पंचवृक्षोंका काथ बना मैनफल मिला वमनकेवास्ते देना चाहिये ॥ २३ ॥
हे वैद्य ! त्रिफला, निशोत, इन्होंसे जुलाव दिवानी श्रेष्ठ है और वचका काथ बना गरम २
जलके संग पीना श्रेष्ठ है ॥ २४ ॥ और कुष्ठमें जो ज्यादै श्वास होवे तो शिरमें रहनेवाली
बाहिरकी नस बाँधनी चाहिये पीछे काथ और स्नेह अर्थात् घृत आदिक भोजन करवा-
ना चाहिये ॥ २५ ॥

शुण्ठ्यादिकाथ ॥

शुण्ठीकणारवदिरपाटलिकापटोलीमञ्जिष्ठाक्षुरविषविल्वयवानिकानाम् ॥
वासाफलत्रिकजलेन कषायसिद्धः पानान्निहन्ति मनुजस्य च कुष्ठदो
षम् ॥ २६ ॥ वासाविडङ्गपिचुमन्दपटोलपाठाशुण्ठीसुरेन्द्रतरुपञ्चतरुम्
लपथ्याः ॥ काथो निहन्ति मरुत्प्रभवं च कुष्ठं त्रिःसप्तकेऽहनि महौषध
मेवं योज्यम् ॥ २७ ॥

सूँठ, पीपल, खैर, पाडलवृक्ष, परवल, मंजीठ, लघुगोरखरू, अतीश, बेलगिरी, अजमान
वांसा, त्रिफला, इन्होंका काथ बना पीनेसे मनुष्यका कुष्ठरोग दूर होता है ॥ २६ ॥ और
वांसा, वायविडंग, नींब, परवल, पाठा, सूँठ, देवदार, बडआदि पंचवृक्ष, लाख, मूली, हरडै,
इन्होंके काथसे वातसे उपजा कुष्ठका नाश होता है इक्कीसदिनतक यह महान् औषध पीनि
चाहिये ॥ २७ ॥

गुडूच्यादिकाथ ॥

नित्यं छिन्नोद्भवाचूर्णं तस्याः काथसमन्वितम् ॥ पीतं जीर्णं सघृतञ्च पी
तञ्च षाष्टिकं पयः ॥२८॥हन्ति कुष्ठानि सर्वाणि सप्तधातुगतानि च ॥२९॥

और गिलोयके काथके संग गिलोयका चूर्णको नित्य पीवे जर जावे तब घृत सहित साँटि
चावलोंके मांडको पीवे ॥ २८ ॥ यह सातों धातुवोंमें प्राप्त हुए सब कुष्ठोंको नाशता है ॥२९॥

अथ कुष्ठरोगमें लेपविधि ॥

काश्मर्य्यद्वरदघनञ्च कुष्ठं निशाद्वयं काञ्जिककुष्ठमेतत् ॥ लेपे प्रशस्तं
विनिहन्ति कुष्ठं विचर्चिकां तथा विसर्पदोषम् ॥ ३० ॥ पिष्टानि तत्र म
धुकाञ्जिकमूत्रपिष्टलेपेन कुष्ठमपि दुष्टविचर्चिकाञ्च ॥ ३१ ॥ विसर्पदो
षे प्रोक्तानि धावनानि च कारयेत् ॥ सौवीरकरसेनापि धावनं त्रिफला
म्बुना ॥ ३२ ॥ वातिके चैव कुष्ठे च प्रशस्तं कथितं बुधैः ॥ निम्बपत्र
कषाये च घटी मधुककल्कितम् ॥ ३३ ॥ दुग्धेन शीतलेनापि विद्वा
र्याः काथकेन वा ॥ हन्ति कुष्ठं महाघोरं धावनं न प्रशस्यते ॥ ३४ ॥
अग्निमन्थपटोलानि मातुलुङ्गदलानि च ॥ सटीपर्पटकः काथो धावनं
श्लेष्मरोगिणाम् ॥ ३५ ॥ विपादिकां नवनीतेन क्षालयित्वा विद्वां
वर ! ॥ स्वैदयित्वा र्कदुग्धैश्च मधुनैलेन लेपनम् ॥ ३६ ॥

खंभारी, सिंगरफ, नागरमोथा, कूठ, दोनों हृदयी कांजीमें शोधा हुआ लोहा, इन्होंको
पीस कुष्ठे लेप करना श्रेष्ठ कहा है और विचर्चिका, विसर्पदोष, इन्होंका नाश
होता है ॥ ३० ॥ और सीसाकी रजको शहद, कांजी, गोमूत्र इन्होंमें पीस लेप करनेसे
कुष्ठ, दुष्टविचर्चिका, इन्होंका नाश होता है ॥ ३१ ॥ और विसर्प दोषमें कहेहुए धोवनेके
कर्म यहां करने चाहिये और कांजी, त्रिफलाका रस इन्होंसे धोना श्रेष्ठ है ॥ ३२ ॥ यह
इलाज वैद्यजनोंने वातसे उपजे कुष्ठमें श्रेष्ठ कहा है और नीवके पत्तोंका काथमें मुलहटीका
कल्क बना ॥ ३३ ॥ शीतल दूधमें मिला अथवा विदारीकंदके काथमें मिला तिस्से धोवने
से महाघोर कुष्ठका नाश होता है ॥ ३४ ॥ और अरणी, परवल, विजौराके पत्ते, कचूर,
पित्तपापटा इन्होंका काथ बना कफसे उपजे कुष्ठको धोना श्रेष्ठ है ॥ ३५ ॥ और विपादि-
का कुष्ठको नौनी घृतसे संयुक्त कर तहां आकके दूधसे पसोना दिवा शहद और तेलका
लेप करै ॥ ३६ ॥

अथ खदिरआदिकाथ ॥

खदिरनिम्बकदम्बकं तथा ककुभः पाटलिका शिरीषकम् ॥ कु
टजकिंशुकवासुसमोरटः वटकूटं नटपिप्पलिपीलुकम् ॥ ३७ ॥ धव्रमु
दुम्बरवेतसमेकतः कथितपानविधानघृतेन तु ॥ सकलकुष्ठविनाशनका
रकं भवति चेन्दुसमानवपुर्नरः ॥ ३८ ॥

खैर, नींबू, कदंब, अर्जुनवृक्ष, पादलवृक्ष, शिरस, कूडाकी छाल, केशू, बांसा, मोर अ-
र्थात् खैरका भेद, वड, देठूवृक्ष, पीपल, पीलूवृक्ष, ॥३७॥ धव, गूलर, वैत, इन्होंको एक ज-
गहकर काथ बना घृत मिला पीनेसे संपूर्ण कुष्ठोंका नाश होता है और चंद्रमाके समान सुं-
वर शरीर होजाता है ॥ ३८ ॥

अथ आरग्वधआदिकाथ ॥

आरग्वधधातकीकार्णिकारधवार्जुनैः सज्जककिंशुकानाम् ॥ कदम्बनिम्ब
कुटजाटरूपाः खदिरैण युक्ताश्च तथैव मूर्वा ॥ ३९ ॥ मूलानि चैषा
मुपहृत्य सम्यगष्टावशेषे कथितः कषायः ॥ घृतेन तुल्यं प्रतिमानवस्य
निहान्त सर्वाणि शरीरजानि ॥४०॥ कुष्ठानि सर्वाणि विसर्पदद्रुविचर्चि-
का हन्ति नरस्य शीघ्रम् ॥ ४१ ॥

अमलतास, धाय, अमलतास, धववृक्ष, अर्जुनवृक्ष, रालवृक्ष, केशू, कदंब, नींबू, कूडाकी
छाल, बांसा, खैर, मूर्वा, ॥ ३९ ॥ इन्होंकी जड़को ले काथ बना लेवे पीछे अष्टमांश वाकी
रहे तब उतार तिसमें समान भाग घृत मिला खानेसे मनुष्यके शरीरके सब प्रकारके कुष्ठोंका
नाश होता है ॥ ४० ॥ सबप्रकारके कुष्ठ, विसर्परोग, दाद, विचर्चिका इन्होंका शीघ्रही
नाश होता है ॥ ४१ ॥

अथ खदिरादिघृतपानक ॥

खदिरकदरमूर्वावालकं कार्णिकारः कुटजसपरिभद्रारग्वधाश्चेति पिष्टाः ॥
कथितमिततमांशं वै घृतपानमस्य विनिहन्ति सकलान् वै कुष्ठवैसर्पद-
पान् ॥ ४२ ॥

खैर, सफेद खैर, मूर्वा, नेत्रवाला, वडां अमलतास, कूडाकी छाल, नींबू, अमलतास, इ-
न्होंको पीस इन्होंके समान घृत मिला काथ बना पीनेसे संपूर्ण कुष्ठरोग विसर्पदोष इन्होंका
नाश होता है ॥ ४२ ॥

अथ भल्लातक तैल ॥

भल्लाकत्र्यूषणमक्षचूर्णं कुष्ठञ्च गुञ्जालवणानि पञ्च ॥ फल
त्रिकं तैलविपाचितानि चाभ्यञ्जनं हन्ति च दद्रुकुष्ठम् ॥४३॥

भिलावा, त्र्यूषण अर्थात् सूंठ, मिरच, पीपल, बहेडा, कूठ, चिरमठी, पांचोमक, त्रिफला,
इन्होंको समान भाग ले चूर्ण बना तेलमें पकावे पीछे तिस तेलकी मालिस करनेसे दद्रुकुष्ठका
नाश होता है ॥ ४३ ॥

अथ तिलतैल ॥

अश्वत्थमूलं मलिनं समङ्गा निशाद्वयं सर्पपचित्रकञ्च ॥ सशृङ्गराजं कुह
तुम्बिका च कुष्ठं विडङ्गं मगधा च चूर्णम् ॥ ४४ ॥ स्तुत्यर्कदुग्धेन विपा
चितं तु तैलं तिलानां परिपक्वमेतत् ॥ अभ्यञ्जनं चैव नरस्य नूनं दद्रूणि
कण्डूनि विनाशयेच्च ॥ ४५ ॥

कनेरकी जड़, अगर, मंजीठ, दोनों हलदी, सिरसम, चीता, भंगरा, कुटकी, तुंची, कूठ,
वायविडंग, पीपली ॥ ४४ ॥ इन्होंको थोहरके दुग्धमें पका पीछे इसमें तिलोंके तैलको पकावे
इसकी मालिस करनेसे मनुष्यके दद्रुकुष्ठोंका नाश शीघ्रही होता है ॥ ४५ ॥

अथ हरिद्रादितैल ॥

हरिद्रा समङ्गा सुराहं सचित्रविडङ्गानि कृष्णा विशालाम्बु कुष्ठम् ॥ तथा
लाङ्गली चक्रमर्दं च गुञ्जा विशाला तथारिटपत्राणि चैतत् ॥ ४६ ॥
चूर्णं कृतं भावंतं धैतथैतद्गुडेन घर्मे विपच्यम् ॥ हितं लेपने कुष्ठपामावि
चर्चीर्नरस्यातिशीघ्रं निहन्ति ॥ ४७ ॥

हलदी, मंजीठ, देवदार, चीता, वायविडंग, पीपली, इंद्रायण, नेत्रवाला, कूठ, कलहारी,
चिरमठी, इंद्रायण, नींबूके पत्ते ॥ ४६ ॥ इन्होंको समान भाग ले चूर्ण बना गुडके रसमें भाव-
ना दे घाममें धरके पका लेप करना हित है, कुष्ठ, पांग, विचर्चिका इनरोगोंका शीघ्रही
नाश होता है ॥ ४७ ॥

अथ निंवादिघृत ॥

निम्बं पटोलं च किरातकञ्च जाती विशाला सपुनर्नवा च ॥ पयोदला
क्षारसमेव वासा त्रायन्तिका बिल्वककुष्ठयष्टिः ॥ ४८ ॥ संचूर्णितं क्षी
रदधिसमेतं घृतं विपक्वं परिपेचने च ॥ हितञ्च कुष्ठक्षतदद्भुरक्तं पामावि
चर्चीर्निहन्ति कण्डूम् ॥ ४९ ॥

नींब, परवल, चिरायता, जावित्री, इंद्रायण, सांठी, नागरमोथा, लाख, वांसा, त्रायमाण,
कंकुष्ठ, मुलहठी ॥ ४८ ॥ इन्होंका चूर्ण बना दही और दूध मिलावे तिसमें घृत मिला सिद्ध
करे पीछे इसघृतसे सेक करनेसे कुष्ठक्षत, दद्भुरक्त, पांग, विचर्चिका, कंदू, इन्होंका
नाश होता है ॥ ४९ ॥

अथ पांडुरकुष्ठकी चिकित्सा ॥

पित्तञ्चैव गदं भ्रूत्वा वातेनैव समीरितम् ॥ सरक्तञ्च प्रकुपितं कुरुते पा

पण्डुरच्छविम् ॥ ५० ॥ स्तब्धचित्तं विरूपञ्च तस्य च शृणु लक्षणम् ॥
 असाध्यं कुष्ठं साध्यं वा विज्ञेयं तद्भिपग्वरैः ॥ ५१ ॥ ईषद्रक्तं भवेत् पा
 ण्डु सन्निपातोत्थं च जायते ॥ असाध्यं तच्च सर्वाङ्गचित्रं स्निग्धं तदेव
 तु ॥ ५२ ॥ पीतच्छवि पाण्डुररूपमेव उपागतं साध्यतमं प्रतीतम् ॥ सं
 पाचनं शोधनमेव शस्तं विरेचनं रक्तविमोक्षणञ्च ॥ ५३ ॥ वासागुडू
 चीत्रिफलाकरञ्जपटोलनिम्बार्जुनवेतसानाम् ॥ कृष्णासमङ्गसहितं च
 कल्कं पाने हितं चित्रकमण्डले च ॥ ५४ ॥ खदिरवासकनिम्बपटो
 लकैर्धवयवासकमेव फलत्रिकैः ॥ सकलकुष्ठविसर्पकमण्डलं विजय
 ते मनुजस्य च पाण्डुरम् ॥ ५५ ॥ पाठाविडङ्गमगधासुरदारुचित्रं दद्रुघ्नं
 रात्रियुगलं च तथा समङ्गा ॥ कुष्ठं वचामधुकसैन्धवकाञ्जिकेन पिष्टं तु
 मूत्रकरुधिररसेन वापि ॥ ५६ ॥ प्रलेपने चित्रमथैव सिद्धं विनाशमाया
 ति च कण्डुकुष्ठम् ॥ विचार्चिकां नाशयते च कण्डूं विस्फोटमाशु प्रति
 सर्पणानि ॥ ५७ ॥ ऋङ्गराजो हरिद्रा च दूर्वा जाती विडङ्गकाः ॥
 कृष्णास्तिलाश्चित्रकाणि तथैव हरिचन्दनम् ॥ ५८ ॥ मूत्रेण पेपितं त
 तु लेपनं चित्रकुष्ठिनि ॥ हन्ति दद्रूणि सर्वाणि कुष्ठं दद्रूविचार्चिकाः ॥
 ॥ ५९ ॥ न विदाहीनि चाम्लानि वातलानि तथैव च ॥ ज्वरे च प्रो
 क्तानि पथ्यानि तानि चात्र प्रयोजयेत् ॥ व्रणेषु कुष्ठराजीषु हितमेवो
 पचारिणाम् ॥ ६० ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने कुष्ठ
 चिकित्सा नामैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥३९॥ इति कायतत्रं समाप्तम् ॥

वातसे प्रेराहुआ पित्त रोगरूप होके रक्तके संग कुपितहो शरीरके पांडुर अर्थात् कष्टुक
 पीला सहित सफेद वर्णवाला करदेता है ॥ ५० ॥ चित्त दुखी रहे विरूप होजावे ऐसे उल्ल-
 णोंको सुन वह कुष्ठ असाध्य और साध्य दो प्रकारका होता है ॥ ५१ ॥ और जो कष्टुक
 लाठ वर्णसे युक्त पीला वर्णवाला कुष्ठहो वह सन्निपातसे उपजा जानना वह असाध्य होता है
 तिसमें सब अंगमें चिकने २ चित्तगे होते है ॥ ५२ ॥ और जो रूपा तथा पीला वर्ण-
 वाला पांडुरकुष्ठहो वह साध्य होता है तिसमें पाचन और शोधन करना तथा जुलाव दि-
 वानी और फस्त खुलानी श्रेष्ठ है ॥ ५३ ॥ वांसा, गिलोय, त्रिफला, करंजुवा, परवट, नीच,

अर्जुनवृक्ष, वेव, पीपल, मंजीठ, इन्होंका कल्क बना चित्रकर्मण्डल कुष्ठमें पीना हित है ॥५४॥
 और खैर, वांसा, नींबू, परवल, धव, जवांसा, त्रिफला, इन्होंका कल्क बना पीनेसे सवप्रकार-
 रके कुष्ठ विसर्प, मंडल, पांडुरकुष्ठ, इन्होंका नाश होता है ॥ ५५ ॥ और पाठा, वायविडंग,
 पीपल, देवदार, चीता, पुआड, दोनों हलदी, मंजीठ, कूठ, वच, मुलहटी, सेंधानमक, इन्हों-
 को कांजीमें अथवा गोमूत्रमें अथवा रुधिरके रसमें पीसि ॥ ५६ ॥ लेप करनेसे चित्रकुष्ठ-
 का नाश होता है और खाजिवालाकुष्ठ, विचर्चिका, कंडू, विस्फोटक, विसर्प, इन्होंका नाश
 होता है ॥ ५७ ॥ और भंगरा, हलदी, दूब, जीरा, वायविडंग, कालेतिल, चीता, लाल चंदन,
 ॥ ५८ ॥ इन्होंको गोमूत्रमें पीस लेप करनेसे चित्रकुष्ठका नाश होता है और सवप्रकारके
 दाद, दद्रुकुष्ठ, विचर्चिका, विस्फोटक और विसर्प इन्होंका नाश होता है ॥ ५९ ॥ और कु-
 ष्ठरोगमें विदाही, खटा, वातवाला ऐसा भोजन नहीं करना चाहिये और ज्वरमें कहेहुए जो
 पथ्य है वे यहा करने चाहिये और द्रव्योंमें कुष्ठोंमें यही उपचार करना श्रेष्ठ है ॥ ६० ॥
 इति धेरीनिवासिवृधशिवसाहायसन्नुवैद्यरविदत्तशास्त्रयनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने
 कुष्ठचिकित्सानाम एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥

चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥

अथ शालाक्य तंत्र ॥

अथ शिरोरोग चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ अतिभारतियोगेन अतितीक्ष्णोष्णभावतः ॥ विनाभ्य-
 स्नेन वा शैत्यात्पित्तेनातिविशेषतः ॥ १ ॥ क्रिमिदोषेण वा पुंसां जाय-
 ते च शिरोगदः ॥ वातरक्तकफात्पित्तात्पित्तेनापि विशेषतः ॥ २ ॥ सन्नि-
 पातेन विज्ञेयाः क्रिमिजाश्च तथापरे ॥ अर्द्धशीर्षविकारश्च दिनवृद्धि-
 करस्तथा ॥ ३ ॥ वातेन रात्रौ भवते व्यथा च अथानुरस्य व्यथते
 शिरश्च ॥ सौख्यं लभेत् स्वेदनमर्दनेन वातेन सा विडूषणे रुजा वा ॥४॥
 यस्योष्णमहं भवते शिरस्यं घर्मे सतापे च दिने च रात्रौ ॥ स धूमतो वा
 कटुको वलाशे शीतात्सुखं वा निशि स्वास्थ्यमेति ॥ ५ ॥ शीतात्सु-
 खं वा प्रथमश्च तृष्णा सतीवपित्ताद्भवते रुजा च ॥ सूर्घ्योदये वा भव-

ते दिनान्ते भ्रमश्च तृष्णा भवते सुतीव्रा ॥ ६ ॥ सजाड्यमुण्डं भवते च शीतं स्वेदेन युक्तं युगलञ्च नूनम् ॥ सुदृश्यनेत्रं नयते च तद्वा कफे यदीष्टः शिरसो विकारः ॥ ७ ॥ रक्तेन नासापुटकेऽपि जालं निरेति शोषा वदने च तृष्णा ॥ रक्ताक्षमन्या जठरे च यस्य तमाहू रक्तोद्भवशीर्षरोगम् ॥ ८ ॥ मध्यं प्रदूष्य प्रतनोति पीता नाशापरिस्त्रावि सविड्जलञ्च ॥ स जाड्यमोहश्वसनं च यस्य त्रिदोषरोधाद्भवते शिरोऽर्त्तिः ॥ ९ ॥ यस्यातिमात्रं शिरसि प्रतोदो विक्षय्यमानेऽपि च मस्तकान्ते ॥ घ्राणे परिस्त्रावि सरक्तपूयं क्रिमिप्रसूता च शिरोव्यथा च ॥ १० ॥ क्रोधाच्छोकाद्भवेच्चान्या व्यायामेऽतिश्रमेषु च ॥ सा वातेन शिरःपीडा सरुजे च तृष्णा मपि ॥ ११ ॥ अतिलेखनपाठेन तथा सूक्ष्मान्निरीक्षणात् ॥ दूरदृष्टेक्षणेनापि वेदना वातरक्तजा ॥ १२ ॥ नासिकाद्धै व्यथा तस्य व्यथा भूयुगले भवेत् ॥ नीलं कृष्णञ्च पश्येत वेदना मस्तके भवेत् ॥ १३ ॥ न रक्तेन विना पित्तं रक्तं पित्तेन चाल्यते ॥ न पित्तेन शिरोऽर्त्तिः स्यात्पित्तं वातेन चाल्यते ॥ १४ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—अति भारके अत्यंत योगसे अति तीक्ष्ण भावसे मालिस करे विना शीतलता होंसे अत्यंत पित्तसे ॥ १ ॥ अथवा क्रिमि दोषसे पुरुषोंके शिरोरोग होता है और वातरक्त, कफपित्त, पित्त ॥ २ ॥ अथवा सन्निपात, इन्होंसे उत्पन्नहोंनेवाले शिरोरोग क्रिमि जशिरोरोग ऐसे होते है, और अधशिरका विकार तथा दिनके चढनेके समय शिरोरोग होता है ॥ ३ ॥ वातदोषसे उपजे शिरोरोगमें रात्रीमें पीडाहो और पीडित हुआका शिर दूखे और पसीना दिवाना तथा मर्दन करनेसे सुख होवे विष्ठा उतरनेके समय अथवा वृषणस्थानमें दुःखहो वह वातसे उपजी पीडा जाननी ॥ ४ ॥ जिसका शिर गर्म रहे और घांमके संतापमें दिनमें अथवा रात्रीमें धूवांसे शिरमें पीडाहो कडु कफ गिरै वह पित्तसे उपजा शिरोरोग जानना तिसमें रात्रीमें सुख होता है ॥ ५ ॥ और शीतलतासे सुखहो तृषा लगे तीव्रपीडाहो वह पित्तसे उपजी पीडा जाननी और जो सूर्योदयमें अथवा दिनके अंतमें भ्रमहो तृषाहो पीडाहो ॥ ६ ॥ शिरमें जडताहो शीतलहो पसीनासे युक्त दोनों नेत्रहो और सुंदर नेत्रहो वह कफसे उपजा नेत्रविकार जानना ॥ ७ ॥ और रक्तसे उपजे शिरके विकारसे नासिकामांहसे रक्त क्षिर मुखमें तृषा रहै और जिसके कंधा, कंधाके समीप मन्यास्थान, पैर, ये लालहो तिसको

कफसे उपजा शिरोरोग कहते है ॥ ८ ॥ और मध्यमें दूषितहो पीली नासिका होजावे दुर्गंधि सहित जल क्षिरे जडताहो मोहहो श्वासहो वह त्रिदोषसे उपजी शिरकी पीडा जाननी ॥ ९ ॥ जिसके शिरमें अत्यंत चभकाहो और मस्तक फटाजावे नासिकासे रक्त और राध क्षिरे वह क्रिमियोंसे उपजी शिरकी पीडा जाननी ॥ १० ॥ और क्रोध, शोक, कसरत, अत्यंत परिश्रम इन्होंनेसे उपजी हुई पीडा वातके कोपसे होती है तहां चभका होता है ॥ ११ ॥ और अत्यंत लिखना, पढना, सूक्ष्म देखना, दूरसे दृष्टि देके देखना इन्होंनेसे उपजी पीडा वात रक्तके कोपसे जाननी ॥ १२ ॥ तिसकी आधी नासिकामें और दोनों भ्रुकुटियोंको आधे भागमें पीडाहो नीला और काला वर्ण सरीखा दीखै मस्तकमें पीडाहो ॥ १३ ॥ और रक्तके विना पित्त नहीं होती है और रक्त, पित्तसे चलायमान होता है और पित्तसे शिरमें पीडा नहीं होती है पित्त वातसे चलायमान होता है ॥ १४ ॥

तस्माद्दक्ष्याम्युपचारं शृणु भेषजलक्षणम् ॥ स्वेदःप्रलेपनं नस्यं पानाभ्यङ्गश्च मर्दनम् ॥ १५ ॥ स्वेदनं वातकफजे चाभिघाते तथा पुनः ॥ पित्तजे रक्तजे वापि न कुर्व्यात्स्वेदनं तयोः ॥ १६ ॥ रक्तजे च शिरा वेध्या पित्तजे वापि कुत्रचित् ॥ कोकिलाख्या च तर्कारी कटुका निम्बपत्रकैः ॥ १७ ॥ शोभाञ्जनकपत्रैस्तु क्वाथं वा तेन स्वेदयेत् ॥ अग्नीषाश्च प्रलेपेन सौख्यं चास्य प्रजायते ॥ १८ ॥ संशीतपरिषेकैश्च यष्टीमधुकचन्दनैः ॥ केसरैर्मातुलुङ्गैश्च पित्तजे शीतलेपनम् ॥ १९ ॥ कद्म्वार्जुनसिन्धुश्च लेपनार्थं भिषग्वर ! ॥ गुडेन नागरा वापि पथ्यां वापि गुडेन वा ॥ २० ॥ गुडशोभाञ्जनरसैर्नस्ययोगात्पृथक् पृथक् ॥ नस्येन वस्तमूत्रेण शिरोऽर्त्तिश्चोपशाम्यति ॥ २१ ॥ मरिचं पथ्या कटुफलं मूत्रेणोष्णोदकेन वा ॥ नस्यं कफोद्भवे घोरे शिरोरोगे भिषग्वर ॥ २२ ॥ वचामधुकसारं वा मूलं वा गिरिकर्णिका ॥ नस्यप्रयोगे विहितं सन्निपाते शिरोरोगे ॥ २३ ॥ बन्ध्याकर्कटकीमूलं पिष्टमूत्रेण वारिणा ॥ मितं नस्ये प्रयुञ्जीत क्रिमिजे च शिरोरोगे ॥ २४ ॥

इसवास्ते इसके उपचारको कहते है औषधोंको सुन पसीना दिवाना लेप करना, नस्य दिवानी पान कराना मालिस, मर्दन कराना ॥ १५ ॥ और वात कफसे उपजे तथा चोट आदिसे उपजे शिरोरोगमें पसीना दिवावे और पित्तसे तथा रक्तसे उपजे पसीना नहीं दिवावे ॥ १६ ॥ रक्तसे उपजे शिरोरोगमें नस विधावे और कहींक पित्तसे उपजेमेंभी नस विधावानी श्रेष्ठ है और कंकोल,

अरणी, कुटकी, नींबूकेपत्ते, ॥ १७ ॥ सहैजनाके पत्ते, इन्होंका काथ बना तिस्से पसीना दिवावे अथवा इन्होंके लेप करनेसे सुख होता है ॥ १८ ॥ और पित्तके शिरोरोगमें मुलहठी महुआवृक्ष, चंदन, इन्होंके शीतल काथसे परिसेक करै और विजौराकी केशरसे शीतल २ लेपकरै ॥ १९ ॥ और हेउत्तमवैद्य ! कदंब, अर्जुनवृक्ष, सेंधानमक, इन्होंका लेप करना श्रेष्ठ है और गुडके संग सूंठ तथा हरडैका लेप श्रेष्ठ है ॥ २० ॥ और गुड सहैजनाका रस इन्होंकी पृथक् २ नस्य देनी श्रेष्ठ है और बकराके मूत्रकी नस्य देनेसे शिरकी पीडाका नाश होता है ॥ २१ ॥ और कफसे उपजे घोर शिरोरोगमें मिरच, हरडै, कायफल, इन्होंको पीस गरम २ गोमूत्रके संग नस्य देना, श्रेष्ठ है ॥ २२ ॥ और वच, महुआ, मूली, अमल-तास, इन्होंको नस्यमें देनेसे सन्निपातसे उपजा शिरोरोगका नाश होता है ॥ २३ ॥ और वांझ ककोडीकी जड़को पीस गरम जलके संग नस्य देनेसे उपजा शिरोरोगका नाश होता है ॥ २४ ॥

अथ पड्विन्दुनामकतैल ॥

भृङ्गराजरसं चैकं द्विभागं काञ्जिकेन च ॥ शोभाञ्जनं भागत्रयं सर्वं त
त्र विनिक्षिपेत् ॥ २५ ॥ सौवीरकरसं पञ्च षड्भागं तुम्बिकारसम् ॥
शुण्ठी सैन्धवमल्लीका पटोलं वासकं शिवा ॥ २६ ॥ अभया सुरसा
चैव तैलञ्च चतुरंशकम् ॥ पाचितं तत्तु नस्येन योजयेच्च षड्विन्दुक
म् ॥ २७ ॥ तथैव मस्तकाभ्यङ्गे हितं स्यात्कर्णपूरके ॥ हितं वातादिजे
रोगे शिरोऽर्त्तौ क्रिमिजे तथा ॥ २८ ॥

भंगराका रस एक भाग, कांजी दो भाग, सहैजना ३ भाग ॥ २५ ॥ वेरोंका रस पांच भाग तुंबीका रस ६ भाग ऐसे इन्होंको एक जगह मिला सूंठ, सेंधानमक, अमली, परवल, वांसा, हलदी, ॥ २६ ॥ हरडै, तुलसी, इन्होंको मिला पीछे इनसब रसोंसे चतुर्थांश तेल मिला तिसको पकाके फिर तिस तेलकी छह बूंद नस्यमें देनेसे ॥ २७ ॥ तथा मस्तकपे लेप करनेसे अथवा कानमें पूरनेसे वातादिक शिरोरोग तथा क्रिमियोंसे उपजा शिरका रोगका नाश होता है ॥ २८ ॥

अथ विंदुत्रयतैल ॥

करञ्जवीजस्य विभीतकानां पुटेन तैलं परिस्रुत्य धीमन् ॥

विन्दुत्रयं नस्यविधौ प्रयोज्यं जघान कुष्ठं क्रिमिजं विकारम् ॥ २९ ॥

करंजुवाके बीज, बहेडा, इन्होंको पुटपाकमें घर तेल निकास तिसकी तीन बूंद नस्यमें
उपजा विकार इन्होंका नाश करता है ॥ २९ ॥

अथ कुष्ठादिघृत ॥

कुष्ठं च यष्टिमधुकं च नीत्वा पटोलजातीसुरसारसञ्च॥विपाचितं तन्मव
नीतकञ्च घृतेन नूनं च सरक्तपित्ते ॥ ३० ॥ सशर्करायुक्तमिदं दिवा
च गव्यं प्रष्टद्धप्रभवे च दोषे ॥ ३१ ॥

और कूठ, मुलहटी, परवल, जावित्री, ब्राह्मीका रस, नौनी घृत इन्होंको पकालेवे पीछे
इसघृतकी नस्य रक्तपित्तसे उपजे शिरके रोगमें देवे और दिनके बढनेके समय जो दर्द वं-
ढाता है ऐसे रोगमें इसघृतमें खांड मिलाके नस्य देना हित है ॥ ३० ॥ ३१ ॥

अथ लाक्षादितेल ॥

लाक्षारसं चन्दनयष्टिकानां पटोलधात्रीफलशर्कराणाम् ॥ दधि सदुग्धं
नवनीतकं च विपाचिते नस्यविधौ प्रयुज्यते ॥ ३२ ॥ भूदोषशङ्कुक्षतज
क्षये वा दिनादित्द्वया प्रभवेऽपि दोषे ॥ ३३ ॥

लाखका रस, चंदन, मुलहटी, परवल, आंवला, खांड, दही, दूध, नौनीघृत इन्होंको
पका नस्य देनेसे ॥३२ ॥ भूदोष, कनपटीस्थानका दर्द, चोटसे तथा क्षयरोगसे उपजा तथा
दिनवृद्धिके अनुसार शिरोरोग इन्होंका नाश होता है ॥ ३३ ॥

अथ कुंकुमादिघृत ॥

कुङ्कुमं यष्टिमधुकं कुष्ठं च शर्करासमम् ॥ पक्कञ्च नवनीतेन घृतं नस्ये
प्रयोजयेत् ॥ ३४ ॥ नश्यन्ति पित्तजा रोगा दिनद्वयोपवर्जनात् ॥
अर्द्धशीर्षविकारश्च प्रशमं याति सत्वरम् ॥ ३५ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतो
त्तरे तृतीयस्थाने शिरोरोगचिकित्सा नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥

और केशर, मुलहटी, कूठ, खांड, नौनीघृत इन्होंको समान भाग ले पकाके नस्यदेनेसे
॥ ३४ ॥ पित्तसे उपजे तथा दिनवृद्धि शिरोरोग अधशिरा इन्होंका शीघ्रही नाश होता है
॥ ३५ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्नुवैद्यरविदत्तशास्त्रयनुवादितहारोतसंहिताभाषायां
तृतीयस्थाने शिरोरोगचिकित्सानामचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥

एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

अथ भूदोष लक्षण ॥

आत्रेय उवाच ॥ अतिपठनशीलस्य सूक्ष्मवस्त्रेक्षणेन वा ॥ दूरालोकेन

चोष्णेन भ्रूदोषश्रोपजायते ॥ १ ॥ रक्तवाताश्रितो दोषः पित्तेन सह मू
र्च्छितः ॥ भ्रूव्यथा च प्रज्वति नासावंशोद्भवा शिरा ॥ २ ॥ व्यथते
चोष्णवेलासु शीतेन स्याद्विशेषतः ॥ नेत्रमग्नेर्नीलपीतमण्डलानि च
पश्यति ॥ ३ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—अत्यंत पटनेसे सूक्ष्म वस्त्र आदिके दीखने दूरसे देखनेसे गरम
वस्तुके सेवनेसे भ्रूदोष रोग होजाता है ॥ १ ॥ रक्त वातके आश्रयहुआ दोषपित्तके संग
मूर्च्छित हो भ्रुकुटियोंमें पीडाकर देता है और नासिकाकी टंडीमें होनेवाली नस ॥ २ ॥ पी
डित होती है गरमीके समय पीडा होती है और टंडकमें ज्यादा पीडा होती है और नेत्रोंके
मध्यमें नीले और पीले मंडल दीखे ॥ ३ ॥

भ्रूदोषकी चिकित्सा ॥

तस्यादौ च क्रियां कुर्व्याच्छिरा वेध्या प्रयत्नतः ॥ पूर्वोक्तं स्वेदनं का
र्यं नस्ये पट्टुविन्दुकादिकम् ॥ ४ ॥ देवदारु रजनी घनं सठी पुष्करं कु
टजवीजमागधी॥कुष्ठरोध्रचविकायवासकं काथितं च पुनरेव विस्तृतम् ॥
॥ ५ ॥ तत्र गुग्गुलं विनिक्षिपेत्पुनः शुण्ठिसैन्धवफलात्रिकं हितम् ॥ चू
र्णितं दधिपयोविमिश्रितं पाचितं च नवनीतकं च तत् ॥ ६ ॥ सिद्धमे
व विदधीत शीतलं शर्करायुतमिदं हितनस्यम् ॥ नस्यकर्म शिरसो रुजा
पहं भूललाटजुजशङ्खमूलकम् ॥ ७ ॥ शीर्षरोगमपि चार्द्धशीर्षकं तो
दने च विहितेन केवलम् ॥ कर्णरोगमपि वारयत्यपि तैलञ्च शिरोरोगहरं
परम् ॥ ८ ॥ ताम्बूलपत्रस्य रसं विडङ्गं सिन्धुद्रवं हिङ्गुगुडेन युक्तम्॥
जलेन पितं विहितं च नस्यं भ्रूशङ्खदोषांश्च क्रिमीन्निहन्ति ॥ ९ ॥ इ
त्यात्रेयजापिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने भ्रूदोषचिकित्सा नामैकचत्वा
रिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

इस रोगकी आदिमें यतनसे नाडी बांधनेका कर्म करे और पहले कहाहुआ पसीनाका
कर्म करवावे और नस्यमें पट्टुविन्दुक आदि तेलको देवे ॥ ४ ॥ और देवदारु, हल्दी, नागर
मोथा, कचूर, पौहकरमूल, कूडाका बीज, पीपल, कूठ, लोव, चव्य,जवांसा इन्होंनेका काथ बना
तिसको छनि ॥ ५ ॥ पीछे तिसमें गुग्गुल, संठ, सैधानमक, त्रिफला इन्होंनेको चूर्ण मिला दही
दूध ये मिला और नैनीघृत मिला ॥ ६ ॥ पीछे इसको पकावे सिद्ध होजावे तब शीतलकर

खांड मिला इसकी नस्य देनेसे शिरके रोगका नाश और भ्रुकुटि, मस्तक, भुजा, कनपटीका स्थान ॥ ७ ॥ शिरोरोग अधशिराका रोग इन सब रोगोंकी पीडाका नाश होता है और इसीप्रकारसे सिद्ध कियाहुआ तेलसे कानके रोगकी पीडा दूर होती है और शिरके रोग, हरनेमें अतिश्रेष्ठ है ॥ ८ ॥ और नागर पानका रस, वायविडंग, संधानमक, हींग, जुई इन्होंको जलमें पीस नस्य देनेसे भ्रुकुटि, कनपटी इनकी पीडा क्रिमियोंसे उपजी शिरकी पीडा, इन्होंका नाश होता है ॥ ९ ॥ इति वेरीनिवासि० हारीतसंहिताभाषायां भ्रूदोषचिकित्सानाम एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥

अथ नासारोग लक्षण ॥

आत्रेय उवाच ॥ नासारोगो भवेद्धीमन् ! क्रिमिजो दोषजः पुनः ॥ रक्त जश्च भिषक्छ्रेष्ठ लक्षणञ्च शृणुष्व मे ॥ १ ॥ वाताच्छिरोऽर्त्तिः शोफश्च सदोषे वातपैत्तिकम् ॥ कफजे सघनं शीतं क्रिमिजेऽस्तगुपवाहनम् ॥ २ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे बुद्धिमन् वैद्य! नासिकाका रोग क्रिमिज और दोषज तथा रक्तज होता है तिन्होंके लक्षणोंको सुन ॥ १ ॥ वातसे उपजेमें शिरमें पीडा होती है और वातपित्तसे उपजेमें शोजा होता है कफके नासा रोगमें करडाई और ठंडकपना होता है क्रिमिसें उपजे नासारोगमें रुधिर बहता है ॥ २ ॥

अथ नासारोगचिकित्सा ॥

नासापाके गुडशुण्ठ्या वातिके नस्यमेव च ॥ शर्कराघृतयष्ट्या च पैत्तिके नस्यमेव च ॥ ३ ॥ श्लैष्मिके सुरसावासारसेन विहितञ्च तत् ॥ विडङ्गहिङ्गुमगधाः क्रिमिदोषे हिता मताः ॥ ४ ॥ रक्तजेऽस्तग्विरेकश्च शिरोरोगस्योपक्रमे ॥ ५ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने नासारोगचिकित्सानाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥

वातके नासापाक रोगमें गुड, स्रंठ इन्होंकी नस्य देवै पित्तके रोगमें खांड, घृत, मूलहठी, इन्होंकी नस्य देनी श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ और कफके नासारोगमें तुलसी, वांसा, इन्होंके रसकी नस्य देनी श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ और क्रिमिदोषके रोगमें वायविडंग, हींग, पीपली, इन्होंकी नस्य देनी श्रेष्ठ है रक्तसे उपजे नासारोगमें रुधिरकी फस्त खुलावे शिरोरोगके अनुसार कर्म करै ॥ ५ ॥ इति वेरीनि० हारीतसंहिताभाषायां नासारोगचिकित्सानामद्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥

त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥

अथ इन्द्रलुप्तमरोगका लक्षण ॥

आत्रेय उवाच ॥ ॥ केशघ्नस्य चिकित्सां तु शृणु हारीत ! साम्प्रतम् ॥
रूक्षं सपाण्डुरं वातात्पित्ताद्रक्तं सदाहकम् ॥ १ ॥ कफान्वितं भवेत्
स्निग्धं रक्तात् पाकं व्रजन्ति तत् ॥ सन्निपातेन सदृशं जायते सर्वलक्ष
णम् ॥ २ ॥

आत्रेयजी कहते हैं— हे हारीत ! अब इन्द्रलुप्त अर्थात् वालोंका नाश होता है तिसकी चिकित्सा कहते हैं वातदोषसे रूपा और पांडुरवर्ण होजाता है पित्तसे रक्तवर्ण और दाह होती है ॥ १ ॥ कफसे चिकना वर्ण होता है और रक्तदोषसे स्थान पक जाता है सन्निपातके इन्द्रलुप्तमें सब लक्षण मिलते हैं ॥ २ ॥

इन्द्रलुप्तमरोगकी चिकित्सा ॥

गुडेन सुरसाशुण्ठीमातुलुङ्गरसेन तु ॥ केशघ्ने वातसम्भूते धावनञ्च प्रश
स्यते ॥ ३ ॥ त्रिफलावचारोहीतं गुडेनापि प्रपेषितम् ॥ धावनं कफस
म्भूते चैन्द्रलुप्ते प्रशस्यते ॥ ४ ॥ पैत्तिके च हितं दुग्धं नवनीतान्वितं तथा ॥
सिताशिवाफलं यष्टी पैत्तिके धावनं मतम् ॥ ५ ॥ भृङ्गराजरसं ग्राह्यं शृङ्गेरर
संतथा ॥ सौवीरकरसेनापि तिलान् पिष्ट्वा प्रलेपनम् ॥ पश्चात्कार्यं पू
रुषेण स्नानमुष्णेन वारिणा ॥ ६ ॥ धवार्जुनकदम्बस्य शिरीषमपि रोहि
तम् ॥ काथमेषां शिरोदद्रं शमयेदिन्द्रलुप्तकम् ॥ ७ ॥ कुरवकस्य पुष्पे
ण जपायाः कुसुमेन च ॥ घृष्टस्य चैन्द्रलुप्तस्य कृतमेव निवारणम् ॥ ८ ॥
पैत्तिकानि च लिङ्गानि दृष्ट्वा दुग्धेन धावनम् ॥ शीतलानि प्रदेयानि पै
त्तिकेन विधीयते ॥ ९ ॥ धत्तूरपत्राणि च मागधीनां निशाविशालगृ
हधूमकुष्ठम् ॥ घृतेन युक्तञ्च जलेन पिष्टं शिरःप्रलेपे क्षतवारणं स्यात्
॥ १० ॥ पित्तकृते दोषयुते च रोगे पटोलपत्रं पिचुमन्दकं वा ॥ तथा
मलक्याः फलमेव पिष्ट्वा घृतेन खण्डेन प्रलेपनञ्च ॥ ११ ॥ निवा
र्यते मस्तकजं क्षतञ्च शिरोऽस्त्तिसंघान्विनिहन्ति चैतत् ॥ गजेन्द्रदन्त

स्य मर्षां गृहीत्वा प्रलेपनं वा नवनीतकेन ॥ १२ ॥ तिलार्कभङ्गलातकद
ग्धमावक्षारस्य लेपो नवनीतकेन ॥ सर्पस्य क्षारस्य तथा प्रयोगः खल्ला
टके केशचयं करोति ॥ १३ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्था
ने इन्द्रलुप्तचिकित्सानामत्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥

वातसे उपजे इन्द्रलुप्त रोगमें गुड, तुलसी, स्रंठ, विजौराका रस, इन्होंका लेप करना चाहि-
ये ॥ ३ ॥ और त्रिफला, वच, बहेडा, गुड, इन्होंको पीस कफसे उपजे इन्द्रलुप्तको धोवना
श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ और पित्तके इन्द्रलुप्तमें दूध, नौनीघृत, मिसरी, आंवला, मुलहठी, इन्होंको
पीस धोना श्रेष्ठ है ॥ ५ ॥ और भंगराका रस, अदरकका रस, कांजीका रस, इन्होंमें तिलोंमें
पीस लेप करने पीछे गरम जलसे स्नान करे ॥ ६ ॥ और धव, अर्जुनवृक्ष, कदंब, शिरस,
बहेडा, इन्होंका काथ बना धोनेसे शिरके दाद, इन्द्रलुप्त इन्होंकी शांति होती है ॥ ७ ॥ और
रक्तकोरंटा, जासवंद, इन्होंके पुष्पोंको घिस लेप करनेसे इन्द्रलुप्तका नाश होता है ॥ ८ ॥
और पित्तसे उपजे इन्द्रलुप्तमें दूधसं धोवना श्रेष्ठ है और शीतल वस्तु देवे पित्तको करनेवाले
इलाज नहीं करे ॥ ९ ॥ और धतुराके पत्ते, पीपल, हलदी, इंद्रायण, घरका धूवा, कूठ, इन्हों-
को जलमें पीस घृतमें मिला शिरसे लेप करनेसे इन्द्रलुप्तक नाश होता है ॥ १० ॥ और पित्त
दोषसे उपजे इन्द्रलुप्त रोगमें परवलके पत्ते, नींबू, आवलाका फल, इन्होंको पीस घृत और
खांड मिला लेप करनेसे ॥ ११ ॥ मस्तकसे उपजा केशनाशकरोग दूर होता है और यह लेप शिर
की पीडाओंके समूहोंका नाश होता है और हस्तीदातको फूफि तिसकी स्याहीको नौनीघृ-
तमें मिला लेप करनेसे ॥ १२ ॥ और तिलआक, मिलावा, उडद इन्होंको दग्ध करि इन्हों-
के खारको नौनीघृतमें मिला लेप करनेसे तथा विधिसे निकासाहुआ सर्पके खारका लेप
करनेसे गंगाशिरसे केशोंके समूह बढजाते है ॥ १३ ॥ इति वेरीनिवासिचुधशिवसहायसन्नु-
वैद्यरविदत्त० हारीतसंहिताभाषायां इन्द्रलुप्तचिकित्सानाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥

चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥

अथ कर्णरोगलक्षण ॥

आत्रेय उवाच ॥ शेषेण वा तोयभृतेन वापि मलेन वा चाति भवेद्गुजा
च ॥ उच्छ्वासरोधाद्भवते तथापि वातादिकैर्वा कुपितैरथापि ॥ १ ॥ सं
सर्गदोषैरपि सर्वदोषैः क्रिमिद्रणेनापि तथैव चान्या ॥ संजायते कर्ण

रुजा नरस्य शृणोति तेनापि बहुस्वनांश्च ॥२॥ निःस्वानमेघध्वनिदन्तश
 व्दान् शूलं सदाहश्च शिरोव्यथा च ॥ वेणुस्वनं वत्स ! शृणोति सर्वं पित्ते
 न तं विद्धि जिषग्वरिष्ठ ! ॥ ३ ॥ तथाच मूर्च्छां प्रतनोति शब्दं मेघस्व
 नं वा कफजे शृणोति ॥ ४ ॥ क्रिमिदोषे स्रवेत्पूर्यं सरक्तं वाति सत्त
 म ! ॥ तथाचैवाभिघातेन जायते तीव्रवेदना ॥ ५ ॥ क्षतेन पूयं स्रवते वा
 ल्याद्भवति चापरः ॥ तश्चापि लूतिदोषेण जायते कर्णाजा रुजा ॥ ६ ॥

आत्रेयजी कहतेहैं—कानमें प्राप्तहुआ जल शेष रहजावे और मैलहो तिससे अति पी-
 डा होनेसे ॥ १ ॥ ऊंचा श्वासके रोकनेसे तथा वातादिक दोषोंके कुपित होनेसे
 और संसर्गदोषोंसे संनिपातसे अथवा क्रिमियोंसे उपजा व्रण होनेसे मनुष्यके कानमें
 अत्यंत पीडा होजाती है तिससे बहुतसे शब्दोंको सुनता है ॥ २ ॥ शब्दोंको मेघके
 गर्जनके समान और दांतोंके चावनेके शब्दके समान सुनै शूलहो दाहहो शिरमें पी-
 डाहो वह सब कुछ वीनके शब्दके समान सुनता है हे उत्तम ! तिसरोगको पित्तसे उपजा जान
 ॥ ३ ॥ और शब्द सुननेसे मूर्च्छासीहो और मेघके गर्जनेसरीखा शब्द सुनै ये कफसे उपजा
 कर्णरोगके लक्षण है ॥ ४ ॥ और क्रिमिदोषसे उपजे कर्णरोगमें रक्त सहित राघ क्षिरै और
 चोटसे उपजेमें तीव्र पीडा होती है ॥ ५ ॥ क्षतसे उपजेमें राघ क्षिरै और वालकअवस्थामें
 लूतिरोगसे उपजे कर्णरोगमें पीडा उत्पन्न होती है ॥ ६ ॥

अथ कर्णरोगकीचिकित्सा ॥

न कर्णरोगे जलपूरणञ्च न चूर्णमेतत्कथितं विधिज्ञैः ॥ तैलं हितं स्वे
 दनमेव कर्णे सवाप्यविन्दुश्च हितो मतश्च ॥ ७ ॥ सैन्धवं समुद्रफेनश्च सू
 क्ष्मचूर्णं च कारयेत् ॥ सौवीरकरसेनापि वातिके कर्णपूरणम् ॥ ८ ॥ आ
 र्द्रसौवीरस्य रसं शुण्ठीसैन्धवगुग्गुलम् ॥ माषकुलमाषरसेन तैलं पक्वाति
 चोष्णकम् ॥ ९ ॥ कटुतुम्बेन धार्येत कर्णरोगे प्रशस्यते ॥ १० ॥ य
 क्षीमधुकुष्ठमरिष्टपत्रं निशा विशालासुमनःप्रवालाः॥विपाचितं कर्णभवे
 च शूले सपैत्तिके वा घृतमेव शस्तम् ॥ ११ ॥ ब्राह्मीरसं सैन्धवकं विडङ्गं
 सभृङ्गराजस्य घृतेन युक्तम् ॥ तथैव सौवीरसञ्च पथ्या स्मृतञ्च वस्त्रं
 परिपूर्णमेतत् ॥ १२ ॥ हितं भवेत्तच्छ्रुतिपूरणाय पूयं सरक्तं क्रिमिजं

निहन्ति ॥ १३ ॥ सर्वे प्रोक्ताः शिरोरोगास्तैलानि च घृतानि च ॥ जा
त्यादिकान्वा युञ्जीत शिरोरोगविदांवरः ॥ १४ ॥ वातहारीणि पथ्यानि
विदाहीनि गुरूणि च ॥ १५ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीय
स्थाने कर्णरोगचिकित्सा नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥

कानके रोगमें जल पूरना और चूर्ण पूरना हित नहीं कहा है कानरोगमें तेल पूरना और
पसीना दिवाना हित है और फांभ दिवानेका कर्म हित कहा है ॥ ७ ॥ और सेंधानमक,
समुद्रभाग, इन्होंका वारीक चूर्ण बना कांजीके रसमें मिला वातसे उपजे कानके रोगमें हित है
॥ ८ ॥ और आलेवेरोंका रस, सूँठ, सेंधानमक, गूगल, उडदोंके वाकले, इन्होंमें तेलको
पका गरम गरम ॥ ९ ॥ तिस तेलके पूरनेसे कानका रोग दूर होता है और इस तेलको कडु-
ई तुंबीमें घालके धरै ॥ १० ॥ और मुलहटी, कूठ, निंबके पत्ते, हलदी, इंद्रायणके पुष्प
तथा कोमल २ पत्ते, इन्होंमें घृतको पका पित्तसे उपजी कर्णशूलमें पूरण करना श्रेष्ठ है
॥ ११ ॥ और ब्राह्मीका रस, सेंधानमक, वायविडंग, भंगराका रस, घृत, कांजीका रस,
हरई, इन्होंको पका पीछे वस्त्रमांहेके छान कानमें पूरनेसे ॥ १२ ॥ क्रिमियोंसे उपजी
कानमें रक्तसहित राधका नाश होता है और कानमें पूरण करनेमें यह हित कहा है
॥ १३ ॥ और जितने शिरके रोग कहे है तिन्होंमें तेल और घृतमें सिद्ध कियेहुए औषधोंको
वरतै ॥ १४ ॥ और वातको हरनेवाले विदाही तथा भारे ऐसे भोजन पथ्य कहे है ॥ १५ ॥
इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्था-
ने कर्णरोगचिकित्सानाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥

पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४५॥

अथ नेत्ररोगकी चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ उष्णातिक्षारकटुकैरभिघातेन वा पुनः ॥ सूक्ष्मवस्त्रेक्ष
णेनापि दोषाः कुप्यन्ति नेत्रजाः ॥ १ ॥ सहजा ये पराजेया वक्ष्यामि
शृणु लक्षणम् ॥ रूक्षः कण्डुश्च तोदश्च शुष्कशीतास्रसन्ततिः ॥ २ ॥
वातिकं तं विजानीयात्पैत्तिकं शृण्वतः परम् ॥ ३ ॥ सरक्ते सदाहे नेत्रे
उष्णास्त्रावश्च पैत्तिके ॥ शोफकण्डू सन्निपाते शीर्तजड्ये कफात्मके ॥

॥ ४ ॥ द्वन्द्वजो मिश्रलिङ्गैश्च सर्वैस्तैः सान्निपातिके ॥ एतद्विलक्षणं ज्ञा
त्वा चोपचारं शृणुष्व मे ॥ ५ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—गरम, अतिखारा, चर्चरा ऐसे भोजनोंसे तथा अभिघातसे और सूक्ष्म वस्त्र मांहके देखनेसे नेत्रमें रहनेवाले दोष कुपित होजाते हैं ॥ १ ॥ और जो स्वभावसेही उत्पन्न होतेहैं वे कष्ट साध्य होते हैं अब तिन्होंके लक्षणोंको सुन नेत्ररूखाहों खाजिहो, चभकाहो शुष्कहो और शीतला रुधिर झिरै ॥ २ ॥ वह वातका नेत्ररोग जानना अब पित्तके लक्षणोंको सुन ॥ ३ ॥ पित्तसे उपजे नेत्ररोगमें गरम २ जल झिरै और लाल तथा दाहसहित नेत्र हैं कफके नेत्ररोगमें शीतलता और जडताहो सन्निपातके नेत्ररोगमें शोभा और खाजि होती है ॥ ४ ॥ और दो दोषोंसे उपजे नेत्ररोगमें मिलेहुए लक्षण होते हैं और सन्निपातके नेत्ररोगमें सब लक्षण मिलते हैं ऐसे विलक्षण रोगको जानके तिसकी चिकित्साको मुझसे सुन ॥ ५ ॥

अथ नेत्ररोगकी चिकित्सा ॥

शुण्ठीसुराहसुरसाः सह काञ्जिकेन चोष्णेन धावनमिदं सह पैत्तिके
च ॥ श्लेष्मोद्भवे त्रिफलकल्कमिदं समूत्रं प्रशस्तमन्धैः कथितं त्रिपुग्वै
स्तथा ॥ ६ ॥ शुण्ठी सठी च रजनी त्रिफला सनिम्वा पत्राणि सैन्ध
वयुतानि तुषाम्लकेन ॥ शस्तं वदन्ति नयनेषु ससन्निपाते रक्तोद्भवे च
सरुजे च तथाच शस्तम् ॥ ७ ॥ फलत्रिकं चारुनिशासु धूमो वचासु
वर्षाभावसैन्धवेन ॥ प्रलेपनं श्लेष्मभवे विकारे सवातिके वा हितमेव श
स्तम् ॥ ८ ॥ शुण्ठीसैन्धवतक्रेण ताम्रभाण्डे विघर्षितम् ॥ अपामार्गस्य
मूलं वा मूलं धत्तूरकस्य वा ॥ ९ ॥ अञ्जनञ्च हितं तेषां वातनेत्रामया
पहम् ॥ १० ॥ दुग्धोत्पन्नं नवनीतं यष्टी निम्बस्तिलाश्च संयोज्याः ॥
त्रिफला गुडसंयुक्ता लेपनं कफनेत्रजरोघ्नम् ॥ ११ ॥ शुण्ठी सैन्धव
तुत्थं मागधिका ताम्रभाजने घृष्टम् ॥ दध्ना घृतेनाञ्जनकं निहन्ति सर्वा
श्च नेत्रगदान् ॥ १२ ॥ वातपित्तकफदोषसम्भवान्नेत्रयोर्बहुव्यथां हरते
क्षणात् ॥ एक एव हरति प्रयोजितः शिशुपल्लवरसः समाक्षिकः ॥ १३ ॥

और संठ, देवदार, तुलसी, इन्होंको कांजीमें काथ बना गरम २ से पित्तके उपजे नेत्रो
गमें नेत्रोंका धोवना श्रेष्ठ है और कफसे उपजे नेत्ररोगमें त्रिफलाके कल्कको गोमूत्रमें पका
धोवना श्रेष्ठ है ऐसे अन्य वैद्योंनेभी कहा है ॥ ६ ॥ और संठ, कचूर, हलदी, त्रिफला,

नींबके पत्ते, सेंधानमक, इन्होंको जवोंकी कांजीमें सिद्ध करि सन्निपातसे उपजा नेत्ररोग तथा रक्तसे उपजा हुआ पीडा सहित रोगमें धोवना श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ और त्रिफला, दासहलदी, वरका धूवा, वच, सांठी, सेंधानमक, इन्होंका लेपकरनेसे कफसे उपजा अथवा वातसे उपजा नेत्ररोग दूर होता है ॥ ८ ॥ और स्रुंठ, सेंधानमक, इन्होंको तांबाके पात्रमें तक्रके संग विस अंजन घाले अथवा ऊंगाकी जड़ तथा धतूराकी जड़को विस ॥ ९ ॥ अंजन घालनेसे सब प्रकारके नेत्ररोगोंका नाश होता है ॥ १० ॥ और दूधमें उत्पन्न हुआ नौनीघृत, मुलहटी, नींब, तिल, त्रिफला, गुड, इनसवोंको मिला पीसि लेप करनेसे उपजा नेत्ररोगका नाश होता है ॥ ११ ॥ और स्रुंठ, सेंधानमक, नीलाथोता, पीपली, इन्होंको तांबाके पात्रमें घिस दही और घृतके संग नेत्रमें आंजनेसे नेत्रके सब रोगोंका नाश होता है ॥ १२ ॥ और वात, पित्त, कफ, इन-दोषोंसे उपजे हुए नेत्ररोगकी बहुतसी पीडाका नाश शीघ्रही होता है और एक सहैजनाके पत्तोंका रसमेंही शहद मिला नेत्रोंमें आंजनेसे सब नेत्ररोग दूर होते हैं ॥ १३ ॥

अथ नेत्रके फूलेकी चिकित्सा ॥

मिश्रधाहारविहारैस्तु नेत्रे पुष्पञ्च जायते ॥ प्रथमं सुखसाध्यं स्याद्विती-
यं कष्टसाध्यकम् ॥ १४ ॥ तृतीयं शस्त्रसाध्यं तु चतुर्थं तदसाध्यकम् ॥
॥ १५ ॥ शङ्खपुष्पं तथा रोध्रं शङ्खनाभिर्मनःशिला ॥ काञ्जिकेन तु संपि-
टा छायाशुष्का भिषग्वर ! ॥ १६ ॥ वातिके काञ्जिकेनापि पैत्तिके प-
यसा हिता ॥ श्लेष्मले मूत्रसंयुक्ता पुष्पस्याञ्जनके हिता ॥ १७ ॥ शृङ्ग-
राजरसेनापि त्रिदोषशमने हिता ॥ हरीतकी वचा कुष्ठं पिप्पली मरिचा-
नि च ॥ १८ ॥ विभीतकस्य मज्जा वा शङ्खनाभिर्मनःशिला ॥ एतानि
समभागानि अजाक्षीरेण पेषयेत् ॥ १९ ॥ नाशयेत्तिमिरं कण्डूपाटला-
न्यवुदानि च ॥ हन्ति पुष्पं सपटलं रात्र्यान्ध्यञ्च नियच्छति ॥ २० ॥ क्ष-
ताभिघाति शोकेन अग्निदग्धं च वा पुनः ॥ काचञ्च नीलिका चैव सि-
द्धिमिच्छन्ति नेत्रयोः ॥ २१ ॥

अपथ्य आहारविहार करनेसे नेत्रमें फूला होजाता है एकतो सुखसाध्य होता है और दूसरा कष्टसाध्य होता है ॥ १४ ॥ और तीसरा शस्त्रसाध्य होता है चौथा असाध्य होता है ॥ १५ ॥ हे उत्तमवैद्य ! शंखपुष्पी, लोध, शंखकी नाभि इन्होंको कांजीमें पीस छायामें सुखा ॥ १६ ॥ विस अंजनको वातके फुलेमें छांजीके संग और पित्तमें दूधके संग कफकेमें

गोमूत्रमें विस नेत्रमें घालना हित है ॥ १७ ॥ और विदोषसे उपजे फूलमें भंगराके रसके संग घालै और हरडै, वच, कूठ, पोपल, मिरच, ॥ १८ ॥ वहेडाकी मज्जा, शंखकी नाभि, मनशिल, इन्हेंको समान भाग ले बकरीके दूधमें पीस ॥ १९ ॥ अंजन घालनेसे तिमिररोग, नेत्रकी खाजी, नेत्रके पटलदोष, अर्बुद रोग, नेत्रका फूला, पटलमें प्राप्तहुआ फूला, रातौंधा, इन्होंका नाश होता है ॥ २० ॥ और चोटआदिके अभिघातसे शोकसे तथा अग्निसे दग्ध-हुआ काचपटल और नीलिका, इननेत्ररोगोंकीभी सिद्धि होजाती है ॥ २१ ॥

अथ नेत्रपटलका लक्षण ॥

वाल्याद्वोषवलोदेवदुष्टद्वाराभिषेवणात् ॥ वाद्धिक्याच्च पटलं स्यात्तस्य
वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ २२ ॥ वातात्सकश्मलं रूक्षं पित्तानीलं च पीतक
म् ॥ कफेन शुभ्रं सघनं रक्तेनारक्तकं विदुः ॥ २३ ॥ सन्निपातादिलिङ्गै
श्च अतो वक्ष्यामि भेषजम् ॥ २४ ॥

वालक अवस्थासे दोषके बलसे और दूषित भोजन खानेसे वृद्ध अवस्थामें नेत्रमें पटल
होजाता है तिसके लक्षणको कहते है ॥ २२ ॥ वातसे उपजा मैलाहो और पित्तसे नीलाव-
र्णवालाहो अथवा पीलाहो और कफसे करडाहो सफेदहो और रक्तके दोषसे लाल पटल
होजाता है ॥ २३ ॥ और सन्निपातसे उपजेहुएमें मिलेहुए लक्षण होते है अब इन्होंकी
औपधको कहते है ॥ २४ ॥

अथ नेत्रपटलचिकित्सा ॥

शुण्ठीवचारजनितुत्थमनःशिला च शोभाञ्जनाञ्जनविशालजटा च शङ्ख
म् ॥ वास्तूकमूलमधुसैन्धवकट्फलानां सौवीरकेण परिमर्दनवर्तिरेषा ॥
॥ २५ ॥ छायाविशुष्कनयनाञ्जनके प्रशस्तं नाशं नयेत्पटलनेत्रजरोरोगस
ङ्गान् ॥ २६ ॥ साञ्जना सकट्फलका हरीतकी मनःशिला ॥ गुडेन कट्
फलश्चापि निहन्ति नेत्रप्रच्छदम् ॥ २७ ॥ महाविभीतकफलस्य च श
ङ्खनाभि घृष्टं ससैन्धवयुतं पयसाम्लकेन ॥ वर्तिगुडेन नयनाञ्जनके हिता
च पित्तप्रसूतपटलस्य निवारणञ्च ॥ २८ ॥

संड, वच, हलदी, नीलाथोथा, मनसिल, सहौंजना, कालासुरमा, इंद्रायण, जटाघांसी,
शंख, वथुवाकी जड शहद, सेंधानमक, कायफल इन्होंको कांजीमें खरल करि बची बना
॥ २५ ॥ छायामें सुखा नेत्रोंमें आंजनी श्रेष्ठ कही है पटलरोग, अन्य नेत्र रोगोंका समूह,

इन्होंका नाश करती है ॥ २६ ॥ और काला सुरमा, कायफल, हरद्वै, मनसिल इन्होंके पीस अंजनेसे अथवा गुडके संग कायफलको पीस नेत्ररोगोंका नाश होता है ॥ २७ ॥ बड़ा बहेडा, शंखकी नाभि, संधानमक इन्होंको दूधमें तथा कांजीमें घिस पीछे गुड मिला चत्ती बना नेत्रों आंजनेसे नेत्रके पटल रोगका नाशहोता है ॥ २८ ॥

नेत्ररोगमेंवर्ज्य ॥

सधूमश्च सवातश्च रूक्षमुष्णादिकं तथा ॥ कटुकाम्लं व्यवायश्च वर्जये
नेत्ररोगिणाम् ॥ २९ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने नेत्ररोग
चिकित्सानाम पञ्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥

ओर नेत्ररोगवालेनें धूवासहित वायु रूपा और गर्भ भोजन कहुआ तथा खट्टा भोजन और मैथुन करना ये वर्ज देने चाहिये ॥ २९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसन्नु०हारीतसंहि
ताभाषायां तृतीयस्थाने नेत्ररोगचिकित्सानामपंचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥

पट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

अथ मुखरोगकी चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ ओष्ठौ च स्फुटितौ यस्य वातिवाहेन वातिकात् ॥ त
स्य सपिर्भक्षणश्च ओष्ठदारणवारणे ॥ १ ॥ सदाहश्च भवेत्सौख्यं पित्त
कं तं विनिर्दिशेत् ॥ २ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—ओर जिसके ओष्ठ फटे रहे और वायु बहे वह वातसे उपजा
मुखरोग जानना तहां मुख फटे हुएको निवारणकेवारते घृतकी मालिस करै ॥ १ ॥ और
दाहहो कभी सुखहो तहां पित्तसे उपजा रोग जानना ॥ २ ॥

ओष्ठ रोगकी चिकित्सा ॥

मधुना नवनीतेन ओष्ठयोर्भक्षणं मतम् ॥ लेपनं चौष्ठरोगेषु शर्करासहितं
दधि ॥ ३ ॥ सरक्तमोष्ठरोगश्च दृष्ट्वा रक्तावसेचनम् ॥ धवार्जुनकदम्बा
नां प्रलेपः स्यात्सुरवावहः ॥ ४ ॥

ओर नौनीघृत शहद इन्होंकी मालिस करना श्रेष्ठ है और ओष्ठरोगोंमें खांड
दही, इन्होंकी मालिस करना श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ और रक्तसहित ओष्ठरोग जानके रक्त नि-
कलाना श्रेष्ठ है और धव, अर्जुनवृक्ष, कदंब इन्होंका लेप करना श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥

अथ दंतारोग लक्षण ॥

कृष्णा दन्तावलिर्यस्य दन्तमूलं च वातिकात् ॥ चलनं वा प्रदृश्येत वा
तिकञ्च विनिर्दिशेत् ॥ ५ ॥ पैत्तिकात्पित्तवाहञ्च दन्तमांसं विनिर्दिशेत् ॥
श्लैष्मिकेदन्तपाके च शोफः स्याच्छ्लेत्तता भृशम् ॥ ६ ॥ रक्तजे जायते कण्डू
रक्तस्रावश्च दृश्यते ॥ सूयते दन्तमांसञ्च सरक्ते दत्पुटे तथा ॥ ७ ॥ स
च्छिद्रं दन्तमूलञ्च सवलं शूलमेव च ॥ दन्तमांसं विशीर्येत क्रिमिजा
दन्तरुग्भवेत् ॥ ८ ॥

और जिसके दांत और दांतोंकी जड़ काले होजा और दांत हिलनें लग जावे वह वात
से उपजा रोग जानना ॥ ५ ॥ और पित्तसे उपजेमें पित्त वहै दांतोंपै मांस बढ जावे और
कफसे उपजे दंत पाकरोगमें शोजा हो और बहुतसे सफेद होजावे ॥ ६ ॥ और रक्तसे उप-
जेमें खाजिहो रक्तस्रावहो और दांतोंके मांसमें शोजाहो और दांतोंके पुट रक्तहो ॥ ७ ॥ दां-
तोंकी मूलें छिद्रसहित दीखै और अत्यंत शूलहो और दांतोंका मांस विखर जावे वह क्रि-
मिज दंतारोग जानना ॥ ८ ॥

अथ दंतारोग चिकित्सा ॥

वचायवानीसहचिन्नकेण सिन्धुत्वविश्वासहसिन्धुवारम् ॥ कलकं तथोष्ण
ञ्च सदन्तारोगे मुखे च गण्डूषशतानि पञ्च ॥ ९ ॥ सर्वेषु मुखरोगेषु हि
तमेतत्प्रशस्यते ॥ वचासैन्धवशुण्ठ्या च घर्षणं दन्तमूलके ॥ १० ॥ य
वार्णा च वचां रात्रौ दन्तमूले च धारयेत् ॥ पित्तजदन्तारोगेषु नवनीतं स
शर्करम् ॥ ११ ॥ धात्रीफलेन संघृतं दन्तारोगनिवारणम् ॥ श्लैष्मिकद
न्तारोगेषु हरीतक्या गुडेन वा ॥ १२ ॥ घर्षणं च प्रशस्तं च त्रिफलाका
थसंयुतम् ॥ अहिमारकमूलस्य काथो गण्डूपधारणात् ॥ १३ ॥ खदि
रस्य तथा काथो यवानीकाथ एव च ॥ काथश्च निम्बमूलस्य दन्तारोग
निवारणः ॥ १४ ॥ रक्तजे च विकारे च घर्षो लवणसर्पपैः ॥ रक्तञ्च
स्रावयेत्तस्य इष्टमोष्ठपुटे च तत् ॥ १५ ॥ विडङ्गं हिङ्गु सिन्धुञ्च वचा
चूर्णेन घर्षयेत् ॥ क्रिमिजदन्तारोगेषु हितमेतत्प्रशस्यते ॥ १६ ॥

और वच, अजमान, चीता, संधानमक, संठ, संभालू, इन्होंका कल्क बना गरम २ दंत रोगमें लेपित करै और मुखमें पानसौ कुरले धारण करै ॥ ९ ॥ और सब मुखरोगोंमें यही विधि करनी श्रेष्ठ है और वच, संधानमक, संठ, इन्होंको दांतोंकी जड़में घिसै ॥ १० ॥ और अजमान, वच, इन्होंको रात्रीमें दांतोंकी जड़में धारण करै और पित्तसे उपजे दंतरोगोंमें नौनीघृत खांड इन्होंको लगावे ॥ ११ ॥ और आंवलाके फलको घिसके लगानेसे दंतरोगोंका निवारण होता है और कफसे उपजे दंतरोगमें हरडै, गुड, इन्होंको ॥ १२ ॥ घिस त्रिफलाके काथमें गिला दांतोंके लगानेसे दंतरोग दूर होता है और गंधी हिंवरकी जड़का काथ बना कुरले धारण करै ॥ १३ ॥ तथा खैरका काथ अजमानका काथ नींबकी जड़का काथसे दंतरोगका निवारण होता है ॥ १४ ॥ और रक्तसे उपजे दंतरोगमें नमक, संधानमक इन्होंसे दांतोंको घिसै और ओष्ठ पुटमांससे रक्तको झिरवावे ॥ १५ ॥ और वायविडंग, हिंग, संधानमक, वच, इन्होंके चूर्णको दांतोंके घिसै और क्रिमिज दंतरोगमेंभी यही विधि करनी हित है ॥ १६ ॥

अथ जिह्वारोग लक्षण ॥

जिह्वायां पिडिका यस्य जिह्वापाकं विनिर्दिशेत् ॥ वातिके सरुजा कृष्णा पित्तेन दाहसंयुता ॥ १ ॥ श्लेष्मणा सघना श्वेता सर्वे वै सान्निपातिके ॥ १८ ॥

और जिसकी जिह्वापे पिडिकाहैं वह जिह्वापाक जानना वातसे उपजी पिडिका पीडा सहित होती है और पित्तसे काली हैं दाह करके युक्त हैं ॥ १७ ॥ कफसे कण्ठी हैं सफेद वर्णवाली हैं और सन्निपातसे उपजी पिडिकाओंमें सब लक्षण मिलते हैं ॥ १८ ॥

अथ जिह्वारोग चिकित्सा ॥

यथाभया विडङ्गानि शुण्ठी सौवर्चलं कणा ॥ घृतेन युक्तं जिह्वायां घर्षणं वातिके गदे ॥ १९ ॥ काञ्जिकेन तु तत्रेण सोष्णगण्डूषधारणम् ॥ यष्टीकं चन्दनं मुस्ता मागधी मधुसंयुतम् ॥ २० ॥ लेपनं पैत्तिके दोषे जिह्वास्फोटक्वारणम् ॥ दुग्धेन च शीतेनापि हन्ति गण्डूषधारणम् ॥ २१ ॥ दन्तरोगे तथा जिह्वापाके तच्च हितं विदुः ॥ रोध्रार्जुनकदम्बानां काथश्चोष्णः सुरवावहः ॥ २२ ॥ श्लेष्मोद्भवे मुखपाके हितं गण्डूषधारणम् ॥ रक्तजेषु विकारेषु रक्तस्त्रावच्च कारयेत् ॥ २३ ॥ कण्ठके नापि जिह्वायाश्चीरचित्वा च लेपनम् ॥ मूर्वामुस्ताभयाशुण्ठीमागधीर

जनीद्वयम् ॥ २४ ॥ गुडेन मधुना युक्तं लेपनं रक्तजिह्वके ॥ मरिचञ्च
वचा कुष्ठं हरीतक्याश्च चूर्णितम् ॥ घर्षणं श्लेष्मणि जाते जिह्वापाके
हितं विदुः ॥ २५ ॥

और वच, हरडै, वायविडंग, स्रुंठ, कालानमक, पीपली, इन्हेंको घृतमें युक्तकरि जिह्वापे
घिसनेसे वातसे उपजा जिह्वारोग दूर होता है ॥ १९ ॥ और कांजी, तक्र इन्हेंको गरम २
करि कुरले धारण करै और मुलहडी, चंदन, नागरमोथा, पीपली इन्हेंको पीस शहदमें मिला
॥ २० ॥ लेप करनेसे पित्त दोषसे उपजा जिह्वास्फोटक रोग दूर होता है और ठंडा २ दूध-
के कुरले धारण करना, ॥ २१ ॥ दंतारोग, जिह्वापाक, इन्हेंमें हित है और लोथ, अर्जुन-
वृक्ष, कदंब, इन्हेंका काथ सुखसे सुहाता हुआ गरम २ मुखमें धारण करना ॥ २२ ॥ क-
फसे उपजा मुखपाक रोगमें हित है और रक्तसे उपजे विकारोंमें रक्त निकलाना श्रेष्ठ है ॥ २३ ॥
कांटेसे जिह्वाको चीरके तहां मूर, नागरमोथा, हरडै, स्रुंठ, पीपली, दोनों हलदी, ॥ २४ ॥
गुड शहद, इन्हेंको मिला रक्तसे उपजे जिह्वारोगपे लेप करै और मिरच, वच कूट, इन्हेंका
चूर्ण बना कफसे उपजा जिह्वारोगमें मसलना हित है ॥ २५ ॥

॥ अथ गलगदुरोगके लक्षण ॥

तिलपिच्छिलगौल्यादिसेवनातिद्रवादपि ॥ नषोदकेन कफजो जायते घ
ण्टिकागदः ॥ २६ ॥ जिह्वामूले कण्ठसन्धौ श्लेष्मरक्तसमुद्भवा ॥ तेना
स्य शोषो जडता ज्वरो मन्दश्च जायते ॥ २७ ॥ शिरोव्यथारुचिस्तन्द्रा
तथास्य जडता भवेत् ॥

तिल और झार्गोवाला तथा गुल्ली बंधनेवाला और पतला ऐसे भोजनके सेवनेसे और
नवीन जलसे कफसे उपजाहुआ घंटिकासंज्ञकरोग होजाता है ॥ २६ ॥ जिह्वाकी मूलमें
कंठकी संधिमें कफ रक्तसे उपजाहुआ यह रोग होता है तिससे मुखमें शोषहो जडताहो मंद-
ज्वरहो ॥ २७ ॥ शिरमें पीडाहो अरुचिहो तंद्राहो मुखमें जडताहो ॥

अथ गलगदु रोगकी चिकित्सा ॥

तर्ज्म्यां कण्ठमध्ये तु संपीड्य रक्तपन्थिका ॥ २८ ॥ परिस्नुतं तथा रक्तं
तदा विम्लापनं हितम् ॥ वचाञ्च मरिचं कृष्णाचूर्णं तत्र निधापयेत् ॥
॥ २९ ॥ मर्दनं स्यात्कण्ठदेशे तेन ग्रन्थिर्विलीयते ॥ धान्यनागरजीमू
तवचा श्लेताः समाशकाः ॥ ३० ॥ काथः स्वदो घण्टिकाया मुखे गृण्णु
षधारणम् ॥ दिवारात्रौ वचापन्थि मुखे संधारयेद्विषक् ॥ ३१ ॥ तेन
सौख्यं भवेत्तस्य मुखरोगाद्विमुच्यते ॥ ३२ ॥

तहां तर्जनी अंगुलीसे कंठके मध्यमें रक्तकी ग्रंथिको पीड़िते करै ॥ २८ ॥ तिस्से रक्त निकस जावे तब विम्लापन कर्म करना हित है तहां वच, मिरच, पीपल, इन्होके चूर्णको बुरकावे ॥ २९ ॥ और कंठके मध्यमें मर्दन करै तिस्से वह ग्रंथि शांत होजाती है और धनियां, सूँठ, नागरमोथा, वच, इन औषधोंको समान भागले ॥ ३० ॥ क्वाथ बना पसीना दिवावे और गंडुरोगवाले पुरुषके मुखमें इस क्वाथके कुरले धारण करवावे ॥ ३१ ॥ और दिनराति मुखमें वचको धारण रखवावे ऐसे करवानेसे रोगाको सुख उत्पन्न होता है और मुखरोगसे छुट जाता है ॥ ३२ ॥

अथ गलशुंडिका रोगके लक्षण ॥

गले घण्टिकामार्गं च रक्तश्लेष्मविकारजा ॥ लम्बिका वर्धते नृणां विज्ञेया गलशुण्डिका ॥ ३३ ॥ रुन्धते चास्य मार्गश्च नेत्रस्त्रावः प्रदृश्यते ॥ शिरोऽर्त्तिः श्वासकासश्च ज्वरेणैव प्रपच्यते ॥ ३४ ॥

गले घण्टिके मार्गमें रक्तकफके विकारसे उपजी हुई लंबी ग्रंथि हो जाती है मनुष्योंके यह गलशुंडिका रोग कहाता है ॥ ३३ ॥ यह रोग मुखके मार्गको रोकलेता है और नेत्रोंमें स्राव होता है शिरमें पीडाहो श्वासहो खांसीहो ज्वरकी तरह बाधाहो ऐसा यह रोग होता है ॥ ३४ ॥

अथ गलशुंडिका रोगकी चिकित्सा ॥

आशुकारी महाप्राज्ञः शीघ्रं कुर्व्यात्प्रतिक्रियाम् ॥ शस्त्रेण शुण्डिकां छित्त्वा कुर्व्याद्विम्लापनं हितम् ॥ ३५ ॥ मागधीमरिचं पथ्यावचाधान्ययवानिकाः ॥ क्वाथः सोणः स्वेदमायाद्गलशुण्डोपशान्तये ॥ ३६ ॥ द्विचारात्रौ यवान्याश्च मुखे संधारणं हितम् ॥ मर्दनं कण्ठदेशे तु तेन संपद्यते सुखम् ॥ ३७ ॥ सिद्धार्थकं वचा कुष्ठं रजनी पारिभद्रकम् ॥ गृहधूमं सलवणं कण्ठे वा लेपनं हितम् ॥ ३८ ॥ ज्वरे प्रोक्तानि पथ्यानि यानि तानि महामते ! ॥ न गौल्यं पिच्छिलं सेव्यं तैलं नैव गलामये ॥ ३९ ॥ इति गलशुण्डिकाचिकित्सा ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने मुखरोगचिकित्सानाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

शीघ्रकार्य करनेवाला महान् वैद्य इस रोगका इलाज शीघ्रही करै शस्त्रसे गलशुंडिकाको छेदनकर विम्लापन कर्म करना हित है ॥ ३५ ॥ और पीपली, मिरच, हरडै, वच, ध-

नियां, अजमान, इन्होंका काथ घना तिस्से पसीना दिवानेसे गलशुंडिकारोगकी शांति होती है ॥ ३६ ॥ और दिनराति अजमानको मुखमें धारण रखना हित है और कंठकी जगह मर्दन करना हित है तिस्से रोगीको सुख उत्पन्न होता है ॥ ३७ ॥ और सिरसम, वच, कूठ, हलदी, नीच, घरका धूवा, नमक, इन्होंका लेप कंठपे करना हित है ॥ ३८ ॥ और हे महामते ! ज्वरमें कहे हुए जो पथ्य है उन्होंको करै और गलरोगमें गुळी बंधनेवाला तथा पिच्छल भोजन और तेलको नहीं सेवै ॥ ३९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्तुवै घरविदचशाख्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने मुखरोगचिकित्सानाम पट्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥

अथ वृद्धक्षीणानां वाजीकरणम् ॥

आत्रेय उवाच ॥ क्लैब्यं पञ्चविधं प्रोक्तं समासेन शृणुष्व मे ॥ १ ॥ निरोधातिव्यवायेन वयःश्रान्तेऽपि मानवे ॥ जायते रेतसो हानिः स्त्रीव त्वञ्चापि जायते ॥ २ ॥ त्रिविधं जायते क्लैब्यं मानसं रेतसः क्षयात् ॥ सहजं शुष्कसंस्वेदाज्जायते स्त्रीवता नरे ॥ ३ ॥ यस्य वै ममता चित्ते दृष्ट्वा स्त्रीणां विरागिताम् ॥ स्पर्शने स्वेदकं पञ्च तत्साध्यं मानसं स्मृतम् ॥ ४ ॥ यस्य विद्वेषतः स्त्रीणां व्यवायेन मनःक्षितिः ॥ ध्वजभङ्गो भवेच्छीघ्रं तत्क्लैब्यं रेतसः क्षयात् ॥ ५ ॥ समप्रकृतिर्यस्यान्यः सोऽप्यसाध्यतमः स्मृतः ॥ मनःक्षये मनोद्रेको मुग्धस्त्रीसहसङ्गमः ॥ ६ ॥ सरागविभ्रमकथालापैः संवर्द्धते मनः ॥ शुक्रक्षये शुक्रवृद्धिं कश्चिप्यामि साम्प्रतम् ॥ ७ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—नपुंसकपना पांचप्रकारका होता है सो संक्षेपमानसे कहते हैं सुन ॥ १ ॥ मैथुनके रोकनेसे अथवा ज्यादा मैथुन करनेसे अवस्थाकी हार होनेसे मनुष्योंके वीर्यकी हानिहो नपुंसकपना होजाता है ॥ २ ॥ मनुष्योंके तीनप्रकारका नपुंसकपना होता है मानस, वीर्यक्षय, और शुष्क पसीनासे उपजा सहज ॥ ३ ॥ ऐसे होता है जिसमुरुपके स्त्रियोंके विरागभाव देखिके मनमें ममताहो और स्पर्श करनेमें पसीना आजावे वह मानस कहता है सुखसाध्यहोता है ॥ ४ ॥ और जिसका स्त्रियोंके संग वैरभाव रहे मैथुन करनेसे

मनकी हानिहो और शीघ्रही लिंगका भंग होजाय वह वीर्यक्षय होनेसे नपुंसकपना होता है ॥ ५ ॥ और जिसकी सदा समान प्रकृति रहे वह असाध्यरोग कहाता है मनके क्षय होनेमें मनको बढ़ावे और सुंदर भोली स्त्रीके संग विषय करवावे ॥ ६ ॥ और स्नेह सहित विभ्रमके पचन, सियोंकी कथाके आलाप इन्होंनेसे मनको बढ़ावे और वीर्यक्षयके नपुंसकपनेमें वीर्यवर्द्धक औषधोंको कहते है ॥ ७ ॥

अथ शुक्रवृद्धिके उपाय ॥

विदारिकागोक्षुरमूषकानां धात्रीफलं स्यात्सहसैन्धवानाम् ॥ समानि चै
तानि च मागधीनां युक्तं सिताढ्यं पयसा पिवेच्च ॥ ८ ॥ विषं बृहत्स्यौ
मगधात्रिकण्टास्तथात्मगुप्ता सशतावरी च ॥ सशर्करं गोपयसो घृते
न पानं नराणां प्रकरोति वीजम् ॥ ९ ॥ यवगोधूममापाणां निस्तुपा
णाश्च चूर्णकम् ॥ दुग्धेनेक्षुरसेनापि संस्कृत्य तु घृतेन तु ॥ १० ॥ पाचि
तं वटकश्रेष्ठं भक्षयेत्प्रातरुत्थितः ॥ तस्योपरि पयःपानं पिप्पलीशर्करा
न्वितम् ॥ ११ ॥ यवक्षारविदारीश्च मापचूर्णं तथा यवान् ॥ मरिचानां सिता
ढ्यश्च घृतानाश्च प्रपोलिकाम् ॥ १२ ॥ पाचयेद्भक्षयेत्प्रातः पयःपानं त
द्योपरि ॥ वीर्यश्च कुरुते पुंसां वनिता रमते ऋशम् ॥ १३ ॥ गुडूची शत
मूली च स्वयंगुप्ता बला तथा ॥ १४ ॥ शालमलीमुसलीमूलं चूर्णं गोप
यसान्वितम् ॥ पानं नराणां श्रेष्ठं तु वीजमिन्द्रियकारकम् ॥ १५ ॥

विदारीकंद, गोखरू, मूषापर्णा, आवला, संधानमक, पीपली, इन्होंनेको समान भाग ले
मिसरी मिला गौके दूधके संग पीवे ॥ ८ ॥ और अतीश, दोनों कटेहली, पीपली, गोखरू,
कौंचके बीज, शतावरी, इन्होंनेका चूर्ण बना खांड मिला पीछे गौका दूध और घृतके संग पी-
नेसे मनुष्योंके वीर्यवृद्धि होती है ॥ ९ ॥ और जव, गेहूं, उडद इन्होंनेके तुष उतारि
चूर्ण बना पीछे दूधमें और ईखके रसमें मिला घृतमें ॥ १० ॥ पका तिनको प्रातःकाल
उठके खावे और तिसके ऊपरि पीपली, खांड इन्होंनेसे युक्त दूधको पीवे ॥ ११ ॥ और
जवाखार, विदारीकंद, उडदोंका चूर्ण, जव, गिरच, इन्होंनेका चूर्ण बना तिसमें मिसरी
मिला पीछे पोली बना घृतमें सिद्ध करलेवे इनपोलियोंको ॥ १२ ॥ प्रातःकाल भक्षण
कर और ऊपरसे दूध पीवे ऐसे करनेसे पुरुषोंका वीर्य बढ़ता है और स्त्रीकेसंग बहु-
तरा रमण करता है ॥ १३ ॥ और मिलेय, शतावरी, कौंचके बीज, खैरहटी ॥ १४ ॥
सालवन, मुसलीकी जड़ इन्होंनेका चूर्ण बना गौके दूधके संग पीना श्रेष्ठ है और मनुष्योंकी
इंद्रियमें वीर्यको बढ़ानेवाला है ॥ १५ ॥

अथ विदार्यादि औषध ॥

विदारिकन्दांशुमती वृहत्यौ काकोलिका भीरु पुनर्नवे द्वे ॥ शृङ्गाटकं
मागंधिका बला च चूर्णं सिताढ्यं सितया प्रयोज्यम् ॥ १६ ॥ जी
र्णे पयःपायसमेव योज्यं करोति पुंसां बलमेवमोजः ॥ स्त्रीणां सहस्रं
भजतेऽपि षण्ढो मासद्वयोपस्तुतमेव शस्तम् ॥ १७ ॥

और विदारीकंद, शालवन, दोनोंकटेहली, काकोली, शतावरी, दोनोंप्रकारका सांठी, सिं-
वाडा, पीपली, खैरहटी इन्होंका चूर्ण बना मिसरी मिला ॥ १६ ॥ दूधके संग भीनेसे पुरुषोंके
बल और वीर्य बढ़ता है और हीजडा हो वह भी हजारों स्त्रियोंके संग रमणकर सकता है
दो महिनोतक इस औषधका सेवना श्रेष्ठ है ॥ १७ ॥

अथ शुक्रवृद्धिमें वर्ज्य ॥

वर्जयेत्कटुकं चाम्लं तीक्ष्णं चोष्णं विदाहि च ॥ रूक्षं वापि च सौंवी
रं प्रोक्तानि चेन्द्रियक्षतौ ॥ १८ ॥ पलाण्डुयवनं कन्दांस्तिलान्मापान्य
थावलम् ॥ तथौदनं विशालीनां दुग्धं चक्षुरसं तथा ॥ १९ ॥ वास्तुकं
चिल्लकानाञ्च पथ्ये शुक्रक्षयादपि ॥ वर्जित्वा सूरणं शुण्ठीं योगयुक्तो न
योजयेत् ॥ २० ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने वाजीकरणं
नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥

और चर्चरा, खट्टा, तीक्ष्ण ऐसे भोजनको वर्ज दे और गरम, विदाही, रूपा ऐसा भोजन,
कांजी, इन्होंको वीर्यक्षयमें वर्ज देवै ॥ १८ ॥ और प्याज, तथा अन्यकंद, उडद, और
शालीसंज्ञक चावलका भात, दूध, ईखका रस ॥ १९ ॥ वथुआका शाक और चिल्लक अर्थात्
अन्य वथुवाका भेद, इन्होंको अग्नि बलके अनुसार खावे ये वीर्यक्षयमें पथ्य है और जमी-
कंद, संट, इन्होंको नहीं देवै ॥ २० ॥ इति वेरीनिवासिनुधशिवसहायसुनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्य-
नुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने वाजीकरणं नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥

अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥

अथ वन्ध्यारोगके लक्षण ॥

आत्रेय उवाच ॥ वन्ध्या स्यात्पट्प्रकारेण बाल्येनाप्यथवा पुनः ॥

गर्भकोशस्य भङ्गाद्वा तथा धातुक्षयादपि ॥ १ ॥ जाग्रते न च गर्भस्य
सम्भूतिश्च कदाचन ॥ काकवन्ध्या भवेच्चैका अनपत्या द्वितीयका ॥
॥ २ ॥ गर्भस्त्रावी तृतीयाऽथ कथिता मुनिसत्तमैः ॥ मृतवत्सा चतुर्थी
स्यात्पञ्चमी च बलक्षयात् ॥ ३ ॥ तस्योपक्रमणं वक्ष्ये येन सा लभ
ते सुतम् ॥ ४ ॥ अजातरजसां स्त्रीणां क्रियते यदि मैथुनम् ॥ तेनैव ग
र्भसङ्कोचं भगत्वमुपगच्छति ॥ ५ ॥ तेन स्त्री भवते वन्ध्या गर्भं गृह्णाति
नो भृशम् ॥ सा च कष्टेन भवति रामा गर्भवती भिषक् ! ॥ ६ ॥ औष
धैश्वोपचारैश्च सिद्धिश्चापि न संशयः ॥ अनपत्यबलेनापि जायते भिष
जां वर ! ॥ ७ ॥ न भवेत्काकवन्ध्या च अनपत्यापि सिध्यति ॥ सिध्य
न्ती क्षीणधातुत्वाज्जायते सा भिषग्वर ! ॥ ८ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—बंध्या रोग छह प्रकारका होता है. बालक अवस्थामें गर्भकोशके
भंग होजाँसे अथवा धातुके क्षय होँसे ॥ १ ॥ गर्भ कदाचिदभी नहीं ठहरता है और
एक तो काकबंध्या होती है दूसरी अनपत्या होती है ॥ २ ॥ तीसरी गर्भस्त्रावी होती है चौथी
मृतवत्सा होती है और पाँचवी बलके क्षय होँसे होती है ॥ ३ ॥ अब इन्होंकी चिकित्सा
कहते है जिसकरके सुख उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥ जो यदि रजस्वला नहीं हुई हो ऐसी स्त्रीके सं-
ग मैथुन कर लेवे तो गर्भस्थान भगमें संकोचको प्राप्त होजाता है ॥ ५ ॥ जिसकरके स्त्री बंध्या हो
जाती है विशेषकरके गर्भको धारण नहीं करती है वे वैद्य ! वह स्त्री कष्टसे गर्भवती होती
है ॥ ६ ॥ और हे उत्तम वैद्य ! जो अनपत्या बंध्या होती है वह औषधोंसे गर्भवती होती है ॥ ७ ॥
फिर वह काकबंध्याभी नहीं होती और अनपत्याभी नहीं होती है और जो क्षीणधातु होँसे
बंध्याहो वहभी औषधोंसे गर्भवती होजाती है ॥ ८ ॥

अथ बंध्यारोगको दूरकरनेवाले औषध ॥

चन्दनोशीरमञ्जिष्ठापटोलं घनबालकम् ॥ मधुकं मधुयष्टी च तथा लो
हितचन्दनम् ॥ ९ ॥ सारिवा जीरकं मुस्तं पद्मकञ्च पुनर्नवा ॥ क्षीरेण
शर्करायुक्तं पानं पित्तोद्भवे गदे ॥ १० ॥ ज्ञात्वा योनिविशुद्धिश्च तत्र
दद्यान्महौषधम् ॥ चन्दनोशीरमञ्जिष्ठा गिरिकर्णी सिता तथा ॥ ११ ॥
क्षीरेणालोडिता पित्ते पुष्पसिद्धिं करिष्यति ॥ १२ ॥

चंदन, खश, मंजीठ, परवल, नागरमोथा, नेत्रवाला, महुआवृक्ष, मुलहदी, लालचंदन, ॥ ९ ॥ अनंतमूल, जीरा, नागरमोथा, पद्माख, सांठी, इन्होंको दूधमें मिला खांड मिला पान करना पित्तसे उपजा बंध्यारोगमें हित है ॥ १० ॥ और योनिकी शुद्धिको जानके पीछे ये महान् उत्तम औषध देनी चाहिये चंदन, खश, मंजीठ सफेद गोकर्णी, मिसरी ॥ ११ ॥ इन्होंको दूधमें मिला घोटि पीनेसे पित्तसे उपजे रोगमें स्त्रीकै पुष्प होते हैं ॥ १२ ॥

त्रिदोषदूषितरजकी चिकित्सा ॥

रजोरक्तं परीक्षेत वातपित्तकफात्मकम् ॥ सरुजश्च सकृष्णश्च पक्वजम्बू
निभं च यत् ॥ वातेन बाधितं पुष्पं तच्च संलक्षयेद्बुधः ॥ १३ ॥ तस्य
नागरपिप्पल्यौ मुस्ताधन्वयवासकम् ॥ बृहत्यौ पाटला चैव काथः स
गुडको दधि ॥ १४ ॥ सप्ताहं पाययेद्धीमान्यावत्स्रवति शोणितम् ॥ वि
शुद्धे च तथा रक्ते पाययेत्पयसान्वितम् ॥ १५ ॥ श्वेता च गिरिकर्णी
च श्वेता गुञ्जा पुनर्नवा ॥ तेन सा लभते गर्भं मासमेकं प्रयोगतः ॥ १६ ॥

और वात, कफ पित्त इन्होंसे दूषित रजस्वलाके रक्तको जानके पीडासहित और कृष्णवर्ण-
वाला पकेहुए जामनके फलके समान वर्णवाला ऐसे रक्तको वातके कोपसे उपजा हुआ जानै
॥ १३ ॥ तहां स्रु, पीपली, नागरमोथा, धमांसा, दोनो कटेहली, पाडलवृक्ष, इन्होंका काथ
बना गुड और दही मिला ॥ १४ ॥ रजस्वला कालमें सात दिनतक पिवावे और रक्त शुद्ध
होजावे तब इस काथको दूधके संग प्यावे ॥ १५ ॥ और सफेद गोकर्णी, सफेद चिरमठी,
सफेदसांठी, इन्होंको एक महीना तक पीवे तो बंध्या स्त्री गर्भको प्राप्त होजाती है ॥ १६ ॥

अथ पित्तदूषितरजकी चिकित्सा ॥

जपाकुसुमसङ्काशं कुसुम्भरक्तसन्निभम् ॥ दाहशोषमूत्रकृच्छ्रयुक्तं तत्
पित्तदूषितम् ॥ १७ ॥ चन्दनोशीरमञ्जिष्ठापटोलं घनवालकम् ॥ मधुकं
यष्टिमधुकं तथा लोहितचन्दनम् ॥ १८ ॥ पक्वकं पुनर्नवे द्वे शारिवा
जीरकं घनम् ॥ क्षीरेण शर्करायुक्तं पानं पित्तकृते गदे ॥ १९ ॥ ज्ञात्वा
योनिविशुद्धिश्च तत्र दद्यान्महौषधम् ॥ श्वेतार्कमूलं पयसा श्वेता च गि
रिकर्णिका ॥ २० ॥ श्वेताद्रिकर्णीमूलश्च पानं गोक्षीरसंयुतम् ॥ बन्ध्या
नां गर्भजननं भवते लक्षणान्वितम् ॥ २१ ॥

और जासबंदके पुष्पके समान तथा कसुंभाके रंगके समान वर्णवाला रजका रक्तहो,
दाहहो, शोषहो, मूत्रकृच्छ्रहो वह पित्तदूषित रक्त जानना ॥ १७ ॥ तहां चंदन, खश, मंजीठ

परवल, नागरमोथा, नेत्रवाला, महुआ, मुलहटी, लाल चंदन, ॥ १८ ॥ पद्माक, दोनोंसांठी अनंतमूल, भद्रमोथा, इन्होंको दूधमें मिला खांड मिला पित्तसे उपजे रोगमें पीना हित है ॥ १९ ॥ पीछे योनिकी शुद्धिको जानके आगे कही हुई ये महान् औषध देनी चाहिये सफेद आककी जड़, दूधी, सफेद गोकर्णी ॥ २० ॥ सफेद गोकर्णीकी जड़, इन्होंको गौके दूधके संग पीवे और सफेद कटेहलीकी जड़को दूधके संग पीनेसे बंध्या स्त्रीके गर्भ रहता है ॥ २१ ॥

अथ कफदुष्टरजकी चिकित्सा ॥

सघनं पिच्छलं चापि जाड्यं स्यान्मूत्ररोधनम् ॥ आलस्यतन्द्रा निद्रा च कफदुष्टं रजो विदुः ॥ २२ ॥ त्रिफला गिरिकर्णी च तथारग्वधवत्सकौ ॥ पयसा पयसा पानं स्त्रीणाञ्च गर्भकारणम् ॥ २३ ॥ बलाद्यं चन्दनाद्यञ्च द्राक्षाद्यं चूर्णमेव च ॥ दापयेद्गर्भजननं नारीणां भिषगुत्तमः ॥ २४ ॥ खण्डकाद्यञ्च चूर्णञ्च नारीणां भिषगुत्तमः ॥ पुनर्नवाद्यं देयं वा स्त्रीणां गर्भ प्रदायकम् ॥ २५ ॥

और करडारझागोंवाला, जडरूप, मूत्रको रोकनेवाला, ऐसा रक्त गिरै और आलस्यही निद्राही तंद्राही वह कफसे दूषित हुआ रक्त जानना ॥ २२ ॥ तहां त्रिफला, गोकर्णी, अमलतास, कूडाकी छाल, दूधी, इन्होंको दूधके संग पीनेसे स्त्रियोंके गर्भस्थिति होती है ॥ २३ ॥ और पहले कहाहुआ बलाआदिक चंदनादिक और द्राक्षादिक चूर्णके देनेसे हे उत्तमवैद्य ! गर्भस्थिति होती है ॥ २४ ॥ और हे उत्तमवैद्य ! खंडकाद्य चूर्ण अथवा पुनर्नवाद्य चूर्ण देनेसे स्त्रियोंके गर्भस्थिति होती है ॥ २५ ॥

अथ स्त्रियोंकेगर्भार्थपथ्य ॥

अथ पथ्यं प्रवक्ष्यामि स्त्रीणाञ्च शृणु पुत्रक ! ॥ कच्चरं सूरणं चैव तथा चाम्लं च काञ्जिकाम् ॥ २६ ॥ विदाहिकं च तीव्रं च स्त्रीणां दूरे परित्यजेत् ॥ बन्ध्याकर्कटकीमूलं लाङ्गली कटुतुम्बिका ॥ २७ ॥ देव दाली द्विवृहती सूय्यवल्ली च भीरुका ॥ निर्माल्यं माल्यवस्त्रञ्च तथा स्यादृतुसङ्गमः ॥ २८ ॥ अन्यस्त्रीस्नातमुदकं स्त्रीणां पथ्यस्योपक्रमः ॥ २९ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने बन्ध्योपक्रमोनामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥

और हे पुत्र ! अब स्त्रियोंकेवास्ते पथ्य कहते है कचरी, जमीकंद, चूकाका शाक, कांजी, ॥ २६ ॥ विदाही और तीक्ष्ण ऐसे भोजन स्त्रियोंको दूरसेही त्याग देने चाहिये. और. वांस

ककोडीकी जड़, कलहारी, कहुई तुंगी ॥ २७ ॥ देवदाली, दोनों कटेहली, सूर्यमुखी, शतावरी, ये वस्तु बंध्यास्त्रीको पथ्य है और जिस स्त्रीकै बालक होतेहो तिसकी झूटा भोजनआदिक और तिसका वल्ल और तिसका रजस्वला अवस्थामें स्पर्श ॥ २८ ॥ तिसका ऋतुसमयमें स्नान कियाहुआ जल ऋतुसमयमें अपने पतिके संग भोग ये पथ्य है ॥ २९ ॥ इति वेरीनिवासि-
बुधशिवसहायस्तनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने बंध्योपक्रमोना-
माष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥

एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥

अथ गर्भोपचारविधि ॥

आत्रेय उवाच ॥ प्रथमे मासि यष्टीमधुपरुषकं मधुपुष्पाणि यथालाज
म् ॥ नवनीतेन पयो मधुमधुरं पाययेच्च ॥ १ ॥ द्वितीये मासि काकोली
मधुरं पाययेत्तथा ॥ तृतीये कशरा श्रेष्ठा चतुर्थे च कृतौदनम् ॥ २ ॥
पञ्चमे पायसं दद्यात् पष्ठे च मधुरं दधि ॥ सप्तमे घृतखण्डेन चाष्टमे घृत
पूरकम् ॥ ३ ॥ नवमे विविधान्नानि दशमे दोहदं तथा ॥ मासे तृतीये स
म्प्राप्ते दोहदं भवति स्त्रियः ॥ ४ ॥ यद्यत् कामयते सा च तत्तद्व्या
द्विषग्वरः ॥ ५ ॥ वर्जयेद्विदलान्नानि विदाहीनि गुरूणि च ॥ अम्लानि सो
ष्णक्षीराणि गुर्विणीनां विवर्जयेत् ॥ ६ ॥ नृत्तिका भक्षणीयान च
सूरणकन्दर्काः ॥ रसोनश्च पलाण्डुश्च संत्याज्यो गुर्विणीस्त्रिया ॥ ७ ॥ सूर
णानि प्रदेयानि गौल्यानि सरसानि च ॥ पथ्ये हितानि चैतानि गुर्विणी
नां सदा भिषक् ॥ ८ ॥ व्यायामं मैथुनं रोपं शोषं चक्रमणं तथा ॥ वर्जये
द्विर्विणीनाञ्च जायन्ते सुखसम्पदः ॥ ९ ॥ अथोपपन्नं विहितमपि स्व
कीयाचारेण पञ्चमासिकमष्टमासिकं वा ॥ ब्राह्मणमङ्गलादिभिर्गोत्रभोज
नमपि कर्त्तव्यम् ॥ दोहदादिषु परिपूर्णेषु रूपवान् शूरः पण्डितः शीलवा
नृपुत्रो जायते ॥ १० ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने गर्भोपचारो
नाम एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥

पहले महीनेमें मुलहटी, फालसा, महुवृक्ष, इनगांहेसे जितने मिलें उतनेंहियोंको नौंनीघृत दूध इन्होंके संग खांड मिलाके मीठा २ प्याये ॥ १ ॥ और दूसरी महीनेमें काकोली, शहद, इन्होंको प्याये तीसरे महीनेमें श्रेष्ठ कशरा अथवा खीचडी, और चौथे महीनेमें चावलका भातका भोजन करे ॥ २ ॥ और पांचवें महीनेमें दूध और छठे महीनेमें मीठा दही देना चाहिये और सातवे महीनेमें घृत, खांड, आठमें महीनेमें घेवर ॥ ३ ॥ और नवमें महीनेमें अनेकप्रकारके भोजन दशवें महीनेमें गर्भवती स्त्रीके इच्छापूर्वक भोजन देने चाहिये. और जब तीसरा महीना प्राप्त होता है तब स्त्रियोंकी इच्छा अनेक वस्तुओंमें होती है ॥ ४ ॥ तब स्त्री जिस २ वस्तुकी इच्छा करे वही २ भोजन देना चाहिये ॥ ५ ॥ और द्विदल धान्य विदाही तथा भारे भोजन, खट्टे भोजन, गरम दूध, इनवस्तुओंको गर्भवती स्त्री वर्ज देवे ॥ ६ ॥ और घृत्तिका नहीं भक्षण करनी चाहिये और जमीकंदको भक्षण नहीं करे और लस्सन, प्याज, ये गर्भवती स्त्रीको त्याग देने चाहिये ॥ ७ ॥ और जमीकंद आदिक तथा गुली बंधनवाले अन्न इन्होंको रससहित देवे हे वेद्य ! इसप्रकार कहेहुए पथ्य गर्भवती स्त्रीको सदा पथ्य कहे है ॥ ८ ॥ और कसरत, मैथुन, क्रोध, शोक, दहल, कदमी, ये सब गर्भवतीस्त्रियोंको वर्ज देने चाहिये तब सुखकी उत्पत्ति होती है ॥ ९ ॥ और कहाहुआ इस विधानको करतेहुएभी अपने आचरण करके पांचवे महीनेमें अथवा छठे महीनेमें मंगलादिक करवाके ब्राह्मण और गोत्री भाई इन्होंको भोजन करवाये और गर्भवतीकी इच्छापूर्वक वस्तु मिलती रहे तो रूपवान्, शूर, धीर, पंडित, शीलवान्, ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १० ॥ इति वेरीनि० हारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने गर्भोपचारोनामएकोनपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥

पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥

अथ चलितगर्भचिकित्सा ॥

आत्रेयउवाच ॥ प्रथमे मासि गर्भस्य चलनं दृश्यते यदि ॥ तदा मधुक मृद्धीकाचन्दनं रक्तचन्दनम् ॥ १ ॥ पयसालोडितं पीतं तेन गर्भः स्थिरो भवेत् ॥ २ ॥ द्वितीये मासि चलिते मृणाले नागकेशरम् ॥ तृतीये मासि गर्भस्य चलनं दृश्यते यदा ॥ ३ ॥ तदा मूषककिटं तु शर्करापयसा पिवेत् ॥ चतुर्थे मासि दाहश्च पिपासा शूलमेव च ॥ ४ ॥ ज्वरेण स्त्रीणां यदि गर्भश्चलते तदोशीरचन्दननागकेशरधातकीकुसुमशर्कराघृतमधुदधि पाययेत् ॥ पञ्चमे मासे चलिते गर्भे दाडिमीपत्राणि चन्दनं दधि मधु च

पाययेत् ॥ पष्ठे मासि गैरिकं कृष्णमृत्तिकागोमयभस्म उदकं परिस्रुतं
शीतलं चन्दनं शर्करया सह पिवेत् ॥ सप्तमे मासि गोक्षुरसमङ्गपद्मकष
नमुशीरनागकेशरं मधुरं पाययेत् ॥ अष्टमे मासि रोध्रं मधु मागधिकाञ्च
सह दुग्धेन पीतवतीनां चलिते गर्भे स्त्रीणां सुखं सम्पद्यते ॥ ५ ॥ इत्या
त्रेयजापिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने चलितगर्भचिकित्सानाम पञ्चाशत्त
मोऽध्यायः ॥ ५० ॥

आत्रेयजी कहते हैं—जो यदि पहिलेमहीनेमें चलायमान दीखते मुलहठी, मुनका, दास,
चंदन, लाल चंदनी, ॥ १ ॥ इन्होंको दूधमें घोल पीनेसे गर्भ स्थिर होजाता है ॥ २ ॥ और
दूसरा महीनामें गर्भ चलायमान होजावे तो कमलकी नाली, नागकेशर, इन्होंको देवे, और
तीसरे महीनेमें गर्भ चलायमानहुआ दीखे ॥ ३ ॥ तो मूसाकी वीटको खांड और दूधके संग
पीवे और चौथे महीनें जो दाहहो टपाहो शूलहो ॥ ४ ॥ और ज्वरसे स्त्रियोंका गर्भ चलता-
हुआ मालूम होवे तो खश, चंदन, नागकेशर, धायके फूल, खांड, घृत, शहद, दही, इन्होंको
प्यावे और पांचवा महीनामें गर्भ चलताहुआ दीखे तो अनारके पत्ते, चंदन, दही, शहद,
इन्होंको प्यावे, छठे महीनेमें गेरू, काली मृत्तिका, गोवर आरनोंकी भस्म इन्होंको जलमें घोल
छानके दाळचीनी, चंदन, खांड, ये मिला पीवे और सातवे महीनेमें गोखल, मंजीठ, पद्माक,
नागरमोथा, खश, नागकेशर, शहद, इन्होंको प्यावे और आठवे महीनेमें लोष, शहद,
पीपली, इन्होंको पीवती हुई स्त्रियोंका चलायमान गर्भ स्थिर रह जाता है और सुख
होता है ॥ ५ ॥ इति वेरीनि० हारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने चलितगर्भचिकित्सानाम
पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥

एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥

—:०:—

अथ गर्भोपद्रव चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ शोषो हृत्सासच्छदिश्व शोफो ज्वरस्तथारुचिः ॥ अ
तीसारो विवर्णत्वमष्टौ गर्भस्योपद्रवाः ॥ १ ॥ वक्ष्यामि भेषजं तस्य यं
थाय्योगेन साम्प्रतम् ॥ वटप्ररोहं मगधामुशीरं घनमेव च ॥ २ ॥ युतां
खण्डगुटिकास्ये विहिता शोषवारिणी ॥ ३ ॥ वासकं मगधा शुण्ठी त
था चामलकीफलम् ॥ युक्तं कोमलविल्वेन दध्ना पिष्टं तु दापयेत् ॥ ४ ॥

शर्करासंयुतं पानं स्त्रीणां गर्भे हितं सदा ॥ ५ ॥ पीतो भूनिम्बकल्कश्च
 शर्करासमभावितः ॥ छर्दिं हरेच्च हृत्क्षेदं मधुना वा समन्वितः ॥ ६ ॥
 शृङ्गवेरं सकटुकं मातुलुङ्गस्य केशरम् ॥ मार्जनं दन्तजिह्वासु गण्डूपश्वो
 णवारिणा ॥ ७ ॥ गुर्विणीनाञ्च सर्वासामरुचिं च नियच्छति ॥ वत्सकं
 दाडिमं पाठा विलबिल्ववलास्तथा ॥ ८ ॥ जम्ब्वाम्पल्लवाश्चैव यथा
 लाभेन सत्तम ! ॥ शर्करादधिसंयुक्तं स्त्रीणाञ्चैवानिसारके ॥ ९ ॥ हरीत
 की नागरकं गुडेन वा त्रिफलाकपायः ॥ शीतः स्त्रीणां विनिहन्ति पाने
 विवन्धविद्रधीश्च ॥ १० ॥ मूत्रविवन्धनस्य त्रपुसैर्वारिवीजानि मागधी
 च ॥ शिलाभेदं सिताढ्यञ्च पिवेत्तण्डुलवारिणा ॥ मूत्ररोधं गुर्विणीनां
 वारयत्याशु निश्चितम् ॥ ११ ॥

आग्नेयजी कहते हैं—शोष, थुकथुकी, छर्दि, शोजा, ज्वर, अरुचि, अतिसार, विवर्ण ये
 आठ गर्भके उपद्रव है ॥ १ ॥ अब योगसे तिसकी औषधको कहैगे वडके अंकुर, पीपली,
 खश, नागरमोथा, इन्होंका चूर्ण करि ॥ २ ॥ मिला गोली बनाके मुखमें धारण करनेसे
 शोषका निवारण होता है ॥ ३ ॥ और कूडाकी छाल, पीपली, स्रंठ, आंवले, कच्चीबेलगिरी
 इन्होंको दहीमें पीस ॥ ४ ॥ खांड मिला देनेसे स्त्रियोंका गर्भमें सदा सुख होता है ॥ ५ ॥
 और चिरायताका कल्क बना बराबरकी खांड मिला पीनेसे गर्भवती स्त्रीकी छर्दिका निवारण
 होता है और शहदमें मिलाके पीनेसे हृदाकी ग्लानिका नाश होता है ॥ ६ ॥ और अदरक
 गिरच विजौराकी केशर, इन्हों करके दांत जिह्वा इन्होंको धोवे और कुरले धारण रखवे
 ॥ ७ ॥ तो गर्भवती स्त्रियोंकी अरुचिका नाश होता है और कूडाकी छाल, अनारदाना,
 पाठा, बडीसिमफली, बेलगिरी, खरैहटी, ॥ ८ ॥ जामन, आंव, इन्होंके पत्ते इन मांहसे जितनी
 औषध मिले उतनीहियोंको खांड, दही इन्होंमें मिलादेनेसे वातसे उपजा स्त्रियोंका अतिसार
 रोग दूर होता है ॥ ९ ॥ और हरडे, स्रंठ इन्होंको त्रिफलाके काथमें मिला और गुड मिला
 शीतलकर पीनेसे गर्भवती स्त्रीका मलका बंधा, विद्रधी इन्होंका नाश होता है ॥ १० ॥
 और काकडीके बीज, नेत्रवाला, पीपली, पाषाणभेद, मिसरी, इन्होंको चावलके धोवनके
 जलके संग पीवे तो स्त्रियोंका बंध हुआ मूत्र शीघ्रही उत्तरता है ॥ ११ ॥

मधुकादिकल्क ॥

मधुकविषमृणालं पद्मकिञ्जल्ककल्कं घनमतिविषमैन्द्रं बीजमौशीरनी

रम् ॥ समकृतमथ कल्कं देयमाशु प्रपाने हितमपि युवतीनां गर्भंचाले
सिताढ्यम् ॥ १२ ॥

और मुल्हदी, अतीश, कमलकी नाली, कमलकेशर, इन्होंका कल्क बना अथवा नागर-
मोथा, अतीश, ईद्रजव, खश, नेत्रवाला इन्होंको समान भाग ले कल्क बना शीघ्रही गर्भवती
स्त्रीको पान करावे गर्भवती स्त्रियोंका गर्भ चलिता हैनेमें मिसरीसे युक्त इस औषधका पान
कराना श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥

अथ गर्भोपद्रवमें उपचारकी शिक्षा ॥

गर्भस्योपद्रवाः शोफाः स्वेदयेदुष्णवारिणा ॥ न दातव्यो मतिमता विरे
को दारुणो महान् ॥ १३ ॥ इत्यात्रेयज्ञापिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने
गर्भोपद्रवचिकित्सा नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥

और गर्भके उपद्रव जो शोफे हो जावे तो गरम जलसे पसीना दिवावै और बुद्धिमानवैद्य
गर्भवती स्त्रीको दारुण जुलाब नहीं देवै ॥ १३ ॥ इति वेरीनिवासिब्रुघशिवसहायसूनुवैद्यर-
विदत्तशाल्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने गर्भोपद्रवचिकित्सानाम एकपञ्चाश-
त्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥

द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥

अथ मूढगर्भचिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ विरुद्धाहारसेवाजिस्तथा गर्भव्यथासु च ॥ अतिमूढं
नपीडायाः पीडां प्राप्नोति चार्भकः ॥ १ ॥ तिर्यग्वापि च गर्भश्च ल्य
क्त्वा द्वारं जगस्य च ॥ अन्यद्वा म्रियतेऽपत्यं तेन कटं प्रपद्यते ॥ २ ॥
अथवा लज्जया स्त्रीणां सङ्कोचात्सङ्कुचिते जगे ॥ मूढगर्भश्च जानीयात्त
स्य वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ ३ ॥ वस्तिशूलञ्च जवति योनिद्वारं निरुन्ध
ति ॥ गर्जते जठरं यस्या आध्मानश्चैव जायते ॥ ४ ॥ तोदनं चाङ्गजङ्ग
श्च निद्राभङ्गश्च जायते ॥ वाताद्भवति गर्भस्य संरोधो जिपगुत्तम ! ॥
॥ ५ ॥ शूलं ज्वरमिदोपश्च तृणादोपो भ्रमस्तथा ॥ मूत्रकृच्छ्रं शिरौऽ
न्तिः स्यात्पित्ताद्गोधो भ्रूणस्य च ॥ ६ ॥ आलस्यतन्द्रानिद्रा च जा

इत्याध्मानं च वेपथुः ॥ कासो विरसता चास्ये श्लेष्मणा मूढगर्भके ॥ ७ ॥
द्वन्द्वैश्च द्वन्द्वजं विद्यात्सर्वं स्यात्सन्निपातिकम् ॥ ८ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—विरुद्धआहारादिक करनेसे गर्भमें बाधा होनेसे बालकके मस्तकमें पीडा होनेसे बालक दुःखित होजाता है ॥ १ ॥ वह तिरछाहो भगके द्वारको त्याग देता है और कहीक मरजाता है तिरसे स्त्रीको कष्ट होता है ॥ २ ॥ अथवा लज्जासे स्त्रीकी भगका संकोच होनेसे मूढगर्भ होजाता है तिसके लक्षणको कहते हैं ॥ ३ ॥ वस्तिमें शूल, योनिद्वार रुकजाये और जिसका उदर गर्जे, और अफाराहो ॥ ४ ॥ चभकाहो, अंगभंगहो, निद्राभंगहो, हे उचमवैद्य ! तहां वातसे उपजा गर्भका निरोध जानना ॥ ५ ॥ और शूलहो विदो-पसहित ज्वरहो, तृषाहो, दोषका भ्रमहो, मूत्रछूहो, शिरमें पीडाहो वह पित्तसे उपजा गर्भ-निरोध जानना, ॥ ६ ॥ और आलस्यहो, तंद्राहो, निद्राहो, जडपनाहो अफाराहो, कंपनाहो, खांसीहो, मुखमें विरसताहो, ये लक्षण कफसे उपजे मूढगर्भके हैं ॥ ७ ॥ और दोदोषोसे मिलेहुए लक्षण जाननें जिसमें सब लक्षण मिले वह सन्निपातका मूढगर्भ जानना ॥ ८ ॥

अथ मृतगर्भका लक्षण ॥

भ्रममूर्च्छातृषाध्मानं वातरोधश्च विह्वलम् ॥ मूर्च्छात्रिमिं सपारुष्यं दीन
त्वमुपगच्छति ॥ ९ ॥ मृतगर्भं विजानीयादाशुकारी स्त्रियामपि ॥ अतो
वक्ष्यामि भ्रैषज्यं महामोहे विशारद ! ॥ १० ॥

भ्रमहो मूर्छाहो, तृषाहो, अफाराहो, वातका रोधहो, विह्वलहो, मूर्छाहो, वमनहो, कठोर-ताहो, गरीबपनाहो, ॥ ९ ॥ तहां स्त्रीके मराहुआ गर्भ जानना, इसका इलाज शीमही करे हे वैद्य ! इस महामोहकी अब औषधोंको कहेंगे ॥ १० ॥

अथ वातिकमूढगर्भचिकित्सा ॥

वातिके मर्दनाभ्यङ्गं स्वेदनं वाल्पमेव च ॥

यवागूं पञ्चकोलञ्च पाययेद्विषगुत्तमः ॥ ११ ॥

वातिके मृतगर्भमें मर्दन करै मालिस करै अल्प २ पसीना दिवावै और पंचकोल, अर्थात्, स्रुंठ, पीपली, पीपलामूल, चव्य, चीता, इन्होंकी यवागू प्याये ॥ ११ ॥

अथ पैत्तिकमूढगर्भचिकित्सा ॥

पैत्तिके शीतलं पानं शीतान्नसहितानि च ॥

व्यञ्जनानि तथा तस्य यष्टिकं पयसा पिबेत् ॥ १२ ॥

और पित्तके मृतगर्भमें शीतल पान, शीतल अन्न, और शाकआदिक देवे और मुलहटी-
को दूधके संग पीवे ॥ १२ ॥

अथ कफजमूढगर्भचिकित्सा ॥

त्रिकटुं त्रिफला कुष्ठं रोध्रं वत्सकधातुकी ॥

सगुडं कथितं पाने श्लेष्मणा मूढगर्भके ॥ १३ ॥

और कफके मूढगर्भमें सूठ, मिरच, पीपली, त्रिफला, कूठ, लोध, कूडाकी छाल, धापके
फूल, गुड इन्होंका काथ बना पान कराना हित है ॥ १३ ॥

अथ रक्तपित्तजमूढगर्भचिकित्सा ॥

मूर्वाचिश्चावास्तुकर्णीमञ्जिष्ठारोध्रनीलिकाः ॥ कर्कन्धूमूलं सौराष्ट्री काथ
श्च सगुडो हितः ॥ १४ ॥ रक्तपित्तविकारेषु कुक्षिशुद्धिश्च जायते ॥
मृतगर्भस्य वक्ष्यामि भेषजं भिषजां वर ! ॥ १५ ॥ मर्दयित्वा मानु
षीञ्च ततश्चापि प्रयत्नतः॥निराहाराच्च अयते यदि गर्भोऽन्तरे स्त्रियः॥१६॥

और मरोडफली, अमली, वास्तुकर्णी, मंजीठ, लोध, नील, बेरीकीजड, फटकटी, इन्होंका
काथ बना गुड मिला ॥ १४ ॥ रक्तपित्तके विकारोंमें कुक्षिकी शुद्धिकेवास्ते देना श्रेष्ठ है
और हे उत्तम वैद्य अब मृतगर्भकी औषधको कहते है ॥ १५ ॥ जो यदि निराहार लंघन
करनेसे स्त्रीके उदरमें गर्भ मरजावे तो यतनसे स्त्रीको मर्दन करि पीछे शस्त्रक्रिया करै ति-
सको मुक्षसे सुन ॥ १६ ॥

अथ मूढगर्भमें शस्त्रचिकित्सा ॥

तदा शस्त्रप्रतीकारं भेषजानि शृणुष्व मे ॥ नाभिविलशयाच्च सुकुण्डलि
कां कृत्वा तु तस्योपरि मूढगर्भामुपवेश्य जानुनी प्रसार्य किञ्चित्पृष्ठभागे
साधारणमवष्टभ्य उदरादधोऽवतारयेत् ॥ योनिद्वारे प्रगलति तिलतैलेन
वारिणा परिभ्यज्य हस्तो याति योनिद्वारञ्च तस्मात्तर्जन्याङ्गुष्ठेन गलप्र
देशे धृत्वा निःसारयेत् ॥ अथवाङ्गुष्ठेण शस्त्रेणैव मृतगर्भस्य वाङ्गुयु
गलं संच्छिद्य बाहू निःसारयेत् ॥ १७ ॥

नाभिके विलके समान गोल और डूँधी कुंडलिका अर्थात् ईँढवीसी बनावके तिसके ऊ-
पर मूढगर्भवाली स्त्रीको बैठके तिसके गोडे पसराके पीठकी तर्फसे साधारण कछुक दवावै
और उदरसे नीचेको गर्भको उतारे जब योनिके द्वारपे गर्भ आजावे तब तिलोंका तेल, ज-

ल इन्होंकी मालिसा करै पीछे योनिद्वारसे बालकका हाथनिकसे तब तर्जनी अंगुली और अंगुठेको योनिके भीतर कर तिसबालके गलेको पकड़ि बाहिरको खींचलेवे अथवा अर्द्ध चंद्रनामवाले शस्त्रसे तिस मराहुआ बालककी दोनोंवाहुओंको काटि बाहिरको निकासदेवै ॥ १७ ॥

अथ उत्पत्तिके उपायकेवास्ते मंत्र और औषध ॥

लाङ्गल्या मूलेन उष्णेन वारिणा योषितां नाभिलेपेन शीघ्रं गर्भो जायते प्रसूयते च ॥ बलामूलं सूर्यकान्तिसोमवल्लीकानि कज्जलेन पिष्ट्वा लेपनं करोतु ॥ १८ ॥

कलहारीकी जड़को गरम जलमें पीस गर्भवती स्त्रियोंकी नाभिपे लेप करनेसे शीघ्रही बालक उत्पन्न होता है और खरैहटीकी जड़, सूर्यमुखी, चांदवेल, इन्होंको कज्जलके संग लेप करना हित है ॥ १८ ॥

अथ सुखसे बालकहोनेका यत्न ॥

भीरुभूनिम्बवार्त्ताकीमूलञ्च पिप्पलीयकम् ॥ यवान्यग्रवचाः पिष्ट्वा त या चोष्णेन वारिणा ॥ १९ ॥ नाभिदेशादधस्ताच्च प्रलेपेन प्रसूयते ॥ मूलञ्च लाङ्गलिक्याश्च देवदाल्याश्च तुम्बिका ॥ २० ॥ कोशातक्या दिकं सर्वं लेपने परिकल्पितम् ॥ सूतिलेपाः स्त्रियो ज्येते सुखेन सा प्रसूयते ॥ २१ ॥

शतावरी, चिरायता, वार्त्ताकी, कटेहलीका भेद, तिसकी जड़, पीपली, अजमान, वच, इन्होंको गरम जलके संग पीस ॥ १९ ॥ नाभिस्थानसे नीचेको लेप करनेसे बालक उत्पन्न होता है और कलहारीकी जड़, देवताडकी जड़, तुंबी, ॥ २० ॥ तोरी, इन्होंको पीस लेप करना श्रेष्ठ हैं कहे हुए ये सब लेप करनेसे स्त्री सुखसे बालकको जनती है ॥ २१ ॥

अथ मन्त्रः ॥

हिमवदुत्तरे कूले सुरसा नाम राक्षसी ॥ तस्या नूपुरशब्देन विशल्या गुर्विणी भवेत् ॥ २२ ॥ ऐं ह्रीं भगवति ! भगमालिनि ! चल चल भ्रा मय पुष्पं विकाशाय विकाशाय स्वाहा ॥ श्रीं नमो भगवते मकरकेतवे पुष्पधन्विने प्रतिचालितसकलसुरासुरचित्ताय युवतिभगवासिने ह्रीं गर्भं चालय चालय स्वाहा ॥ एभिर्मन्त्रितं पयः पाययेत्तेन सुखप्रसवः ॥ २३ ॥

हिमपान् पर्वतकी दाहिनी तर्फको किनारेपे सुरसा नामवाली राक्षसणी रहती है तिसके

नूपुर विछुवोंके शब्दसे मूढगर्भवाली स्त्री बालकको जनती है ॥ २२ ॥ ऐंहीं भगवति भगमालिनि चलचल, भ्रामय पुष्पं विकाशय विकाशय स्वाहा ॥ ओंनमो भगवते मकरकेतवे पुष्पधन्विने प्रतिचालितसकलसुरासुरचिचाय युवतिभगवासिनेहीं गर्भं चालय चालय स्वाहा, इनमंत्रोंसे पढाहुआ दूधको प्यावे तिससे सुखसे बालक होता है ॥ २३ ॥

अथ यन्त्रः ॥

ऐं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रौं ह्रः ॥ २४ ॥ इदं यन्त्रं भूर्जपत्रस्योर्ध्वं भागे लिखि
त्वा मूढगर्भायै दर्शयेच्छय्यातले च स्थापयेत्तेन सुखेन प्रसवः ॥ २५ ॥

ऐं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रौं ह्रः ॥ २४ ॥ इसयंत्रको भोजपत्रके ऊपर लिखके मूढगर्भवाली स्त्रीकेवास्ते दिखवे अथवा तिसकी शय्याके नीचे स्थापित करदेवे तिससे सुखसे बालक उत्पन्न होता है ॥ २५ ॥

अथ मंत्र ॥

गङ्गातीरे वसेत्काकी चरते च हिमालये ॥ तस्याः पक्षच्युतं तोयं पाय
येच्च ततः क्षणात् ॥ २६ ॥ ततः प्रसूयते नारी काकरुद्रवचो यथा ॥
अनेन दूतो व्याकुलो भवेत्तावच्च पाययेत् ॥ २७ ॥ तेन प्रसूयते नारी
गृहे काकसुखेन च ॥ २८ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्था
ने मूढगर्भचिकित्सा नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥

“गंगातीरे वसेत्काकी चरते च हिमालये । तस्याः पक्षच्युतं तोयं पाययेच्च ततः क्षणात् ॥ ततः प्रसूयते नारी काकरुद्रवचो यथा ॥” अर्थ—गंगाके तीरपर हिमालयपर्वतमें एक काकी विचरती है. तिसके पंखसे गिराहुआ पानी स्त्रीको पिलावे. तिससे स्त्री प्रसवती है ऐसा काकरुद्रका वचन है ॥ २६ ॥ इसमंत्रको कहताहुआ दूत एकश्वाससे थकजावे तब गर्भवती स्त्रीको तिसजलको प्यादेवे ॥ २७ ॥ फिर वह स्त्री सुखसे बालको जनती है जैसे कागणी अंडेको तैसे ॥ २८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्रनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने मूढगर्भचिकित्सानाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥

त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥

अथ सूतिकारोगकी चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ प्रसूत्यनन्तरं रोध्रार्जुनकदम्बद्वैवदारुनीजकाहं कर्कन्धू

अथ यथालाभं लोहितविशुद्धे दापयेत् ॥ प्रसूतिजाता योनिः संशोध्यते ॥
तैलेनापूर्य्याभ्यज्य चोष्णेन वारिणा स्वेदयेत् ॥ उपवासमेवं कृत्वा द्वि-
तीये दिवसे गुडनागरहरीतकीश्च दापयेत् ॥ द्वययामोर्ध्वं कुलत्थयूपं वा
सोष्णं पाययेत् ॥ तृतीयदिवसे पञ्चकोल्यवागूर्दापयेत् ॥ चतुर्जातक
मिश्रा यवागूर्दापयेत् ॥ पञ्चमेऽहनिशालिषटिकौदनं भोजयेत् ॥ अनेन
क्रमेण दशपञ्चदशाहं चोपचारयेत् ॥ १ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—बालक जननेके पीछे लोद, अर्जुनवृक्ष, कदंब, देवदार, विजौरा,
वेरी इन्होंमेंसे मिले उतनेहिणोंको लहूकी शुद्धिकेवास्ते काथ बनाके देवै इस्से प्रसूति स्त्री-
की योनी शुद्ध होजाती है और तेलकी मालिस कर गरमजलसे पसीना दिवावै पहलेदिन
स्त्रीको लंघन करवावे और दूसरे दिन गुड, स्रंठ, हरडै इन्होंको देवै फिर दोपहर पीछे कुल-
थीका यूप गरम २ देवै और तीसरे दिन पंचकोल अर्थात् पीपली, पीपलामूल, स्रंठ, चव्य,
चीता इन्होंकी यवागू बनाके देवै और चौथेदिन इसयवागूमं चातुर्जातक अर्थात् दालचीनी,
इलायची, तेजपात, नागकेशर ये मिलाके देवै और पांचवे दिन शालिसंज्ञक चावलके भा-
तका भोजन करै इसीक्रमके अनुसार पंद्रह दिन पथ्यभोजनका उपचार करना चाहिये ॥ १ ॥

अथ स्त्रीके दूध बढ़ानेके उपाय ॥

पिप्पली पिप्पलीमूलं नागरं घनवालुकम् ॥ कुस्तुम्बुरूणि मञ्जिष्ठां सह
क्षीरेण कल्कयेत् ॥ २ ॥ पानं क्षीरविशुद्धयर्थं कल्कमश्रात्यनन्तरम् ॥
मरीचं पिप्पलीमूलं क्षीरं क्षीरविद्युद्धये ॥ ३ ॥ मागधी नागरी पथ्या
गुडेन सघृतं पयः ॥ पानं जनयते क्षीरं स्त्रीणाञ्च क्षीरपादपि ॥ ४ ॥ एवं
कृत्वा च नारीणां द्वादशाहे भिषग्वरः ॥ माङ्गल्यं वाचनं कृत्वा योषा
र्थञ्च प्रदर्शयेत् ॥ ५ ॥ जातके सुतमोक्षञ्च द्वादशाहं तथापुनः ॥ नामक
र्मकतौ सत्यां कर्णवेधनमेव च ॥ ६ ॥ वस्त्रवन्धं विवाहञ्च कारयेद्वा
लकस्य च ॥ ७ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने सूतिकोप
चारोनाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥

पीपल, पीपलामूल, स्रंठ, नागरमोथा, नेत्रवाला, धनियां, मंजीठ इन्होंको दूधमें पीस
कल्क बना ॥ २ ॥ इस कल्कको खावे और दूध पीवे ऐसे करनेसे स्त्रीके दूधकी शुद्धि हो-
ती है और मिरच, पीपलामूल इन्होंसे युक्त दूधके पीनेसे स्त्रियोंके दूधकी शुद्धि होती है

॥ ३ ॥ और पीपली, स्रंठ, हरडै इन्होंको गुड घृतसहित दूधमें मिला पीनेसे स्त्रियोंकै दूध बढ़ता है ॥४॥ और इसप्रकारके वारहमें दिन मंगलाचरण करवाके पीछे स्त्रियोंका अर्थगीत मंगलादिकके दर्शन करवावे ॥ ५ ॥ जातककर्ममें सुतकी उत्पत्ति होनेका मंगल करवावे पीछे वारहमें दिन मंगल करवाके नामकर्म करवावे पीछे कर्णवेधकर्म करवावे ॥६॥ फिर वस्त्रबंध, तागडी आदि बांधनेका कर्म और विवाहकर्म ये सब कर्म बालकके करवाने चाहिये ॥ ७ ॥ इति वेरीनि० हारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने सूक्तिकोपचारोनाम त्रिपंचाशत्तमोऽध्यायः॥५३॥

चतुःपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥५४॥

अथ बालरोग निदानलक्षण ॥

आत्रेय उवाच ॥ पञ्चैव क्षीरदोषाश्च स्त्रीणाञ्च कथिता बुधैः ॥ घन क्षीरोष्णक्षीराम्लक्षीरा चैव तथा परा ॥ १ ॥ अल्पक्षीरा क्षारक्षीरा मृदु क्षीरा तथा परा ॥ मृदुक्षीरा भवेत्सौर्य्या पञ्चान्या दोषकारकाः ॥ २ ॥ घनाध्माननिरोधत्वं श्वासकासादिसम्भवः ॥ उफुल्लकुक्षितैवं हि घन क्षीरस्य सेवनात् ॥ ३ ॥ अल्पसत्वः कृशो दीनः श्वासातीसारपीडितः ॥ अल्पक्षीरस्य दोषेण सम्भवेद्भ्रतवाक्सुतः ॥ ४ ॥ ज्वरः शोषस्तथाल्पत्वमुष्णक्षीरेण बालके ॥ तथैव चोष्णक्षीरेण ज्वरातीसार एव च ॥ ५ ॥ सुसत्वं बलमामोति चारोग्यं लज्जते शिशुः ॥ मृदुक्षीरेण नियतं जायते रूपवानपि ॥ ६ ॥ चक्षुरोगश्च कण्डूश्च क्षतश्लेष्मावसाविता ॥ संछेद युक्तं नासास्थं जायते क्षारदुग्धके ॥ ७ ॥

पंडितजनेनें स्त्रियोंकै दूधके दोष पांच कहे है गाढा दूध, गरम दूध, खटा दूध ॥ १ ॥ थोडा दूध, खारा दूध ये पांच दोष है और कोमल स्वच्छ दूधवाली स्त्री सुखसे युक्त कही और ये अन्य सब दूषित दूधवाली है ॥ २ ॥ जो बालक गाढा दूध पीवे तो करडा अफाराहो श्वास रोगहो खांसीहो और कूखि, जांघोंकी संधि ये फूटी हुई रहै ॥ ३ ॥ और अल्प दूधके पीनेसे थोडा बलहो, कृशहो, दीनहो, श्वास, अतिसार, इन्होंसे पीडितहो और बाणी नष्ट होजावे ॥ ४ ॥ और ज्वरहो अल्पशोषहो अतिसारहो ये स्त्रीका गर्म दूध पीनेवाले बालकके रोग होजाते है ॥ ५ ॥ और कोमल स्वच्छ दूध पीनेसे बालक मोटा होता है और बल बढ़ता है निरंतर आरोग्य सुखमें प्राप्त रहता है और रूपवान् होता है ॥ ६ ॥ और

आंखोंमें रोगहो खाजिहो कफ गिरे बालके जलसे युक्त नासिका और मुख रहै ये खारा दूध पीनेवाले बालकोंके रोग हे ॥ ७ ॥

अतो वक्ष्यामि भैषज्यं शृणु हारीत ! मे मतम् ॥ ८ ॥

हे हारीत ! अब इन्होंकी औषधोंको कहेंगे तू सुन यह मेरा मत है ॥ ८ ॥

अथ उत्फुल्लरोगकी चिकित्सा ॥

आध्मानाःकुल्लकुक्षिश्च श्वासदोषादिपीडितः ॥ उत्फुल्लिका च विज्ञेया
वालानां दुःखकारिणी ॥ ९ ॥ उदरे च जलौकादिरक्तं चादौ विमोक्ष
येत् ॥ उत्फुल्लिदोषे दातव्यं क्षीरदोषनिवारणम् ॥ १० ॥ अग्निना प्रव
लः स्वेदो दहेद्वापि शलाकया ॥ जठरे विन्दुकाकारा जायन्ते जिपगुत्त
म ! ॥ ११ ॥ विल्वमूलफलं पाठा त्रिकटु बृहतीद्वयम् ॥ क्वाथश्च गु
डयुक्तश्च बालानाञ्च ज्वरे हितः ॥ १२ ॥ स्त्रीणां स्यात्पानमेतेषां वा
लानां ज्वरनाशनम् ॥ १३ ॥

अफारासे कूखि फूली रहे श्वासआदि दोषोंसे पीडितहो वह उत्फुल्लिकासंज्ञकरोग होता हे बालकोंको दुःख करनेवाला हे ॥९॥ कुक्षि उत्फुल्लित रोगमें पहले जो दोष आदिकोंसे रुधिर-को निकसावे पीछे दूधके दोषको निवारण करे ॥ १० ॥ और अग्निसे अति प्रबल पसीना दिवावे शलाकासे दग्ध करे उदरमें विंदुवोंसरीखे आकार होजावे ऐसा दग्ध करे ॥ ११ ॥ और बेलगिरीकी जड़ और फल, पाठा, त्रिकटु अर्थात् संठ, मिरच, पीपल दोनों कटेहली, इन्होंका क्वाथ बना गुड मिला देना बालकोंको हितदायक कहा हे ॥ १२ ॥ और इसक्वाथको बालककी माता स्त्रीको प्यावे तो बालकोंके ज्वरका नाश होता हे ॥ १३ ॥

अथ बालरोगचिकित्साके अन्य उपाय ॥

हितः पर्पटकक्वाथः शर्करामधुयोजितः ॥ बालानां ज्वरनाशाय कैरातं
मधुसंयुतम् ॥ १४ ॥ भाङ्गीरास्नाकर्कटकचूर्णं वा मधुसंयुतम् ॥ लेंहो
वा बालकस्यापि श्वासकासनिवारणः ॥ १५ ॥ पश्यावचानागरकं घनं
कर्कटमेव च ॥ चूर्णं सगुडमेवं हि बालानां कासनाशनम् ॥ १६ ॥ प
लाशभेदं त्रिफलात्रपुसीवरीमागधीः ॥ पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन सिताढ्यं
मूत्ररोधजित् ॥ १७ ॥ नागरीसभयादन्तीगुडचूर्णं प्रदाप्येत् ॥ बाला
नां विद्रधिश्चैव नाशयेच्च न संशयः ॥ १८ ॥ पाटाबिल्वशिलादीनि व

त्सकं शात्मलीत्वचम् ॥ दुग्धेन पानं बालानामतिसारनिवारणम् ॥ १९ ॥
 अर्जुनश्च कदम्बश्च कुष्ठं गैरिकमेव च ॥ लेपनं त्वचो दोषाणां वारणं
 बालकस्य च ॥ २० ॥ रोध्रं रसाञ्जनं धात्री गैरिकं मधुना युतम् ॥
 अञ्जनञ्चैव बालानां नेत्ररोगनिवारणम् ॥ २१ ॥

और पित्तपापडाके काथमें खांड और शहद मिलाके देना हित है और बालकोंके ज्वरके नाशकेवास्ते चिरायता, शहद, इन्होंका प्याना हित है ॥ १४ ॥ और भारंगी, रास्ता, काकडासींगी, इन्होंके चूर्णमें शहद मिला लेह बना बालको चवानेसे बालकका श्वात्त, खांस इन्होंका नाश होता है ॥ १५ ॥ और हरडै, वच, स्रंठ, नागरमोथा, काकडासींगी, इन्होंके चूर्ण बना बराबरका गुड मिलादेनेसे बालकोंकी खांसीका नाश होता है ॥ १६ ॥ और केश, त्रिफला, खीरा, शतावरी, पीपली, इन्होंको चावलके धोवनके जलमें पीस प्यानेसे बालमूत्र-रोध दूर होता है ॥ १७ ॥ स्रंठ, हरडै, जमालगोटाकी जड, इन्होंके चूर्णमें गुड मिलाके देनेसे बालकोंके विद्रधीरोगका नाश होता है ॥ १८ ॥ और पाठा, बेलगिरी, शिलाजीत, कुडाकी छाल, सालवणकी छाल, इन्होंको पीसि दूधके संग प्यानेसे बालकोंके अतिसारका नाश होता है ॥ १९ ॥ और अर्जुनवृक्ष, कदंब, कूठ, गेरू, इन्होंको शहदमें मिला अंजन घालनेसे बालकोंके नेत्ररोगका नाश होता है ॥ २० ॥ लोध, रसांजन, आमला, गेरू, इन्होंके शहदके संग घिसकर अंजन करनेसे बालकोंके नेत्रका रोग नष्ट होता है ॥ २१ ॥

अथ बालकोंकी वृद्धिको बढ़ानेवाले औषध ॥

वचा ब्राह्मी च मण्डूकी घनकुष्ठं सनागरम् ॥ घृतेन प्रातर्दयश्च बाला
 नां पुष्टिकारकम् ॥ २२ ॥ गुडूचिकापामार्गश्च विडङ्गं शङ्खुपुष्पिका ॥
 विष्णुक्रान्ता वचा पथ्या नागरश्च शतावरी ॥ २३ ॥ चूर्णं घृतेन संमि
 श्रं लिहतो धीः प्रवर्त्तते ॥ त्रिभिर्दिनैः सहस्रकं श्लोकानामवधारयेत् २४

वच, ब्राह्मी, सूर्यफूलबेल, नागरमोथा, कूठ, इन्होंको घृतमें मिला प्रातःकाल देनेसे बालकोंकी पुष्टि होती है ॥ २२ ॥ गिलोय, ऊंगा, वायविडंग, शंखपुष्पी, विष्णुक्रान्ता, वच, हरडै, स्रंठ, शतावरी, ॥ २३ ॥ इन्होंके चूर्णको घृतमें मिला चटानेसे बालककी बुद्धि बढ़ती है तीन दिनमें हजार श्लोकोंको धारण कर सकता है ॥ २४ ॥

अथ बालकोंकी वाणीको करनेवाले औषध ॥

त्रिकटु त्रिफला धन्या यवानी सालमूलिका ॥ वचा ब्राह्मी तथा भा
 र्गी चूर्णश्च मधुना हितम् ॥ वाक्पटुत्वञ्च बालानां नादो वीणासमस्वरः ॥ २५ ॥

सूँट, गिरच, पीपली, त्रिफला, धनियां, अजमान, सालवृक्षकी जड़, वच, ब्राह्मी, भारंगी, इन्होंका चूर्ण बना शहदके संग चारुनेसे बालककी जुवान अति चपल होती है और बिनके समान शब्दका स्वर होता है ॥ २५ ॥

अथ बालकोंके अपस्मार रोगकी चिकित्सा ॥

यस्य श्वासो विचैतन्यं तन्द्रा चातीववेपथुः ॥ शिरोऽर्त्तिः संज्वरश्चैव स
चासाध्यो भिषग्वर ! ॥ २६ ॥ लालाकृतिविचैतन्यं तृप्तविभ्रान्तलो
चनम् ॥ स्तब्धाङ्गविकृतिर्यस्य चापस्मारी स उच्यते ॥ २७ ॥ अपस्मारे
तु बालस्य शीतलानि प्रयोजयेत् ॥ वचा सैन्धवपिप्पल्यो नस्यं हि गु
डनागरः ॥ २८ ॥ रसं चागस्तिपत्रस्य मरिचैः प्रतियोजितम् ॥ एतेन
प्रतिसौख्यं स्यात्तदा चान्दोलनं हितम् ॥ २९ ॥ मस्तकान्ते ललाटे च
दहेल्लोहशलाकया ॥ ३० ॥

जिराके अत्यंत श्वासहो चेत नहीं रहे, तंद्राहो, अत्यंत कंपनाहो; शिरमें पीडाहो, ज्वरहो, हे वैद्य ! वह असाध्य रोग होता है ॥ २६ ॥ लाल आकृतिहो, चेत नहीं हौ, और फटे हुए भ्र-
मते हुए नेत्रहो, अंग जकड़बंध चुरावर्णवाला होजा वह अपस्मार अर्थात् मृगीरोग जानना
॥ २७ ॥ अपस्मार रोगमें बालकको शीतल वस्तु देनी चाहिये और वच, सैन्धानमक, पीपली
सूँट, गुड इन्होंको मिला नस्य देवै ॥ २८ ॥ अथवा अगस्तिवृक्षके पत्तोंका रसमें गिरच
मिला नस्य देवै. इसप्रकार करनेसे सुख होजाये तब आंदोलन अर्थात् हिलाने चलानेका कर्म
करे ॥ २९ ॥ और मस्तकके अंतमें शिरके ऊपरकी नसको शलाईसे दग्ध करना हित है ३०

अथ बालकोंके पूतनाका दोष ॥

शून्यागारे देवकुले श्मशाने देवमध्यगे ॥ चत्वरे सङ्गमे नद्योर्भयक्षुभित
बालके ॥ ३१ ॥ संक्रामन्ति भिषक्छ्रेष्ठ ! बालकस्यापि पूतनाः ॥ ३२ ॥ लो
हिता रेवती ध्वांक्षी कुमारी शाकुनी शिवा ॥ ऊर्ध्वकेशी तथा सेना अ
ष्टौ चैताः प्रकीर्त्तिताः ॥ ३३ ॥ तथान्यासाञ्च मत्तस्त्वं नामानि शृणु
साम्प्रतम् ॥ रोहिणी विजया काली कृत्तिका डाकिनी निशा ॥ ३४ ॥
भूतकेशी कृशाङ्गी च अष्टौ चैताः प्रकीर्त्तिताः ॥ लक्षणञ्च प्रवक्ष्यामि
शृणु पूजावलिक्रमम् ॥ ३५ ॥ जातमात्रस्य बालस्य लोहिता नाम पू
तना ॥ विस्रगन्धा लोहितञ्च रोदिति स मुहुर्महुः ॥ ३६ ॥ वलिं तस्याः

प्रवक्ष्यामि येन सौख्यं प्रजायते ॥ द्वितीये दिवसे वालं रेवती नाम पूत
 ना ॥ ३७ ॥ गृह्णाति लक्षणं तस्य रोदिति कम्पते भृशम् ॥ कृष्णाम्बुमर्या
 प्रतिमां कृत्वा गन्धानुलेपनैः ॥ ३८ ॥ कृशरारालचूर्णञ्च दीपधूपैस्त
 थाक्षतैः ॥ ताम्बूलैः कृष्णसूत्रैश्च रात्रौ नैऋतिके क्षिपेत् ॥ ३९ ॥ तृती
 ये दिवसे प्राप्ते वायसी नाम पूतना ॥ तथा गृहीतनात्रेण रोदिति न
 पिवेत्स्तनम् ॥ ४० ॥ ज्वरश्चैवानिसारश्च काकवद्वदिति भृशम् ॥ तस्या
 दध्योदनं पात्रे यवकृशरपोलिकाः ॥ ४१ ॥ ध्वजाग्निःसगुडश्चैव
 कृष्णगन्धानुलेपनम् ॥ धूपदीपाक्षतैश्चैव मध्याह्ने वलिमाहरेत् ॥
 ॥ ४२ ॥ चतुर्थे दिवसे वालं कुमारी नाम पूतना ॥ गृह्णाति वालकस्ते
 न ज्वरेण परितप्यते ॥ ४३ ॥ शून्यं विगाहते वालस्तन्मुखं परिशुष्य
 ति ॥ ऋशं स रोदिति तस्याः शृणु पूजावलिक्रमम् ॥ ४४ ॥ पायसं स
 घृतं खण्डं घृतस्य दीपकत्रयम् ॥ ४५ ॥ नृन्मर्या प्रतिमां कृत्वा पुष्प
 धूपाक्षतैरपि ॥ कतान्तदिशि मध्याह्ने वलिं दत्वा सुरवी भवेत् ॥ ४६ ॥
 पञ्चमे दिवसे वालं शाकुनी नाम पूतना ॥ गृह्णाति स तथाक्रान्तः स्त
 न्यं नाकर्षते शिशुः ॥ ४७ ॥ सज्वरो वमति रौति कासमानोऽथ वेपते ॥
 ॥ ४८ ॥ तस्याः शोभनिका पूजा क्रियते तिललडुकैः ॥ श्वेतगन्धाक्षतैर्धू
 पैः पूजयेन्मृन्मयाकृतिम् ॥ ४९ ॥ उत्तराशां समाश्रित्य पूर्वाह्ने वलि
 माहरेत् ॥ पष्ठे च दिवसे प्राप्ते शिवा नाम कुमारिका ॥ ५० ॥ रौति
 निःश्वसिति तेन वमति कम्पते तथा ॥ स्तन्यञ्च नाहरेद्दालो ज्वराति
 सारपीडितः ॥ ५१ ॥ तस्यै वलिः प्रदेयश्च सप्तत्रीहिमयश्चरुः ॥ पायसै
 र्दधिदीपैश्च पूज्या सा तिलचूर्णकैः ॥ ५२ ॥ गन्धपुष्पाक्षतैर्धूपैः पूजये
 न्मृन्मयाकृतिम् ॥ ऐशानीं दिशमाश्रित्यापराह्ने वलिमाहरेत् ॥ ५३ ॥
 सप्तमेऽह्नि पूतनाया ऊर्ध्वकेश्याः शिशौ तथा ॥ पूर्ववदृश्यते चिह्नं त
 थैव वलिमाहरेत् ॥ ५४ ॥ अष्टमे दिवसे प्राप्ते सेना नाम च पूतना ॥ त
 या गृहीतः श्वसिति हस्तौ कम्पयते भृशम् ॥ ५५ ॥ तस्यै दध्योदनं द
 द्यात्तिलचूर्णञ्च पोलिकाम् ॥ धूपदीपगन्धपुष्पताम्बूलान्यक्षतानि च ॥

॥ ५६ ॥ आग्नेयीं दिशमाश्रित्य प्रदोषे बलिमाहरेत् ॥ एवं क्रमेण मा
सस्य वर्षस्य बलिकर्म च ॥५७॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्था
ने बालचिकित्सानाम चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५४॥इति कौमारतन्त्रम्॥

शून्य मकानमें और देवताओंके मंदिरमें तथा देवताओंकी मूर्तिके समीपमें चुराहामें
तथा नदीके संगममें भयसे क्षुभित बालक होजावे ॥ ३१ ॥ तब हेउत्तम वैद्य !
तिसबालकको पूतना ग्रहण करलेती है ॥ ३२ ॥ और लोहिता, रेवती, ध्वांक्षी,
कुमारी, शाकुनी, शिवा, उर्ध्वकेशी, सेना, ऐसे आठ प्रकारकी पूतना होती है ॥ ३३ ॥
और अन्य पूतनाओंके नाम तू अब मुझसे सुन. रोहिणी, विजया, काली, कृत्तिका,
डाकिनी, निशा, ॥ ३४ ॥ भूतकेशी, कृशांगी, ये आठ कही है इन्हेंके लक्षण और
पूजा, बलिके क्रमको कहतेहैं सुन ॥ ३५ ॥ जन्ममात्र लियेहुए बालकके लोहिता
पूतना लगती है तिससे बालकमें बुरी गंध आवे वारंवार रोवै ॥ ३६ ॥ सो तिसकी बलिको
कहेंगे तिससे सुख होता है और जन्मसे दूसरेदिन बालकको रेवती नामवाली पूतना ग्रहण
करती है ॥ ३७ ॥ तिससे रोवै और वारंवार कापे तहां काली मृत्तिकाकी मूर्ति बनाके गंध,
चंदन, ॥ ३८ ॥ खीचडी, रालका चूर्ण, दीप, धूप, अक्षत, नागरपान, काला सूत इन्हेंसे पू-
जन कर इन्हेंको नैऋत दिशामें गेर देवै ॥ ३९ ॥ और जन्मसे तीसरेदिन बालकको वायसी
नामवाली पूतना ग्रहण करती है तिससे ग्रहण होनेसे बालक रोवै चूंची नहीं पीवे ॥ ४० ॥
ज्वरहो अतिसारहो वारंवार काककी तरह पुकारे तिसपूतनाकेवास्ते दही, चावल, जवोंकी
कृशरा, पोलिका, ॥ ४१ ॥ इन्हेंको पात्रमें घाल ध्वजाढांक तिसमें गुड कालेपुष्प, काला
चंदनआदि अनुलेप गेर धूप, दीप, अक्षत, इन्हेंसे युक्त करि मध्यान्ह समयमें इसबलिको देवै
॥ ४२ ॥ और चौथेदिन बालकको कुमारी नामवाली पूतना ग्रहण करती है तिससे बालक-
को अति तप्त होती है ॥ ४३ ॥ और शूना रहजावे तब पीडितहो और तिसका मुख शूत्र
जावे वारंवार रोवै ऐसी तिसपूतनाकी पूजा और बलिको सुन ॥ ४४ ॥ खीर, घृत, खांड,
घृतके तीन दीप कर ॥ ४५ ॥ और माठीकी मूर्ति, पुष्प, धूप, अक्षत, इनसबोंको मध्यान्ह
समयमें दक्षिणकी दिशामें स्थापित कर देवै ऐसैं करनेसे बालक सुखी होता है ॥ ४६ ॥ और पांच-
वेदिन बालकको शाकुनी नामवाली पूतना ग्रहण करती है तिससे असितहुआ बालक चूंचीको
नहीं लेता है ॥ ४७ ॥ ज्वरसे युक्तहो वमन करै रोवै खांसताहुआ कापै ॥ ४८ ॥ तिसपूतनाकी
सुंदर पूजा तिललड्डु इन्हेंसे करै और सफेदगंध, अक्षत, धूप इन्हेंसे मृत्तिकाकी मूर्ति बनाके
तिसका पूजन करै ॥ ४९ ॥ उत्तरकी दिशामें मध्यान्ह समयसे पहिले इसबलिको देवै और
छठे दिन शिवानामवाली पूतना बालकको ग्रहण करती है ॥ ५० ॥ तिससे बालक रोवै
अत्यंत श्वास लेवे वमन करै कभी कापे और चूंची नहीं पीवे ज्वर अतिसार इन्हेंसे पीडित

होजावे ॥ ५१ ॥ तिसकेवास्ते सातत्रीही धान्य और खीर, दही, दीपक, इन्होंकी बलि देवै और तिलोंके चूर्णसे तिसका पूजन करै ॥ ५२ ॥ और माटीकी मूर्त्तिका गंध पुष्प धूप अक्षत इन्होंसे पूजन करै ऐशान्यदिशाको तीसरे पहरमें इस बलिको देवै ॥ ५३ ॥ और सातवेदिन बालकको ऊर्ध्वकेशी नामवाली पूतना ग्रहण करती है जिसके लक्षण पहिली कही पूतनाके समान होते है और पहली कहीहुई बलि देवै ॥ ५४ ॥ और आठवे दिन सेनानामवाली पूतना ग्रहण करती है तिस्ते ग्रसित हुआ अत्यंत श्वास लेवे वारंवार हाथ कांपे ॥ ५५ ॥ तिसकेवास्ते दही, चावल, तिलोंका चूर्ण, पोलिका, इन्होंकी बलि देवै और धूप, दीप, अक्षत, गंध, पुष्प, नागरपान, इन्होंसे पूजनकर ॥ ५६ ॥ अग्निकोण दिशामें प्रदोष समयमें इसबलिको देवै इसीप्रकारके क्रमसे महीनोंकी और वर्षोंकीभी देवै ॥ ५७ ॥ इति वेरीनिवासिविधुशिवसहायस्नुवैधरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने बाल चिकित्सानाम चतुःपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥

पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥

अथ भूतविद्या ॥

आग्नेय उवाच ॥ शून्ये देवकुले श्मशानभूमौ वीथीप्रतोलीतले रथ्या कारविहारशून्यनगरे चारामके चत्वरे ॥ १ ॥ जायन्ते क्षुभिते बलानि हृदये क्षुद्रग्रहाणां नरे ते चापि प्रथिता ग्रहा दशविधा बक्ष्याम्यतः सा म्प्रतम् ॥ २ ॥ दश प्रोक्ता महाचार्यैः कैश्विंदप्येकविंशतिः ॥ दशग्रहाणां बक्ष्यामि चिकित्सां शृणु पुत्रक ॥ ३ ॥ ऐन्द्राग्नेयौ यमश्चान्यो नैर्ऋतो वरुणो ग्रहः ॥ मरुतोऽपि कुबेरश्च ऐशान्यो ग्रहको ग्रहः ॥ ४ ॥ पैशाचिको ग्रहश्चान्यो दशैते ग्रहनायकाः ॥ आरामे च विहारेच देवस्थाने च यो जवेत् ॥ ५ ॥ ऐन्द्रग्रहं विजानीयात्तेन हर्षति गायति ॥ सदर्पश्चासदर्पश्च उन्मादग्रस्त एव च ॥ ६ ॥ श्मशाने चत्वरे चैव गृह्णात्याग्नेयकुग्रहः ॥ तेनैव रोदित्यत्यर्थं पश्यति सर्वतो जयम् ॥ ७ ॥ युद्धभूमौ श्मशाने च यमश्चापि उदीर्यते ॥ तेन विह्वलो दीनश्च भ्रेतवञ्चेष्टते नरः ॥ ८ ॥ बल्मीकचत्वरे चैत्ये गृह्णाति नैर्ऋतो ग्रहः ॥ तेनासौ वर्त्तते

द्वेष्टि धावति मारयत्यपि ॥ ९ ॥ दृप्तनेत्रो विवर्णास्थो बलिष्ठो दुष्टचेत
 नः ॥ नदीतडागतीरे च चलति वारुणग्रहः ॥ १० ॥ तेनास्यात्स्रवति लाला
 भृशं मूत्रयति नरः ॥ नेत्रप्लावश्च दृश्येत मूकवत्प्रविलोकयते ॥ ११ ॥
 वातमण्डलीमध्ये च गृह्णाति मारुतग्रहः ॥ तेनास्यं शोषयेद्दीनः कम्पते
 रोदित्यथवा ॥ १२ ॥ विह्वलः श्रान्तनेत्रश्च निपीदति क्षुधातुरः ॥ ह
 र्पगर्वाग्निमाने च गृह्णाति यक्षराट् ग्रहः ॥ १३ ॥ तेन गर्वोद्धत
 श्रैव तथा लङ्कारसुप्रियः ॥ १४ ॥ देवस्थाने च रम्ये च शिवग्रहश्छल
 प्रदः ॥ भस्माङ्गरागं कुरुते भ्रमते च दिगम्बरः ॥ १५ ॥ शिव
 ध्यानरतो नित्यं गीतवाद्यप्रियस्तु सः ॥ १६ ॥ शून्यागारे शून्यकूपे ग्रह
 को ग्रहनामकः ॥ क्षुधात्तो न तृषार्त्तश्च क्रथति न शृणोति च ॥ १७ ॥
 उच्छिष्टे वा शुचौ यस्य छलति पिशाचग्रहः ॥ तेन नृत्यति रौति वा गा
 यति जल्पति तथा ॥ १८ ॥ मत्तवद्भ्रमते नग्नो लालास्रावः क्षुधादिकः ॥
 एवं दशग्रहाणाञ्च लक्षणं कथितं मया ॥ १९ ॥ वक्ष्याम्यतः प्रतीकारं
 शृणु पुत्र ! समासतः ॥ जलस्नानं सान्निध्यं तथा च बलिकर्म च ॥
 पूजां यथा वाच्यमानां तेन संलभते सुखम् ॥ २० ॥ एलाजातिफलम
 धूकयुगलं रास्ना तथा खादिरः ॥ कर्पूरामलकीजटावहुसुताघोण्टाम्ल
 सारास्तथा ॥ सीसं पारदसारदाडिमफलं मद्यैश्च संमीलितं प्रत्येकं दधिहु
 ग्धलाङ्गुलरसैर्युक्तं समं कल्कितम् ॥ २१ ॥ रसेन भावितं तस्य गुटिका
 च प्रकल्पिता ॥ जयेच्चन्द्रप्रभा नाम तीव्रान्मोहादिकान्गदान् ॥ २२ ॥
 शुण्ठी मधुकसारश्च चवी किंशुकमेव च ॥ वचाहिङ्गुसमायुक्तं वस्तमूत्रेण
 संयुतम् ॥ देयं ग्रहविकारघ्नं ग्रहाणां नाशनं परम् ॥ २३ ॥

आग्नेयजी कहते हैं—देवताका शून्य मंदिरमें शशानभूमिमें मार्गमें और उज्जड परा हुआ
 शहर, ग्रामआदिककी गलियों बगीचोंमें चुराहोंमें ॥ १ ॥ मनमें त्रासहोनेसे बलवंत ग्रह ल-
 ग जाते हैं वे बलवंत ग्रह दश प्रकारके होते हैं तिन्होंको अब कहते हैं ॥ २ ॥ बड़े आचार्योंने
 दशग्रह कहे हैं और कितनेक इफोस कहते हैं हे पुत्र ! तिन दशग्रहोंकी चिकित्साको कहते
 हैं सुन ॥ ३ ॥ ऐंद्र, आग्नेय, धर्मराज, राक्षस, वरुण, वायु, कुबेर, ऐशान्य, ग्रहक

॥ ४ ॥ पेशाचिक ऐसे थे दशग्रहनायक है जो बगीचेमें तथा क्रीडास्थानमें देवताका मंदिरमें मालूम हुआहो ॥ ५ ॥ वह ऐंद्रग्रह जानलेना तिरसे हर्षहो कभी गावे कभी अभिमानहो कभी नहींहो और उन्मादसे ग्रसाहुआ रहे ॥ ६ ॥ और आग्नेयग्रह, श्मशान, चूराहा, इनस्थानोंमें ग्रहण करता है तिरसे अत्यंत रोवे चारोंतर्फ भयसहित देखे ॥ ७ ॥ और युद्धकी भूमि, श्मशान, इन्होंमें यमग्रह लगता है तिरसे विह्वल होजावे दीन हो और प्रेत सरोखी चेष्टा करे ॥ ८ ॥ और वंवाई चूराहा, यज्ञस्थान इन्होंमें राक्षसग्रह लगता है तिरसे सत्रसे बैर करताहुआ रहे भाजे किसीको मारदेवे ॥ ९ ॥ और वरुणग्रहसे प्रसितहुवा मनुष्यके गर्वित नेत्र रहे वर्ण और मुख विगडा हुआ रहे बलवान हो दुष्ट चित्तहो नदीतलावके तीरे चल्ता हुआ रहे ॥ १० ॥ और छाल गिरें बहुत ज्यादै मूर्ख और नेत्रोंमें जल भरारहै गूंगासरीत्वा दोखे ॥ ११ ॥ और जो वायुके भंभूलेमें पीडितहोवे मरुतग्रहसे पीडित जानना तिरसे मुखमें शोषहो दीनहो कांपे और रोवे ॥ १२ ॥ और विह्वलहो नेत्रोंमें हार सीर है पीडाहो क्षुधासे पीडितहो, और कुबेर ग्रहसे प्रसित वह होता है ॥ १३ ॥ जो कि हर्ष गर्व अभिमान इन्होंसे युक्त रहै तिस पुरुषके गर्भ उठारहै और गहिनें पहरनेमें मियरहै ॥ १४ ॥ और देवताके रमणीक स्थानमें शिवग्रहकी पीडा होती है तिरसे शरीरपै भस्म लगावे और नग्नहोके प्रमत्ता रहे ॥ १५ ॥ नित्य शिवजीके स्थानमें रत रहे गीतवाजा इन्होंमें रत रहे ॥ १६ ॥ और शूना मकान, शूना कूवा इन्होंमें ग्रहकनाम ग्रह पीडा करता है और क्षुधासे युक्त नहींहो टृप्तासे युक्त नहीं हो और कुटिलता करे सुनें नहीं ॥ १७ ॥ और झूठाहो अथवा अशुद्धहो तब पिशाच ग्रह पीडा करता है तिरसे नाचे और गावे और रोवे और शब्द करे ॥ १८ ॥ और नग्नहोके मदेन्मत्तकी तरह भ्रमं छाल गिरै क्षुधा आदिकोंसे पीडितहो इस प्रकारसे मैनें दश ग्रहोंके लक्षण कह दिये है ॥ १९ ॥ अब इन्होंकी चिकित्ताको संक्षेपमात्रसे सुन, अत्यंत जलमें स्नान और बलि देनेका कर्म कही हुई पूजा ऐसे करनेसे सुख होता है ॥ २० ॥ और इलायची, जायफल, मुटहटी, महुआ, राखा, खैर, कपूर, आंवला, जटामांसी, महाशतावरी, सुपारी, विजौरा, सीसा, पारा, चिरौंजी, अनारदाना, मदिरा, इन्होंको समान भाग ले कल्क बना ॥ २१ ॥ पीछे दही, दूध, कलहारीका रस इन्होंमें भावना दे तिसकी गोली बना लेवे यह चंद्रमभा नामवाली गोली मोह अज्ञान आदिक तीक्ष्णरोगोंको नाशती है ॥ २२ ॥ स्रंठ, मधुकसार, चव्य, केसू, वच, हींग इन्होंके बकराके मूत्रके साथ देना इससे ग्रहोंका नाश होता है. यह ग्रहविकारनाशक उपाय है. ॥ २३ ॥

अथ ग्रहदोषनाशक धूप ॥

विडालविष्ठाहिममोचनिम्बमयूरपिच्छं समराजिका च ॥ निर्मोकपिण्डीत
कसर्जमोचधूपं घृताक्तं ग्रहदोषशान्त्यै ॥ २४ ॥ चेतना नाम गुटिका तथा

ब्राह्मीघृतं स्मृतम् ॥ अपस्मारे यान्द्युक्तानि तानि चात्र प्रयोजयेत् ॥२५॥
 विलायका मिष्ठा, कपूर, मोचरस, नीबू, गोरका चंदा, इनसबोंके समान राई और साँ-
 पकी कांचली, मैनाफल, राल, गोखावृक्ष, इन्होंकी धूप बना तिसमें घृत मिला धूप देनेसे
 ग्रहदोषकी शांति होती है ॥ २४ ॥ और पहली कहीहुई चेतना नामवाली गुटिका और
 ब्राह्मी घृत और अपस्माररोगमें कहेहुए अन्य औषध तिनसबोंको यहां ग्रहदोषमें दें ॥२५॥

अथ भूतेश्वरमंत्र ॥ .

गुग्गुलुं समधुघृतं तेन धूपेन धूपयेत् ॥ मन्त्रेण तेन हारीत ! तर्जयेद्ग्रह
 पीडितम् ॥ २६ ॥ ओं नमो भगवते भूतेश्वराय कलिकलिनखाय
 रौद्रदंष्ट्राकरालवक्त्राय त्रिनयनधगधगितपिशङ्गललाटनेत्राय तीव्रको
 पानलामिततेजसे पाशशूलखट्वाङ्गडमरुकधनुर्बाणमुद्गराभयदण्डत्रास
 मुद्राव्ययदसंयदार्द्रदण्डमण्डिताय कपिलजटाजूटाङ्गचन्द्रधारिणे भस्म
 रागरञ्जितविग्रहाय उग्रफणिकालकूटाटोपमण्डितकण्ठदेशाय जय ज
 य भूतनाथामरारामने रूपं दर्शय दर्शय नृत्य नृत्य चल चल पाशेन ब
 न्ध बन्ध हुंकारेण त्रासय त्रासय वज्रदण्डेन हन हन निशितखड्गेन छि
 न्न छिन्न शूलाघ्रेण भिन्न भिन्न मुद्गरेण चूर्णय चूर्णय सर्वग्रहाणामा
 वेशयावेशय स्वाहा ॥ २७ ॥

गूगल, शहद, घृत इन्होंकी धूप बनाके धूपित करै और हे हारीत ग्रहपीडित पुरुषको
 इस मंत्रसे ताडना दे ॥ २६ ॥ ओं नमो भगवते भूतेश्वराय कलिकलिनखाय रौद्रदंष्ट्राकराल
 वक्त्राय त्रिनयन धगधगितपिशङ्गललाटनेत्राय तीव्रकोपानलामिततेजसे पाशशूलखट्वाय डमरुक-
 धनुर्बाणमुद्गराभयदण्डत्रासमुद्राव्ययदसंयदार्द्रदण्डमण्डिताय कपिलजटाजूटाङ्गधारिणे भस्मरागरं-
 जितविग्रहाय उग्रफणिकालकूटाटोपमण्डितकण्ठदेशाय जय जय भूतनाथामरारामने रूपं दर्शय
 दर्शय नृत्य नृत्य चल चल पाशेन बंध बंध हुंकारेण त्रासय त्रासय वज्रदण्डेन हन हन,
 निशितखड्गेन छिन्न छिन्न शूलाघ्रेण भिन्न भिन्न मुद्गरेण चूर्णय चूर्णय सर्वग्रहाणामावेशया-
 वेशयस्वाहा ॥२७ ॥

अथ आवेशमंत्र ॥

ग्रहाविष्टेन चेत्तस्मै दीयते बलिरुत्तमः ॥ मुक्तो भवति तस्माच्च संशयो
 नास्ति तत्र च ॥ २८ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने भूत
 विद्यानाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥

जिसपुरुषमें ग्रहप्रवेश होरहाहोतिसके इसमंत्रको पढ़ ताडना दे जो ग्रहप्रवेश मालूम होताहो तिसी ग्रहकेवारसे बलिदान देनेसे वह पुरुष ग्रहसे छुट जाता है इसमें संदेह नहीं ॥२८॥ इति वेरीनिवासिनुषशिवसहायस्तनुवैद्यरविदत्तशास्त्रपनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने भूत-विद्यानाम पंचपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥

पट्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥

अथ विपतंत्र ॥

आत्रेय उवाच ॥ द्विविधं विपमुद्विष्टं स्थावरं जङ्गमं त्रिपक् ! ॥ शृङ्गिको वत्सनाभश्च तथाच शार्ङ्गवेरिकः ॥ १ ॥ दारकः कालकूटश्च शङ्खः स्यात्सत्सुकन्दुकः ॥ हालाहलश्चाटभश्च तथाष्टौ विपजातयः ॥ २ ॥ शृङ्गिकः कृष्णवर्णश्च वत्सनाभश्च पीतकः ॥ शुण्ठीसमानवर्णश्च शार्ङ्गवेरः स उच्यते ॥ ३ ॥ दारको हरिवर्णश्च कालकूटो मधुप्रभः ॥ शङ्खश्चातिविपाजासः पीताभः सत्सुकन्दुकः ॥ ४ ॥ हालाहलः कृष्णवर्णश्चाष्टौ च जातयस्तथा ॥ पीतविपं नरं दृष्ट्वा सद्यो वमनमुत्तमम् ॥ ५ ॥ यावत्पीतातिविपश्च तावत्तु वमयेत्सदा ॥ सिञ्चेच्छीताम्भसा वत्कं मन्त्रपूतेन सत्वरम् ॥ ६ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे वैद्य स्थावर और जंगम दो प्रकारका विप कहा है और शृंगिक, वत्सनाभ, शृंगवेरिक, ॥ १ ॥ दारक, कालकूट, शंख, सत्सुकन्दुक, हालाहल ऐसे आठ प्रकारके विप कहे हैं ॥ २ ॥ शृंगिक विप काला वर्णवाला और वत्सनाभ विप पीला होता है और जो स्रंठके समान आकारवर्णवालाहो वह शृंगवेरिक विप होता है ॥ ३ ॥ दारकविप हरा वर्णवाला और कालकूट विप शहदके समान वर्णवाला होता है और शंख विप अतीशके समान होता है और सत्सुकन्दुक विप पीला होता है ॥ ४ ॥ हालाहल विप कालावर्णवाला होता है ऐसे आठ प्रकारकी विप जाति कही हैं जहर पीये हुए मनुष्यको देखि शीघ्रही वमन करवाये ॥ ५ ॥ जबतक पीये हुए जहरको गैरे तब तक वमन कराताही नहे और मंत्रसे पवित्र हुआ शीतल जलसे तिसके मुखको सींचे ॥ ६ ॥

अथ मुखसिंचन मंत्र ॥

ॐ हर हर नीलकण्ठ ! अमृतं प्लावय प्लावय हृङ्गारेण विपं यस्य यस्य क्रीङ्गारेण हर हर ह्रौङ्गारेण अमृतं प्लावय प्लावय हर हर नास्ति विप उच्छिरे उच्छिरे ॥ ७ ॥

ॐ हर हर नीलकंठ अमृतं प्लावय प्लावय हूंकारेण विषं ग्रस ग्रस क्लींकारेण हर हर ह्रीं-
कारेण अमृतं प्लावय प्लावय हर हर नास्तिविष उच्छिरे उच्छिरे ॥ ७ ॥

अथ कानमें जपनेके वास्ते मंत्र ॥

ॐ नमो हर हर नीलग्रीवश्वेताङ्गसङ्गजटाग्रमण्डितखण्डेन्दुस्फूर्त्तम
न्त्ररूपाय विषमुपसंहर उपसंहर हर ३ नास्ति विष ३ उच्छिरे ३ इति
कर्णोजपमन्त्रेण वारंवारं तालुमुखं सिञ्चेच्छीतवारिणा ॥ ८ ॥

ॐ नमो हर हर नीलग्रीव श्वेताङ्गसङ्गजटाग्रमण्डितखण्डेन्दुस्फूर्त्तमन्त्ररूपाय विषमुपसंहर उपसं-
हर हर ३ ना स्तिविष ३ उच्छिरे ३ इसकर्णे जपमन्त्रसे वारंवार तालुवाको और मुखको
शीतल जलसे सींचे ॥ ८ ॥

अथ विषशमन औषध ॥

ताण्डुलीयकमूलानि पिष्ट्वा चोष्णेन वारिणा ॥ पीतं पीतविषं हन्ति व
मने लाघवं भवेत् ॥ १ ॥ काकजङ्गा सहचरीमूलं चैडगजस्थ चाकदरं का
र्मुकश्चापि त्वचं पीत्वोष्णवारिणा ॥ पीतं तच्च विषं घोरं नाशयत्याश्वसंशयः
॥ १ ॥ खदिरस्य च मूलञ्च तथा निम्बफलानि च ॥ उष्णोदकेन पीतानि
विषं जयेयुस्तक्षणात् ॥ १ ॥ वत्साह्वश्चाश्वगन्धाश्च पीत्वा चोष्णेन वारि
णा ॥ प्रपीतश्च विषं पाति चाशु नरस्य वेदवाक् ॥ १ २ ॥ अथ प्रधान
रक्तस्य क्षते रक्तं विषस्य च ॥ तस्य वक्ष्यामि भैषज्यं येन सम्पद्यते
सुखम् ॥ १ ३ ॥ मर्मस्थाने मर्मगतं तदसाध्यं भवेन्मतम् ॥ साध्यञ्च
तत्त्वयक्तस्थं मांसस्थं कटसाध्यकम् ॥ १ ४ ॥ असाध्यं धातुसंप्राप्तं
सखे ! वक्ष्यामि भैषजम् ॥ विषलिप्तं नरं ज्ञात्वा ततः कुर्व्यात्प्रतिक्रि
याम् ॥ १ ५ ॥ रजनीयुग्माम्लकेन काञ्जिकेन तु पेपितम् ॥ लेपेन च
विषं हन्ति प्रलिप्तं नात्र संशयः ॥ १ ६ ॥ मातुलुङ्गरसेनापि धावनं का
ञ्जिकेन वा ॥ अतिशीतेन तोयेन प्रलिप्तं नात्र संशयः ॥ १ ७ ॥

चौलाईकी जड़को गरम जलके संग पीसि पीनेसे पीया हुआ विषका नाश होता है और
बमन होके हलका होता है ॥ १॥ और कावली, पीला कोरंटा, पुवाडकी जड़, सफेद खैरकी
छाल इन्होंको गरम जलके संग पीनेसे घोर विषका नाश होता है ॥ १० ॥ और खैरकीजड़,
नींबके फल भिबोली, इन्होंको गरम जलके संग पीनेसे शीघ्रही विषका नाश होता है ॥

॥ ११ ॥ कूडाकी छाल, आसगंध, इन्हेंको गरम जलके संग पीनेसे पीया हुआ विष दूर होता है ॥ १२ ॥ इस्से अनंतर जो रक्तमें प्रधान तिस विषकेवास्ते तिसकी औषधोंको कहेंगे तिससे सुख होता है ॥ १३ ॥ जो मर्मस्थानमें विष प्राप्त होजावे तब असाध्य जानना और त्वचा रक्त इन्हेंमें स्थित हुआ विष कष्टसाध्य होता है ॥ १४ ॥ और धातुमें प्राप्त हुआ विष असाध्य होता है हे प्रिय! तिन्होंकी औषधोंको कहते है विषसे लिये हुए मनुष्यको जानके पीछे तिसकी चिकित्सा करै ॥ १५ ॥ दोनों हृत्तदियोंको विजौराके रसमें और कांजीमें पीस लेपकरनेसे शरीरके लिपाहुआ विषका नाश होता है ॥ १६ ॥ और विजौराके रसमें अथवा कांजीसे तथा शीतल जलसे धोवनेसे शरीरके लिपाहुआ विषका नाश होता है १७

अथ जंगमविषकी चिकित्सा ॥

विषं जङ्गममित्युक्तमष्टधा जिपगुत्तम ! ॥ दर्वाकरा मण्डलिनो राजि
मन्तश्च गुण्डसाः ॥ १८ ॥ वृश्चिको गोरकश्चापि तथाच खण्डविन्दुकः ॥
अलर्कमूपमार्जारविषं प्रोक्तमनेकधा ॥ १९ ॥ दार्वाकराणां सर्वेषामु
क्तं वातात्मकं विषम् ॥ मण्डलिनाञ्च सर्वेषां पैत्तिकं विषमुच्यते ॥ २० ॥
राजिमन्तश्च ये प्रोक्तास्तेऽपि कफात्मका विषाः ॥ विचित्रगमनं मूर्ध्नः
पीडनं चातिदुर्भरम् ॥ २१ ॥ हृदये व्यथनं यस्य तमसाध्यं वदन्ति च ॥
नासारक्तस्फुतिर्यस्य नेत्रे प्लावश्च दृश्यते ॥ २२ ॥ जडा च जायते जि
ह्वा तमसाध्यं विदुर्वुधाः ॥ यस्य लोमानि शीर्यन्ते पीताभं शरीरं भवे
त् ॥ २३ ॥ न स्थिरं मस्तकं यस्य तमसाध्यं जिपग्वर ! ॥ एजिर्वि
रहितं दृष्ट्वा कुर्यात्तस्य प्रतिक्रियाम् ॥ २४ ॥

हे उत्तम वैद्य! जंगम विष आठ प्रकारका होता है दर्वाकर सर्प, मंडलि, राजिमंत, गुण्डसा, ॥ १८ ॥ वृश्चिक, गोरक, खंडविन्दुक, ऐसे इन सर्पोंके विष कहे है और कुत्ता, मूसा, विलाव इत्यादिकोंके अनेक विष कहे है ॥ १९ ॥ दर्वाकर अर्थात् करछी सरीसृप फणवाले सब सर्पोंका वातवाला विष होता है और मंडलवाले सर्पोंका पित्तवाला विष होता है ॥ २० ॥ और जो राजिमंत अर्थात् रेखावाले सर्प कहे है तिन्होंका कफवाला विष होता है, और जिस पुरुषका विचित्र गमनहो और मस्तकमें अत्यंत दुर्भर पीडाहो ॥ २१ ॥ और जिसके हृदयमें पीडाहो विषवाले तिस मनुष्यको असाध्य जानै और जिसकी नासिकासे रक्त क्षिरे नेत्रोंमें पानी भरा रहै ॥ २२ ॥ और जिह्वा जड होजावे तिसको वैद्यजन असाध्य कहतेहै और जिसके रोम विपर जावे और शरीर पीला होजावे ॥ २३ ॥ और मस्तक स्थिर नहींहो है उत्तमवैद्य! तिसको असाध्य जानै और जो पुरुष इनलक्षणोंसे रहितहो तिसका इलाज करै ॥ २४ ॥

अथ विपबंधनमंत्रः ॥

ॐ नमो भगवते सुग्रीवाय सकलविषोपद्रवशमनाय उग्रकालकूटविष
कवल्लिने विषं बन्ध बन्ध हर हर भगवतो नीलकण्ठस्याज्ञा ॥ ॐ नमो
हर हर विषं संहर संहर अमृतं प्लावय प्लावय नासि अरेरे विष ! नील
पर्वतं गच्छ गच्छ नास्ति विषम् ॐ हाहा ऊचिरे ३ ॥ अनेन मंत्रेण मु
खमुदकेन त्रासयेत् ॥ ॐ नमोऽरेरे हंस ! अमृतं पश्य पश्य ॥ २५ ॥

ॐ नमो भगवते सुग्रीवाय सकलविषोपद्रवशमनाय उग्रकालकूटविषकवल्लिने विषं बंध २
हर २ भगवतो नीलकण्ठस्याज्ञा । ॐ नमोहरहर विषं संहर संहर अमृतं प्लावय प्लावय नासि
अरेरे विष नीलपर्वतं गच्छ गच्छ नास्ति विषम् ॐ हाहा ऊचिरे इसमंत्रको तीनवार पढ मु-
खपे जलके छिडके मारै ओं नमोऽरेरे हंस अमृतं पश्य पश्य ॥ २५ ॥ इति मंत्रः

अथ लेप ॥

जयकूटं वचाकुष्ठं सैन्धवं मगधा निशा ॥ लेपो दृष्टव्रणे प्रोक्तो विषं
हन्ति सुदारुणम् ॥ २६ ॥ सुरसा रजनी व्योषं यवानी पारिभद्रकम् ॥
सर्पदृष्टव्रणे प्रोक्तं लेपनं विषशान्तये ॥ २७ ॥ कुष्ठं मुस्ता अजाजी च
विडङ्गं मधुयष्टिका ॥ गुञ्जामूलं शीततोयैर्लेपो मण्डलिनां हितः ॥ २८ ॥
राजिमन्तो विषा यस्य गृहधूमं वचा घनम् ॥ सर्पपाश्र्व यवानी च पि
चुमन्दफलत्रयम् ॥ लेपनं राजिमताञ्चैव व्रणतैलेन संयुतम् ॥ २९ ॥

इति राजिमतां लेपः ॥

लोहाका चूर्ण, वच, कूठ, संधानमक, पीपल, हलदी, इन्होंका लेप दृष्टव्रणमें कहा है
यह दारुण विषको नाशता है ॥ २६ ॥ और ब्रासी, हलदी, सूठ, मिरच, पीपली अजमान,
नींब इन्होंका लेप सर्पसे उपजा दृष्टव्रणपे करना हित कहा है विषकी शांति होती है ॥ २७ ॥
और कूठ, नागरमोथा, जीरा, वायविडंग, मुलहटी, चिरमठीकी जड इन्होंको शीतल जलमें
पीसि लेप करनेसे मंडलवाले सर्पोंके विषका नाश होता है ॥ २८ ॥ और रेखावाले सर्पोंके
विषके नाशकेवास्ते घरका धुंवा, वच, नागरमोथा, सिरसम, अजमान, नींब, त्रिफला इन्हों-
को व्रणमें कहेहुए तेलमें पीसि लेप करै ॥ २९ ॥

सठीकिरातं सकटुत्रयं च वचानिशालापिचुमन्दकञ्च ॥ पथ्यायवानीर
जनीद्वयञ्च दृष्टव्रणे लेपनमेव शस्तम् ॥ ३० ॥ स्थावरं जङ्गमं वापि वि

पं जग्धं जिपग्वर ! ॥ शीघ्रं दद्याद्यथां गुर्वी प्रोक्तञ्च नरसत्तमैः ॥ ३१ ॥

और कचूर, चिरायता, सेंड, पिरच, पीपली, वच, इंद्रायण, नींबू, हरई, अजमान, दो-
नो हल्दी इन्होंका लेप दष्टव्रणपे करना श्रेष्ठ है ॥ ३० ॥ हे उत्तमवैद्य ! स्थावर अथवा
जंगम भक्षण कियाहुआ विष शीघ्रही अत्यंत पीडा करता है ऐसे श्रेष्ठ मनुष्योंनिं कहा है ३१

अथ मंत्र ॥

ॐ नमो जगवते शिरसिशिखराय अमृतधाराधौतसकलविग्रहाय अमृत
तकुम्भपरितोऽमृतं प्लावय प्लावय स्वाहा ॥ ३२ ॥ इत्यात्रेयजापिते हारी
तोत्तरे तृतीयस्थाने विपतन्त्रं नाम षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥

ॐ नमोजगवते शिरसिशिखराय अमृतधाराधौतसकलविग्रहाय अमृतकुम्भपरितोऽमृतं
प्लावय प्लावय स्वाहा ॥ ३२ ॥ इति वेरीनिवासिनुधशिवसहायसन्नुवैद्यरविदत्तशाल्यनुवादितहारी-
तसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने विपतन्त्रं नाम षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥

सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥

अथ जिन्न अर्थात् शस्त्रआदिसे टूटाहुआकी चिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ लिन्नं जिन्नं तथा जग्रं घृष्टं पिष्टं तथैव च ॥ आस्फा
लितं सम्प्रहारः संघातः कश्यते वृथैः ॥ १ ॥ शस्त्रजिन्नं नरं दृष्ट्वा कर्त्त
व्या च प्रतिक्रिया ॥ २ ॥ अस्थिस्थं विद्यते मांसमस्थि संच्छिद्यते य
दि ॥ शास्त्राप्रशारवयोर्वापि लिन्नं तच्च निगद्यते ॥ ३ ॥ असन्धौ परि
संचिल्लिन्नं तदसाध्यं विनिर्दिशेत् ॥ खड्गार्द्धचन्द्रपरशुच्छिन्नं तु कथितं
सदा ॥ ४ ॥ तस्यादौ चारणालेन धावनं परिकीर्त्तितम् ॥ पिचुना तिल
तैलेन शीघ्रं संस्वेदनाच्चितम् ॥ ५ ॥ यावद्वै स्रवति रक्तं तावत्तैलेन चा
भ्यजेत् ॥ रक्ते वै विकृतिं प्राप्ते तैलेनाभ्यञ्जनं मतम् ॥ ६ ॥ शोफाद्या
श्च प्रजायन्ते बहुलोपद्रवा व्रणे ॥ सन्धौ लिन्नं नरं दृष्ट्वा सेचयेत्तत्रवा
रिणा ॥ ७ ॥ सञ्चितस्य व्रणस्यापि प्रशस्तं पिचुनैलकम् ॥ पूये वापि
विनिर्याति निम्वारग्वधपत्रकम् ॥ ८ ॥ गुठेन पश्यां पिष्ट्वा च लेपनं पू
यशोधनम् ॥ दिनत्रये विशुद्धेऽपि तत्रैव लेपनं हितम् ॥ ९ ॥ धवाजुन्
कदम्बस्य वक्षोदुम्बरयोस्त्वचम् ॥ जलेन पिष्ट्वा लेपश्च तेन संरोहते व्रणः ॥

आत्रेयजी कहते हैं—छिन्न कटाहुआ, भिन्न टूटाहुवा, गमन फूटाहुआ, घृष्ट दवाहुआ, पिष्ट पिशाहुआ, आस्फालित फटा हुआ, संपहार संघात, लाठी आदिकी चोट ऐसे ये हाड आदिके टूटनेके रोग होते हैं ॥ १ ॥ शस्त्रसे कटे हुए मनुष्यको देखि तिसकी क्रियाकरै ॥२॥ अस्थिमें स्थित हुआ मांसभेदन होजावे अथवा शाखा प्रशाखाओंकी अस्थि छेदन होजावे वह छिन्न कहाता है ॥३॥ और जो संधिके बिना अन्य जगहकी हड्डी टूट जावे वह असाध्य कहाती है खड्ग अर्धचंद्रमाके समान शस्त्र फरशा इन्होंसे छिन्न अस्थि कही है ॥४॥ तिसकी आदिमें चारण, लेप, धोवना, ये कर्म करै और तिलोंके तेलसे रूईके फोहे करके चोपरिके पसीना द्यावै ॥ ५ ॥ जबतक रुधिर गिरे तबतक तेलसे चोपरता रहै और जब रक्त विकारको प्राप्त होजाता है तब तेलसे मालिस करना हित कहाहै ॥ ६ ॥ और तहां ऋणसे शोजा आदिक बहुतसे उपद्रव होजाते हैं संधिमें छिन्न हुए मनुष्यको देखिके गरमजलसे सेक करै ॥ ७ ॥ फिर गरम जलसे सेक करलेवे तब फोहेसे तेल लगाना श्रेष्ठ है और जो राध नि कलती हो तो नींबू, अमलतास इन्होंके पत्ते बांधनें श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥ और हरद्वैको पीस गुडके संग लेप करनेसे राधकी शुद्धि होती है तीन दिनतक शुद्ध होजावे तब इनआगे कही औषधों का लेपकरना हित है ॥९॥ धव, अर्जुनवृक्ष, कदंब, पिलखनवृक्ष, गूलर इन्होंकी छालको जलमें पीस लेप करनेसे घाव भरता है ॥ १० ॥

अथ भिन्नअस्थिकी चिकित्सा ॥

शक्तिशूलैश्ववाणैश्च भल्लारखड्गतोमरैः ॥ क्षुरिकामुखधाराभिर्भिन्नं तत्क
थ्यते त्रिपक् ! ॥११॥ साध्यममर्मजं प्रोक्तं मर्मस्थं तन्न सिध्यति ॥ अ
पामार्गरसेनापि तथा कूपमाण्डकस्य च ॥ १२ ॥ धावनं काक्षिकेनापि
प्रशस्तं कथ्यते बुधैः ॥ तिलतेलेन चाभ्यङ्गो हितः स्यात्स्वस्थभिन्नके ॥
लेपनञ्च प्रयोक्तव्यं पूर्वोक्तञ्च हितावहम् ॥ १३ ॥

हे वैद्य ! शक्ति, शूल, बाण, भाला, तलवार, तोमर शस्त्र, छुरी, खांडा, इन्होंसे कटा हुआ हाड भिन्न कहा है ॥११॥ जो मर्ममें नहीं लगाहो वह साध्य कहा है और मर्मस्थानमें लगा हुआ असाध्य कहा है तहां ऊंगाके रससे अथवा कोहलाके रससे तथा कांजीसे धोवना श्रेष्ठ कहा है ॥ १२ ॥ और वैद्योंने कांजीसे धोना श्रेष्ठ कहा है और भिन्न हुए हाडमें तिलोंका तेलको मालिसकरनी हित कही है और पहले कहा हुआ लेप करना हित कहा है ॥ १३ ॥

अथ शल्योद्धारचिकित्सा ॥

उरसि शिरसि शङ्खे कक्षयोः पादयोर्वा त्रिकजठरमुखाग्रे नेत्रयोः कर्ण
योर्वा ॥ अवति हि यदि शल्यं कष्टसाध्यञ्च शस्त्रैर्भवति यदि न गूढं

भेषजैस्तेर्विधिज्ञ ! ॥ १४ ॥ शाखाप्रशाखयोर्यच्च मर्मस्थं तन्न सिध्यति ॥
यन्त्रशस्त्रप्रतीकारैः शल्यं प्राज्ञः समुद्धरेत् ॥ १५ ॥ द्वादशैव तु यन्त्राणि
शस्त्राणि द्वादशैव तु ॥ चत्वारि च प्रबन्धानां शल्योद्धारे विनिर्दिशेत् ॥ १६
गोधामुखं वज्रमुखं च नाम संदंशचक्राकृतिकङ्कपादम् ॥ अथानकं शृङ्ग
ककुण्डलञ्च श्रीवत्ससौवत्सिकपञ्चवक्रम् ॥ १७ ॥ द्वादशैतानि यन्त्रा
णि कथितानि भिषग्वरैः ॥ अथ शस्त्राणि प्रोक्तानि नामानि च पृथक्
पृथक् ॥ १८ ॥ अर्द्धचन्द्रं व्रीहिमुखं कङ्कपत्रं कुठारिका ॥ करवीरकप
त्रञ्च शलाककरपत्रकम् ॥ १९ ॥ वडिशं गृध्रपादञ्च शूली च घनमुद्गर
म् ॥ शस्त्राण्येतानि प्रोक्तानि शल्योद्धारे पृथक् पृथक् ॥ २० ॥ अति
गुप्तं च शल्यञ्च संदंशेन समुद्धरेत् ॥ भिन्नेन तत्प्रतीकारः कर्त्तव्यश्च सु
धीमता ॥ २१ ॥ गम्भीरशल्यं ज्ञात्वा च प्रतीकारञ्च कारयेत् ॥ पाटनं
कुशपत्रेण चोद्धरेत्कुङ्कुमेन च ॥ २२ ॥ भिन्नवत्प्रतीकारश्च कर्त्तव्यश्च
सुधीमता ॥ २३ ॥ यत्र शोफो भवेत्तीव्रस्तत्र शल्यं विनश्यति ॥ सश
ल्यं सघनं चैव रुजावन्तं निरूप्य च ॥ २४ ॥ तत्र योग्यं च यन्त्रं च
यन्त्रशस्त्रञ्च योग्यकम् ॥ तत्तत्र योजनीयञ्च ऊहापोहविशारदैः ॥ २५ ॥
या वेदना शल्यनिपातजाता तीव्रा शरीरे प्रतनोति जन्तोः ॥ घृतेन संशा
न्तिमुपैति तिक्ता कोष्णेन यटीमधुनान्वितेन ॥ २६ ॥ सर्जार्जुनोदुम्बरम
र्कटीनां रोध्रं समझासुरसासमेतम् ॥ जलेनं पिष्ट्वा प्रतिलेपनाय शल्यो
द्धृतौ सौख्यमिदं करोति ॥ २७ ॥ शोषा क्रिया च पूर्वोक्ता छिन्ने भि
न्ने हिता तु या ॥ कर्त्तव्यो वालुकास्वेदो घटीस्वेदश्च तत्र च ॥ २८ ॥

छाती, शिर, कनपटी, दोनोकास, दोनोपैर, कटिस्थान, उदर, मुख इन्होंके आगै नेत्र कान
इन्होंमें जो यदि वाण आदि शल्य होवे तो शस्त्रोंसेभी कष्टसाध्य कही है और जो इधै नहीं
होवे तो औषधोंसे निकल जाती है ॥ १४ ॥ और शाखाप्रशाखा हाथपैर अंगुली आदिस्थान
मर्मस्थान, इन्होंमें लगी हुई शल्य नहीं निकलती है और यंत्र शस्त्रोंके प्रकार इन्होंसे बुद्धि-
मान् पुरुष शल्यको निकाले ॥ १५ ॥ वारह यंत्र है और वारह प्रकारके शस्त्र कहे है और
शल्योद्धारमें चार प्रबंध अर्थात् बंधन आदिक पट्टी कही है ॥ १६ ॥ गोधामुख, वज्रमुखे,

संदंश, चक्राकृति, कंकपाद, आनक, शृंगक, कुंडल, श्रीवत्स, सौवत्सिक, पंचवक्र ॥ १७ ॥
 ऐसे ये वारहप्रकारके यंत्र वैद्यजनोंने कहे है और जुदे २ नामोंवाले वारह प्रकारके शस्त्र कहे
 है ॥ १८ ॥ अर्धचंद्रमाकेसमान, त्रीहिमुख, कंकपत्र, कुठारिका, करवीरकपत्र, कुशपत्र,
 शालाकाकरपत्र ॥ १९ ॥ बडिशशस्त्र, गृध्रपाद, शूली, घनमुद्गर, ऐसे ये जुदे २ दोशस्त्र श-
 ल्योद्धारमें कहे है ॥ २० ॥ जो अतिगुप्त शल्यहो वह संदंश अर्थात् चिमटासरीखे यंत्रसे नि-
 कालनी चाहिये और भिन्नहुई अस्थिके समान तिसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २१ ॥
 और गंभीर शस्त्रको जानले तिसको कुशपत्र शस्त्रसे फाडना चाहिये, कुंकुमशस्त्रसे निकालै
 ॥ २२ ॥ और तिस शल्यकी चिकित्सा भिन्नहुए अस्थिके समान करै ॥ २३ ॥ और जहां
 अत्यंत शोभा होगयाहो तहां शल्य नहीं दिखता है तहां शल्य सहित और करडा पीडावा-
 ला ऐसा शोभाको जानके ॥ २४ ॥ तहां जैसा योग्यहो वैसाही यंत्र और शस्त्रको बुद्धिमान-
 वैद्य अपनी बुद्धिसे विचारके प्रयुक्तकरै ॥ २५ ॥ जो नाणआदि शल्यके लगनेसे पीडा हु-
 ईहो वह मनुष्यके शरीरमें ज्यादै बढजावे तहां कुटक, मुलहटी, शहद, इन्होंसे संयुक्त किये हु-
 ए, कछुक गरमर घृतसे सेकनेसे वह पीडा शांतहोती है ॥ २६ ॥ और रालकावृक्ष, अर्जुनवृक्ष, गूलर,
 कौंच, लोध, मंजीठ, तुलसी, इन्होंको जलमें पीस शल्य निकासी हुई जगहपे लेप करनेसे सुख
 होता है ॥ २७ ॥ और वाकी जो पहले वालुकास्वेद, घटीस्वेद, इत्यादिक क्रिया कहीहै वे और
 अस्थिलिन्न, भिन्नअस्थिइन्होंमें जो क्रिया हित कही है वे सब करनी चाहिये ॥ २८ ॥

अथ अस्थिभग्नकी चिकित्सा ॥

भग्नास्थिश्च नरं दृष्ट्वा तस्य वक्ष्यामि भेषजम् ॥ मणिवन्धे कूर्परे च जा-
 नौ भग्ने कटौ तथा ॥ २९ ॥ पृष्ठवंशे विभग्ने च साध्यान्धेतानि सत्तम ! ॥
 घीवादेशे चेन्द्रवस्तौ रोहिण्यां कूर्परादधः ॥ ३० ॥ स्कन्धकूर्परमधये च
 तथाच त्रिकमध्यतः ॥ उरसि चैव क्रोडे च विभग्नं तदसाध्यकम् ॥ ३१ ॥
 विभग्नं च नरं दृष्ट्वा वेणुरखण्डेन बन्धयेत् ॥ मृक्षयेन्वनीतेनैरण्डपत्रैश्च
 वेष्टयेत् ॥ ३२ ॥ उष्णाम्भसा सेचयेच्च वस्त्रेण मृदु बन्धयेत् ॥ ३३ ॥
 ध्वार्जुनकदम्बानां वल्कलं काञ्जिकेन तु ॥ पिष्ट्वा हितः प्रलेपश्च तेन
 सौख्यं प्रजायते ॥ ३४ ॥ स्वेदयेत्तानि चोष्णेन आवासं कारयेत्पुनः ॥
 एवं क्रियासमापत्तौ ततो बन्धं विभोचयेत् ॥ ३५ ॥ एकाहान्तरितेना-
 पि पूर्ववत्प्रबन्धयेत् ॥ यावद्ब्रून्धि न बध्नाति तावन् स्नापयेन्नरम् ॥ ३६ ॥
 भग्न अस्थिवाले मनुष्यकेवास्ते औषध कहते है पौहचा कोहनी, गोडे कैः ॥ २९ ॥

पीठका बांस, ये जो भग्न होजावे तो साध्य कहे है और ग्रीवाके समीप, वस्तिस्थानकोहनी-
के नीचेकी जगह, ॥ ३० ॥ और कांधा, कोहनीके बीचका स्थान, कटि, कलेजा, छाती,
इन्होंमें भग्न हुई अस्थि असाध्य कही है ॥ ३१ ॥ भग्न अस्थि हुए मनुष्यको देखिके बांस-
की फाटकोंसे बांध देवै और नौनीघृतका लेप कर अरंडके पत्तोंसे बांध देवै ॥ ३२ ॥ और
गरम जलसे सेक करै वस्त्रसे कोमल बांध देवै ॥ ३३ ॥ और धव, अर्जुनवृक्ष, कदंब, इन्होंकी
छालको कांजीमें पीस लेप करनेसे सुख होजाता है ॥ ३४ ॥ पीछे गरम २ वस्त्र होजावे
तबतक पसीना दिवावै वस्त्रको तहां बांधा रखवै ऐसी क्रिया हो लेवे तब बंधनको खोलदेवै
॥ ३५ ॥ एकदिन खुला रखवै और एकदिन बांधा रखवै और जबतक दूदाहुआ हाडकी
जगह ग्रंथि नहीं बंधै तबतक स्नान नहीं करवावै ॥ ३६ ॥

अथ घृष्ट हाडकी चिकित्सा ॥

घृष्टश्चैव नरं दृष्ट्वा धावनं काञ्जिकेन च ॥ मूत्रेण शीततोयेन धावनञ्च
हितं मतम् ॥ ३७ ॥ यावद्वै स्रवति रक्तं तावत्तैलेन सेचयेत् ॥ अल्पानि
चौषधान्यत्र कारयेद्विविधानि च ॥ ३८ ॥

घृष्ट अर्थात् किंसी वस्तुसे घिसके दब जावे वह घृष्ट हाड कहाता है तिसको कांजीसे
धोवै अथवा गोमूत्रसे तथा शीतल जलसे धोवना हित है ॥ ३७ ॥ और तहां जबतक रू-
धिर झिरै तबतक तैलसे सेकता रहै और वैद्यजनको यहां स्वल्प औषध करनी चाहिये ॥ ३८ ॥

अथ आस्फालित हाडकी चिकित्सा ॥

विपाके रक्तस्रावञ्च स्वेदनञ्च विधीयते ॥ भग्नवत्प्रतीकारञ्च कारयेद्विधि
पूर्वकम् ॥ ३९ ॥ आस्फालिते प्रतीकारे ज्ञातव्यश्च भिषग्वर ! ॥ ऊहापो
हैश्च कर्त्तव्यस्तेन सम्पद्यते सुखम् ॥ ४० ॥

पकेहुए हाडमें रुधिर झिरताहो तो पसीना दिवाना हित है और भग्न हुए हाडके समान
इसका इलाज करै ॥ ३९ ॥ ऐसे वैद्यजनोंको जानना चाहिये. और अपनी बुद्धिके बलके
अनुसार चिकित्सा करै तिससे रोगीको सुख होता है ॥ ४० ॥

अथ अग्निघात अर्थात् चोट लगी हुईकी चिकित्सा ॥

शिरोऽग्निघातजो दोषः शिरोरोगः प्रकीर्त्तितः ॥ उरसा चाग्निघातेन य
कृद्गुल्मश्च जायते ॥ ४१ ॥ इत्येवञ्च प्रतीकारं कुर्याद्रिक्तावसेचनम्
॥ स्वेदनञ्च प्रयोक्तव्यं भिषजा कर्मसिद्धये ॥ ४२ ॥ न च तैलञ्च भोक्त
व्यं नायुष्णकटुकं तथा ॥ मत्स्यानि न च मांसानि घनानि च गुह्यणि

च ॥ ४३ ॥ श्वेतशालिसमुद्भूतं यूषं चैवाढकीषु च ॥ शशलावकवात्ता
ककक्रोलं तण्डुलीयकम् ॥ ४४ ॥ शतपुष्पाद्यमन्यच्च न च हिङ्गुसम
न्वितम् ॥ लवणं वातिभोक्तव्यं यदीच्छेदात्मनः सुखम् ॥ ४५ ॥ व्या
यामश्च व्यवायश्च दिवानिद्रां तथा क्रमम् ॥ वर्जयेत्सुखसम्पत्तिर्नरश्च प्र
तिपद्यते ॥ ४६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे तृतीयस्थाने भग्नचिकि
त्सानाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥

शिरमें चोट लगनेसे कुपित हुए दोपको शिरोरोग कहते हैं और छातीमें चोट लगनेसे
यकुरोग गुल्म ये रोग होते हैं ॥ ४१ ॥ इन्होंको दूर करनेकेवास्ते रक्तको निकसावे और
पसीना दिवावै ॥ ४२ ॥ और तेलका भोजन नहीं करै और अत्यंत गरम चर्चरा ऐसा भो-
जन नहीं करै और मछलियोंका मांस करडे तथा भारे पदार्थ इन्होंको नहीं खावे ॥ ४३ ॥
और शालिसंज्ञक सफेद चावलोंका यूष, तूरोधान्य, शूशा, लावापक्षी, वत्तक इन्होंका मांस
कंकोल, चौलाईका शाक ॥ ४४ ॥ सौंफ, हींग आदि अन्य नमक, इन्होंको इच्छापूर्वक खावे
इन्होंसे सुख होता है ॥ ४५ ॥ और कसरत, स्त्रीसंग, दिनमें सोना, टहल कदमी करना इन्होंको
वर्ज देवै तब सुख उत्पन्न होता है ॥ ४६ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसनुवैद्यरविदत्तशा-
स्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां तृतीयस्थाने भग्नचिकित्सानाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥

अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥

अथाग्निदग्धचिकित्सा ॥

आत्रेय उवाच ॥ अग्निदग्धं नरं दृष्ट्वा तच्च दग्धं चतुर्विधम् ॥ ईषदग्धं
मध्यदग्धमतिदग्धञ्च वेदभाक् ॥ १ ॥ सम्यग्दग्धं भिषक्छ्रेष्ठ ! लक्षणं
शृणु पुत्रक ! ॥ २ ॥ अतिदग्धं मांसगं स्याद्वातपित्तकफाश्रितम् ॥ स
म्यग्दग्धञ्च निर्दोषं विज्ञेयं च चतुर्विधम् ॥ ३ ॥ त्वचा विशीर्यते येन
स दाहः पित्तजो भवेत् ॥ सरक्तश्च सपित्तश्च पित्तकोपात्प्रदृश्यते ॥ ४ ॥ कृ
ष्णवर्णश्च तत्पित्तं मांसगं तीव्रवेदनम् ॥ तस्य वक्ष्यामि संसिद्धञ्चै भेषजं
भिषजां वर ! ॥ ५ ॥ ईषदग्धे काञ्जिकस्य लेपनं सुखहेतवे ॥ निम्बप
त्राणि सुरसा कुष्ठं धात्रीफलानि च ॥ ६ ॥ ईषदग्धे यथालाभे लेपनं
भिषगुत्तम ! ॥ मध्यदग्धे पयस्या या लेपनी सुखकारिणी ॥ ७ ॥ मधु
कुष्ठकमञ्जिष्ठाघृतं पक्वं हितं मतम् ॥ कुष्ठञ्च यष्टीमधुकं चन्दनैरेण्डप

त्रकम् ॥ ८ ॥ मध्यदग्धे हितो लेपो दुग्धेन परिपेषितः ॥ ९ ॥ घृतक
 पूरचूर्णञ्च गैरिकं रोध्रमेव च ॥ शुष्कचूर्णं पूयहरं दग्धं संरोहयत्यपि ॥
 ॥ १० ॥ आमलक्या तिलं कुष्ठं लेपनं वाग्निदग्धके ॥ रोध्रोशीरं समङ्गा
 च लेपनं शीतवारिणा ॥ ११ ॥ अतसी स्नेहमभ्यङ्गमधुयष्टीघृतेन तु ॥
 लेपाभ्यङ्गे हितं दग्धरोहणं दाहवारणम् ॥ १२ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—अग्निसे दग्ध हुए मनुष्यको देखै चारप्रकारका अग्निदग्ध होता है
 कछुकदग्ध, मध्यदग्ध, अतिदग्ध, ॥१॥सम्यक्दग्ध, ऐसे चारप्रकारका होता है हे पुत्र ! अब
 इन्होंके लक्षणको सुन ॥ २ ॥ जो अत्यंत दग्धहो वह मांसमें प्राप्त होता है और वात पित्त
 कफ इन्होंके आश्रय होता है और जो सम्यक् अर्थात् सारा दग्ध होजावे वह दोषोंसे
 रहित दग्ध होताहै वह चारप्रकारका दग्ध होताहै ॥ ३ ॥ जिसमें त्वचा विश्वर जावे और
 दाहहो और रक्त तथा पित्त दीखै तहां दग्ध हुएमें पित्तका कोप जानना ॥४॥और जहां काला
 वर्ण होजावे वह मांसमें प्राप्तहुआ पित्त जानना तिसमें तीव्रपीडा होती है हे उत्तमवैद्य ! ति-
 सकी सिद्धिकेवास्ते औषधको कहैगौ ॥५॥कछुक दग्ध हुए पुरुषके सुखकेवास्ते कांजीका लेप
 करना हित है और हे उत्तमवैद्य ! नींबूके पत्ते, सफेद संभालू, कूठ, आवलाके फल, ॥६॥इन्होंमेंसे
 जौनसी मिले उसीका लेप करना कछुक दग्ध हुए पुरुषको हित है और मध्यम दग्धहुए पुरुषके
 दूधका लेप करनेसे सुख होता है ॥७॥और शहद, कूठ, मंजीठ इन्होंमें घृतको पका लेप करना
 हित है और कूठ, मुलहटी, चंदन, अरंडके पत्ते ॥८॥ इन्होंको दूधमें पीस मध्यमदग्धहुए पुरुषके
 लेप करना हित है ॥ ९ ॥ और घृत, कपूरका चूर्ण, गेरू, लोध, इन्होंके सूखे चूर्णको बुरका-
 नेसे राधका नाश होता है और दग्धहुएका त्रण भरजाता है ॥ १० ॥ और आवला तिल,
 कूठ इन्होंका लेप करनेसे अग्निसे दग्धहुआ अच्छा होता है और लोध, त्रशा, मंजीठ इन्होंको
 शीतल जलमें पीस लेप करना ॥ ११ ॥ अथवा अलसीका तेल, मुलहटी, घृत इन्होंका लेप
 करना हित है दग्धहुएका वाव भरता है और दाहका नाश होता है ॥ १२ ॥

अथ धूमपानचिकित्सा ॥

धूमोपघाते वमनं क्षीरपानं तथोपरि ॥ जले च तरुणं श्रेष्ठं धूमः शोषशा
 न्तये ॥ १३ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे चिकित्सास्थानं नामा
 षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ तृतीयस्थानं समाप्तम् ॥ ३ ॥

धूवांसे व्याकुलहुये पुरुषको दूध पिलाना हित है और जलमें तिरना श्रेष्ठ है धूवाके दा-
 हकी निवृत्ति होती है ॥ १३ ॥ इति वेरीनिवासी ० हारीतसंहिताभाषायां चिकित्सास्थाने
 अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥

इति तृतीयस्थानं समाप्तम् ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थस्थानम् ॥

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अथ तुलामानविधिः ॥

आत्रेय उवाच ॥ सर्पपस्य चतुर्थांशोऽणुः ॥ चतुःसर्पपैर्माषः ॥ चतुर्मा-
षैर्वह्लैः ॥ चतुर्वह्लैः सुवर्णैः कर्षः ॥ चतुःकर्षैः पलम् ॥ चतुःपलैः कुडवः ॥
चतुःकुडवैः प्रस्थः ॥ चतुःप्रस्थैराढकः ॥ चतुर्भिराढकैर्द्रोणः ॥ १ ॥
शुष्काणामौषधानाञ्च मानञ्च द्विगुणं भवेत् ॥ आर्द्राणामथ सर्वेषां वि-
ज्ञातव्यस्तुलाविधिः ॥ २ ॥

सिरसमका चौथा हिस्सा भागको अणु कहते है चार सिरसमोंका एक मासा चार मासों-
का एक वहल और वहलप्रमाणको सुवर्ण नामकभी कहते है और चार वहलोंका अर्थात् चार
सुवर्णोंका एक कर्ष होता है चार कर्षोंका एक पल और चार पलोंका एक कुडव, चार कुडवों-
का एक प्रस्थ चार प्रस्थोंका एक आढक चार आढकोंका एक द्रोण होता है ॥१॥ और शुखी
हुई औषधोंका दूना प्रमाण लेंधे और गीली औषधोंको कहेहुये प्रमाणके अनुसार लेंधे ॥२॥

अथ अन्यमत ॥

सप्तभिर्यवशतैः साष्टपट्टिभिः पलं भवति ॥ चतुर्भिः पलैः कुडवः ॥ च-
तुर्भिः कुडवैः प्रस्थः ॥ प्रस्थैश्चतुर्भिराढकः ॥ चतुर्भिः राढकैः कंसः ॥ द्वे
पले प्रसृतिर्भवेत् ॥ ३ ॥ मस्तुतैलारनालानां क्षीरमंडगुडं सितामधु मद्यं
तथा द्राक्षा स्वर्जूरं गुग्गुलुस्तथा ॥ ४ ॥ रसोनलवणानाञ्च प्रोक्तावद्धार्ध
मानकौ ॥ विडालप दिकामात्रं कर्षशब्दोऽभिधीयते ॥ ५ ॥ वटोदुम्बर
मात्रेण पलमौ दुम्बरं विदुः ॥ चतुःपलं विल्वमानं पलेद्वेज्जलिरुच्यते
॥ ६ ॥ कुडवं चाञ्जलिद्वे च वक्ष्यमाणं महामते ! ॥ ७ ॥ चतुरङ्गुलविस्तारं
च कलमुन्नतम् ॥ काष्ठजं मृन्मयं वापि कुडवं तं विनिर्दिशेत् ॥ ८ ॥
चतुर्वह्लैः प्रस्थः स्याच्चतुःप्रस्थैस्तथाढकः ॥ चतुराढकः स्याद्द्रोणो
ऽपि प्रकीर्त्तिता ॥ ९ ॥ वमनं च विरेकञ्च प्रदद्यात् कर्षमात्रक

म् ॥ सन्तर्पणं पलमात्रं चूर्णं कर्षकमात्रकम् ॥ १० ॥ क्षारमेव पलाद्धं
च कर्षं चैव हरीतकीम् ॥ पलं रसोनकल्कञ्च पलं गुग्गुलुमेव च ॥ ११ ॥
पलञ्च सूरणं कल्कं दापयेच्च सुपण्डितः ॥ अन्यानि चूर्णलोहानि कर्ष
मात्राणि दापयेत् ॥ १२ ॥ ज्ञात्वा देहवलं सम्यगुत्तमाधममध्यम
मालेहं चूर्णं कषायं च दापयेद्विधिवत्सुधीः ॥ १३ ॥ इत्यात्रेयभाषिते
हारीतोत्तरे चतुर्थे सूत्रस्थाने तुलामानविधिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

सातसौ अठसठ ७६८ जवोंका एक पल चार पलोंका एक कुडव, चार कुडवोंका एक
प्रस्थ, चार प्रस्थोंका एक आढक होता है और चार आढकोंका एक कंस होता है
और दो पलोंकी एक प्रसृति होती है ॥ ३ ॥ और दहीका मस्तु, तेल, कांजी, दूध,
मंड अर्थात् छाहकी कूही, गुड, मिस्री, और शहद, मदिरा, दाख, खिजूर, गूगल ॥४॥
लस्सन, नमक इन्होंका गीला प्रमाण अर्थात् शखी औपयोंसे दूना प्रमाण कहा है,
और विडालपदिका यह शब्द कर्षप्रमाणका वाचक है ॥ ५ ॥ और वट उदुंवर अर्थात्
गूजरका फल इन शब्दोंसे पल अर्थात् चार तोला प्रमाणका ग्रहण जानना और चार पलों-
का वित्त्वसंज्ञक प्रमाण होता है और दो पलोंका अंजलि कहते है ॥ ६ ॥ और दो अंज-
लियोंका एक कुडव होता है हे महामते ! ऐसे प्रमाण कहा है ॥ ७ ॥ और चार अंगुल
प्रमाणका और चार अंगुल ऊंचा ऐसा काष्ठका पात्र अथवा शृन्धिकाका पात्रको कुडव कहते
है ॥ ८ ॥ और चार कुडवोंका प्रस्थ होता है और चार प्रस्थोंका आढक होता है चार आ-
ढकोंका द्रोण होता है ऐसे प्रमाणकी संख्या कही है ॥ ९ ॥ वमन और जुलावमें कर्षप्रमाण
मात्रा देनी और संतर्पण औषध पलप्रमाण देनी और चूर्ण कर्षप्रमाण देनी चाहिये ॥ १० ॥
क्षार औषधका आधा पल प्रमाण है हरडैका कर्ष प्रमाण देना है और लस्सः कल्क गूग-
ल, इन्होंका पल प्रमाण है ॥ ११ ॥ और उत्तमवैद्य ! जमीकंदके कल्कको पल प्रमाण
देवै और अन्य लोहआदिकोंके चूर्णको कर्षप्रमाण देवै ॥ १२ ॥ सम्यक् प्रक्षसे देहके
बलावलको विचारि उत्तम, मध्यम, अधम ऐसे तीनप्रकारकी मात्रा देनी चाहिये ॥ १३ ॥
इति वेरीनि० हारीतसंहिताभाषायां सूत्रस्थाने तुलामानविधिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथ तैलपाकविधिः ॥

आत्रेय उवाच ॥ पाकश्चतुर्विधः प्रोक्तस्तैलानां शृणु पुत्रक ! ॥

चिक्कणमध्यस्तु विशोषी चापरो मतः ॥ १ ॥ दुग्धारनालकाथश्वदधि
 वा शोषयत्यपि ॥ न चार्द्रता चौषधानां निष्फेनो विमलस्तु यः ॥ २ ॥
 मञ्जिष्ठारससङ्काशो भवेत् सखरपाकगः ॥ वातघ्नः सोऽपि विज्ञेयो मर्दना
 भ्यक्षने हितः ॥ ३ ॥ सफेनो मध्यपाकी च द्रवो भवति पिण्डितः ॥ ना
 तिकेनसफेनं वा मध्यपाकं विनिर्दिशेत् ॥ ४ ॥ वस्तौ पाने च शस्तश्च
 त्रिदोषघ्नं शिपग्वर ! ॥ सफेनश्चन्द्रभो यस्य भवेत् स्वस्थसमो द्रवः ॥
 ॥ ५ ॥ स च चिक्कणकः पाको नस्ये प्रोक्तो हितः सदा ॥ ६ ॥ सधूम
 श्वातिदग्धश्च दग्धगन्धरसस्तथा ॥ विज्ञेयो वातशोषी च वर्जितः सर्व
 कर्मसु ॥ ७ ॥ मर्दने खरपाकश्च वस्तौ चिक्कणपाकितः ॥ वस्तौ पानेमध्य
 पाको विशोषी वर्जितस्तथा ॥ ८ ॥ पक्षे सिध्यति तैलञ्च सप्ताहे घृतमेव
 च ॥ कषायः प्रहरेणापि यत्नेनैव प्रसाधयेत् ॥ ९ ॥ इत्यात्रेयभाषिते
 हारीतोत्तरे चतुर्थे सूत्रस्थाने तैलपाकविधिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

हे पुत्र ! तेलोंका पाक चारप्रकारका कहाहै सो सुन खर, चिक्कण, मध्य, विशोषी ४ ऐसे
 हे ॥ १ ॥ जहाँ दूध, कांजी, इत्यादिकोंके काथको सुखा केवल तेलमात्र बाकी रहजावे
 और औषधोंका आलापन नहींहो झाग नहींहो निर्मलहो ॥ २ ॥ मंजीठके रंगके समान
 वर्णवालाहो वह खरपाक अर्थात् तीक्ष्ण पाकवाला तेल जानना वह वातको नाशता है मर्दन
 मालिना इन्होंमें हित है ॥ ३ ॥ और झागोंसहितहो मध्यम पाकवालाहो और जिसके द्रवमें
 चलनेमें बूंधसी बंधजावे अत्यंत झाग नहींहों अथवा झागहों वह मध्यमपाकी तेल कहाता है
 ॥ ४ ॥ हे उत्तमवैद्य ! वह तेल वस्तिकर्ममें पीनेमें श्रेष्ठ है त्रिदोषको नाशता है और जिसमें
 चंद्रमाके समान सफेद २ झागहो और विनापकाहुआ, स्वच्छ तेलके समान पतलाहो ॥ ५ ॥ वह
 चिक्कणपाकवाला तेल कहाता है नस्य देनेमें हित है ॥ ६ ॥ और जिसमें धूवाहो अत्यंत दग्ध होग-
 याहो और जिसका रस गंध दग्ध होगयाहो वह विशोषी पाकवाला तेल कहाता है वह सबक-
 र्मोंमें वर्जित है ॥ ७ ॥ और मर्दन करनेमें खरपाक अर्थात् तीक्ष्णपाकवाला तेल हित है और वस्तिक
 र्मोंमें चिक्कण पाकवाला तेल हित है और मध्यपाकी तेल वस्तिके तथा पीनेमें श्रेष्ठ है विशोषी तेल
 सब कर्मोंमें वर्जित है ॥ ८ ॥ तेल पंद्रह दिनमें सिद्ध होता है अर्थात् वरतनेलायक होता है घृत
 सात दिनमें सिद्ध होता है काथ एक परमें सिद्ध होता है ऐसे यत्नकरके सिद्ध करै ॥ ९ ॥
 इति वेरीनिवासि ० हारीतसंहिताभाषायाम् सूत्रस्थाने तैलपाकविधिर्नामद्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

अथ निरूहवस्तिकर्मविधिः ॥

आत्रेय उवाच ॥ चतुरङ्गुलां रेणुमयीं नार्डीं प्रतिलक्षणं कृत्वा तथा व
स्तिप्रतिकर्म कुर्यात् ॥ १ ॥ नाति चोष्णे च काले च न शीते न च
भोजिते ॥ न च निद्रालौ मूत्रार्त्ते विष्टार्त्ते न च वेदभाक् ॥ २ ॥ नि
रूहं वस्तिकर्म च कारयेत्तं निरस्य च ॥ ३ ॥ आदौ मूत्रविष्टौत्सर्गं
कृत्वा गुदं प्रक्षाल्य नातिशिथिलशय्यायां शाययित्वा वामाङ्गे वामपा
दं दक्षिणाङ्गे दक्षिणपादञ्च सङ्कोच्य जङ्घोपरि संस्थाप्य गुदाभ्यन्तरे द्वय
ङ्गुलमात्रां नार्डीं सञ्चारयेत्सुधीः ॥ ततः शनैः शनैर्वस्तिं निष्पीड्य द्विप
लपरिमिततैलेन निरूहं कुर्यात् ॥ निरूहानन्तरं शनैः शनैरुक्तानं शाय
यित्वा ऊर्ध्वीकृत्वा च पश्चात्सङ्कोच्य पाणिभिः पञ्चवारान्स्फिक्पिण्डां
स्रोटेयेत् । ततः स्वस्थं कृत्वा क्षणेनापि आमाशयं मलस्थानं बोधय
ति ॥ वस्त्युदरवातान्दोषान्निवारयति ॥ पण्डितास्तं वस्तिनिरूहं तद्वस्ति
कर्म च विदुः ॥ ४ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे चतुर्थे सूत्रस्थाने नि
रूहवस्तिकर्मविधिर्नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

आत्रेयजो कहते हैं—चार अंगुल प्रमाण वांसकी नलिका बना तिसके भीतर प्रवेश क-
रनेको पिचकारी बना तिससे वस्तिकर्म अर्थात् पिचकारी चढानेका कर्म करै ॥ १ ॥ अत्यंत
गरमीकी समय नहो और अत्यंत ठंडककी समय नहो भोजन नहीं किया हो, नींद नहीं
आवतीहो मूत्र तथा विष्टाकी हाजितसे पीडित नहींहो ॥ २ ॥ ऐसे पुरुषको देखि तिसके
वस्तिकर्म करै ॥ ३ ॥ पहिले मूत्र और विष्टाका विसर्जन करवा गुदाको धुवाके पीछे अत्यंत
शिथिल नहो ऐसी शय्यापे सुवा फिर वाये अंगकी तर्फ वाये पैरको और दाहीनें अंगकी तर्फ
दहिनें पैरको समेटके दवा जंघाके उपरि स्थापित करि तिस नलिकाको दो अंगुल प्रमाण
गुदाके भीतर चढा देवै पीछे बुद्धिमान् वैद्य शनैः शनैः वस्तिस्थानको पीडित कर दो पल अ-
र्थात् ८ तोला प्रमाण तेलसे निरूह वस्तिकर्म करै पीछे निरूह वस्तिकर्म अर्थात् पिचकारी
चढानेका कर लेवे तब शनैः शनैः सुधा सुवाके ऊपरको करवाके संकोच करवा वैद्यजन अ-
पनें हायासे पांचवार स्फिक् अर्थात् कूलाको मसलै तिससे अनंतरता है और वस्तिदोष उदरे

वात रोग इन्होंका निवारण होताहै पंडितजन इसको निरूहवस्ति कहतेहै और इसीको वस्तिकर्मभी कहते है ॥ ४ ॥ इति वेरीनिवासि० हारीतसंहिताभाषायां सूत्रस्थाने निरूह वस्तिकर्मविधिर्नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अथ स्वेदनविधि ॥

स्वेदः सप्तविधः प्रोक्तो लोटस्वेदो वाष्पस्वेदोऽग्निज्वालास्वेदः घटीस्वेदो जलस्वेदः फलस्वेदो वालुकास्वेदश्च ॥ न तैलेन विना स्वेदं कदाचिदपि कारयेत् ॥ तैलेनाभ्यजयेत्स्वेदं स भवेद्गुणकारकः ॥ १ ॥ तीव्रज्वरे दाहशोषे तथातीसारपीडिते ॥ मूर्च्छाभ्रमदाहार्त्ते च विषे स्वेदं न कारयेत् ॥ २ ॥ शूलशोफानुरे वाते शीतश्लेष्मानुरेषु च ॥ एतेषां शस्यते स्वेदो नराणां सुखदायकः ॥ ३ ॥ इत्यात्रेयभाषिते 'हारीतोत्तरे चतुर्थे सूत्रस्थाने स्वेदनविधिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

स्वेद अर्थात् पसीना सातप्रकारका होता है लोटस्वेद, अर्थात् घृत्तिकाके पिंडआदिका स्वेद १ वाष्पस्वेद भांफोंका स्वेद २ अग्निज्वाला स्वेद ३ घटीस्वेद ४ जलस्वेद ५ फलस्वेद ६ वालुकास्वेद ७ ऐसे सातप्रकारका है ॥ १ ॥ और तेलके चोपरे विना किसीसमयमेंभी पसीना नहीं दिवाना चाहिये तेल चोपरिके जो पसीना दिवाया जाता है वह गुण करनेवाला है ॥ २ ॥ तीव्रज्वर, दाह, शोष, अतिसारसे पीडित मूर्छा, भ्रम, दाह इन्होंसे पीडित विषसे युक्त इन पुरुषोंके पसीना नहीं दिवावै ॥ ३ ॥ और शूल, शोफा इन्होंसे पीडित वातसे युक्त शीत कफ इन्होंसे पीडित इन पुरुषोंको पसीना दिवाना श्रेष्ठ कहा है सुख देनेवाला है ॥ ४ ॥ इति वेरीनिवासि० हारीतसंहिताभाषायां सूत्रस्थाने स्वेदनविधिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

अथ रक्तावसेचन फस्तखुलानेकी विधि ॥

रक्तावसेचनं चतुर्भिः प्रकारैर्भवति ॥ शिराविरेचनेनापि अलावुभिस्तथै

व च ॥ श्लक्ष्णशृङ्गेर्जलौकाभीः रक्तञ्च स्रावयेद्बुधः ॥ १ ॥ पूवाह्निं चा
 पराह्ने च नात्युष्णे नातिशीतले ॥ यवागूपरिपीतस्य शोणितं मोक्षयेद्भि
 षक् ॥ २ ॥ शिरोरोगेषु सर्वेषु नासामध्यपुटे तथा ॥ अस्तजं रेचयेद्य
 त्नात्सर्वदा क्षिपगुत्तमः ॥ ३ ॥ ललाटमध्ये भ्रुवोरुपरिटादङ्गुलद्वयं
 त्यक्त्वा शिरां रेचयेत् ॥ बाह्वोः कूर्परमध्ये शिरां बन्धयेत् ॥ मणिबन्ध
 सन्धौ अङ्गुष्ठमूलचतुष्टयमङ्गुलञ्च विहाय शिरां बन्धयेत् ॥ नातिपार्श्वे
 चतुरङ्गुलं विहाय शिरां बन्धयेत् ॥ घुण्टिकां शिरां पादे बन्धयेत् ॥
 अपरमपि ग्रंथविस्तारभयान्नोक्तम् ॥ अलावुशृङ्गे रक्तावसेचनं
 सर्वैरपि ज्ञातव्यम् ॥ ४ ॥


आत्रेयजी कहते हैं—बुद्धिमान् मनुष्य चारप्रकारसे रक्तकी फस्त खुलावे नसोपे फस्त
 खुलाना, तूवियोंसे फस्त खुलाना, चारीक सींगियोंसे फस्त खुलाना, जोखोंसे रुधिर निकसाना
 ऐसे चारप्रकारसे रक्तावसेचन होता है ॥ १ ॥ दुपहरे पहिले अथवा तीसरे पहरमें अत्यंत
 गरमी नहींहो और अत्यंत ठंडक नहींहो तब यवागू अर्थात् गुडियानी पिवायेहुए मनुष्यका
 रुधिर निकसावे ॥ २ ॥ और उच्चमवैद्यको संपूर्ण शिरके रोगोंमें नासिकाके मध्य पुटमें फ-
 स्त खुलानी चाहिये ॥ ३ ॥ मस्तकमें भ्रुकुटियोंसे ऊपरि दोअंगुल जगहको त्याग नाडीको
 वीधै और बाहुवोंकी नाडीको कोहनीके मध्यमें वीधै और पोंहचेंकी संधिमें अंगुठेकी जडमें
 चार अंगुल जगहको त्यागके नाडीको वीधै चार अंगुल जगहको त्याग अतिसमीपकी न-
 सको नहीं वीधै और पैरमें टांकनेकी नसोंको वीधै और अन्यप्रकरण ग्रंथके विस्तार होनें-
 के भयसे नहीं कहा है इसप्रकरणमें तुंवी सींगी इत्यादिकोंसे रुधिरका निकसाना श्रेष्ठ है ॥४॥

अथ रक्तलक्षण ॥

सकृष्णं फेनिलं श्यामं रक्तं तद्वातदोषजम् ॥ सर्वलक्षणसम्पन्नं विज्ञेयं
 तत्रिदोषजम् ॥ ५ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे चतुर्थे सूत्रस्थानेरक्ता
 वसेचनविधिनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

और जो काला तथा झामोंवाला रक्तहो वह वातके दोषका रुधिर जानना जो सभ ल-
 क्षणोंसे संयुक्तहो वह त्रिदोषसे दूषित रुधिर जानना ॥ ५ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिंहारीत
 संहिताभाषायां चतुर्थं सूत्रस्थाने रक्तावसेचनविधिनाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

——
अथ जलौकाचारविधि ॥

आत्रेय उवाच ॥ जलौकाश्वतुर्विधाः प्रोक्ता इन्द्रायुधा^१
रोहिणी कालिका धूम्रा चेति ॥ १ ॥

आत्रेयजी कहतेहैं—जोख चार प्रकारकी कही है इन्द्रायुधा १ रोहिणी २ कालिका ३
धूम्रा ४ ॥ १ ॥

अथ इन्द्रायुधाके लक्षण ॥

नीलवर्णा पार्श्वरक्ता तीक्ष्णमुखी गम्भीरनिर्मलोदके पाषाणसन्धौ च प्र
विशति ॥ तथा विद्रध्युदरदाहशोफमूर्च्छाविषाद्युपद्रवयति ॥ २ ॥

जो नीलावर्णवालीहो पशुलियोंकी तर्फ लालहो, तीक्ष्णमुखवाली हो यह जोख गंभीर
निर्गलजलमें और पर्वतकी संधिमें रहती है इसकरके विद्रधि, उदररोग, दाह, शोष, मूर्च्छा,
विष इत्यादिकोंको करती है ॥ २ ॥

अथ रोहिणीके लक्षण ॥

नीलवर्णा पार्श्वपीता शङ्कुमुखी पद्मनाले प्रविशति ॥ तथा
विद्रधिनिसर्पशोफाद्युपद्रवयति ॥ ३ ॥

नीलावर्णवाली और पशुलियोंकी तर्फ पीलावर्णवाली शंखसरीखा मुखवाली ऐसी रोहिणी
जोख होती है यह कमलकी नालोंमें रहती है इसके लगानेसे विष, विद्रधि, शोषा ये उपद्रव
होते हैं ॥ ३ ॥

अथ कालिकाजोखके लक्षण ॥

कृष्णा कालिका मत्स्याशये दूरे त्याज्या ॥ ४ ॥

कालावर्णवाली जोख मत्स्याशय अर्थात् मच्छोंके वासमें रहती है यह दूरसे त्याग देनी
चाहिये ॥ ४ ॥

अथ धूम्राजोखके लक्षण ॥

धूम्रा कपोतमहिषवर्णा पीतोदरी अर्द्धचन्द्रमुखी कर्दमे कलुषोदके प्र
विशति ॥ सा रक्तावसेचनयोग्यानिरुपद्रवा च ॥ ५ ॥

धूआ जोख, कपोत और भैंसतरीखे वर्णवाली होती है पीला उदरवाली होती है आधा चंद्रमाकेसमान मुखवाली होती है यह कीचमें और गिधेलेहुए जलमें रहती है यह रुधिर निकालनेके योग्य कही है उपद्रवोंसे रहित है ॥ ५ ॥

अथ जोखलगवानेका क्रम ॥

अवस्थानं काञ्जिकेन प्रक्षाल्य नवनीतेन ऋक्षयित्वा उष्णोदकेन प्रक्षा लयेत् ॥ पश्चात् तत्र जलौकावचारणीया ॥ ६ ॥ जलौका रक्तपूर्णा पश्चात् पातिता ॥ तस्या मुखं लवणेन मूत्रेण वा प्रक्षालयेत् ॥ अथ वा शनैर्गौस्तनवद्भुस्यते ॥ पुनर्नवनीतेन मुखमालिप्यावचारणीया ॥ दुष्टरक्ते विनिर्गते दंशं काञ्जिकेन प्रक्षाल्य घृतमधुनाभ्यज्य वस्त्रेण बध्नी यात् ॥ ७ ॥ इत्यत्रेयभाषिते हारीतोत्तरे चतुर्थे सूत्रस्थाने जलौका वचारविधिर्नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ इति सूत्रस्थानं समाप्तम् ॥

जोख लगवानेके योग्य जगहको कांजीसे धोके नौनीघृत लगा पीछे गरम जलसे धोके पीछे तहां जोख लगवानी चाहिये ॥ ६ ॥ जब जोख रक्तसे पूरण होजावे तब तिसको गिरा देवै और तिसके मुखको नमकसे अथवा गोमूत्रसे धोदेवै अथवा शनैः शनैः गौके थनकी तरह सूत देवै पीछे मुखके नौनीघृत लगाके फिर लगवा देवै और जब दुष्ट रुधिर निकस जावे तब जोखके डंकको कांजीसे धोके घृत और शहदसे चोपरी वस्त्रसे बांध देवै ॥ ७ ॥ इति वेरीनिवासि० हारीतसंहिताभाषार्यां सूत्रस्थाने जलौकावचारविधिर्नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

इति सूत्रस्थानम् समाप्तम् ॥ ४ ॥

अथ कल्कस्थानम् ॥

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

हिमवच्छिखरे रम्ये सिद्धगन्धर्वसेविते ॥ तन्नस्थं तपस्तेजस्थमत्रिंशच्च मु
निपुङ्गवम् ॥ १ ॥ कल्कानाञ्च प्रयत्नेन हारीतः परिपृच्छति ॥ २ ॥

सिद्ध गन्धर्व इन्होंसे सेवित ऐसे हिमवान् पर्वतके रमणीक शिखरपे बैठे हुए तप और ते-
जमें स्थित मुनियोंमें श्रेष्ठ ऐसे आत्रेयजीको ॥ १ ॥ हारीतमुनि कल्कोकी विधिको यत्नसे
पूछते भये ॥ २ ॥

ज्ञातं चैतन्मया तात ! समासेन चिकित्सितम् ॥

इदानीं श्रोतुमिच्छामि कल्कस्थानं तु सुव्रत ॥ ३ ॥

हारीत पूछता है—हे पिता ! मैंने यह चिकित्सास्थान संक्षेपमात्रसे जाना हे सुव्रत ! अब
मैं कल्कस्थानको सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ ३ ॥

अथ हरीतकीका कल्क ॥

अत्रिरुवाच ॥ कल्कानामभया श्रेष्ठा तस्याः शृणु गुणागुणम् ॥ ४ ॥
स्वर्गस्थामराध्यक्षस्य अमृतं पिवतस्ततः ॥ पतिता विन्दवो भूमौ तेभ्यो
जाता हरीतकी ॥ ५ ॥ रसैः पञ्चभिः संयुक्ता रसेनैकेन वर्जिता ॥ कषा-
याम्ला च कटुका तिक्ता स्वादुरसा स्मृता ॥ लवणेन वर्जिता च शृणु
तस्याः पृथक् पृथक् ॥ ६ ॥ त्वचाश्रितञ्च कटुकं मेदस्तस्याः कपायकम् ॥
मेदोऽन्तरे तथा चाम्लं मधुरं चास्थिसंश्रितम् ॥ ७ ॥ तिक्तञ्चान्तरे तावत्
तु रसैः पञ्चभिः संयुता ॥ अम्लत्वान्मारुतं हन्ति पित्तं मधुरतिक्ततः ॥
कफं कटुकषायत्वात्रिदोषघ्नी हरीतकी ॥ ८ ॥ हरीतकी देहभृतां हि
ता स्यान्मातेव चैषा हितकारिणी च ॥ वरं कदाचित्कुपितापि माता
न कुप्यते चाचरितापि पथ्या ॥ ९ ॥ तस्या उत्पत्तिनामानि वक्ष्यामि शृणु
कोविद ॥ १० ॥ विजया रोहिणी चैव पूतना चामृता तथा ॥ चेतकी चाश-
या चैव जीवन्ती चैव सप्तमी ॥ ११ ॥ विन्ध्ये च विजया जाता अभया च

हिमालये ॥ रोहिणी वैदिशे जाता पूतना मगधे स्मृता ॥ १२ ॥ जीव
 न्तिका सुराष्ट्रायां चम्पायां चेतकी मता ॥ अमृता सरयूतीरे इत्येताःसप्त
 जातयः ॥ १३ ॥ अभया नेत्ररोगेषु शिरोरोगेषु कालिका ॥ सर्वप्रयोगे विजया
 रोहिणी क्षतरोहिणी ॥ १४ ॥ पूतना लेपनार्थं च अमृता च तथा मता ॥
 चेतकी सर्वतो योज्या जीवन्ती चूर्णयोगतः ॥ १५ ॥ बालानामुपकारार्थं
 विजयां परिलक्षयेत् ॥ अथस्त्रा च रोहिणी प्रोक्ता अमृता स्थूलमांस
 ला ॥ १६ ॥ पञ्चास्त्रा चाभया प्रोक्ता पूतना चतुरस्रका ॥ अथस्त्रा तु
 चेतकी प्रोक्ता जीवन्ती दीर्घमांसला ॥ १७ ॥ विजया नीलवर्णा च
 पीता स्याद्रोहिणी भिषक् ! ॥ अमृता कृष्णवर्णा च किञ्चिच्छुभ्राभया
 तथा ॥ १८ ॥ सार्द्धद्वयङ्गुलमानेन अमृतां लक्षयेद्बुधः ॥ १९ ॥ प
 थ्या भवेत्पथ्यतमा नराणां रोगांश्च सर्वान्विनिहन्ति सद्यः ॥ आयुःप्रदा
 तुष्टिमतीवमेधावर्णोजतेजःस्मृतिमातनोति ॥ २० ॥ उन्मूलिनीपित्तक
 फानिलानां सन्मीलिनी बुद्धिवलेन्द्रियाणाम् ॥ विस्रंसिनी मूत्रशकृन्म
 लानां हरीतकी रोगहरा नराणाम् ॥ २१ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्त
 रे कल्कस्थाने हरीतकीकल्कोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—कल्कोंमें हरडै श्रेष्ठ है तिसके गुण औगुनोंको सुन ॥ ४ ॥ स्वर्ग-
 में स्थितहुए इंद्रके अमृत पीवतेहुए पृथ्वीमें अमृतकी विंदु गिरती भई तिन्होंसे हरडै उत्पन्न
 होती भई ॥ ५ ॥ यह पांच रसोंसे संयुक्त है और एक रससे रहित है कसैली, खट्टी, चर्चरी,
 कडुई, और मधुर रसवाली कही है नमकके रससे वर्जित है तिसके जुदे २ लक्षणोंको सुन
 ॥ ६ ॥ इसकी त्वचा चर्चरी है और इसका भेद कसैलाहै भेदके भीतर खट्टापन है अस्थि, मधुर है
 और भीतरसे कडुई है ऐसे पांच रसोंसे संयुक्त है ॥ ७ ॥ यह खट्टापनसे वातको नाशती है और
 मीठा तथा चर्चरापनसे पित्तको नाशती है और चर्चरा तथा कसैलापनसे कफको नाशती है
 ऐसे त्रिदोषको नाशनेवाली हरडै है ॥ ८ ॥ देहधारियोंको हरडै हित है और यह माता-
 की तरह हित करनेवाली है किसी समयमें माता तो कुपितभी होजाती है परंतु हरडै
 कुपित नहीं होती है ॥ ९ ॥ हे पंडितजन! तिसकी उत्पत्ति और नामोंको कहते है सुन ॥ १० ॥
 विजया १ रोहिणी २ पूतना ३ अमृता ४ चेतकी ५ अभया ६ जीवती ७ ऐसे सातमका-
 रकी है ॥ ११ ॥ विजया तो विंध्याचलमें उत्पन्नहुई है और अभया हिमाचलमें हुई है, रो-

हिणी वेदिश नगरमें उत्पन्नहुई, पूतना मगधदेशमें उत्पन्नहुई है ॥ १२ ॥ जीवती हरडै सु-
 राप्पानदीपे हुई है, चंपानदीपे चेतकी हुई है, अमृता हरडै सरयू नदीके तीरेपे उत्पन्न भई
 है ॥ १३ ॥ नेत्ररोगमें अभया और शिरोरोगमें कालिका हरडै श्रेष्ठ है और संपूर्ण रोगमें
 विजया और क्षतरोगमें रोहिणी हरडै हित है ॥ १४ ॥ पूतना और अमृता हरडै लेपमें हित
 कहीहै जीवती हरडै सब योगोंमें युक्त करनी चाहिये जीवती हरडैको चूर्णके योगमें प्रयुक्त
 करै ॥ १५ ॥ और चालकोंकेवास्ते विजया हरडै श्रेष्ठ कही है रोहिणी हरडै तिकूटी कही
 है और अमृता हरडै स्थूल मांसवाली होती है ॥ १६ ॥ अभया पांच कूटोंवाली और पूत-
 ना चौकूटी कही है और चेतकी तीन कूटोंवाली कही है और जीवती दीर्घ मांसवाली कहीहै
 ॥ १७ ॥ और विजया नीलवर्णवाली कही है और हे वैद्य ! रोहिणी पीलावर्णवाली कहीहै
 अमृता कालेवर्ण कही है और अभया किंचित् सफेदवर्णवाली कही है ॥ १८ ॥ और
 जो अढाई अंगुल प्रमाणकी हो उसको बुद्धिमान् वैद्य अमृता जानै ॥ १९ ॥ पृथ्या अर्थात्
 हरडे मनुष्योंको अत्यंत पृथ्य है संपूर्ण रोगोंको तत्काल नाशती है आयुको देनेवाली है
 तुष्टी, अत्यंत मेधा, वर्ण, पराक्रम, तेज, स्मृति इन्होंको बढ़ानेवाली है ॥ २० ॥ पित्त कफ वात
 इन्होंको समान करनेवाली है बुद्धि बल इंद्रिय इन्होंको संतुष्ट करनेवाली है मूत्र, विषा, मल
 इन्होंको बढ़ानेवाली है हरडे मनुष्योंके रोगोंको हरनेवाली कही है ॥ २१ ॥ इति वैरीनिवासि-
 नुधशिवसाहायसूनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां पंचमे कल्कस्थाने हरीतकी-
 कल्कोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथ त्रिफलाकाथः ॥

आत्रेय उवाच ॥ हरीतक्याश्चामलक्या विभीतकस्य च फलम् ॥ त्रिफ
 लैर्युच्यते वैद्यैर्वक्ष्यामि भागनिर्णयम् ॥ १ ॥ एकभागं हरीतक्या द्वौ
 भागौ च विभीतकम् ॥ आमलक्यास्त्रिभागश्च सहैकत्र प्रयोजयेत् ॥ २ ॥
 त्रिफला कक्तपित्तघ्नी म्हाकुष्ठविनाशिनी ॥ आयुष्या दीपनी चैव च
 क्षुष्या व्रणशोधिनी ॥ ३ ॥ वर्णप्रदायिनी घृष्टा विषमज्वरनाशिनी ॥
 दृष्टिप्रदा कण्डुहरा वमिगुल्फार्शनाशिनी ॥ ४ ॥ सर्वरोगप्रशामनी मेधा
 स्मृतिकरी परा ॥ वक्ष्यामि योगयुक्तिश्च रोगे रोगे पृथक् पृथक् ॥ ५ ॥

वाते घृतगुडोपेता पित्ते समधुशर्करा॥श्लेष्मे त्रिकटुकोपेता मेहे समधुवा
रिणा ॥ ६ ॥ कुष्ठे च घृतसंयुक्ता सैन्धवेनाग्निमान्द्यहा ॥ चक्षुर्धावनके
क्वाथो नेत्ररोगनिवारणः॥ ७ ॥ घृतेन हरते कण्डूं मातुलुङ्गरसैर्वमिम्बु॥८॥
गुल्मार्शौ गुडसूरणैः सः स्यात्तु गुणकारकः ॥ क्षीरेण राजयक्ष्माणं पाण्डु
रोगं गुडेन च ॥ ९ ॥ भृङ्गराजरसेनापि घृतेन सह योजितः ॥ वलीप
लितहन्ता च तथा मेधाकरः स्मृतः ॥ १० ॥ सक्षीरः सगुडः क्वाथो
विषमञ्जरनाशनः ॥ सशर्कराघृतः क्वाथः सर्वजीर्णज्वरापहः ॥ ११ ॥
एषां नराणां हितकारिणी च सर्वप्रयोगे त्रिफला स्मृता च ॥ सर्वामया
नां शमनी च सद्यः सतेजकान्तिं प्रतिमां करोति ॥ १२ ॥ शोफे तथा
कामलपाण्डुरोगे तथोदरे मूत्रयुता हिता च ॥ हिताऽतिसारे ग्रहणीवि
कारे हिता च तत्रेण फलत्रिका च ॥ १३ ॥ क्षीणेन्द्रिये जीर्णज्वरे च
यक्ष्मे क्षीरेण युक्ता त्रिफला हिता च॥स्यान्नेत्ररोगे च शिरोगदे च कुष्ठे
च कण्डूव्रणपीडने च ॥ १४ ॥ मूत्रग्रहे कामलकेऽग्निमान्द्ये हिता जलेन
त्रिफलादिकल्कः ॥ सशीतकाले गुडनागरेण सशर्करा क्षीरयुता तथो
प्ये ॥ १५ ॥ वर्षासु शुण्ठीसहिता फलत्रिका फलत्रिका सर्वरुजाहरा
स्यात् ॥ १६ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे कल्कस्थाने त्रिफला
क्वाथो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हरद्वै, आंवला, बहेडा इन्होंके फलको वैद्यजन त्रिफला कहते हैं
अब इन्होंके भागका निर्णय करतेहैं ॥ १ ॥ हरद्वै १ भाग, बहेडा २ भाग, आंवला ३ तीन
भाग इस प्रकार इन्होंको एक जगह मिलावे ॥ २ ॥ यह त्रिफला कफपित्तको नाश ता है
महाकुष्ठको नाशता है आयुमें हित है दीपन है नेत्रोंमें हित है व्रणको शोधनकरनेवाला है
॥ ३ ॥ विसके लगानेसे व्रणको भरनेवाला है ज्वरको नाशता है दृष्टीको देनेवाला है स्वा-
जिको हरता है वमन, गुल्म, ववासीर इन्होंको नाशता है ॥ ४ ॥ संपूर्णरोगोंको शांत करता
है और मेधा, स्मृति इन्होंको करनेवाला है अब रोग २ में जुदी २ योगकी युक्तिको कहेंगे
॥ ५ ॥ वातमें घृत और गुडसे संयुक्त त्रिफला देना चाहिये पित्तमें शहद और खांडके संग
कफमें सूँठ, मिरच, पीपल इन्होंकेसंग देना चाहिये प्रमेहरोगमें भीठांजलके संग देवै॥६॥कुष्ठ
रोगमें घृतकेसंग भंदाशिमं संधानमकके संग देना चाहिये और इसके क्वाथसे नेत्रोंको धोनेसे

नेत्रोंके रोगोंका नाश होता है ॥ ७ ॥ और घृतके संग सेवनेसे खाजिका नाश होता है विजौराके रसकेसंग देनेसे वमनका नाश होता है ॥ ८ ॥ गुड़ और जमीकंदकेसंग देनेसे गुल्म, ववासीर इन्होंका नाश होता है दूधके संगदेनेसे राजयक्ष्मारोगका नाश होता है गुड़केसंग देनेसे पांडुरोगका नाश होता है ॥ ९ ॥ और भंगराका रस तथा घृतकेसंग देनेसे बलीपलित अर्थात् बुढापाके सफेद बालआदिरोग इन्होंका नाश होता है और बुद्धि बढ़ती है ॥ १० ॥ और गुड़ मिला दूधका क्वाथ बना तिसके संग देनेसे विषमज्वरका नाश होता है और खांड तथा घृतके संग क्वाथ बनाके देनेसे संपूर्ण जीर्णज्वरोंका नाश होता है ॥ ११ ॥ यह त्रिफला मनुष्योंको हित करनेवाली है और सब प्रयोगोंमें त्रिफला कहाता है तत्काल सब रोगोंको शांत करनेवाला कहा है और तेज कांति सुंदर मूर्ति इन्होंको करनेवाला कहा है ॥ १२ ॥ और शोजा, कामला, पांडुरोग, उदररोग इन्होंमें गोमूत्रके संग त्रिफला देना हित है और अतिसार संग्रहणी इनरोगोंमें तक्रके संग त्रिफला देना हित है ॥ १३ ॥ और क्षीण इंद्रियवाला, जीर्णज्वर, राजयक्ष्मा, इन्होंमें दूधकेसंग त्रिफला देना हित है और नेत्ररोग, शिरोरोग, कुष्ठ, खाजी, व्रणकी पीडा ॥ १४ ॥ मूत्रग्रह, कामला, मंदाग्नि इनरोगोंमें जलके संग त्रिफलाका कल्क बनाके देना हित है और टंढककी समयमें गुड़ सेंट, खांड गरम २ दूध इन्होंके संग देना हित है ॥ १५ ॥ और वर्षासमयमें सेंटके संग त्रिफला दीहुई हित है यह त्रिफला सबरोगोंको नाशनेवाली है ॥ १६ ॥ इति वेरीनिवासिबुध० हारीतसंहिताभाषायां पंचमे कल्कस्थाने त्रिफलाक्वाथोनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

अथ हरद्वैके कल्क और वर्णोंका भेद ॥

आत्रेय उवाच ॥ अभया द्व्यङ्गुला प्रोक्ता पूतना चतुरङ्गुला ॥ साद्भ्रातुला च जीवन्ती चेतकी स्यात्पडङ्गुला ॥ १ ॥ चेतकी द्विविधा प्रोक्ता आकारवर्णतस्तथा ॥ पडङ्गुला सिता प्रोक्ता शुक्ला चैकाङ्गुला स्मृता ॥ २ ॥ श्रेष्ठा कृष्णा समाख्याता रेचनार्थे जिगीषुणा ॥ ३ ॥ चेतकी वृक्षशाखायां यावत्तिष्ठति तां पुनः ॥ भिन्दन्ति पशुपक्ष्याद्या नराणां कोऽन्नं विस्मयः ॥ ४ ॥ चेतकीं यावद्विधृत्य हस्ते तिष्ठति मानवः ॥ तावद्भिन्नन्ति रोगांस्तु प्रभावान्नात्र संशयः ॥ ५ ॥ नृपाणां सुकुमाराणां तथा भे

पजविद्विषाम् ॥ कशानां हितमेवं स्यात्सुखोपायविरेचनम् ॥ ६ ॥ हरी
 तकी दरिद्राणामनपायरसायनम् ॥ पथ्यस्यान्तेऽथवा चादौ अक्षेच्चाभय
 नाशिनीम् ॥ ७ ॥ तृपातुराणां हृदि कण्ठशोभे हनुग्रहे चापिगलग्रहे च ॥ नव
 ज्वरे क्षीणवलेन्द्रियाणां न गर्भिणीनां कथिता प्रशस्ता ॥ ८ ॥
 हरीतकी वा गुडनागरेण सिन्धूत्थयुक्ता कथिता प्रयोगे ॥ आमाशय
 स्था जठरामयश्च जघान चेन्द्रायुधवद्गुणाम् ॥ ९ ॥ सशारदे वा सि
 तथा प्रयुक्ता शुण्ठी गुडेनापि हिमे प्रयोज्या ॥ ससैन्धवपिप्पली शैशि
 रे च हितो वसन्ते त्रिकटुर्गुडेन ॥ १० ॥ ग्रीष्मे सितानागरकैश्च पथ्या
 वर्षासु सिन्धूत्थयुता हिता च ॥ निहन्ति सर्वाभयमेव सद्यो घृतेन पथ्या
 विहिता हरीतकी ॥ ११ ॥ घृतेन देयं मनुजाय कल्कं आयानिलं ह
 न्ति नरस्य कोष्ठे ॥ दुष्टान्विकारान्हरतीति सद्य एरण्डतैलेन विपाच्य
 पथ्यम् ॥ १२ ॥ खादेत्तदेवानुपिवेच्च तैलं सशूलविष्टम्भकतान्विकारा
 न् ॥ सर्वाज्येत्पित्तकफानिलोत्थान्मूत्रे स्थितं सप्तदिनं महिष्याः ॥ १३ ॥
 पञ्चाभया मूत्रपलानि पञ्च क्षीरेण सप्ताहमतिप्रशस्तम् ॥ क्षीरोदशोषी
 परतस्तथान्ये एष त्रिसप्तादपरः प्रयोगः ॥ १४ ॥ वातोदरं शीघ्रमियं निह
 न्याः प्लीहानमानाहमुरोगहश्च ॥ सपाण्डुरोगश्च किर्माश्च हन्ति हरीतकी
 धान्यतुषाम्बुसिद्धा ॥ १५ ॥ सपिप्पलीसैन्धवयुक्तचूर्णं सोद्गारधूपं ऋ
 शमप्यजीर्णम् ॥ निहन्ति सद्यो जनयेत्क्षुधाञ्च कल्कश्च तस्याः सह ना
 गरेण ॥ १६ ॥ ज्वरं जहाति सह सैन्धवेन दध्ना च तक्त्रेण हितातिरा
 रे ॥ सराजयक्ष्मे मधुनावलिद्यान्मूत्रेण शोफोदरनाशहेतोः ॥ १७ ॥ सपाण्डु
 रोगे समशर्करायाः शोभे सदाहे सह मातुलुङ्गया ॥ रसेन युक्ता विहिता
 तिपथ्या कल्कं समानं कथितं मुनीन्द्रैः ॥ १८ ॥ इत्यात्रेयजापिते हारी
 तोत्तरे कल्कस्थाने हरीतकीकल्कवर्णनभेदोनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—अभया दो अंगुल प्रमाणकी होती है पूतना चार अंगुल प्रमाण-
 की होती है जीवंती डेढ अंगुल प्रमाणकी होती है चेतकी छह अंगुल प्रमाणकी होती है

॥ १ ॥ तहां आकारसे और वर्णसे चेतकी हरडै दो प्रकारकी कही है तहां छह अंगुल प्रमाणवाली काली कही है और एक अंगुल प्रमाणवाली सफेद कही है ॥ २ ॥ तहां जुलावकेवास्ते काली चेतकी हरडै श्रेष्ठ कही है ॥ ३ ॥ और जवतक चेतकी हरडैके वृक्षके नीचे स्थित रहै तवतक पशु पक्षीआदिकभी भेदन होते है दस्त लगजाते है मनुष्योंकी तो कौन वात है ॥ ४ ॥ और मनुष्य जवतक चेतकी हरडैको हाथमें रक्खै तवतक उसकै दस्त लगे रहते है और रोगोंका नाश होजाता है ॥ ५ ॥ और राजे तथा सुंदर कोमल शरीरवाले जन अथवा जिन्होंसे औषध नहीं लीजावे ऐसे मनुष्य कृश, ऐसे मनुष्योंके मुखके उपायकेवास्ते यही जुलाव दिवानी कही है ॥ ६ ॥ दरिद्री पुरुषोंको द्रव्य खरचकरे विनाही यह हरडै रसायन रूप औषध कही है पथ्य भोजनके अंतमें अथवा आदिमें भक्षणकीहुई यह हरडै रोगोंको नाशनेवाली कही है ॥ ७ ॥ और तृपासे पीडित पुरुष, हृदा, कंठ, इन्होंमें शोषवाले हनुग्रह तथा मलग्रहरोगवाले नवीनज्वर क्षीणबलईद्विषवाले पुरुष गर्भिणी स्त्री इन्होंको यह हरडै देनी पथ्य नहीं कही है ॥ ८ ॥ और गुड, स्रंठ, संधानमक, इन्होंकेसंग हरडैको देवे तो आमाशयमें स्थित होनेवाले उदररोगोंका ऐसे नाश होता है कि जैसे विजलीसे वृक्षोंका नाश होजाता है ॥ ९ ॥ शरद ऋतुमें मिसरीकेसंग देनी और हिमऋतुमें गुड, स्रंठ, इन्होंकेसंग देनी शिशिरऋतुमें संधानमक, पीपली, इन्होंकेसंग देनी और वसंतऋतुमें स्रंठ, मिरच, पीपली, गुड, इन्होंकेसंग देनी हित है ॥ १० ॥ और ग्रीष्मऋतुमें मिसरी, स्रंठ इन्होंकेसंग देनी पथ्य है और वर्षासमयमें संधानमकके संग देनी हित कही है और घृतके संग हुई यह हरडै सब रोगोंको नाशती है ॥ ११ ॥ और इसका कल्क बना घृतकेसंग देनेसे मनुष्यके कोष्ठकी आमवातका नाश होता है और दुष्ट विकारोंको तात्काल नाशती है और अरंडीके तेलमें पकाके देना पथ्य है ॥ १२ ॥ और त्रिफलाको खाके तिसपे यही तेल पीवे तो शूल मलका बंधाके कियेहुए विकार इन्होंका नाश होता है और पित्त, कफ, वात, इनसे उपजे सब विकारोंके नाशकेवास्ते, महिपीके मूत्रमें सात दिनतक स्थापित कियाहुआ त्रिफलाको खावे ॥ १३ ॥ और पांच हरडै वीस तोले गोमूत्रमें और दूधमें स्थापितकर रक्खै सात दिनतक स्थापित करना श्रेष्ठ कहा है और कईक वैद्य ऐसे है कि सात दिन पीछे दूध और गोमूत्र शूख जावे तवतक स्थापित रक्खै और कईक ऐसे कहते है कि इकीसदिन पीछेतक स्थापित रक्खै ॥ १४ ॥ इस प्रकारसे सिद्धकीहुई यह हरडै वातोदर रोग तिछी अफारा छातीको ग्रहण करनेवाला रोग इन रोगोंको नाशता है और धान्यकी कांजीमें सिद्धकीहुई हरडै पांडुरोग, किमिरोग इन्होंका नाश करती है ॥ १५ ॥ पीपली, संधानमक इन्होंके चूर्णकेसंग दीहुई हरडै अठकारका धूवां अत्यंत अजीर्ण इन्होंका नाश करती है और तत्काल क्षुधाको उत्पन्न करती है और स्रंठके संग इसका कल्क देनेसे ॥ १६ ॥ तथा संधानमकके संगदेनेसे ज्वरको नाशती है और दही

तथा तक्रके संगदेनेसे अतिसारको नाशती है राजयक्ष्मा रोगमें शहदकेसंग चाटै और शोजा उदररोग इन्होंके नाशकेवास्ते गोमूत्रके संग देवै ॥ १७ ॥ पांडुरोगमें बराबरकी खांडकेसंग और दाह, शोप इन्होंमें विजौराके संग देनी हित कही है इस प्रकारसे मुनियोंसे कहाहुआ यह हरडैका कल्क समाप्त होचुका है ॥ १८ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्नु० हारी-
तसंहिताभाषायां पंचमे कल्कस्थाने हरीतकीकल्कवर्णभेदोनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अथ रसोनकल्कः ॥

अमृतमथने जातः सुरासुरग्रहो महान् ॥ जहार वैनतेयश्च चञ्जुना त्रिदि-
वं गतः ॥ १ ॥ संग्रामश्रमसंप्राप्ते श्रमवेगप्रधाविते ॥ आरूढे वैकुण्ठं प्राप्ते
च्युता श्मृतविन्दवः ॥ २ ॥ सकृत्संदूषिते देहे पतितास्तत्र संस्थिताः ॥
तस्मात्कालवशाज्जातं दुर्भिक्षं द्वादशाब्दिकम् ॥ ३ ॥ विशुष्काः कान
ने सर्वा वक्षकण्ठप्रतानिकाः ॥ तस्माच्च ऋषयः सर्वे प्रकृष्टं गहनं
गताः ॥ ४ ॥ तेषां मध्ये जराग्रस्तो गतिहीनोऽतिजर्जरः ॥ सयष्टिः सरणि
क्षुण्णः शीर्णदन्तावलीमुखः ॥ ५ ॥ सव्यक्तस्थैः क्षुधापन्नैर्ऋषिभिस्तत्र
विश्रुतः ॥ सोऽपि क्षुधातुरः सर्वां पथ्यदृष्ट्युर्वरां महीम् ॥ ६ ॥ कुत्रचित्
पुण्ययोगेन दृष्टवान्विष्टपान् शुभान् ॥ नीलशैवालसङ्काशान् शाद्वला
न्वहलान् भुवि ॥ ७ ॥ क्षुधासंधीडनेनापि भुक्तवान् सदलानपि ॥ ८ ॥
षण्मासानन्तरं शुष्कान् विष्टपांस्तदनन्तरम् ॥ भुक्तवान्कन्दकान् सोऽ-
पि मासमेकं तथा ऋषिः ॥ ९ ॥ पश्चात् सुभिक्षे सञ्जाते सर्वे चैकत्र सं-
स्थिताः ॥ सोऽपि वृद्धो युवा भूत्वा गतस्तत्र च यत्र ते ॥ १० ॥ तं
दृष्ट्वा विस्मयापन्नाः पप्रच्छुः किं कृतं त्वया ॥ नोक्तवान् सतु किञ्चिच्च
रूपा तैः शापितस्ततः ॥ ११ ॥ यच्चव्या खादितं द्रव्यं तदभक्ष्यं द्विजा
तिभिः ॥ दुर्गन्धमपि चित्रञ्च तस्माज्जातं रसोनकम् ॥ १२ ॥ अथवी-
र्यश्च वक्ष्यामि रसोनस्य महामते ! ॥ रसैः पञ्चभिः संयुक्तो रसोनस्ते
न वर्जितः ॥ १३ ॥

अमृतमथनेके समय देवताओंका और दैत्योंका महान् युद्ध होता गया तब गरुड अमृतको हरके चूंचमें ग्रहणकर स्वर्गमें जातेभये ॥ १ ॥ फिर युद्धकी हारके श्रमसे और मार्गके खेद होनेसे युक्त होगया तब बैठ गया तहां अमृतकी बिंदु गिरती आई वे बूंद ॥ २ ॥ विष्टासे दूषित हुए किसीके शरीरसे गिरके तहांही स्थित होती आई पीछे कालके वशसे तिस देशमें चारह वर्षतक दुर्भिक्ष काल पडताभया ॥ ३ ॥ तिस वनमें सब धेनुवृक्ष पत्ते शूखते भये तिससे सब ऋषि दूर गह्वरवनमें जाते भये ॥ ४ ॥ तिन ऋषियोंमें बुढापासे असितहुआ गमन करनेमें समर्थ नहीं, जर्जर अंगवाला यष्टिकाको पकडे हुए क्षुधासे युक्तहुआ, दात हिलते हुए ऐसा एक ऋषि था ॥ ५ ॥ सो क्षुधामें युक्त हुए कहीं एकांतमें बेंगालूम हुए ऐसे अन्यऋषियोंसे विछडताभया पीछे वहभी क्षुधासे युक्तहुआ सब पृथ्वीपे विचरताभया ॥ ६ ॥ पीछे पुण्यके योगसे कहींक सुंदर वृक्षोंको देखताभया और नीली सिवालाके समान कांतिवाले बहुतेरे घासोंको पृथ्वीपे देखताभया ॥ ७ ॥ पीछे क्षुधासे पीडित होनेसे तिन वृक्षोंके पत्तोंको खाता भया ॥ ८ ॥ फिर छह महीने पीछे शूखे वृक्षोंको खाताभया पीछे वह ऋषि एक महिनातक कंद अर्थात् वृक्षआदिकी जडोंको खातेभये तहा लस्सन कंदभी खाया, फिर सुभिक्ष संवत् होगया ॥ ९ ॥ तब सब ऋषि सब ऋषि एक जगह इकट्ठे हुए और वह वृद्ध ऋषिभी जहां वेथे उसी जगह जवान होके आया ॥ १० ॥ तब तिसको देख आश्चर्यमें युक्तहो पूछते भये कि तैने क्या किया फिर वह कुछभी नहीं बोला तब उन्होंने क्रोध होके शाप देदिया ॥ ११ ॥ कि जो द्रव्य तैने खाया है वह द्विजाति ब्राह्मणआदि जातियोंको भक्षण करनेको योग्य नहीं है इसवास्ते दुर्गंधवाला और चित्र ऐसा लस्सन होगया ॥ १२ ॥ हे महामते ! अब लस्सनके गुणोंको कहेंगे यह पांच रसोंसे युक्त है और एक रससे वर्जित है इसवास्ते इसको रसोन कहते है ॥ १३ ॥

अथ लस्सनके गुण ॥

कट्टम्लवीर्यो लशुनो हितश्च स्निग्धो गुरुः स्वादुरसोऽथ वल्यः ॥ दृढस्य मेधास्वरवर्णचक्षुर्भ्र्मास्थिसन्धानकरः सुतीक्ष्णः ॥ १४ ॥ हृद्रोगजीर्णज्वरकुक्षिशूलप्रमेहहिक्कारुचिगुल्मशोफान् ॥ दुर्नामकुष्ठानलश्यावजंतुसमीरणं श्वासकफान् निहन्ति ॥ १५ ॥ तेन रसोनकं नाम विरुधातं भुवनत्रये ॥ कुक्कुटाण्डनिभं यीष्मे शीर्णपर्णं समुद्धरेत् ॥ १६ ॥ वद्धापुटे सुनिर्गुप्तं धारयेत्तं महामते ! ॥ वर्षासु शिशिरे चैव कारयेन्मात्रया युतम् ॥ १७ ॥ रामटं जीरके द्वे च अजमोदा कटुत्रयम् ॥ चर्तवावर्च

लोपेतं वातरोगे विशेषतः ॥ १८ ॥ मातलुङ्गरसेनापि शूलानाहे प्रकी
र्त्तितः ॥ दध्ना वातादिशमनो रसनो विहितो बुधैः ॥ १९ ॥ जाङ्गलादि
रसान्येव भोजनार्थं प्रदापयेत् ॥ २० ॥

लस्सन चर्चरा और खटा है, हित है, सिग्ध है, भारा है, स्वादु रसवाला है, बलदायक
है, वृद्ध पुरुषकी बुद्धि, स्वर, वर्ण, नेत्र, भ्रमअस्थि इन्हेंको जोड़नेवाला है सुंदर तीक्ष्ण है
॥ १४ ॥ और हृदयरोग, जीर्णज्वर, कुक्षिशूल, प्रमेह, हिचकी, अरुचि, गुल्म, शोजा, ववासीर,
कुष्ठ वायुसे उपजे हुए क्रिमि वात, श्वास, कफ इन्हेंको नाशता है ॥ १५ ॥ पांच रसों-
वाला होनेसे यह रसन नामसे प्रसिद्ध है यह ग्रीष्मऋतुमें मुरगैके अंडकेसमान होता है
शिथिल २ पत्ते होते हैं ॥ १६ ॥ बुद्धिमान् जन इसको पुटविधिसे बांधके गुप्त धारण
रखे और वर्षाऋतुमें तथा ग्रीष्मऋतुमें इसको मात्रासे युक्त करे ॥ १७ ॥ और हिंग. दोनों
जीरे, अजमोद, स्रुंठ, मिरच, पीपल, घृत, कालानमक इन्हेंसे युक्तकर वातरोगमें देना श्रेष्ठ है
॥ १८ ॥ और विजौराके रसके संग देनेसे शूल, अफारा इन्हेंका नाश होता है और दहीके
संग दियाहुआ लस्सन वातआदि दोषोंको शांत करता है ॥ १९ ॥ और जांगल देशके जी
वोंका रस भोजनमें हित कहा है ॥ २० ॥

अथ पेयरसोनविधिः ॥

निष्पीड्य च रसं तस्य गृहीत्वा मुनिसत्तम ! ॥ दुग्धेन शर्करोपेतं पित्तरो
गे विवेन्नरः ॥ २१ ॥ राजयक्ष्मक्षये पाण्डौ कामलायां हलीमके ॥ शि
रोरुजासु सर्वासु रक्तपित्तभ्रमेषु च ॥ २२ ॥ शोपमूर्च्छापस्मारे च हि
तं चैतद्रसायनम् ॥ २३ ॥

हे उत्तममुनि ! लस्सनके रसको निचोड तिसमें दूध और खांड मिला पीनेसे पित्तरो
शांत होता है ॥ २१ ॥ और राजयक्ष्मा, क्षयीरोग, पांडुरोग, हलीमक, संपूर्ण शिरके रोग
और रक्तपित्तसे उपजे भ्रम ॥ २२ ॥ शोप, मूर्च्छा, मृगीरोग इन्हेंमें हित है और रसायन है ॥ २३ ॥

परिपिब्य रसोनञ्च तत्समा चिद्यता मता ॥ गुडैर्नैरण्डतैलेन शीतं दृच्चा
च लेहकम् ॥ २४ ॥ अवत्येतत्समादृत्य पाययेन्मूत्ररोगिणम् ॥ शोफे गु
ल्मे वाऽऽमवाते हितमेतत्तदार्शसाम् ॥ २५ ॥ हरिणशशकलावातित्तिराणा
ञ्च मांसं कर्करमपि मयूरादिसाराद्यजाद्यम् ॥ घृतमधुररसानां शालिगो
न वर्त्तते ॥ २६ ॥ हितमिति मनुजानां गुग्गुले वा व्रसोने ॥ २६ ॥ व्यायामय्य

नातपमैथुनानि क्रोधाध्वजीर्णान्परिवर्जयेच्च ॥ विवर्जयेद्वापि तथातिसा
रे मेहामये पाण्डुगुदामये च ॥ २ ७ ॥ न गर्भिणीनां न च बालकानां भ्रमातुरे
वा न मदातुरे च ॥ न रक्तपित्ते न च कुष्ठिनेऽपि न रक्तवाते न विसर्पिके
च ॥ २८ ॥ दत्तो रसोनो यदि मूढबुद्ध्या विरेचनं वा वमनं विधेयम् ॥
न वान्यथा कुष्ठमथापि पाण्डुं त्वग्दोषरोपं कुरुते नरस्य ॥ सुयोगयुक्त्या
ऽमृतवन्नराणां वीर्येन्द्रियं पुष्टिवलं तनोति ॥ २९ ॥ इत्यात्रेयभाषिते
हारीतोत्तरे कल्कस्थाने रसोनकल्को नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

लस्सनको पीस तिसके समान निशोत मिला और गुड अरंडीका तेल, दालचिनी इन्हों-
का अवलेह बनादेनेसे ॥ २४ ॥ मूत्ररोगवाले पुरुषोंके सुख होता है और शोजा, गुल्म,
आमवात, ववासीर इन रोगवालोंको हित है ॥ २५ ॥ और हिरन, शूशा, लावा, तोतर, क-
केरा, मोर, सारस, बकरा इत्यादिकोंका मांस, घृत, मधुररस, शालिसंज्ञक चावल, गेहूं इन्होंका
भोजन करना गूगल तथा लस्सन खानेके पीछे हित कहा है ॥ २६ ॥ और कसरत, गमन क-
रना, घामरोचना, मैथुन करना, क्रोध, मार्गका श्रम इन्होंको वर्ज देवे और अतिसार प्रमेह,
पांडुरोग, गुदाके रोग, इन रोगोंमेंभी इन पिछली कहीहुई वस्तुओंको वर्ज देवे ॥ २७ ॥ और
गर्भिणी स्त्री बालक भ्रमातुर पुरुष, मदातुर, रक्तपित्तवाले कुष्ठवाले, रक्तवातवाले, विसर्प रोगवा-
ले इन मनुष्योंको लस्सन नहीं देवे ॥ २८ ॥ और जो यदि मूर्खपनेसे दियाजावे तो जुलाव
दिवाना अथवा वगन कराना चाहिये नहीं तो मनुष्यके शरीरमें कुष्ठ, पांडुरोग, त्वक्दोष इ-
हांको करदेता है और सुंदर योगयुक्तिसे दियाहुआ लस्सन मनुष्योंको अमृतकेसमान है
वीर्य, इंद्रिय, पुष्टि, बल इन्होंको बढ़ाता है ॥ २९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायसूनुवैद्यर-
विदत्तशास्त्रनुवादितहारीतसंहिताभाषायां कल्कस्थाने रसोनकल्कोनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

अथ गुग्गुलुकल्कः ॥

हारीत उवाच ॥ भगवन् ! गुग्गुलो नाम योगवीर्यमथोगुणम् ॥ वक्तुम्
हंसि रोगेषु येषु वापि प्रशस्यते ॥ १ ॥ एवमुक्तरतु शिष्येण प्रत्युवाच
महातपाः ॥ २ ॥

हारीत पूछता है—हे भगवन् ! गुग्गुलनामक औषधके योग वीर्य और गुणको आप कहो जिन २ रोगोंमें श्रेष्ठ कहा है सो सुन ॥ १ ॥ ऐसे शिष्यसे पूछे हुए महान् तपवाले आत्रेय-जी प्रतिवचन कहते हैं ॥ २ ॥

आत्रेय उवाच ॥ मरुभूमौ प्रजायन्ते प्रायशः पुरपादपाः ॥ जानोर्मयू
खैः सततं धीष्मे मुञ्चन्ति गुग्गुलम् ॥ ३ ॥ हिमाद्रितो वा हेमन्ते विधि
वत्तं समाहरेत् ॥ जातरूपनिभं शुभ्रं पद्मरागनिभं क्वचित् ॥ ४ ॥ क्वचि
न्महिषनेत्राभं यक्षदैवतवल्लभम् ॥ विधानं तस्य विधिवन्निबोध गदतो
मम ॥ ५ ॥ त्रिदोषशमनो वृष्यः स्निग्धो वृंहणदीपनः ॥ गुग्गुलः कटुकः
पाके वर्णप्रवलवर्द्धनः ॥ ६ ॥ आयुष्यः श्रीकरः पुत्रस्मृतिमेधाविवर्द्ध
नः ॥ पापप्रशमनः श्रेष्ठः शुक्रार्त्तवकरः स्मृतः ॥ ७ ॥ वर्णगन्धरसोपेतो
गुग्गुलो मात्रया युतः ॥ भेषजैः सह निष्काश्या यथा व्याधिहरैः पृथ
क् ॥ ८ ॥ मात्रावशिष्टं तं दृष्ट्वा चालयेच्छुक्लवाससा ॥ मृन्मये हेमपा
त्रे च राजते स्फाटिकेऽपिवा ॥ ९ ॥ पुण्ये तिथौ शुभे भे च जीर्णाहा
रःक्षमान्वितः ॥ द्रुत्वाग्निं पर्युपासीत देवब्राह्मणभक्तितः ॥ १० ॥ प्रवि
श्य कुसुमाकीर्णं मन्दिरे च समाश्रिते ॥ रास्त्रा गुडूची चैरण्डो दशमूलं
पृसारिणी ॥ ११ ॥ काथं तेषां यथायोग्यं यवान्या वातिके पिबेत् ॥
पृथक्कृतैर्जीविनीयैः पिबेत्पित्तामयार्दितः ॥ १२ ॥ वासाचन्दनहीविरं
मृद्धीका तिक्तरोहिणी ॥ खर्जूरश्च परूपश्च तथा जीवककर्पकौ ॥ सपि
त्तरोगे पानाय काथः स्याद्गुग्गुलान्वितः ॥ १३ ॥ त्रिफलाव्योषगो
मूत्रनिम्बधान्यकपुष्करैः ॥ अमृता दीप्यकः काथः पटोली च कफार्दि
तः ॥ १४ ॥ नाडीदुष्टव्रणग्रन्थिगण्डमालार्बुदान्वितः ॥ त्रिफलाकाथसंयु
क्तं पिबेन्मेही व्रणी तथा ॥ १५ ॥ किरातकामृतानिम्बवृषाव्याघ्रीदुराल
जाः ॥ एषां काथेन संयुक्तं गुग्गुलं पाययेद्भिषक् ॥ १६ ॥ गुल्मे कासे
क्षते श्वासे विद्रधावरुचौ व्रणे ॥ दावीपटोलकाथेन संयुतं गुग्गुलं पिबे
त् ॥ १७ ॥ कण्डूपिटकशोफाद्ये पिबेद्वातकफापहम् ॥ पथ्या पुनर्न
न वा गोमूत्रममृतं तथा ॥ १८ ॥ एषां काथो हितः पाण्डौ शोथो-

दरकिलासिनाम् ॥ भवेन्मात्रां पलं यावत्कर्पादारभ्य यत्नतः ॥ १९ ॥
 जीर्णोऽश्रीयान्मुद्गयूपैरसैर्वा जाङ्गलैस्तथा ॥ पयसा पटिकान्नञ्च शाली
 नामोदनं मृदु ॥ २० ॥ दिनाः सप्त प्रथमा च मध्यमा द्विगुणाः सृताः ॥
 त्रिगुणाः परमा मात्रा विज्ञेया योगचिन्तकेः ॥ २१ ॥ सेवते गुग्गुलं यो
 वै वर्षेणापि नरः क्रमात् ॥ स्थावराज्जङ्गमाच्चैव न स्यादस्य क्षतिर्विवात्
 ॥ २२ निर्मुक्तो बलितत्वचोपि पलितो दृढो युवा जायते मेधादृष्टिब
 लौजवीर्यमधिकं दृढत्वहीनो भवेत् ॥ गुल्माठीलह्वामवातशमनः कु
 ष्ठं प्रमेहाश्मरीं शूलानाह्विसर्परक्तशमनो भूतोपसृष्टे हितः ॥ २३ ॥ इ
 त्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरेकल्कस्थाने गुग्गुलकल्को नाम पञ्चमोऽध्यायः ५

आत्रेयजो कहते हैं—विशेष करिके गूगलके वृक्ष मरुदेशमें होते है सो निरंतर सूर्यकी
 किरणोंसे श्रीष्मक्रतुमें गूगलको त्यागते है ॥ ३ ॥ और हिमाद्रिपर्वतमें गूगलवृक्षोंसे हेमंतक्रतुमें
 गूगल निकसता है कहीक तो चांदीकेसमान सफेद होता है कहीं पद्मरागकेसमान होता है
 ॥ ४ ॥ कहींक भौंसाके नेत्रोंकेसमान वर्णवाला होता है वह यक्षदेवता इन्हेंको प्रिय है सो
 तिसका विधान विधिसे कहतेहुए मुझसे सुन ॥ ५ ॥ यह विदोपको शांत करनेवाला है वी-
 र्यमें हित है स्निग्ध है धातुओंको बढ़ानेवाला है अग्निको दीप्त करनेवाला है और गूगल पा-
 कमें चर्चरा है वर्ण, बल इन्हेंको बढ़ानेवाला है ॥ ६ ॥ आयुमें हित है लक्ष्मी बढ़ानेवाला है
 पुत्र, सृष्टि, मेधा इन्हेंको बढ़ानेवाला है पापको शांत करनेवाला है श्रेष्ठ है वीर्य स्त्रीके आ-
 तैव इन्हेंको करनेवाला है ॥ ७ ॥ और वर्ण, गंध, रस इन्हेंसे संयुक्त गूगलमात्रसे युक्त कियाहु-
 आ और औषधोंकेसंग काथ बनाके दियाहुआ व्याधिके अनुसार दियाहुआ सब व्याधि-
 योंको नाशता है ॥ ८ ॥ मात्राके अनुसार तिस गूगलको देखके सफेद वस्त्रमांहेके छान लेवे
 पीछे मट्टीके पात्रमें अथवा सुवर्णके पात्रमें तथा चांदीके पात्रमें तथा कांचके पात्रमें ॥ ९ ॥
 शुभ तिथिमें और शुभ नक्षत्रमें घाल धरे पीछे भोजन जर जावे तब क्षमासे युक्तहुआ पुरुष
 सुंदर पुष्पोंसे आकीर्णहुआ मंदिरमें जाके देवता ब्राह्मण इन्हेंकी भक्ति और उपासना कर
 ॥ १० ॥ तिस गूगलको स्थापित करदेवे और वातसे उपजे रोगमें खायेहुए गूगलके ऊपर
 रास्ता, गिलोय, अरंड, दशमूल, खीप ॥ ११ ॥ अजगान इन्हेंका काथको यथायोग्य पीवे
 और पित्तरोगसे पीडितहुआ पुरुष पृथक् २ जीवनीयगुणकी औषधोंमें पकायाहुआ का-
 थको पीवे ॥ १२ ॥ और चांसा, चंदन, नेत्रवाला, मुनका, दाख, कुटकी, खिजूर, फाल्गु
 जीवक, ऋषभक इन्हेंका काथ गूगलमे युक्तकर पित्तके रोगोंमें पीना हित है ॥ १३ ॥
 विफला, स्रंठ, मिरच, पीपली, गोमूत्र, नीबू, धनियां पौहकरमूल, गिलोय, अजग

इन्हेंके काथकेसंग गूगल लेना कफके रोगोंमें हित है ॥ १४ ॥ दुष्टनाडीव्रण, ग्रंथिरोग, गंडमाला, अर्बुद प्रमेह, व्रण, इन रोगोंवाला पुरुष त्रिफलाके काथकेसंग पीवै ॥ १५ ॥ और चिरायता गिलोय, नींबू, वांसा, कटेहंली, धमांसा, इन्हेंके काथकेसंग गूगलको पीवै ॥ १६ ॥ तो गुल्म, खांसी, चोट, श्वास, विद्रधि, अरुचि, व्रण, इन्होंका नाशहोता है, और दारुहलदी, परवल इन्हेंके काथकेसंग गूगलको पीवै ॥ १७ ॥ तो खाजी, पिडिका, शोजाआदिक वात, कफ इन्होंका नाश होता है और हरडे, सांठी, दारुहलदी, गोमूत्र, दूध ॥ १८ ॥ इन्हेंके काथके संग गूगल पीनेसे पांडुरोग, शोजा, उदररोग, किलासकुष्ठ इन्होंका नाश होता है और एक तोलासे लेके चार तोला प्रमाणतक गूगलका खाना हित है ॥ १९ ॥ और जब खायाहुआ गूगल जर जावे तब मूंगोंका घृष और जांगलदेशके जीवोंका रसकेसंग भोजन करना हित है और दूधके संग सांठी चावल और शालीसंज्ञक चावलको खावै ॥ २० ॥ सात दिनतक गूगलका सेवन करना प्रथम मात्रा है, और १४ दिनतक मध्यम मात्रा, और इक्कीस दिनतक सेवन करनेको परममात्रा कहते है ऐसे योग युक्तिको जाननेवालोंने कहां है ॥ २१ ॥ और जो पुरुष क्रमसे वर्ष दिनतक गूगलको सेवता है तिसको स्थावर और जंगमविषोंको मात्रा दुःख नहीं देती है ॥ २२ ॥ और जिसकी त्वचामें गुगल ऊठ गिर पडे वाल सफेद होजा ऐसा वृद्ध पुरुषभी इसके खानेसे जवान होजाता है और बुद्धि, दृष्टी, बल, वीर्य इन्होंकी वृद्धि होती है वृद्धपनेके दुःखोंसे दूर होजाता है और गुल्म, अटीला, हृदाका रोग, आमवात इन्होंको शांत करता है कुष्ठ, प्रमेह, पथरी, शूल, अफारा, विसर्प, रक्तदोष, भूतव्याधि इन्होंको शांत करता है ॥ २३ ॥ इति वेरीनिवासिनुधशिवसहायस्त्रुवैधरविदत्त-शास्त्र्यनुवादितहारोतसंहिताभाषायां कल्कस्थाने गुग्गुलकल्कोनाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ।

इति कल्कस्थानं समाप्तम् ॥

अथ शारीरस्थानम् ॥

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अथ शारीराध्यायः ॥

आत्रेय उवाच ॥ पञ्चभूतात्मकं देहं पञ्चेन्द्रियसमायुतम् ॥ सप्तधातुगुणो
पेतं दशवातात्मिकं विदुः ॥ १ ॥ जीवो मनस्तथाकाशस्तथैव त्रिगुणा
त्मिकः ॥ शुक्रशोणितसम्भूतं शरीरं दोषभाजनम् ॥ पञ्चभूतमयं चैतद्वि
ज्ञेयं भिषजां वर ! ॥ २ ॥ चतुर्विधं शरीरं स्याद्बाल्यं प्रौढं प्रगल्भक
म् ॥ स्थविरञ्च तथा प्रोक्तं बाल्यमल्पशरीरकम् ॥ षोडशवार्षिकं याव
द्बाल्यं तावत् प्रवर्त्तते ॥ ३ ॥ धातूनाञ्च बलं तत्र धातुमूलं शरीरक
म् ॥ धातूनां पुष्टियोगेन शरीरञ्चातिवर्द्धते ॥ ४ ॥ जीवितं धातुमूलं तु
मृत्युर्धातुक्षयादपि ॥ हीनधातोश्च योगेन लभते स्वल्पजीवनम् ॥ ५ ॥
नरो धातुबलेनापि जीवितश्चात्र दृश्यते ॥ तस्माच्च मैथुनात्सम्य
ग्जायते गर्भसम्भवः ॥ ६ ॥ आदौ धातुबलं तस्मात्त्वं तस्माद्भ्रजो वि
दुः ॥ रजसा जायते कामः कामात्सुरतसङ्गमः ॥ ७ ॥ मासे मासे ऋतुः
स्त्रीणां दृष्ट्वा ऋतुमतीस्त्रियः ॥ रजः सप्तदिनं यावदृत्तुश्च भिषजां वर !
॥ ८ ॥ सतरात्राद्योनिशुद्धिस्तस्मादृत्तुमती भवेत् ॥ दृश्यते च रजः
स्त्रीणां विना योगेन पुत्रक ! ॥ ९ ॥ दृश्यते न विना योगात्फलं स्त्रीणां
तु पुत्रक ! ॥ संशयाद्विस्मितश्चित्ते हारीतः परिपृच्छति ॥ १० ॥

आत्रेयजी कहते हैं—पांच तत्वोंसे उत्पन्न होनेवाला पांच इंद्रिय और सात धातु तथा
दश वायुवोंसे युक्त ऐसा देहको कहते हैं ॥ १ ॥ और जीव, मन, आकाश ऐसे त्रिगुणात्मक
शरीर है वीर्य और शोणितसे उपजेहुए शरीरको दोषका पात्र कहते हैं हे उत्तमवैद्य ! पांच
तत्वोंसे उत्पन्न होनेवाला शरीर जाना ॥ २ ॥ चार प्रकारका शरीर होता है बालक १, जवान २,
प्रगल्भ ३, वृद्ध ४, ऐसे चार प्रकारका कहां है तहां बालक अल्प शरीर कहा है और जब
तक सोलह वर्षका हो तबतक बालक अवस्था रहती है ॥ ३ ॥ तहां शरीरमें धातुवोंका बल

होता है और धातुवोंकी जडवाला शरीर कहा है और धातुवोंकी पुष्टीके योगसे शरीर अत्यंत बढता है ॥ ४ ॥ जीवना धातुवोंकी जडसे है और धातुक्षय होनेसे मृत्यु होजाती है और हीन धातुके योगसे थोडा जीवना होता है ॥ ५ ॥ मनुष्यका जीवना धातुकेही बलसे दीखता है इसवास्ते मैथुनसे सम्यक् प्रकारसे गर्भ स्थित होता है ॥ ६ ॥ पहले धातुका बल विससे सत्वगुण, सत्वगुणसे रजोगुण, तिस्से काम, कामसे मैथुनका संगम होता है ॥ ७ ॥ महीना २ केप्रति ऋतु अर्थात् स्त्री रजस्वला धर्ममें होती है हे उत्तमवैद्य ! सात दिनतक स्त्रियोंके रज रहता है तबतक ऋतुसमय कहाती है ॥ ८ ॥ और सात रात्री पीछे योनिकी शुद्धि होजाती है तब वह ऋतुमती कहाती है हे पुन ! स्त्रियोंके रज विनाही योगसे होता है ॥ ९ ॥ और फल अर्थात् गर्भस्थितिसंयोगकी विना नहीं होती है ऐसे सुनके संदेहमें युक्त-हो हारीत फिर पूछता भया ॥ १० ॥

हारीत उवाच ॥ संयोगेन विना प्राज्ञ ! कथं गर्भो न जायते ॥ संयोगेन विना पुष्पं फलं वा न कथं भवेत् ॥ ११ ॥ वृक्षवन्न कथं स्त्रीणां फलोत्पत्तिः प्रदृश्यते ॥ एतःपृष्टो महाचार्य्यः प्रोवाच ऋषिपुङ्गवः ॥ १२ ॥

हारीत पूछने लगा—हे महाराज ! संयोगके विना स्त्रियोंके गर्भ क्यों नहीं ठहरता है क्यों-कि संयोगके विना पुष्प तो होगये फिर फलभी क्यों नहीं होता है? ॥ ११ ॥ वृक्षकी तरह स्त्रियोंकेभी गर्भकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ऐसे पूछाहुआ ऋषियोंमें उत्तम महान् आचार्य्य फिर बोळता भया ॥ १२ ॥

आत्रेय उवाच ॥ विरुद्धानाञ्च वल्लीनां स्थावराणाञ्च पुत्रक ! ॥ तत्र धातुसमं बीजं सह योगेन वर्त्तते ॥ १३ ॥ न भिन्नदृष्टिस्तस्येव दृश्यते शृणु पुत्रक ! ॥ स्थावराणाञ्च सर्वेषां शिवशक्तिमयं विदुः ॥ १४ ॥ निश्चलोऽपि शिवो ज्ञेयो व्याप्तिशक्तिर्महामते ! ॥ तत्र स्त्रीपुरुषगुणा वर्त्तन्ते समयोगतः ॥ १५ ॥ आम्नपुष्पं फलं तद्वद्वीजं शुक्रमयं विदुः ॥ स्त्रीणां रजोमयं रेतो बीजाढ्यमिन्द्रियं नरे ॥ तस्मात्संयोगतः पुत्र ! जायते गर्भसम्भवः ॥ १६ ॥ प्रथमेऽहनि रेतश्च संयोगात्कललं च यत् ॥ जायते वृद्धुदाकारं शोणितञ्च दशाहनि ॥ १७ ॥ घनं पञ्चदशाहे स्याद्विंशाशाहे मांसपिण्डकम् ॥ पञ्चविंशतमे प्राप्ते पञ्चभूतात्मसम्भवः ॥ १८ ॥-

मासैकेन च पिण्डस्य पञ्चतत्त्वं प्रजायते ॥ पञ्चाशद्धिने संप्राप्ते अङ्कुराणा
 श्च सम्भवः ॥ १९ ॥ मासत्रये तु संप्राप्ते हस्तपादौ श्वर्धते ॥ सार्द्धमा
 सत्रये प्राप्ते शिरश्च सारवद्भवेत् ॥ २० ॥ चतुर्थके च लोमानां सम्भ
 वश्चात्र दृश्यते ॥ पञ्चमे च सुजीवः स्यात्पष्ठे प्रस्फुरणं भवेत् ॥ २१ ॥
 अष्टमे मासि जाते च अग्नियोगः प्रवर्त्तते ॥ मासे तु नवमे प्राप्ते जाय
 ते तस्य चेष्टितम् ॥ २२ ॥ जायते तस्य वैराग्यं गर्भवासस्य कारणात् ॥
 दशमे च प्रसूयेत तथैकादशमेऽपिवा ॥ २३ ॥ अथ दोषबलेनापि गर्भा
 वापि प्रसूयते ॥ वातसंप्रेरिते गर्भे अपूर्णे दिवसैर्यदि ॥ २४ ॥ प्रसूयते
 वाप्यथ तद्गर्भे बालः प्रदृश्यते ॥ अथ वक्ष्यामि देहस्य वर्णज्ञानं महा
 मते ! ॥ २५ ॥ नररेतोऽधिकत्वेन तथा शुक्राधिकेन तु ॥ हीनरसेन्द्रियै
 र्वापि जायते पुरुषाधिकः ॥ २६ ॥ स्त्रीरेतसोधिकत्वेन हीनशुक्लेन्द्रिया
 दपि ॥ रजसोप्यधिकत्वेन स्त्रीसम्भूतिः प्रजायते ॥ २७ ॥ सप्तधातुबलेना
 पि प्रकृत्या विकृतेः समे ॥ ऋतुव्याप्तरजःस्त्रीणां या या भवति भावना
 ॥ २८ ॥ सात्विकी राजसी वापि तामसी वापि सत्तम ! ॥ तादृशं जन
 येद्बालं गुणैर्वा तादृशैरपि ॥ २९ ॥ या च भावयते चिन्ते भ्रातरं पि
 तरं नरम् ॥ येन वा तेन सदृशं सूयते सा भिषग्वर ! ॥ ३० ॥ वातेन श्या
 मः पुरुषो वातप्रकृतिसम्भवः ॥ पित्तेन गौरो भवति पित्तप्रकृतिवान्भवेत्
 ॥ ३१ ॥ श्लेष्मणा जायते स्निग्धः श्यामश्च लोमशस्तथा ॥ दीर्घशिरो
 रुहः स्थूलो दीर्घप्रकृतिसंयुतः ॥ ३२ ॥ वातरक्तेन कृष्णोऽपि पित्तरक्ते
 न पिङ्गलः ॥ पित्तवांश्च नरो रूक्षः स्निग्धः श्यामः कफासृजा ॥ ३३ ॥
 शृङ्गराजाज्जनाकारं वातेन दृष्टिमण्डलम् ॥ सूक्ष्मलोमा च कृष्णश्च रू
 क्षमूर्द्धज्यान्वितः ॥ यस्य वातेन तं विद्धि नरवसूक्ष्मासितच्छविम् ॥ ३४ ॥
 पित्तेन पीतश्च भवेदलोमा पिङ्गक्षणाभासपिशाङ्गकेशः ॥ आलोमशः
 पीतनखप्रभः स्यात्क्षुधातुरो निरूप्मणा स दृप्तः ॥ ३५ ॥ स लोमशो दृ
 प्तकठोरकेशः श्यामच्छविर्दृप्ततनुर्विशालः ॥ सुस्निग्धदन्तः सितनेत्ररम्यो
 नरवच्छविःपाण्डुसुदीर्घनासः ॥ ३६ ॥

आत्रेयजी कहते हैं—हे पुत्र ! विरुद्ध जो स्थावर वृक्ष वेल आदिक है तिन्होंको तो धातुके संग वीज योगसहित प्रवृत्त होता है ॥ १३ ॥ हे पुत्र ! तिन्होंके भिन्न दृष्टी नहीं है सो सुन संपूर्ण स्थावर वृक्ष आदिकोंके शिव और शक्तिको जान ॥ १४ ॥ तहां निश्चल तो शिव है और शक्ति व्याप्तही रही है तहां स्त्रीपुरुषके गुणसंगही प्रवृत्त होते है ॥ १५ ॥ इसवास्ते आंवके पुष्प और फल संगमें ही प्रवृत्त होता है, और वीजको वीर्यकी जगह जान और स्त्रियोंके रजही वीर्य है, और पुरुषके वीर्य वीजरूप है हे पुत्र ! इसवास्ते संयोगसेही गर्भकी उत्पत्ति होती है ॥ १६ ॥ और पहले दिन वीर्यके संयोगसे बुलबुलके आकार वीर्य स्थित होता है दशदिनमें रुधिर होजाता है ॥ १७ ॥ पंद्रहदिनमें करडा होजाता है और बीसमें दिनमें मांसकी पिंडी होती है २५ दिनमें पांच तत्वोंका संभव होता है ॥ १८ ॥ एक महीना तिसके पांचों तत्व प्रकट होजाते हैं पंचाशदिनमें अंकुरोंकी उत्पत्ति होजाती है ॥ १९ ॥ तीन महीनें होजावे तब हाथ पैर बढें लगजाते है साढेतीन महीनोंमें शिर प्रकट होजाता है ॥ २० ॥ चौथा महीनामें रोम होते है और पांचवां महीनामें जीव प्रकट होजाता है छठा महीनामें फुरनें लगजाता है ॥ २१ ॥ पीछे आठमें महीनेंमें तिसके जठराशिका योग होजाता है नवमा महीनामें तिसको चेष्टा होती है ॥ २२ ॥ पीछे तिसको गर्भवासके कारणसे वैराग्य होता है अर्थात् संसारसे दूर होनेका ज्ञान होता है फिर दशवे महीनेंमें उत्पन्न होता है ॥ २३ ॥ और वातआदिक दोषोंके बलसे गर्भ जनता है जो दशवां महीनातक दिन पूरे नहीं हुएहो ॥ २४ ॥ तो वह वातदोषसे प्रेरितहुआ गर्भ पहलेभी उत्पन्न होजाता है हे महामते ! अब देहके वर्ण ज्ञानको कहते है ॥ २५ ॥ मनुष्यका वीर्य शुक्र अधिक होवे तो पुरुष जन्मै ॥ २६ ॥ और स्त्रीका वीर्य रज अधिक होवे और शुक्र हीन होवे तो कन्या जन्मै ॥ २७ ॥ और सात धातुवोंके बलसे प्रकृती और विरुद्धि जब समान होजावे और रजस्वला होनेके स्त्रीके ऋतुसमयमें स्त्रियोंकी जैसी २ भावना हो ॥ २८ ॥ सत्वगुणी अथवा रजोगुणी तथा तामसी जैसी प्रकृतिहो तैसेही गुणोंसे युक्त तैसेही बालकको स्त्री जनती है ॥ २९ ॥ और जो स्त्री तिस समयमें चित्तमें भ्राता अथवा पिता अथवा अन्यपुरुष जिसका स्मरण करती है हे उत्तमवैद्य ! तिसीके सदृश पुत्रको जनती है ॥ ३० ॥ और वात दोषसे श्यामवर्णवाला पुरुष होता है और वातकी प्रकृतिवाला होता है पित्तसे गौर वर्णवाला और पित्तकी प्रकृतिवाला होता है ॥ ३१ ॥ कफसे चिकना और श्यामवर्णवाला तथै रोगोंवाला होता है और बडे बालहों, स्थूलहो दीर्घ प्रकृतिसे युक्त होता है ॥ ३२ ॥ वात रक्तसे काला वर्णवाला और पित्तरक्तसे पिंगल वर्णवाला होता है और पित्तवाला मनुष्य रूपा होता है और कफरक्तसे स्निग्ध और कालेवर्णवाला होता है ॥ ३३ ॥ और वात दोषसे भौरा तथा अंजनके आकारवाले दृष्टिमंडल होते है और जिसके सूक्ष्म रोमहों कले

और रों बालहों और जिसके सूक्ष्म २ लाल नखहो उसकी वातकी प्रकृति जाननी ॥३४॥
पित्तसे पीले रोम होते है और पीले नेत्र तथा वांदरसरीखे केश होते है और रोम नख
ये पीले होते है और क्षुधासे युक्त रहता है मुखसे भांफनिकसती रहती है और बहुवसे
रोम होते है गर्बिले ॥ ३५ ॥ तथा कठोर बाल होते है श्याम कांति हो और गर्बिला तथा
सुंदर शरीर होता है चिकनें दांतहो सुंदर रगणीक सफेद नेत्र रहते है नख पीले रहते है
और दीर्घ नासिका होती है ॥ ३६ ॥

अथ नपुंसक तथा अपत्ययुग्मका विचारा॥

समवीर्यरजस्त्वेन नरः स्त्रीप्रकृतिर्भवेत् ॥ नपुंसकमिति ख्यातं न स्त्री
न पुरुषो वदेत् ॥ ३७ ॥ दोषधातुविशेषेण सङ्गे सत्यङ्गसंभवः ॥ कृत
भ्रान्ते च संभोगे द्वाभ्याश्च द्रवते मनः ॥ ३८ ॥ दृश्यते यमलोत्पत्तिर
न्यच्चित्तप्रियङ्करी ॥ ३९ ॥

और मैथुन करनेके समय पुरुषका वीर्य और स्त्रीका रज जो समान होवे तो नपुंसक
जन्मता है वह न तो पुरुष नहीं स्त्री होता है ॥३७ ॥ और दोष धातु इन्होंका विशेष करिके
रांग होनेसे जो अंगका संभव होता है और भ्रांत चित्त होके जो भोग करते है तहां दोष औ-
र धातु दोनुवोंसे मन द्रवता है ॥ ३८ ॥ तहां यमल अर्थात् जोहिले बालक उत्पन्न होते है वे
अन्योंके चित्तको प्रसन्न करनेवाले है ॥ ३९ ॥

अथ नपुंसकका विचार ॥

समदोषवलेनापि प्रकृत्या विकृतेरपि ॥ शुक्रासृक्च भवेच्छ्रयामा नपुंसक
समुद्भवा ॥ ४० ॥ अथ वीजलेहिपञ्चभूताग्निना परिपक्वं कललं कियते ॥
सोऽपि चान्तःस्थो वायुर्वृद्धुदाकारो वासवातेन संभृतो भवति ॥ स च
कललं भूत्वा पञ्चभूताग्निना पिण्डं जनयति ॥ तच्च पिण्डं परिपाकं गतं
घनसंघातश्च जातं व्यानवातेन पञ्चतत्त्वानि हस्तपादादीञ्छिन्नोऽवयवा
न्संजनयति ॥ अन्तःस्थो वायुरेकोऽपि नानास्थानं समाश्रित्य देहाकारं
करोति ॥ उदानो गलहृदयसंस्थितो देहमुखद्वारं प्रकाशयति ॥ अपान
वायुरधःस्थोऽपानद्वारं विशोधयति ॥ एते चान्तःस्थाः पृथक्पृथक् मार्गै
च्छिद्रं कृत्वा निर्गच्छन्ति ॥ तान्ये च नपद्वाराणि मुखघ्राणकर्णनेत्रापान
मेहनानि चैतानि द्वाराणि वातेन प्रभवन्ति ॥ तत्रान्तःस्थो वायुः प्र

तानत्वेन हस्तपादाद्यानवद्यवान्संजनयति ॥ ४१ ॥ त्वङ्मांसकेशरोमा
स्थिभूभागं जनयेत्तथा ॥ रसं रक्तञ्च लालाञ्च मूत्रं शुक्रं जलानि च
॥ ४२ ॥ अग्निं पित्तञ्चनेत्रञ्च तमः क्रोधादिपञ्चकम् ॥ श्रुतिः स्पर्शस्त
थोच्छ्वासः स्वेदञ्चक्रमणादि च ॥ ४३ ॥ वाता ह्येते परिज्ञेया अन्या
प्रकृतिरेव च ॥ मनो बुद्धिस्तथा निद्रा आलस्यं मद एव च ॥ ४४ ॥
शून्यात्पञ्च प्रजायन्ते देहे देहे व्यवस्थिताः ॥ वातरक्तेन त्वग्देहे मांस त्व
गाश्रितं मतम् ॥ ४५ ॥ शुक्रश्लेष्मोद्भवो मेदो रसोऽस्थिरक्तसंभवः ॥
पित्ताश्रितं हृदयस्थं वातरक्तमयं यकृत् ॥ ४६ ॥ रक्तश्लेष्मरसाश्रित
उरुः कफरक्तश्लेष्ममयः ॥ म्लीहा कफरक्तमय्यः पेश्यश्च ॥ ४७ ॥ प
ञ्चभूतमयं देहमाकाशं शून्यमेव च ॥ शून्याद्वायुः समुत्पन्नो वायोः
प्राणः प्रजायते ॥ प्राणांशश्च तथा जातः सर्वसत्त्वे प्रतिष्ठितः ॥ ४८ ॥

और दोष धातु इन्हेंके समान होनेसे तथा प्रकृति और विकृतिकेसमान होनेसे वीर्य
और रजसे संयुक्त स्त्री जन्मती है अर्थात् हीजडी होती है ॥ ४० ॥ और मैथुन समयमें
योनिमें प्राप्तहुए वीर्यको पांच तत्वोंकी अग्नि पकाके कलल कर देती है पीछे उदरमें स्थितहु-
आ वह कलल बाहिरकी वायुसे तुलतुलेके आकार होजाता है फिर वह कललहेके पांच
तत्वोंकी अग्निसे पिंड होजाता है पीछे पकाहुआ वह पिंड करडा इकट्ठा होजावे तब उदान-
वायु पांच तत्व हाथ पैरआदिक-शिरआदि अंग इन्हेंको उत्पन्न कर देता है और अंतर
हृदयमें स्थितहुआ एकही वायु अनेक स्थानोंके आश्रय होके तिस पिंडको देहके आकार
कर देता है उदानवायु तो गल हृदा इन्हेंमें स्थित होके देहमें मुखके द्वारको प्रकाशित कर देता
है और अपानवायु नीचाको स्थितहो गुदाके द्वारको शोथ देता है ये सब भीतर रहनेवाले
वायु पृथक् पृथक् मार्गमें छिद्रकरके निकसते हैं वे ही नव द्वारोंको करते हैं मुख, नासिका,
कर्ण, नेत्र, गुदा, टिंग ऐसे ये ९ द्वार वायुसे होते हैं तहां भीतर रहनेवाला वायु विस्तृतहो-
के हाथ पैरआदिक अंगोंको उत्पन्न कर देता है ॥ ४१ ॥ और त्वचा, मांस केश, रोम, अ-
स्थि ये पृथ्वी तत्वसे उत्पन्न होते हैं रस, रक्त, राल, मूत्र, वीर्य ये जलतत्वसे उत्पन्न होते हैं
॥ ४२ ॥ और पित्त, नेत्र, अंधरा, क्रोध, मोहआदिक पांच ये अग्निसे होते हैं कान, स्पर्श
ऊंचा श्वास, पर्दाना, चहलकदमी आदि करना ॥ ४३ ॥ ये वातसे उत्पन्न होते हैं और मन,
बुद्धि, निद्रा, आलस्य, मद ॥ ४४ ॥ ये पांच आकाश तत्वसे होते हैं ऐसे सब शरीरोंमें व्य-
वस्था है और वातरक्ते शरीरमें त्वचा होती है ॥ ४५ ॥ और मांस त्वचाके आश्रय कहाहै

और चीर्य तथा कफसे भेद उत्पन्न होता है और अस्थि रक्त इन्होंसे रस होता है और हृदयमें पित्तका आश्रय है और वातरक्तसे युक्त यकृत स्थान है ॥ ४६ ॥ और रक्त, कफ, रस इन्होंके आश्रय जांघ है और कफरक्त इन्होंके आश्रय तिहरीस्थान है और कफरक्तके आश्रय मांसकी पेशी है ॥ ४७ ॥ यह पंच तत्वोंका शरीर है तहां आकाश शून्य है शून्यसे वायु उत्पन्न होता है वायुसे प्राण होते हैं फिर प्राणोंके अंशसे संपूर्ण जीवोंमें होनेवाला सत्वगुण होता है ॥ ४८ ॥

आकाशाज्जलमुत्पन्नं जलाज्जाता वसुन्धरा ॥ तस्यास्तेजस्तथा जातं ते
जसो जायते तमः ॥ ४९ ॥ पञ्चभूतात्मके देहे पञ्चेन्द्रियसमायुते ॥ भू-
तानाञ्च प्रधानो य आकाशमिति शब्दितः ॥ ५० ॥ आकाशात्तेजस्ते
जसो दर्पो दर्पात्पराक्रमस्तस्माद्दहङ्कारस्ततः कोपः कोषान्तमस्तमसः पा-
पमिति ॥ आकाशात्सत्त्वं सत्त्वात्सत्यं सत्यात्तपस्तपसो नयो नयाद्विवे-
को विवेकाच्छान्तिः शान्त्या धर्म इति ॥ सत्याद्भ्रजो रजसः कामः
कामाद्भ्रौतयं लौल्यादसत्यमसत्यात्पापमिति ॥ रसात्कामः कामादभिला-
षोऽभिलाषात्प्रजा प्रजाया भैत्री भैत्र्याः स्नेहः स्नेहान्मोहो मोहान्माया
ततो भ्रान्तिर्भ्रान्त्या मिथ्या ततोऽविद्या अविद्यायाः पुण्यपापानि पुण्य-
पापेभ्यः सम्भव इति ॥ ५१ ॥ सत्त्वाच्च तम एव स्याज्जायते स्वपते प्र-
भुः ॥ तमसा प्रवृत्तो देही व्योमेन शून्यतां गतः ॥ ५२ ॥ देहं विश्रमते
यस्मात्तस्मान्निद्रा प्रकीर्त्तिता ॥ नासाद्धौ च भ्रुवोर्मध्ये लीयते चान्तरा-
त्मना ॥ ५३ ॥ तस्माच्चेतो भवेत्तत्र निद्रा व्यालीयते नृणाम् ॥ ५४ ॥
सत्त्वात्तेजः समाख्यातं तेजसा पित्तमेव च ॥ जायते वायुर्मनसः स्वपते
तमसावृतः ॥ ५५ ॥ वायोस्तमःसमायोगात्स्वभावस्थेति गीयते ॥ सत्त्वं त-
मस्तथा वायुर्वर्त्तते चैकयोगतः ॥ ५६ ॥ आहरनिद्रा च क्षुधा च तृष्णा
भयञ्च मात्सर्घ्यमदश्च मोहः ॥ क्रोधाभिलाषः सुखतृप्तिशान्तिर्भवन्ति वै-
देहभृतां शृणु त्वम् ॥ ५७ ॥ आहारस्येच्छया देहे विचरते द्रुताशनः ॥
तृप्तिं वापि समाप्नोति रसस्वादरजस्य च ॥ ५८ ॥ यदा यदा शोषयते
मलानामग्निस्तदा तृप्तिमिवातनोति ॥ यदा च यस्यैव भेदे-
०-२

व तृष्णां प्रतनोति चेतः ॥ ५९ ॥ इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे शारीर
स्थाने शारीराध्यायो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ इति शारीरस्थानं समाप्तम् ॥

और आकाशसे जलत्व होता है तिससे पृथ्वी होती है तिससे अश्रितत्व होता है अग्नि से तमोगुण होता है ॥ ४९ ॥ और पंचभूतात्मक तथा पांच इंद्रियोंसे युक्त ऐसे शरीरमें जो तत्वोंमें प्रधान है वह आकाश कहाता है ॥ ५० ॥ आकाशसे अग्नि होता है अग्निसे अभिमान होता है तिससे पराक्रम होता है तिससे अहंकार अहंकारसे क्रोध होता है तिससे तमोगुण और तमोगुणसे पाप होता है और आकाशसे सत्वगुण तिससे सत्य सत्यसे तप नीति नीतिसे विवेक विवेकसे शांति शांतिसे धर्म होता है और सत्यसे रजोगुण होता है रजोगुणसे कामना कामनासे चंचलपना होता है चंचलपनेसे असत्य और असत्यसे पाप होता है और रससे कामना कामसे अभिलाषा अभिलाषासे प्रजा अर्थात् संतान और प्रजा से मित्रभाव होता है तिससे स्नेह स्नेहसे माया होती है तिससे भ्रांति भ्रांतिसे मिथ्या तिससे अविद्या और अविद्यासे पुण्य तथा पाप दोनों होते हैं फिर पुण्यपापोंसे जन्म होता है ॥ ५१ ॥ सत्वगुणसे तमोगुण होता है वह जाग्रत अवस्था तथा स्वप्न अवस्थामें बलवंत है और तमोगुणसे प्रवृत्त हुआ जीव आकाशके संग शून्यभावको प्राप्त होता है ॥ ५२ ॥ तब देहको विश्रामदेता है तिसको निद्रा कहते हैं नासिकाका अर्द्धभाग और भ्रुकुटि मध्य तहां अंतरात्मके संगलीन होता है ॥ ५३ ॥ तहां चित्त रहता है तिससे मनुष्योंकी निद्रा दूर होती है ॥ ५४ ॥ और सत्वगुणसे तेज तेजसे पिच होता है और मनसे वायु उत्पन्न होता है और तमोगुणसे युक्त हुआ जीव सोवता है ॥ ५५ ॥ और तमोगुणके योगसे जो वायु होता है वह स्वप्नअवस्था कहाती है और सत्वगुण तमोगुण, वायु ये तीनों स्वप्नअवस्थामें एक योगसे वर्तते हैं ॥ ५६ ॥ और आहार, निद्रा, क्षुधा, तृप्ता, भय, मत्सरपना, मद, मोह, क्रोध, अभिलाष, सुखकी तृप्ती, शांति ये सब देहधारियोंके होते हैं ऐसे तू सुन ॥ ५७ ॥ और देहमें विचरता हुआ अग्नि भोजनकी इच्छा कर देता है ॥ ५८ ॥ और जटराग्नि जब २ मलोंको शोषती है तब तिसकी तृप्ति रहती है और जब तिसकी तृप्ति नहीं होती है तब वह तृप्ताको उपजा देती है ॥ ५९ ॥ इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायस्त्रनुवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहिताभाषायां शारीरस्थाने पष्ठेशरीराध्यायोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

Govt. Ayurvedic College

Jaipur


अथ परिशिष्टाध्यायः ॥

इति प्रोक्तः शरीरार्थस्तद्व्यासेनोपदिश्यते ॥ श्रुत्वा चैनं महातेजा हा
रीतो मुनिसत्तमः ॥ १ ॥ प्रणिपत्य गुरुश्रेष्ठं हृष्टान्तःकरणस्ततः ॥ जगा
म स्वर्णदीतीरं स्नानध्यानरतस्तथा ॥ २ ॥ य एतत् पठति शास्त्रं महर्षेर्व
चनाच्छ्रुतम् ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तो नीरुजः सुखमश्नुते ॥ ३ ॥ आदौ यद्
ब्रह्मणा प्रोक्तमग्निना तदनन्तरम् ॥ धन्वन्तरिणा प्रोक्तञ्च अश्विना च म
हात्मना ॥ ४ ॥ एवं वेदसमं ज्ञेयं नावज्ञाकारणं मतम् ॥ अन्यैश्च बहु
धा प्रोक्तं नानाशास्त्रविशारदैः ॥ ५ ॥ अमीषां च मतं ग्राह्यं तस्मात् स
र्वं समं विदुः ॥ चरकः शुश्रुतश्चैव वाग्भटश्च तथापरः ॥ ६ ॥ मुख्याश्च
संहिता वाच्यास्तिस्र एव युगे युगे ॥ ७ ॥ अत्रिः कृतयुगे वैद्यो द्वापरे
शुश्रुतो मतः ॥ कलौ वाग्भटनामा च गरिमात्र प्रदृश्यते ॥ ८ ॥ वैष्णवी
चाश्विनी गार्गी तत्र माध्याह्निकापरा ॥ मार्कण्डेया च कथिता योगरा
जेन धीमता ॥ ९ ॥ संहिता ऋषिभिः प्रोक्ता मन्त्रैर्नानाविधैर्विभो ! ॥ १० ॥
अग्निवेशश्च भेडश्च जातूकर्ण्यः पराशरः ॥ हारीतः क्षारपाणिश्च षडेते
ऋषयस्तु ते ॥ ११ ॥ यथा सिंहो मृगेन्द्राणां यथान्तो भुजङ्गमे ॥ दे
वानाञ्च यथा शम्भुस्तथात्रेयोऽस्ति वैद्यके ॥ १२ ॥ तस्माद्यत्नेन सदै
वैः सादरार्द्रसुमानसैः ॥ अर्चनीयोऽनुमन्तव्यो दास्यति सुखसम्पदः ॥ १३ ॥
इत्यात्रेयभाषिते हारीतोत्तरे परिशिष्टाध्यायः ॥ १ ॥ इति हारीतसंहिता
समाप्ता ॥

इस प्रकारसे आत्रेयजीनें शरीरकी चिकित्सा विस्तारसे कह दी तब महान् तेजवाला उत्तम
हारीत मुनि सुनके ॥ १ ॥ तिस श्रेष्ठ गुरुको प्रमाणकर अंतःकरणमें प्रसन्नहो देवताओंकी
नदीके तीरे जा तहां स्नान ध्यानमें रत होता भया ॥ २ ॥ महर्षिके वचनोंसे कहाहुआ इस
शास्त्रको जो सुनता है वह सब पापोंसे छुटके सुखको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ पहले यह
शास्त्र ब्रह्मजीनें कहा है पीछे अग्निमुनिनें फिर धन्वन्तरिनें कहा है और अश्विनीकुमारोंने
कहा है ॥ ४ ॥ ऐसे वेदमें युक्तहुआ यह शास्त्र चला आता है निन्दित करनेके योग
1. है और अनेक शास्त्रोंको जाननेवाले अन्य बहुतसे ऋषियोंने अनेकप्रकारसे २

और इन आगे कहे हुए ऋषियोंका मत है इसवास्ते सबको माननेलायक है चरक, सुश्रुत वाग्भट इत्यादिक ॥ ६ ॥ मुख्य ऋषियोंसे यह संहिता युगमें कहीं हुई है ॥ ७ ॥ अत्रिमुनि सतयुगमें वैद्य होते ज्ञेय द्वापरमें सुश्रुत होने ज्ञेय और कलियुगमें वाग्भटनामवाला महान वैद्य दीखता है ॥ ८ ॥ और वैष्णवी, आश्विनी, गार्गी, माध्याह्निका, मार्कंडेया, ये संहिता योगराजने कही है ॥ ९ ॥ और आयुर्वेद संहिता ऋषियोंने अनेक प्रकारके मंत्र और औषधोक्त युक्त कर दी है ॥ १० ॥ और अश्विनेश, भेड, जातुकण्ठ, पराशर, हारीत, क्षारपाणि, ये छह ऋषि कहे हैं ॥ ११ ॥ और जैसे ऋषिोंमें सिंह है और सप्तोंमें शेषनाग है देवताओंमें शिवजी है तैसेही वैद्योंमें आत्रेयमुनि उत्तम है ॥ १२ ॥ इसवास्ते यतनसे उनमें वैद्योंने आदरसे सुंदर मनसे अत्रिमुनि पूजन करनेको योग्य है और माननेको योग्य है सुख संपत्ति इन्हींको देवेगा ॥ १३ ॥ इति वरीनिवात्सिद्युधशिवसहायपुत्रवैद्यरविदत्तशास्त्र्यनुवादितहारीतसंहितायां परिशिष्टाध्यायः ॥ १ ॥

*Govt- Ayurvedic College,
Jaipur.*



वैद्यकग्रंथाः ।

अत संहिता भाषाटीकासहित...	३-०	०-८
गिहृदय (वाग्भट) भाषाटीका अत्युत्तम वैद्यकग्रंथ सम्पूर्ण छपके तैयार है	१	०-०	१-०			
निघंटुस्तनाकर प्रथमभाग	३-०	०-६
निघंटुस्तनार द्वितीयभाग	३-०	०-६
निघंटुस्तनाकर तृतीयभाग	३-८	०-८
निघंटुस्तनाकर चतुर्थभाग	२-८	०-५
राजसुन्दर भाषाटीकासह मथुराका छापा पद्यापध्यभाषाटीका	०-१२	०-१॥
अथर निदानसह भाषाटीका पं० दत्तराम चौबे मथुरानिवासीका बनाया	३-०					०-६
युतसार कोशसहित हिंदी भाषामें नवीन छपके तैयार है	२-४	०-८
चिकित्साखण्ड भाषाटीका प्रथमभाग	४-०	०-१०
चिकित्साक्रमकल्पवल्ली संस्कृत काशिनाथकृत	२-८	०-८
अध्वनिदान उत्तम भाषाटीका	२-८	०-८
अथरहस्यभाषाटीकासह	२-८	०-५
अथर्वचंद्रोदयभाषाटीका (व्यंजनवनानेका ग्रंथ)	२-०	०-४
गिगतंगिणी बहुतही उत्तम	२-०	०-४
वीरसिंहावलोकन ज्योतिषशास्त्रादिकर्मविपाक चिकित्सा नवीन						
टाईपमें अति उत्तम	१-१२	०-४
चिंतामणि भाषाटीका	१-४	०-४
अथराज वैद्यजीवन संस्कृतटीका और भाषाटीका	१-०	०-४
अथदीर्घा नाडी देखनेमें अत्यंत उत्कृष्ट	०-६	०-१
अथानदर्पण भाषाटीका सहित	०-१०	०-१
अथबोधपाकावली	०-२	०-॥
अथमुद्राराख्यसटीक	०-३	०-॥
अथज्ञान भाषाटीका	०-२॥	०-॥
अथभैषज्यमंजरीभाषाटीकासह	०-३	०-॥
अथगंजरो टिप्पणीसह	०-८	०-१
अथगघातुसार भाषा	०-६	०-१
अथद्वयप्रकाश लघु	०-२	०-॥
अथमहोदधि भाषा वैद्यक यूनानी हिकमत और यूनानीदवा						
अथनकीरोंकी जडी बूटी और सन्तोंकी पुस्तककी संग्रह है	०-१२	०-२

ज्योतिषग्रंथाः ॥

२९	बृहज्जातकभाषाटीका अत्युत्तम	१-८
३०	वर्षदीपकपञ्चमीमार्ग वर्षजन्मपत्र वनानेका	०-४
३१	मुहूर्तचिंतामणि प्रमिताक्षरा रफु रु. १ ग्लेज़	१-८
३२	मुहूर्तचिंतामणि पीयूषधारा टीका	३-०
३३	ताजिकनीलकण्ठीसटीकतंत्रयात्मक	१-४
३४	ज्योतिषसार भाषाटीकासहित	१-०
३५	मुहूर्तचिंतामणिभाषाटीका	१-०
३६	चालत्रोधज्योतिष	०-२
३७	चमत्कारचिंतामणि भाषाटीका	०-३
३८	जातकालंकारभाषाटीका	०-६
३९	जातकालंकारसटीक	०-६
४०	जातकाभरण	०-१२
४१	लघुपाराशरीसटीक	०-३
४२	मुहूर्तमार्तंड	०-१२
४३	शीघ्रबोधभाषाटीका	०-६
४४	पट्टपंचाशिकासटीक	०-३
४५	पट्टपंचाशिका भाषाटीका	०-४
४६	भुवनदीपक सटीक	०-४
४७	जैमिनिस्त्रसटीक चार अध्यायका	०-७
४८	रमलनवरत्न	०-८
४९	सर्वार्थचिंतामणि	०-१२
५०	लघुजातकसटीक	०-६
५१	सामुद्रिकभाषाटीका	०-४
५२	यवनजातक	०-२
५३	पंचांगतिथिपत्र संवत् १९५० का	०-१॥
५४	अर्घप्रकाश ज्योतिष भाषाटीका इस्में तेजी मंती वस्तु देखनेका विचार है	०-४

और भी अनेक पुस्तकें हमारे यहां विक्रयार्थ तैयार हैं. आध आनेका टिकट बड़ा सूचीपत्र भेज दिया जायगा.

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदास.

“श्रीवेङ्कटेश्वर” छापखाना मुंबई.

